

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

श्रीमच्छंकराचार्यकृत  
उपनिषद्-भाष्य खण्ड २



गीताप्रेस, गोरखपुर

मूल्य २।।३) दो रुपया म्यारह आना

ॐ

# माण्डूक्योपनिषद्

गौडपादीय कारिका, शाङ्करभाष्य

तथा

हिन्दी-अनुवादसहित



गीताप्रेस, गोरखपुर

मुद्रक तथा प्रकाशक  
 विनयामदान जालान  
 गीताप्रेम, गोरखपुर

म०	१०९२	पृ०	२००१	पृ०	११,९५०
म०	१०९०	पृ०	१०००	पृ०	२०,०००
४	१०९१	पृ०	१०००	पृ०	५,०००
					<u>कुल ३६,९५०</u>

मूल्य १) एक रुपया

पता—गीताप्रेम, पो० गीताप्रेम ( गोरखपुर )



## भूमिका

माण्डूक्योपनिषद् अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इसमें कुल बारह मन्त्र हैं। कलेवरकी दृष्टिसे पहली दस उपनिषदोंमें यह सबसे छोटी है। किन्तु इसका महत्त्व किसीसे कम नहीं है। भगवान् गौडपादाचार्यने इसपर कारिकाएँ लिखकर इसका महत्त्व और भी बढ़ा दिया है। कारिका और शाङ्करभाष्यके सहित यह उपनिषद् अद्वैतसिद्धान्तसिद्धांतोंके लिये परम आदरणीया हो गयी है। गौडपादीय कारिकाओंको अद्वैतसिद्धान्तका प्रथम निबन्ध कहा जा सकता है। उसी ग्रन्थरत्नके आधारपर भगवान् शाङ्कराचार्यने अद्वैत-मन्दिरकी स्थापना की थी। यों तो अद्वैतसिद्धान्त अनादि है किन्तु उसे जो साम्प्रदायिक मतवादका रूप प्राप्त हुआ है उसका प्रधान श्रेय आचार्यप्रवर भगवान् शाङ्करको है और उसका मूल ग्रन्थ गौडपादीय कारिका है।

कारिकाकार भगवान् गौडपादाचार्यके जीवन तथा जीवन-कालके विषयमें विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता। बंगलामें 'वेदान्तदर्शनेर इतिहास' के लेखक स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्दजी सरस्वतीने उन्हें गौडदेशीय ( बंगाली ) बतलाया है। इस विषयमें वहाँ नैष्कर्म्य सिद्धिकार भगवान् सुरेश्वराचार्यका यह श्लोक प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है—

एवं गौडैर्द्राविडैर्नः पूज्यैरर्थः प्रमापितः ।

अज्ञानमात्रोपाधिः सन्नहमादिदृशीश्वरः ॥\*

( ४ । ४४ )

\* इस प्रकार जो साक्षात् भगवान् ही अज्ञानोपाधिक होकर अहङ्कारादिका माधी ( जीव ) हुआ है उस परमार्थ-तत्त्वका हमारे पूजनीय गौडदेशीय और द्रविडदेशीय आचार्योंने वर्णन किया है। [ यहाँ गौडदेशीय आचार्य श्रीगौडपादाचार्यको कहा है और द्रविडदेशीय श्रीशाङ्कराचार्यजीको । ]

श्रीगौडपादाचार्य भी संन्यासी ही थे। उनके शिष्य श्री-  
गोविन्दपादाचार्य थे और गोविन्दपादाचार्यके शिष्य भगवान्  
शाङ्कराचार्य थे। शाङ्करसम्प्रदायमें जो आचार्यवन्दनात्मक मंगलाचरण  
प्रसिद्ध है उसमें आरम्भसे लेकर श्रीपद्मपादाचार्य आदि भगवान्  
शाङ्करके शिष्यपर्यन्त इस सम्प्रदायके आचार्योंकी शिष्य-परम्परा  
इस प्रकार बतलाई है—

नागपत्नी पद्मभव वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपदाशरं च ।  
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् ॥  
श्रीशाङ्कराचार्यमथान्यं पद्मपादश्च हस्तामठकं च शिष्यम् ।  
नं श्रोतुं वार्तिरान्तरमन्यानमद्गुरुस्त्वतनमानतोऽस्मि ॥\*

इससे विदित होता है कि श्रीगौडपादाचार्य भगवान् शुकदेव-  
जीके शिष्य थे।

भगवान् गौडपादाचार्यके ग्रन्थोंमें उनकी कारिकाएँ जगत्प्रसिद्ध  
हैं। उनका एक ग्रन्थ श्रीउत्तरगीताका भाष्य भी है, जो वाणीविलास  
प्रेस श्रीरंगमुत्से प्रकाशित हुआ है। उस भाष्यसे उनका महान् योगी  
होना सिद्ध होता है। इनके सिवा उनका रचा हुआ एक नाट्य-  
कारिकाओंका भाष्य भी प्रसिद्ध है। परन्तु यह उनका रचा है या  
नहीं—इस विषयमें विद्वानोंका मतभेद है। अस्तु, हमें तो इस समय  
उनकी कारिकाओंपर ही कुछ विचार करना है।

कारिकाओंकी रचना बड़ी ही उदात्त और मर्मस्पर्शिणी है।  
उनकी गणना संसारके सर्वोत्कृष्ट साहित्यमें हो सकती है। यह तो  
ऊपर कहा ही जा चुका है कि ये अद्वैतसिद्धान्तकी आधारशिला  
हैं। जिस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीताके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि  
'गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः' शास्त्रविस्तरैः' उसी प्रकार अद्वैत-  
बोधके लिये यह हृदयपूर्वक कहा जा सकता है कि एकमात्र इस  
ग्रन्थरत्नाका सावधानतापूर्वक किया हुआ अनुशीलन ही पर्याप्त हो  
सकता है। इसमें साधन, सिद्धान्त, परमतनिराकरण और स्वमत-

● शाङ्करसम्प्रदायमें शास्त्राध्ययनसे पूर्व आचार्य और शिष्यगण इन  
मंगलाचरणोंका उच्चारण किया करते हैं।

संस्थापन-सभीका शास्त्रसम्मत सगुक्तिक वर्णन किया गया है। यह एक ही ग्रन्थ मुमुक्षुओंको परमपदकी प्राप्ति करा सकता है।

इस ग्रन्थमें चार प्रकरण हैं। उनमें क्रमशः २९, ३८, ४८ और १०० इस प्रकार कुल २१५ कारिकाएँ हैं। पहला आगम प्रकरण है। इसमें सम्पूर्ण माण्डूक्योपनिषद् और उसकी व्याख्याभूत कारिकाओंके सिवा जगदुत्पत्तिके अनेकों प्रयोजनोंका वर्णन करके उनका खण्डन किया गया है। कोई भगवान्की इच्छामात्रको सृष्टिमें हेतु मानते हैं, कोई कालसे भूतोंकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई भोगके लिये सृष्टि स्वीकार करते हैं और कोई क्रीडाके लिये जगत्की उत्पत्ति मानते हैं। इन सब पक्षोंको अस्वीकार करते हुए भगवान् कारिकाकार कहते हैं—'देवस्यैष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा' (१।९) अर्थात् पूर्णकाम भगवान्को सृष्टिका कोई प्रयोजन नहीं है; यह तो उनका स्वभाव ही है। अतः यह जो कुछ प्रपञ्च है विना हुआ ही भास रहा है। परमार्थदर्शियोंका इसके प्रति आदर नहीं होता।

माण्डूक्योपनिषद्में ओंकारकी तीन मात्रा अ उ म् के द्वारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरके अभिमानी विश्व, तैजस और प्राज्ञका वर्णन करते हुए उनका समष्टि-अभिमानी वैश्वानर, हिरण्यगर्भ एवं ईश्वरके साथ अभेद किया गया है। इनकी अभिव्यक्तिकी अवस्थाएँ क्रमशः जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति हैं तथा इनके भोग स्थूल, सूक्ष्म और आनन्द हैं। जाग्रदवस्थामें जीव दक्षिण नेत्रमें रहता है। स्वप्नावस्थामें कण्ठमें और सुषुप्तिके समय हृदयमें रहता है। इसीका नाम प्रपञ्च है। परमार्थतत्त्व इस सबसे विलक्षण, इसमें अनुगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी है। उसे ओंकारके चतुर्थ-पाद अमात्र तुरीयात्मरूपसे वर्णन किया गया है। कोई भी भ्रम विना अधिष्ठानके नहीं हो सकता; अतः इस प्रपञ्चभ्रमका भी कोई अधिष्ठान होना चाहिये। वह अधिष्ठान तुरीय ही है। तुरीय नित्य, शुद्ध, ज्ञानस्वरूप, सर्वात्मा और सर्वसाक्षी है। वह प्रकाशस्वरूप है, उसमें अन्यथाग्रहणरूप स्वप्न और तत्त्वाग्रहणरूप सुषुप्तिका सर्वथा अभाव है। जिस समय अनादिमायासे सोया हुआ जीव जगता है। उसी समय उसे इस अजन्मा तथा स्वप्न और निद्रासे रहित अद्वैत-

तत्त्वका बोध होता है । इसी बातको भाचार्यप्रवर गौडपाद इस प्रकार कहते हैं—

अनादिमायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते ।  
अजमनिद्रमन्वप्रमद्वैत बुध्यते तदा ॥

( १ । १६ )

इस प्रकार आगमप्रकरणमें वस्तुका निर्देश कर जीव और ब्रह्मकी एकता तथा प्रपञ्चका मायामयत्व प्रतिपादन करते हुए वैतथ्य-प्रकरणमें [उसीको युक्ति और उपपत्तिपूर्वक पुष्ट किया है । वहाँ सबसे पहले स्वप्नदृश्यका मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है, क्योंकि स्वप्नकी उपलब्धि देहके भीतर किसी नाडीविशेषमें होती है, जिसमें स्थानाभावके कारण पर्वत और हाथी आदिका होना सर्वथा असम्भव है । स्वप्नावस्थामें जीव देहसे बाहर जाकर स्वप्न पदार्थोंको देखा हो—यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक क्षणमें ही सैकड़ों योजन दूरके पदार्थ दिखायी देने लगते हैं और उस अवस्थामें जिन व्यक्तियोंसे वह मिलता है, जाग जानेपर वे ऐसा नहीं कहते कि हमने तुम्हें देखा था । इसी प्रकार तरह-तरहकी युक्तियोंमें स्वप्नका मिथ्यात्व सिद्ध कर उससे दृश्यत्वमें समानता होनेके कारण जाग्रन्कालीन दृश्यका भी मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है । वहाँ यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार स्वप्नावस्थामें चित्तमें कल्पना किये हुए पदार्थ असत्य और बाहर देखे जानेवाले पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं किन्तु वस्तुतः वे दोनों ही असत्य हैं । उसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी मानसिक और इन्द्रियग्राह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थ असत्य हैं । इस प्रकार जाग्रत् और स्वप्न दोनों ही अवस्थाओंका मिथ्यात्व सिद्ध होनेपर यह प्रश्न होता है कि इन चित्तपरिकल्पित और बाह्य दृश्योंको देखता कौन है ? इसके उत्तरमें कारिकाकार कहते हैं—

कल्पयन्मात्मतान्मानमान्ना देव त्वमायया ।  
स ण्य बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चय ॥

( २ । १० )

इस प्रकार भगवान् गौडपादाचार्यके मतमें प्रपञ्चकी प्रतीति मायाके ही कारण है । मायाकी महिमासे ही आत्मदेव अव्यक्त

वासनारूपसे स्थित भेदसमूहको व्यक्त करता है । यह माया न सत् है, न असत् है और न सदसत् है; न भिन्न है, न अभिन्न है और न मित्राभिन्न है; यह न सावयव है, न निरवयव है और न उभयरूप है । वस्तुतः स्वरूपविस्मृति ही माया है; अतः स्वरूपज्ञानसे ही उसकी निवृत्ति होती है । जिस प्रकार मन्द अन्धकारमें रज्जुतत्त्वका निश्चय न होनेपर उसमें सर्प, धारा, भूच्छिद्र आदि अनेक प्रकारके विकल्प हो जाते हैं किन्तु रज्जुका ज्ञान होनेपर एकमात्र रज्जु ही रह जाती है उसी प्रकार मायामोहित जीवको ही भेदप्रपञ्चकी भ्रान्ति हो रही है; मायाका पर्दा हटते ही एकमात्र अखण्ड, अद्वैत वस्तु ही अवशिष्ट रह जाती है ।

इसके आगे आचार्यने प्राणात्मवाद, भूतात्मवाद, गुणात्मवाद, तत्त्वात्मवाद, पादात्मवाद, विषयात्मवाद, लोकात्मवाद, देवात्मवाद, वेदात्मवाद और यज्ञात्मवाद आदि अनेकों मतवादोंका उल्लेख किया है । वहाँ वे कहते हैं कि लोकमें गुरु जिसको जिस भावकी शिक्षा दे देते हैं वह तन्मय भावसे उसी भावका आग्रह करने लगता है और अन्तमें उसे उसी भावकी प्राप्ति हो जाती है; किन्तु जो इन विभिन्न भावोंसे लक्षित इनके अधिष्ठानभूत अद्वितीय आत्मतत्त्वको जानता है वह निःशङ्क होकर वेदार्थकी कल्पना कर सकता है, अर्थात् इन सब भावोंकी संगति लगा सकता है । वस्तुतः तो जैसे स्वप्न, माया और गन्धर्वनगर होते हैं वैसा ही विज्ञान इस प्रपञ्चको देखते हैं तो फिर परमार्थ क्या है ? इसका उत्तर आचार्यने इस कारिकासे दिया है ।

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न वदो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥

( २ । ३२ )

तात्पर्य यह कि एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोड़कर उत्पत्ति, प्रलय, वद्ध, साधक, मुमुक्षु और मुक्त कितनी भी प्रकारका व्यवहार नहीं है । यह तत्त्व अत्यन्त दुर्दर्श है, क्योंकि निरन्तर व्यवहारमें ही रहनेवाले व्यावहारिक जीवकी दृष्टि इस व्यवहारातीत वस्तुतक पहुँचनी बहुत ही कठिन है । जिन वेदके पारगामी मुनि-

जनोंके राग, भय और क्रोधादि विकार सर्वथा निवृत्त हो गये हैं  
 उन्हेंको इस प्रपञ्चातीत अद्वय पदका बोध होता है। इसका बोध  
 हो जानेपर यह महात्मा सर्वथा निर्द्वन्द्व और निर्भय हो जाता है  
 तथा स्तुति, नमस्कार और स्वधाकारादि व्यवहारकोटिसे ऊँचा  
 उठकर वह देह और आत्मामें ही विश्राम करनेवाला एवं यहच्छालाभ-  
 सन्तुष्ट हो जाता है। फिर बाहर-भीतर इसी तत्त्वको ओतप्रोत देख  
 यह तत्त्वमय हो जानेसे उसीमें गमन करता हुआ कभी तत्त्वच्युत  
 नहीं होता।

इस प्रकार वैतथ्यप्रकरणमें युक्तिपूर्वक द्वैताभावका प्रतिपादन  
 कर फिर आगमप्रकरणमें शास्त्रप्रमाणसे सिद्ध हुए अद्वैततत्त्वको  
 युक्तिद्वारा सिद्ध करनेके लिये अद्वैतप्रकरणका आरम्भ किया  
 गया है। यहाँ आरम्भमें ही यह बतलाया गया है कि 'मेरा उपास्य  
 अन्य है और मैं अन्य हूँ' इस प्रकारका उपासनाश्रित धर्म ज्ञानब्रह्म  
 ( कार्यब्रह्म ) में है, किन्तु उत्पत्तिमें पूर्व यह सारा जगत् अजन्मा  
 ब्रह्म ही है। अतः कार्यब्रह्मपरायण होनेके कारण यह उपासक  
 रूपण ही है। केनोपनिषद्में भी कई पर्यायोंमें मन, घाणी और  
 प्राणादिके साग्रीको ही ब्रह्म बतलाकर 'नेदं यद्रिदमुपासते' इस  
 वाक्यमें उपास्यका अग्रहृत्य प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार  
 कार्यभ्यक्ता निर्देश कर 'अजातिसमता गतम्' अर्थात् समभावमें  
 स्थित अजाति—अजन्मा वस्तु ही अकार्पण्य है—ऐसा कहा है।  
 इसके पश्चात् घटाकाशदिके दृष्टान्तसे औपाधिक भेदका उल्लेख  
 करते हुए आकाशस्थानीय आत्मतत्त्वकी अनुत्पत्ति और असंगताका  
 प्रतिपादन किया है। यहाँ यह बतलाया है कि जिस प्रकार एक  
 घटाकाशके धूम और धूलि आदिसे व्याप्त होनेपर अन्य समस्त  
 घटाकाश उससे विवृत नहीं होते उसी प्रकार एक जीवके सुख-  
 दुःखसे समस्त जीव सुखी या दुःखी नहीं होते, और पस्तुतः तो  
 धूलि आदि आकाशका संसर्ग ही नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा-  
 का भी सुख-दुःखादिसे कभी सम्पर्क नहीं होता। जीवके मरण,  
 उत्पत्ति, गमन, आगमन और स्थिति आदिसं भी आत्मामें कोई  
 विलक्षणता नहीं होती, क्योंकि सारे संपात स्वप्नके समान आत्माकी

मायासे ही कल्पित हैं । अतः आत्मा एक, अखण्ड, अजन्मा और निर्लेप है, इसीसे 'एकमेवाद्वितीयम्', 'इदं सर्वं यदयमात्मा' तथा 'द्वितीयाद्वै भयं भवति', 'उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति' आदि श्रुतियोंसे अभेददृष्टिकी प्रशंसा और भेददृष्टिकी निन्दा की गयी है । छान्दोग्योपनिषद्में मृत्तिका-घट, अग्नि-विस्फुलिङ्ग और लोह-नखनिकृन्तनादि दृष्टान्तोंसे जो सृष्टिका वर्णन किया गया है वह जिज्ञासुकी बुद्धिमें प्रपञ्चका ब्रह्मके साथ अभेद विटानेके लिये है; वस्तुतः प्रपञ्चभेद सिद्ध करनेके लिये नहीं है । अतः सिद्धान्त यही है कि जो कुछ भेद है वह व्यवहारदृष्टिसे है, परमार्थतः उसकी गन्ध भी नहीं है । यदि चास्तविक भेद माना जाय तो परमार्थतत्त्व उत्पत्तिशील सिद्ध होगा और इस प्रकार परिणामी होनेके कारण वह नित्य नहीं हो सकता । इसके सिवा यदि विचार किया जाय तो न तो सद्बस्तुका जन्म हो सकता है और न असत्का ही, क्योंकि जो है ही उसका जन्म क्या होगा और जो शशशृङ्गके समान असत् है उसकी भी कैसे उत्पत्ति हो सकती है । अतः यह सारा द्वैत मनोदृश्यमात्र है । मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही द्वैतकी तनिक भी उपलब्धि नहीं होती ।

इस प्रकार आत्मसत्यका बोध होनेपर जिस समय चित्त संकल्प नहीं करता उसी समय मन अमनस्ताको प्राप्त हो जाता है । उसका यह अग्रह निरोधजनित नहीं होता बल्कि ग्राह्य वस्तुका अभाव होनेके कारण होता है । इसीको ब्रह्माकारवृत्ति या वृत्ति-व्याप्ति भी कहते हैं । उस अवस्थाका कारिकाकारने तैत्तिरीयसे लेकर अद्वैतीसर्वा कारिकातक बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है । यही बोध-स्थिति है, इसीके लिये जिज्ञासुका सारा प्रयत्न होता है और इसी स्थितिको प्राप्त होनेपर मनुष्य कृतकृत्य होता है । कारिकाकारने इसे 'अस्पर्शयोग' कहा है । इस अभयस्थितिसे अन्य योगिजन भय मानते हैं; क्योंकि यहाँ अहंकारका अत्यन्तभाव होनेके कारण उन्हें आत्मनाश दिखायी देता है । यह योग केवल उत्तम अधिकारियोंके लिये है, जिनका इसमें प्रवेश नहीं है उनकी अभयस्थिति, दुःखञ्जय, बोध और अक्षयशान्ति मनोनिग्रहके अर्धीन हैं । वह मनोनिग्रह

भी बड़े धीर-वीरका काम है । उसके लिये अत्यन्त उत्साह, अनवरत अध्यवसाय और परम धैर्यकी आवश्यकता है । उसमें नाना प्रकारके विघ्न आते हैं । भगवान् कारिकाकारने बयालीसमें लेकर पैंतालीसवाँ कारिकातक उन विघ्नोंकी निवृत्तिके उपाय बतलाये हैं । उनके अनुसार साधन करते-करते जय चित्त निरुद्ध हो जाता है तो बोधका उदय होता है । उस स्थितिका वर्णन आचार्यने श्लोक ४६ और ४७ में किया है । इस प्रकार ब्रह्मतत्त्व और उसकी उपलब्धिके साधनोंका विवेचन कर उन्होंने निम्नलिखित श्लोकसे इस प्रकरणका उपसंहार करते हुए अपना सिद्धान्त स्थापित किया है—

न कश्चिज्जायत जीव मन्भरोऽस्य न विद्यते ।  
 ण्ततदुत्तम मन्य यत्र किञ्चिन्न जायते ॥

( ३ । ४८ । )

इसके पश्चात् अलातशान्ति नामक चौथे प्रकरणमें आचार्यने अन्य मनावलम्बियोंके पारस्परिक मतभेद दिखलाते हुए उन्हींकी युक्तियोंसे उनका घण्डन किया है । 'अलात' शब्दका अर्थ उल्का या मसाल है । मसालको घुमानेपर अग्निकी तरह-तरहकी आकृतियाँ दिखायी देती हैं और उमका घुमाना बंद करते ही उनका दिखाया देना बंद हो जाता है । यदि विचार किया जाय तो घस्तुत, वे मसालमें न तो निकलती हैं, न उसमें लीन होती हैं और न कहीं अन्यत्रमें ही उनका आना जाना होता है । उनकी प्रतीति केवल मसालके स्पन्दनका ही फल है, घस्तुत, उनकी सत्ता नहीं है । इसी प्रकार यह दृश्य-प्रपञ्च केवल मनके स्पन्दनके कारण प्रतीत होता है और मनके अग्रणीभावको प्राप्त होते ही न जाने कहीं चला जाता है । किन्तु ये प्रपञ्चकी प्रतीति और अप्रतीति दोनों ही भ्रान्तिजनित हैं, परमार्थदृष्टिमें न उसकी उत्पत्ति होती है और न लय । इस भ्रान्तिका आधार परब्रह्म है, क्योंकि कोई भी भ्रान्ति निराधार नहीं हो सकती । अतः रज्जुमें सर्प अथवा शुकुलमें रजतके समान परब्रह्ममें ही इस प्रपञ्चभ्रमकी प्रतीति हो रही है । यही इस प्रकरणका संक्षिप्त तात्पर्य है । इस प्रकरणमें आचार्यने सद्वाद्, असद्वाद्, बीजाङ्कुरसन्ततिवाद्, विमानवाद् एवं शून्यवाद् वादि सभी विपक्षी मतों-



का खण्डन करके अज्ञातवादकी स्थापना की है। वे एक ही कारिकामें सारे पक्षोंकी अनुपपत्ति दिखलाते हुए कहते हैं—

स्वतो वा परतो वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते ।

सदसत्सदमद्रापि न किञ्चिद्वस्तु जायते ॥

( ४ । २९ )

अर्थात् कोई भी वस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सकती है और न किसी अन्यसे ही। जो घट अभीतक तैयार नहीं हुआ उससे वही घट कैसे उत्पन्न होगा ? तथा तैयार हुए घटसे भी कोई अन्य घट अथवा पट कैसे उत्पन्न होगा ? यही नहीं, सत्-असत् अथवा सदसत्-रूपमें भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति क्या होगी और जिसका अत्यन्ताभाव है उसकी भी कहाँसे उत्पत्ति होगी ? तथा जो है और नहीं भी है ऐसी तो कोई वस्तु ही होना सम्भव नहीं है अतः किसी भी प्रकार किसी वस्तुकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। इसी प्रकार, कुछ आगे चलकर वे सब प्रकारके कार्य-कारणभावकी अनुपपत्ति दिखलानेके लिये कहते हैं—

नास्त्यसद्वेतुकमसत्सद्वेतुकं तथा ।

सच्च सद्वेतुकं नास्ति मद्वेतुकमसत्कुतः ॥

( ४ । ४० )

अर्थात् न तो आकाशकुसुमादि असत् कारणवाला कोई आकाशकुसुमादिरूप असत् पदार्थ हो सकता है और न ऐसे असत्कारणसे कोई सद्वस्तु ही उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार घटादि सत्पदार्थ भी किसी अन्य सत्पदार्थके कारण नहीं हो सकते; फिर उनसे कोई असत्पदार्थ उत्पन्न होगा—ऐसी तो सम्भावना ही कहाँ है ?

इस प्रकार अनेकों युक्तियोंसे जिसे जन्मके निमित्तभूत वृत्तका अत्यन्ताभाव अनुभव हो गया है और जिसने कार्य-कारणभावशून्य परमार्थतत्त्वको जान लिया है वही सब प्रकारके शोक और संकल्पसे मुक्त होकर अभयपद प्राप्त करता है। उसकी स्थितिका वर्णन करने हुए आचार्य कहते हैं—

निवृत्तम्याप्रवृत्तस्य निश्चल्य हि तदा स्थिति ।

प्रिय स हि बुद्धाना तत्साम्यमजमद्वयम् ॥

( ४१८० )

अजमनिद्रमन्वपन प्रभात भयति स्वयम् ।

सकृद्विभातो होवैप वर्मो धातुस्त्रभायत ॥

( ४१८१ )

इस प्रकार उस निरालम्ब स्थितिका वर्णन कर भगवान् गौड-पादाचार्य कहते हैं कि जिस-जिस धर्मका आग्रह हो जानेसे वह सर्वविशेषशून्य परमार्थतत्त्व अनायास ही आच्छादित हो जाता है और फिर वह पर्दा यड़ी कठिनतासे हटता है । इसीसे यह भगवान् अत्यन्त दुर्दर्श है । इसे आच्छादित करनेवाली कौन-कौन-सी कोटियाँ हैं—उनका दिग्दर्शन करानेके लिये वे कहते हैं—

अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वापुन ।

चलस्थिरोमयाभावैरावृणोत्येव वालिग ॥

( ४१८२ )

अर्थात् कोई कहते हैं भगवान् 'है,' कोई कहते हैं 'नहीं है,' किन्हींका मत है 'है और नहीं भी है' और कोई कहते हैं 'नहीं है, नहीं है' इनमें अस्ति-भाव चल है, क्योंकि वह घटादि अनित्य पदार्थोंसे विलक्षण है, नास्तिभाव स्थिर है, कारण उसमें कोई विशेषता नहीं है, अस्ति-नास्तिभाव ( सदसद्वाद ) उभयरूप है और नास्ति-नास्तिभाव अभायरूप है । भगवान् इन सभी भावोंसे विलक्षण हैं, क्योंकि ये सभी व्यवहारकोटिके अन्तर्गत हैं । उस सर्वभावातीत भगवान्को जो जानता है वही सर्वज्ञ है—सर्वज्ञ इसलिये, कि वह सारे प्रपञ्चके अधिष्ठानको जानता है और जो अधिष्ठानको जानता है उसे अध्येस्तवर्गकी असलियतका ज्ञान है ही । जिसे ऐसा ज्ञान है उस अद्वयवाक्यपदमें स्थित हुए महात्माके लिये फिर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहना । उसका दम दम आदि सात्त्विक व्यवहार भी लोकासंग्रहके लिये केवल लीलामात्र होता है । वस्तुतः उनकी गहनगतिका अयगाहन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है । उन्हींकी अलौकिक स्थितिको लक्ष्यमें रखकर भगवान्ने थीमद्भगवद्गीतामें कहा है—

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।  
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

( २ । ६९ )

जो संसार संसारी पुरुषोंकी दृष्टिमें ध्रुवसत्य है उसका वे अत्यन्ताभाव देखते हैं और जिस अखण्ड चिद्ब्रह्मसत्तामें उनकी अविचल स्थिति रहती है उसतक बहिर्दर्शी अविवेकियोंकी दृष्टि नहीं पहुँच सकती । इसीसे उनकी दृष्टिमें दिन-रातका अन्तर बतलाया गया है ।

इस प्रकार समस्त वादियोंकी कुदृष्टियोंका खण्डन कर आचार्य-ने एक अद्भुत अखण्ड तत्त्वको स्थापित किया है, और अन्तमें उसीकी वन्दना करते हुए ग्रन्थका उपसंहार किया है । वहाँ वे कहते हैं-

दुर्दर्शमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम् ।

बुद्ध्या पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम् ॥

( ४ । १०० )

इन कारिकाओंके द्वारा भगवान् गौडपादाचार्यने अज्ञातवादकी स्थापना की है । इस सिद्धान्तको ग्रहण करनेके लिये बहुत ऊँच अधिकारकी आवश्यकता है । जो सब प्रकार साधनसम्पन्न हैं वे उच्चाधिकारी ही इसे ठीक-ठीक हृदयङ्गम कर सकते हैं । जिनके चित्त कुछ भी विषयप्रवण हैं वे इससे अधिक लाभ न उठा सकेंगे— इतना ही नहीं, अपि तु उन्हें हानि होनेकी भी सम्भावना है, यह तत्त्व अत्यन्त दुर्बोध है—पेसा तो स्वयं आचार्यचरणने ही कह दिया है—‘दुर्दर्शमतिगम्भीरम्’ । किन्तु जिस महाभाग महापुरुषकी दृष्टि इस परमतत्त्वतक पहुँच जाती है उसके लिये फिर कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता । वह स्वयं जीवन्मुक्त हो जाता है और दूसरे अधिकारी पुरुषोंको भी भवबन्धनसे मुक्त कर देता है । वह महामुनि सबका वन्दनीय है, सबका गुरु है और सभीका परम सुहृद् है । भगवान् हमें ऐसे महापुरुषोंके चरणकमलोंका आश्रय देकर हमारे संसारतापसन्तप्त अन्तःकरणोंको शान्ति प्रदान करें ।

— अनुवादक

श्रीहरि

## विषय-सूची

विषय		पृष्ठ
१. शान्तिपाठ	..	१९
<b>आगम-प्रकरण</b>		
२. भाष्यकारका मङ्गलान्तरण	.	२०
३. मन्त्रन्वयभाष्य	.	२१
४. ॐ श्री मय कुञ्ज है	..	२४
५. ओंकारवाच्य ब्रह्मकी सर्वात्मकता	.	२५
६. आत्माका प्रथम पाद—वैश्वानर	.	२७
७. आत्माका द्वितीय पाद—तैजस	.	३१
८. आत्माका तृतीय पाद—प्राण	..	३३
९. प्राणका सर्वकारणत्व	.	३५
१०. एक ही आत्माके तीन भेद	..	३६
११. विश्वादिके विभिन्न स्थान	..	३७
१२. विश्वादिका त्रिविध भोग	...	४३
१३. त्रिविध भोक्ता और भोग्यके ज्ञानका फल	..	४४
१४. प्राण ही सबकी सृष्टि करता है	.	४५
१५. सृष्टिके विषयमें भिन्न भिन्न विचल	...	४७
१६. चतुर्य पादका त्रिरगण	...	४९
१७. तुरीयका स्वरूप		५२
१८. तुरीयका प्रभाव	..	५९
१९. विश्व और तैजससे तुरीयका भेद	.	६०
२०. प्राणसे तुरीयका भेद	.	६१
२१. तुरीयका स्वप्न निद्राशून्यत्व	..	६३
२२. बोध क्या होता है ?	..	६५
२३. प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव	..	६६
२४. गुरु शिष्यादि विकल्प व्यावहारिक है	..	६७
२५. आत्मा और उसके पादोंके साथ ओंकार और उमकी मात्राओंका तादात्म्य	...	६८

विषय			पृष्ठ
२६.	अकार और विश्वका तादात्म्य	...	६९
२७.	उकार और तैजसका तादात्म्य	...	७०
२८.	मकार और प्राणका तादात्म्य	...	७२
२९.	मात्राओंकी विश्वादिरूपता	...	७३
३०.	ओंकारोपासकका प्रभाव	...	७५
३१.	ओंकारकी व्यन्तोपासनाके फल	...	७५
३२.	अमात्र और आत्माका तादात्म्य	...	७६
३३.	समस्त और व्यस्त ओंकारोपासना	...	७८
३४.	ओंकारार्थज्ञ ही मुनि है	...	८१

### वैतथ्यप्रकरण

३५.	स्वप्नदृष्ट पदार्थोंका मिथ्यात्व	...	८२
३६.	जाग्रद्दृश्य पदार्थोंके मिथ्यात्वमें हेतु	...	८५
३७.	स्वप्नमें मनःकल्पित और इन्द्रियग्राह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं	...	९१
३८.	जाग्रत्में भी दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं	...	९२
३९.	इन मिथ्या पदार्थोंकी कल्पना करनेवाला कौन है ?	...	९२
४०.	इनकी कल्पना करनेवाला और इनका साक्षी आत्मा ही है	...	९३
४१.	पदार्थकल्पनाकी विधि	...	९४
४२.	आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं	...	९४
४३.	आन्तरिक और बाह्य पदार्थोंका भेद केवल इन्द्रियजनित है	...	९६
४४.	पदार्थकल्पनाकी मूल जीवकल्पना है	...	९७
४५.	जीवकल्पनाका हेतु अज्ञान है	...	९८
४६.	अज्ञाननिवृत्ति ही आत्मज्ञान है	...	९९
४७.	विकल्पकी मूल भाषा है	...	१००
४८.	मूलतत्त्वसम्बन्धी विभिन्न मतवाद	...	१०१
४९.	आत्मा सर्वाधिष्ठान है ऐसा जाननेवाला ही परमार्थदर्शी है	...	१०५
५०.	द्वैतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य है	...	१०६
५१.	परमार्थ क्या है ?	...	१०८
५२.	अद्वैतभाव ही मङ्गलमय है	...	११३
५३.	तत्त्ववेत्ताकी दृष्टिमें नानात्वका अल्पन्ताभाव है	...	११४
५४.	दम रहस्यके साक्षी कौन थे ?	...	११६

विषय	पृष्ठ
५५. तत्त्वदर्शनका आदेश	११७
५६. तत्त्वदर्शिका आचरण	११८
५७. अविचर तत्त्वनिष्ठाका विमान	११९

### अद्वैतप्रकरण

६८. भेददर्शी कृपण है	१२२
६९. अकार्षण्यनिरूपणकी प्रतिष्ठा	१२३
६०. जीवकी उत्पत्तिके विषयमें दृष्टान्त	१२५
६१. जीवके मिलीन होनेमें दृष्टान्त	१२६
६२. आत्माकी असङ्गतामें दृष्टान्त	१२७
६३. व्यावहारिक जीवभेद	१२३
६४. जीव अज्ञाना विचार या ज्ञयन नहीं है	१३४
६५. आत्माकी मस्तिष्कता अज्ञानियोंकी दृष्टिमें है	१३५
६६. आत्मैक्य ही समीचीन है	१४०
६७. श्रुत्युक्त जीव ब्रह्मभेद गौण है	१४१
६८. दृष्टान्तयुक्त उत्पत्ति श्रुतिकी व्यवस्था	१४३
६९. विविध अस्विकारी और उनके लिये उदाहरणप्रतिष्ठा	१४७
७०. अद्वैतात्मदर्शन निमीला विरोधी नहीं है	१४८
७१. अद्वैतात्मदर्शनके अपिरोधी होनेमें हेतु	१५०
७२. आत्माके भेद मायाहीके कारण है	१५१
७३. जीवोत्पत्ति सर्वथा असंगत है	१५१
७४. उत्पत्तिशील जीव असर नष्ट हो सकता	१५४
७५. सृष्टिश्रुतिकी सगति	१५५
७६. श्रुति कार्य और कारण दोनोंका प्रतिषेध करती है	१५८
७७. अनात्मप्रतिषेधमें अचन्मा आत्मा प्रकाशित होता है	१६१
७८. सद्ब्रह्मकी उत्पत्ति मायिक होती है	१६२
७९. अशुद्धब्रह्मकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है	१६४
८०. स्वप्न और जागृति मनके ही विभाग हैं	१६६
८१. तत्त्वज्ञानमें अमर्त्याभाव	१६७
८२. आत्मज्ञान मिथे होता है	१६८
८३. ज्ञानानुत्तिका स्वरूप	१७०
८४. सुषुप्ति और समाधिका भेद	१७१
८५. ब्रह्मका स्वरूप	१७३

८६. अस्पर्शयोगकी दुर्गमता ...	...	...	१७७
८७. अन्य योगियोंकी शान्ति मनोनिग्रहके अधीन है	...	...	१७८
८८. मनोनिग्रह धैर्यपूर्वक ही हो सकता है	...	...	१८०
८९. मनोनिग्रहके विघ्न ...	...	...	१८०
९०. मन कब ब्रह्मरूप होता है ?	...	...	१८४
९१. परमार्थ सत्य क्या है ?	...	...	१८५

### अलातशान्तिप्रकरण

९२. नारायण-नमस्कार ...	...	...	१८८
९३. अद्वैतदर्शनकी वन्दना ...	...	...	१८९
९४. द्वैतवादियोंका पारस्परिक विरोध ...	...	...	१९१
९५. द्वैतवादियोंद्वारा प्रदर्शित अजातिका अनुमोदन	...	...	१९२
९६. स्वभावविपर्यय असम्भव है	...	...	१९३
९७. जीवका जरा-मरण माननेमें दोष	...	...	१९६
९८. सांख्यमतपर वैशेषिककी आपत्ति	...	...	१९६
९९. हेतु और फलके अन्योन्यकारणत्वमें दोष	...	...	१९९
१००. अजातवाद-निरूपण ...	...	...	२०६
१०१. सदसदादिवादोंकी अनुपपत्ति	...	...	२०७
१०२. हेतु-फलका अनादित्व उनकी अनुत्पत्तिका सूचक है	...	...	२०९
१०३. बाह्यार्थवाद-निरूपण ...	...	...	२१०
१०४. विज्ञानवादिकर्तृक बाह्यार्थवादनिरूपण	...	...	२१२
१०५. विज्ञानवादका खण्डन ...	...	...	२१६
१०६. उपक्रमका उपसंहार ...	...	...	२१८
१०७. प्रपञ्चके असत्त्वत्वमें हेतु ...	...	...	२२०
१०८. स्वप्नका मिथ्यात्वनिरूपण ...	...	...	२२१
१०९. स्वप्न और जाग्रत्का कार्य-कारणत्व व्यावहारिक है	...	...	२२२
११०. जगदुत्पत्तिका उपदेश किनके लिये है ?	...	...	२२७
१११. सन्मार्गगामी द्वैतवादियोंकी गति	...	...	२२९
११२. उपलब्धि और आचरणकी अप्रमाणता	...	...	२२९
११३. परमार्थ वस्तु क्या है ?	...	...	२३०
११४. विज्ञानाभासमें अलातस्फुरणका दृष्टान्त	...	...	२३२
११५. आत्मामें कार्य-कारणभाव क्यों असम्भव है ?	...	...	२३६
११६. हेतु-फलभावके अभिनिवेगका फल	...	...	२३८

विषय	पृष्ठ
११७ हेतु फलके अभिनिवेशमें दोष	२३९
११८. जीवोंका जन्म मायिक है	२४०
११९ आत्माकी अनिर्वचनीयता	२४२
१२० द्वैताभावमें स्वप्नका दृष्टान्त	२४३
१२१. अजाति ही उत्तम सत्य है	२४८
१२२ चित्तकी असंगता	२४८
१२३. व्यापहारिक वस्तु परमार्थत नहा होती	२४९
१२४. आत्मा अज है—यह कल्पना भी व्यापहारिक है	२५०
१२५ द्वैताभावसे जन्माभाव	२५६
१२६. विद्वान्की अभयपदप्राप्ति	२५३
१२७ मनोवृत्तियोंकी सन्निभे ब्रह्मसाक्षात्कार	२५५
१२८. आत्माकी दुर्दर्शताका हेतु	२५६
१२९ परमार्थका आग्रण करनेवाले असदभिनिवेश	२५७
१३० शनीका नैष्कर्म्य	२५९
१३१ त्रिषिध ज्ञेय	२६१
१३२ त्रिषिध ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है	२६३
१३३ जीव आकाशसे समान अनादि और अभिन्न है	२६६
१३४ आत्मतत्त्वनिरूपण	२६७
१३५ आत्मज्ञ ही अकृपण है	२६९
१३६. आत्मशक्ता महानानित्य	२७०
१३७ जातवादमें दोषप्रदर्शन	२७१
१३८. आत्माका स्वामात्रिक स्वरूप	२७२
१३९ अजातवाद बौद्धदर्शन नहीं है	२७३
१४०. परमार्थपद वन्दना	२७५
१४१. भाष्यकारकर्तृक वन्दना	२७६
१४२. शान्तिपाठ	२७७



ॐ

वत्सहस्रणे नमः

# माण्डूक्योपनिषद्

गौडपादीय कारिका, मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य

और भाष्यार्थसहित

जाग्रदादिव्रयोन्मुक्तं जाग्रदादिमयं तथा ।  
ओङ्कारैकस्तुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम् ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।  
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥  
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें । यज्ञकर्मों समर्थ होकर नेत्रोंसे शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अङ्ग और शरीरोंसे स्तुति करनेवाले हमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो ।

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।  
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥  
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

महान् कीर्तिमान् इन्द्र हमारा कल्याण करे; परम ज्ञानवान् [अथवा परम धनवान्] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टों ( आपत्तियों ) के लिये चक्रके समान [घातक] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो ।

## अगम-प्रकरण

भाष्यकारका मङ्गलाचरण

प्रज्ञानाद्गुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिवर्द्याप्य लोकात्  
भुक्त्वा भोगान्स्थविष्ठान्पुनरपि चिन्तणोद्भासितान्कामजन्यान ।  
पीत्वा सर्वान्निशेषान्स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्तो  
मायासंख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽसि ॥१॥

जो अपनी चराचरव्यापिनी ज्ञानरश्मियोंके विस्तारमे सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त कर [ जाग्रत्-अवस्थामें ] स्थूल त्रिपर्योका भोग करनेके अनन्तर फिर [ स्वप्नावस्थामें ] बुद्धिमे प्रकाशित वासनाजनित सम्पूर्ण भोगोंका पानकर मायामे हम सब जीवोंको भोग कराता हुआ [ स्वयं ] आनन्दका भोक्ता होकर शयन करता है तथा जो परम अमृत और अजन्मा ब्रह्म मायामे 'तुरीय' ( चौथी ) सत्यागल है, उसे हम नमस्कार करते हैं ॥ १ ॥

यो चिश्वात्मा त्रिचिजविषयान् प्राश्य भोगान्स्थविष्ठान्  
पद्याद्यान्यान्स्वमनिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् ।  
सर्वानेतान्पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा  
हित्वा सर्वान्विशेषान्निगमगुणगणं पात्यसौ नस्तुरीयः ॥ २ ॥

जो सर्वात्मा [ जाग्रत्-अवस्थामें ] शुभाशुभ कर्मजनित स्थूल भोगोंको भोगकर फिर [ स्वप्नकावस्थामें ] अपनी बुद्धिसे परिकल्पित सूक्ष्म त्रिपर्योको [ सूर्य आदि बाह्य ज्योतिषोंका अभाव होनेके कारण ] अपने ही प्रकाशसे भोगता है और फिर धीरे-धीरे इन सभीको अपनेमें स्थापितकर सम्पूर्ण विशेषोंको छोड़कर निर्गुणरूपसे स्थित हो जाता है, वह तुरीय परमात्मा हमारी रक्षा करे ॥ २ ॥

## सम्बन्धमाध्य

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम् ।

अतुल्य- तस्योपव्याख्यानं  
विमर्शः वेदान्तार्थसारसंग्रह-

भूतमिदं प्रकरण-

चतुष्टयमोमित्येतदक्षरमित्याद्या-  
रम्यते । अत एव न पृथक्सम्बन्धा-

भिधेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि ।

बान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धाभि-

धेयप्रयोजनानि तान्येवेह भवितु-

मर्हन्ति । तथापि प्रकरणव्या-

चिख्यासुना संक्षेपतो वक्तव्यानि ।

तत्र प्रयोजनवत्साधनाभि-

व्यञ्जकत्वेनाभिधेयसम्बन्धं शास्त्रं

धारम्पर्येण विशिष्टसम्बन्धाभिधेय-

प्रयोजनवद्भवति । किं पुनस्त-

त्प्रयोजनमित्युच्यते ? रोगा-

र्तस्येव रोगनिवृत्तौ स्वस्थता ।

तथा दुःखात्मकस्यात्मनो द्वैत-

‘ॐ’ यह अक्षर ही यह सब  
कुल है । उसका व्याख्यानरूप तथा  
वेदान्तार्थका सारसंग्रहभूत यह चार  
प्रकरणोंवाला ग्रन्थ ‘ओमित्येतदक्षर-  
मिदम्’ आदि मन्त्रद्वारा आरम्भ  
किया जाता है । इसीलिये इसके  
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनका  
पृथक् वर्णन करनेकी आवश्यकता  
नहीं है । वेदान्तशास्त्रमें जो-जो  
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजन हुआ  
करते हैं वे ही इस ग्रन्थमें भी हो  
सकते हैं । तो भी [ व्याख्याकार  
ऐसा मानते हैं कि ] जिन्हें किसी  
प्रकरण ग्रन्थकी व्याख्या करनेकी  
इच्छा हो उन्हें संक्षेपसे उनका वर्णन  
कर ही देना चाहिये ।

तहाँ, प्रयोजनसिद्धिके अनुकूल  
साधन अभिव्यक्त करनेके कारण  
अपने प्रतिपाद्य विषयसे सम्बन्ध  
रखनेवाला शास्त्र परम्परासे विशिष्ट  
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनवाला  
हुआ करता है । अच्छा तो, [ इस  
शास्त्रका ] वह क्या प्रयोजन है ?  
सो बतलाया जाता है—जिस  
प्रकार रोगी पुरुषको रोगकी निवृत्ति  
होनेपर स्वस्थता होती है उसी  
प्रकार दुःखात्मिक आत्माको द्वैत-

प्रपञ्चोपशमे स्वस्यता । अद्वैत-  
भावः प्रयोजनम् ।

द्वैतप्रपञ्चस्याविद्याकृतत्वाद्धि-  
द्यया तदुपशमः स्यादिति  
ब्रह्मविद्याप्रकाशनायास्यारम्भः

क्रियते। “यत्र हि द्वैतमिव भवति”

(वृ० उ० २।४।१४) “यत्र

वान्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्प-

श्येदन्योऽन्यद्विजानीयात्” (वृ०

उ० ४।३।३१) “यत्र वास्य

सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्ये-

त्केन कं विजानीयात्” (वृ० उ०

२।४।१४) इत्यादिश्रुतिभ्यो-

ऽस्यार्थस्य सिद्धिः ।

तत्र तावदोद्धारनिर्णयाय प्रथमं

प्रकरण- प्रकरणमागमप्रधानम्,

चतुष्टय- आत्मतत्त्वप्रतिपत्त्यु-

प्रतिपादार्थ- पायभूतम् । यस्य

निरूपणम् द्वैतप्रपञ्चस्योपशमे-

ऽद्वैतप्रतिपत्ती रज्ज्वामिव सर्पा-

दिविकल्पोपशमे रज्जुतत्त्व-

प्रतिपत्तिस्तस्य द्वैतस्य हेतुतो

प्रपञ्चकी निवृत्ति होनेपर स्वस्यता  
मिलती है। अतः अद्वैतभावही इसका  
प्रयोजन है ।

द्वैतप्रपञ्च अविद्याजनित है इस-  
लिये उसकी निवृत्ति विद्यासे ही हो  
सकती है । अतः ब्रह्मविद्याको  
प्रकाशित करनेके लिये ही इसका  
आरम्भ क्रिया जाता है । “जहाँ  
द्वैतके समान होना है” “जहाँ  
भिन्नके समान हो वहीं कोई दूसरा  
दूसरेको देख सकता है अथवा दूसरा  
दूसरेको जानता है” “जहाँ इसके  
लिये सब कुछ आत्मा ही हो गया  
है वहाँ यह किसके द्वारा किसे देखे ?  
और किसके द्वारा किसे जाने ?”  
इत्यादि श्रुतियोंमें इसी बातकी सिद्धि  
होती है ।

उन ( चारों प्रकरणों ) में पहला  
प्रकरण तो ओद्धारके स्वरूपका निर्णय  
करनेके लिये है । वह आगम-  
( श्रुति ) प्रधान और आत्मतत्त्वकी  
प्राप्तिका उपायभूत है । रज्जुमें  
सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति होनेपर  
जिस प्रकार रज्जुके स्वरूपका ज्ञान  
हो जाता है उसी प्रकार जिस द्वैत-  
प्रपञ्चकी निवृत्ति होनेपर अद्वैत-  
तत्त्वका बोध होता है उसी द्वैतका-

वैतथ्यप्रतिपादनाय द्वितीयं  
प्रकरणम् । तथाद्वैतस्यापि  
वैतथ्यप्रसङ्गप्राप्तौ युक्तितत्त्वा-  
त्वदर्शनाय तृतीयं प्रकरणम् ।

अद्वैतस्य तथात्वप्रतिपत्तिप्रतिपक्ष-  
भूतानि यानि वादान्तराण्यवैदि-  
कानि तेषामन्योन्यविरोधि-  
त्वादतथार्थत्वेन तदुपपत्तिभिरेव  
निराकरणाय चतुर्थं प्रकरणम् ।

कथं पुनरोङ्कारनिर्णय आत्म-  
ओङ्कारस्य तत्रप्रतिपत्त्युपायत्वं  
आत्मप्रतिपत्ति-प्रतिपद्यतइत्युच्यते—  
साधनत्वम् “ओमित्येतत्” (क०  
उ० १ । २ । १५ ) “एतदा-  
लम्बनम्” ( क० उ० १ । २ ।  
१७ ) “एतद्वै सत्यकाम” ( प्र०  
उ० ५ । २ ) “ओमित्यात्मानं  
युञ्जीत” ( मैत्र्यु० ६ । ३ )  
“ओमिति ब्रह्म” ( तै० उ०  
१ । ८ । १ ) “ओङ्कार एवेदं  
सर्वम्” ( छा० उ० २ । २३ ।  
३ ) इत्यादि श्रुतिभ्यः ।

रज्ज्वादिरिच सर्पादि-

ओङ्कारस्य विकल्पस्यास्पदोऽद्वय  
सर्वात्पदत्वम् आत्मा परमार्थः  
सन्प्राणादिविकल्पस्या-

युक्तिपूर्वक मिथ्यात्व प्रतिपादन करने-  
के लिये [ वैतथ्यनामक ] द्वितीय  
प्रकरण है । इसी प्रकार अद्वैतके भी  
मिथ्यात्वका प्रसङ्ग उपस्थित न हो  
जाय इसलिये युक्तिद्वारा उसका  
सत्यत्व प्रतिपादन करनेके लिये  
तृतीय ( अद्वैत ) प्रकरण है । तथा  
अद्वैतके सत्यत्व-निश्चयके विपक्षी  
जो अन्य अवैदिक मतान्तर हैं वे  
परस्पर विरोधी होनेके कारण मिथ्या  
हैं, अतः उन्हींकी युक्तियोंसे उनका  
खण्डन करनेके लिये चतुर्थ ( अलम्ब-  
शान्ति ) प्रकरण है ।

ओङ्कारका निर्णय किस प्रकार  
आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका उपाय होता  
है, सो अब बतलाया जाता है—  
“ॐ यही [ वह पद ] है” “यही  
अलम्बन है” “हे सत्यकाम ! यह  
[ जो ओङ्कार है वही पर और अपर  
ब्रह्म है ]” “आत्माका ॐ इस प्रकार  
ध्यान करे” “ॐ यही ब्रह्म है” “यह  
सब ओङ्कार ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे  
यही बात जानी जाती है ।

सर्पादि विकल्पकी अविद्यमानभूत  
रज्जु आदिके समान जिस प्रकार  
अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्य होने-  
पर भी प्राणादि विकल्पका आश्रय

स्पदो यथा तथा सर्वोऽपि  
वाक्प्रपञ्चः प्राणाद्यात्मविकल्प-  
विषय ओङ्कार एव । स  
चात्मस्वरूपमेव, तदभिधाय-  
कत्वात् । ओङ्कारविकारशब्दाभि-  
धेयश्च सर्वः प्राणादिरात्म-  
विकल्पोऽभिधानव्यतिरेकेण  
नास्ति । “वाचारम्भणं विकारो  
नामधेयम्” ( छा० उ० ६।१।  
४ ) “तदस्येद वाचा तन्त्या  
नाममिर्दामभिः सर्वं सितम्”  
“सर्वं हीदं नामनि” इत्यादि-  
श्रुतिभ्यः ।

अत आह—

हैं उसी प्रकार प्राणादि विकल्पको  
विषय करनेवाला सम्पूर्ण वाग्विलास  
ओंकार ही है । और वह ( ओंकार )  
आत्माका प्रतिपादन करनेवाला  
होनेसे उसका स्वरूप ही है । तथा  
ओंकारके विकाररूप शब्दोंके प्रति-  
पाद्य आत्माके विकल्परूप समस्त  
प्राणादि भी अपने प्रतिपादक शब्दोंसे  
भिन्न नहीं हैं, जैसा कि “विकार  
केवळ वाणीका विलास और नाम-  
मात्र है” “उस ब्रह्मका यह सम्पूर्ण  
जगत् वाणीरूप सूत्रद्वारा नाममयी  
दोरीसे व्याप्त है” “यह सब नाममय  
ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध  
होता है ।

इसीलिये कहते हैं—

ॐ ही सब कुछ है

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं  
भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यत्रान्य-  
त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १ ॥

ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है । यह जो कुछ भूत, भविष्यत् और  
वर्तमान है उसीकी व्याख्या है, इसलिये यह सब ओंकार ही है । इसके  
सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओंकार ही है ॥ १ ॥

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व-  
मिति । यद्विदमर्थजातमभिधेय-  
भूतं तस्याभिधानाव्यतिरेकात्,

ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है ।  
यह अभिवेद्य ( प्रतिपाद्य ) रूप  
जितना पदार्थसमूह है वह अपने

अभिधानस्य चोङ्काराव्यतिरेका-  
दोङ्कार एवेदं सर्वम् । परं च  
ब्रह्माभिधानाभिधेयोपायपूर्वकमेव  
गम्यत इत्योङ्कार एव ।

अभिवान ( प्रतिपादक ) से अभिन्न होनेके कारण और सम्पूर्ण अभिधान भी ओङ्कारसे अभिन्न होनेके कारण यह सब कुछ ओङ्कार ही है । पर-ब्रह्म भी अभिधान-अभिधेय ( वाच्य-वाचक ) रूप उपायके द्वारा ही जाना जाता है, इसलिये वह भी ओङ्कार ही है ।

तस्यैतस्य परापरब्रह्मरूपस्या-  
क्षरस्योमित्येतस्योपव्याख्यानम्;  
ब्रह्मप्रतिपत्त्युपायत्वाद्ब्रह्मसमीप-  
तया विस्पष्टं प्रकथनमुपव्याख्यानं  
प्रस्तुतं वेदितव्यमिति वाक्यशेषः ।

यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर ॐ है, उसका उपव्याख्यान—ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय होनेके कारण उसके समीपतासे स्पष्ट कथनका नाम उपव्याख्यान है—वही यहाँ प्रस्तुत जानना चाहिये । इस वाक्यमें 'प्रस्तुतं वेदितव्यम् ( प्रस्तुत जानना चाहिये )' यह वाक्यशेष है ।

भूतं भवद्भविष्यदिति काल-  
त्रयपरिच्छेद्यं यत्तदप्योङ्कार  
एवोक्तन्यायतः । यच्चान्यत्रि-  
कालातीतं कार्याधिगम्यं काला-  
परिच्छेद्यमव्याकृतादि तद-  
प्योङ्कार एव ॥ १ ॥

भूत, वर्तमान और भविष्यत् इन तीनों कालोंसे जो कुछ परिच्छेद्य है वह भी उपर्युक्त न्यायसे ओङ्कार ही है । इसके सिवा जो तीनों कालोंसे परे, अपने कार्यसे ही विदित होने-वाला और कालसे अपरिच्छेद्य अव्याकृत आदि है वह भी ओङ्कार ही है ॥ १ ॥

ओङ्कारवाच्य ब्रह्मकी सर्वारम्भकता

अभिधानाभिधेययोरेकत्वेऽप्य-  
भिधानप्राधान्येन निर्देशः कृतः ।  
ओमित्येतदक्षरसिद्धं सर्वमित्यादि ।

वाचक और वाच्यका अभेद होने-पर भी वाचककी प्रधानतासे ही ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है

अभिधानप्राधान्येन निर्दिष्टस्य  
 पुनरभिधेयप्राधान्येन निर्देशो-  
 ऽभिधानाभिधेययोरैकत्वप्रति-  
 पत्त्यर्थः । इतरथा ह्यभिधान-  
 तन्त्राभिधेयप्रतिपत्तिरित्यभिधे-  
 यस्याभिधानत्वं गौणमित्याशङ्का  
 स्यात् । एकत्वप्रतिपत्तेश्च प्रयो-  
 जनमभिधानाभिधेययोरैक्येनैव  
 प्रयत्नेन युगपत्प्रविलापयंस्त-  
 द्विलक्षणं ब्रह्म प्रतिपद्येतेति ।  
 तथा च वक्ष्यति “पादा मात्रा  
 मात्राश्च पादाः” ( मा० उ० ८ )  
 इति । तदाह—

इत्यादि रूपमे निर्देश किया गया  
 है । वाचककी प्रधानतामे निर्दिष्ट  
 वस्तुका फिर वाच्यकी प्रधानतासे  
 किया हुआ निर्देश वाचक और  
 वाच्यका एकत्व प्रतिपादन करनेके  
 लिये है, अन्यथा वाच्यकी प्रतिपत्ति  
 वाचकके अतीत होनेके कारण  
 वाच्यका वाचकरूप होना गौण  
 ही होगा—ऐसी आशंका हो सकती  
 है । किन्तु वाच्य ( ब्रह्म ) और  
 वाचक ( ओंकार ) की एकत्व-  
 प्रतिपत्तिका तो यही प्रयोजन है कि  
 उन दोनोंको एक ही प्रयत्नमे एक  
 साथ लीन करके उनसे विलक्षण  
 ब्रह्मको प्राप्त किया जाय । ऐसा ही  
 “पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही  
 पाद हैं” इस श्रुतिसे कहेंगे भी ।  
 अब वही बात कहते हैं—

सर्वं ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा  
 चतुष्पात् ॥ २ ॥

यह सब ब्रह्म ही है । यह आत्मा ही ब्रह्म है । वह यह आत्मा  
 चार पादों ( अक्षरों ) वाला है ॥ २ ॥

सर्वं ह्येतद्ब्रह्मेति । सर्वं यदुक्त-  
 मोङ्कारमात्रमिति तदेतद्ब्रह्म । तच्च  
 ब्रह्म परोक्षामिहितं प्रत्यक्षतो  
 विशेषेण निर्दिशति—अयमात्मा

यह सब ब्रह्म ही है । अर्थात् यह  
 सब, जो ओंकारमात्र कहा गया है,  
 ब्रह्म है । अबतक परोक्षरूपमे  
 बतलाये हुए उस ब्रह्मको विशेषरूपमे  
 प्रत्यक्षतया ‘यह आत्मा ब्रह्म है’



ब्रह्मेति । अयमिति चतुष्पात्त्वेन  
प्रविभज्यमानं प्रत्यगात्मतयाभि-  
नयेन निर्दिशति—अयमात्मेति ।  
सोऽयमात्मोङ्कारामिधेयः परापर-  
त्वेन व्यवस्थितश्चतुष्पात्कार्पा-  
पणवन्न गौरिवेति । त्रयाणां  
विश्वादीनां पूर्वपूर्वप्रविलापनेन  
तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करण-  
साधनः पादशब्दः । तुरीयस्य  
पद्यत इति कर्मसाधनः पाद-  
शब्दः ॥ २ ॥

ऐसा कहकर निर्देश करते हैं । यहाँ  
'अयम्' शब्दद्वारा चतुष्पादरूपसे  
विभक्त किये जानेवाले आत्माको अपने  
अन्तरात्मस्वरूपसे अभिनय ( अंगुलि-  
निर्देश ) पूर्वक 'अयमात्मा ब्रह्म' ऐसा  
कहकर बतलाते हैं । ओंकार नामसे  
कहा जानेवाला तथा पर और अपर-  
रूपसे व्यवस्थित वह यह आत्मा  
कार्पापणके \* समान चार पाद ( अंश )  
वाला है, गौके समान नहीं । विश्व  
आदि तीन पादोंमेंसे क्रमशः पूर्व-पूर्व-  
का लय करते हुए अन्तमें तुरीयब्रह्मकी  
उपलब्धि होती है । अतः पहले  
तीन पादोंमें 'पाद' शब्द करणवाच्य  
है और तुरीयमें 'जो प्राप्त किया  
जाय' इस प्रकार कर्मवाच्य है ॥२॥

कथं चतुष्पात्त्वमित्याह—

वह किस प्रकार चार पादोंवाला  
है सो बतलाते हैं—

आत्माका प्रथम पाद—वैश्वानर

जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोन-  
विंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥ ३ ॥

जाग्रत्-अवस्था जिस [ की अभिव्यक्ति ] का स्थान है, जो बहिः-  
प्रज्ञ ( बाह्य विषयोंको प्रकाशित करनेवाला ) सात अङ्गोंवाला, उनीस  
मुखोंवाला और स्थूल विषयोंका भोक्ता है वह वैश्वानर पहला पाद है ॥३॥

\* किसी देशविशेषमें प्रचलित सिक्केका नाम कार्पापण है । यह सोलह  
पणका होता है । जिस प्रकार रुपयेमें चार चवन्नी अथवा सेरमें चार पौचे होते हैं  
उसी प्रकार उसमें चार पाद माने गये हैं ।

जागरितं स्थानमस्येति  
जागरितस्थानः । वहिष्प्रज्ञः  
स्वात्मव्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा  
यस्य स वहिष्प्रज्ञो वहिर्विषयेव  
प्रज्ञाविद्याकृतावभासत इत्यर्थः ।  
तथा सप्ताङ्गान्यस्य “तस्य ह वा  
एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव  
सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः  
पृथग्वर्त्मात्मा संदोहो बहुलो  
वन्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादौ”  
( छा० उ० ५ । १८ । २ ) इत्य-  
ग्निहोत्ररूपनाशेपत्वेनाहवनीयो-  
ऽग्निरस्य मुखत्वेनोक्त इत्येवं सप्ता-  
ङ्गानि यस्य स सप्ताङ्गः ।

तथैकोनविंशतिर्मुखान्यस्य  
बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च  
दश वायवश्च प्राणादयः पञ्च  
मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तमिति  
मुखानीव मुखानि तान्युपलब्धि-  
द्वाराणीत्यर्थः, स एवंविशिष्टो  
वैश्वानरो यथोक्तैर्द्वारैः शब्दा-  
दीन्स्थूलान्विषयान्भुङ्क्ते इति  
स्थूलभुक् । निश्वेपां नराणा-  
मनेकया नयनाद्वैश्वानरः ।

जाग्रत्-अवस्था जिसका स्थान  
है उसे जागरितस्थान कहते हैं ।  
जिसकी अपनेसे भिन्न विषयोंमें प्रज्ञा  
है उसे वहिष्प्रज्ञ कहते हैं अर्थात्  
जिसकी अपिद्याकृत बुद्धि बाह्य  
विषयोंसे सम्बद्ध-सी भासती है । इसी  
प्रकार जिसके सात अङ्ग हैं अर्थात्  
“इस उस वैश्वानर आत्माका दुष्टोक्त  
सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है,  
आकाश मध्यस्थान ( देह ) है, अन्न  
( अन्नका कारणरूप जल ) ही मूत्र-  
स्थान है और पृथिवी ही चरण है” इस  
श्रुतिके अनुसार अग्निहोत्ररूपनामें  
अङ्गभूत होनेके कारण आहवनीय  
अग्नि उसके मुखरूपसे बतलाया  
गया है । इस प्रकार जिसके सात  
अङ्ग हैं उमे ही सप्ताङ्ग कहते हैं ।

तथा जिसके उन्नीस मुख हैं,  
दश तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय,  
पाँच प्राणादि वायु तथा मन, बुद्धि,  
अहङ्कार और चित्त—ये जिसके  
मुखके समान मुख अर्थात् उपलब्धि-  
के द्वार हैं, वह ऐसे विशेषणोंवाला  
वैश्वानर उपर्युक्त द्वारोंसे शब्द आदि  
स्थूल विषयोंको भोगता है इसलिये  
वह स्थूलभुक् है । सम्पूर्ण नरोंको  
[ अनेक प्रकारकी योनियोंमें ] नयन  
( बहन ) करनेके कारण वह ‘वैश्वान-  
र’ कहलाता है, अथवा वह विश्व

यद्वा विश्वश्वासौ नरश्चेति  
विश्वानरः । विश्वानर एव  
वैश्वानरः । सर्वपिण्डात्मानन्य-  
त्वात् स प्रथमः पादः ।  
एतत्पूर्वकत्वाद्दुत्तरपादाधिगमस्य  
प्राथम्यमस्य ।

कथमयमात्मा ब्रह्मेति प्रत्य-

गात्मनोऽस्य चतुष्पात्त्वे प्रकृते

द्युलोकादीनां मूर्धाद्यङ्गत्वमिति ।

नैष दोषः । सर्वस्य प्रप-

ञ्चस्य साधिदैवि-

कस्यानेनात्मना

वैश्वानरस्य सप्ताह-

त्वादिप्रतिपादने

हेतुः

चतुष्पात्त्वस्य विवक्षितत्वात् ।

एवं च सति सर्वप्रपञ्चोपशमे-

ऽद्वैतसिद्धिः । सर्वभूतस्थश्चात्मैको

दृष्टः स्यात् सर्वभूतानि चात्मनि ।

“यस्तु सर्वाणि भूतानि” (ई०उ०

६) इत्यादिश्रुत्यर्थ उपसंहृतश्चैवं

स्यात् । अन्यथा हि स्वदेहपरि-

च्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्या-

दिभिरिव दृष्टः स्यात्तथा च

(समस्त) नररूप है इसलिये  
विश्वानर है । विश्वानर ही [स्वार्थमें  
तद्धित अणुप्रत्यय होनेसे] वैश्वानर  
कहलाता है । समस्त देहोंसे अभिन्न  
होनेके कारण वही पहला पाद है ।  
परवर्ती पादोंका ज्ञान पहले इसका  
ज्ञान होनेपर ही होता है, इसलिये  
यह प्रथम है ।

शङ्का—“अयमात्मा ब्रह्म” इस

श्रुतिके अनुसार यहाँ प्रत्यगात्माको  
चार पादोंवाला बतलानेका प्रसङ्ग  
था । उसमें द्युलोकादिको उसके मूर्धा  
आदि अङ्गरूपसे कैसे बतलाने लगे ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं  
है, क्योंकि इस आत्माके द्वारा ही  
अधिदैवसहित सम्पूर्ण प्रपञ्चके चतु-  
ष्पात्त्वका प्रतिपादन करना इष्ट है ।  
ऐसा होनेपर ही सारे प्रपञ्चके  
निषेधपूर्वक अद्वैतकी सिद्धि हो  
सकेगी । समस्त भूतोंमें स्थित एक  
आत्मा और आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंका  
साक्षात्कार हो सकेगा और इसी  
प्रकार “जो सारे भूतोंको [आत्मामें  
ही देखता है]” इत्यादि श्रुतियोंके  
अर्थका उपसंहार हो सकेगा । नहीं  
तो सांख्यदर्शन आदिके समान  
अपने देहमें परिच्छिन्न अन्तरात्माका  
ही दर्शन होगा । ऐसा होनेपर

सत्यद्वैतमिति श्रुतिकृतो विशेषो न स्यात्, सांख्यादिदर्शनेनाविशेषात् । इष्यते च सर्वोपनिषदां सर्वात्मैक्यप्रतिपादकत्वम् । अतो युक्तमेवास्याध्यात्मिकस्य पिण्डात्मनो द्युलोकाद्यङ्गत्वेन विराडात्मनाधिदैविकेनैकत्वमभिप्रेत्य

सप्ताङ्गत्ववचनम् । “मूर्धा ते व्यपतिष्यत्” ( छा० उ० ५ ।

१२ । २ ) इत्यादिलिङ्गदर्शनाच्च ।

विराजैकत्वमुपलक्षणार्थं हिरण्यगर्भाव्याकृतात्मनोः । उक्तं चैतन्मधुव्राक्षणं “यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मम्” ( वृ० उ० २ । ५ । १ ) इत्यादि । सुपुत्राव्याकृतयोस्त्वैकत्वं सिद्धमेव निर्विशेषत्वात् । एवं च सत्येतत्सिद्धं भविष्यति सर्वद्वैतोपशमे चाद्वैतमिति ॥३॥

‘अद्वैत है’ इस श्रुतिप्रतिपादित विशेष भावकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि साख्यादि दर्शनोंकी अपेक्षा इसमें कुछ विशेषता नहीं रहेगी । परन्तु सम्पूर्ण उपनिषदोंको आत्माके एकत्वका प्रतिपादन तो इष्ट ही है । इसलिये इस आध्यात्मिक पिण्डात्माका द्युलोक आदिके अङ्गरूपसे आधिदैविक पिण्डात्माके साथ एकत्व प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे उसका सप्ताङ्गत्व प्रतिपादन उचित ही है । इसके सिवा [ आत्माकी व्यस्तोपासनाके निन्दक ] “तेरा शिर गिर जाता” आदि वाक्य भी इसमें हेतु हैं ।

यहाँ जो विराट्के साथ एकत्व प्रतिपादन किया है वह हिरण्यगर्भ और अन्या कृत्के एकत्वको उपलक्षित करानेके लिये है । मधुव्राक्षणमें ऐसा कहा भी है—“यह जो इस पृथिवीमें तेजोमय एव अमृतमय पुरुष है तथा यह जो अध्यात्मपुरुष है [ वे दोनों एक हैं ]” इत्यादि । कोई विशेषता न रहनेके कारण सोये हुए पुरुष और अव्याकृतका एकत्व तो सिद्ध ही है । ऐसा होनेपर ही यह सिद्ध होगा कि सम्पूर्ण द्वैतकी निवृत्ति होनेपर अद्वैत ही है ॥ ३ ॥

आत्माका द्वितीय पाद—तैजस

स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः  
प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥

स्वप्न जिसका स्थान है तथा जो अन्तःप्रज्ञ, सात अङ्गोंवाला, उन्नीस मुखवाला और सूक्ष्म विषयोंका भोक्ता है वह तैजस [इसका] दूसरा पाद है।

स्वप्नः स्थानमस्य तैजसस्य  
स्वप्नस्थानः । जाग्रत्प्रज्ञानेक-  
साधना बहिर्विषयेवावभांसमाना  
मनःस्पन्दनमात्रा सती तथाभूतं  
संस्कारं मनस्याधत्ते । तन्मनस्तथा  
संस्कृतं चित्रित इव पटो ब्राह्म-  
साधनानपेक्षमविद्याकामकर्मभिः  
प्रेर्यमाणं जाग्रद्ब्रह्मभासते । तथा  
चोक्तम्—“अस्य लोकस्य सर्वा-  
वतो मात्रामपादाय” ( बृ०  
उ० ४।३।९ ) इति । तथा “परे  
देवे मनस्येकीभवति” ( प्र०  
उ० ४।२ ) इति प्रस्तुत्य  
“अत्रैव देवः स्वप्ने महिमानमनु-  
भवति” ( प्र० उ० ४।५ )  
इत्याथर्वणे ।

स्वप्न इस तैजसका स्थान है  
इसलिये यह स्वप्नस्थानवाला [ कहा  
जाता ] है । अनेक साधनवली  
जाग्रत्कालीना बुद्धि मनका स्फुरण-  
मात्र होनेपर भी ब्राह्मविषय-  
सम्बन्धिनी-सी प्रतीत होती हुई  
मनमें वैसा ही संस्कार उत्पन्न करती  
है । चित्रित बलके समान इस  
प्रकारके संस्कारोंसे युक्त हुआ वह  
मन अविद्या, कामना और कर्मके  
कारण ब्राह्मसाधनकी अपेक्षाके बिना  
ही प्रेरित होकर जाग्रत्-सा  
भासने लगता है । ऐसा ही  
कहा भी है—“इस सर्वसाधन-  
सम्पन्न लोकके संस्कार ग्रहण करके  
[ स्वप्न देखता है ]” इत्यादि । तथा  
आथर्वणश्रुतिमें भी [ समस्त इन्द्रियों ]  
“परम ( इन्द्रियादिमें उत्कृष्ट ) देव  
( प्रकाशनशील ) मनमें एकरूप हो  
जाती हैं” इस प्रकार प्रस्तावना कर  
कहा है “यहाँ—स्वप्नस्थानमें यह देव  
अपनी महिमाका अनुभव करता है।”

इन्द्रियापेक्षयान्तःस्थत्वान्मन-  
सस्तद्वासनारूपा च स्वप्ने प्रज्ञा यस्ये-  
त्यन्तःप्रज्ञः। विषयशून्यायां प्रज्ञायां  
केवलप्रकाशस्वरूपायां विषयित्वेन  
भवतीति तैजसः । विश्वस्य  
सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलाया  
भोज्यत्वम् । इह पुनः केवला  
वासनामात्रा प्रज्ञा भोज्येति  
प्रविविक्तो भोग इति । समान-  
मन्यत् । द्वितीयःपादस्तैजसः॥४॥

अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा मन  
अधिक अन्त स्थ है, स्वप्नावस्थामें  
जिसकी प्रज्ञा उस ( मन ) की  
वासनाके अनुरूप रहती है उसे  
अन्त प्रज्ञ कहते हैं, वह अपनी  
विषयशून्य और केवल प्रकाशस्वरूप  
प्रज्ञाका विषयी ( अनुभव करनेवाला )  
होनेके कारण 'तैजस' कहा जाता  
है । विश्व बाह्यविषययुक्त होता है,  
इसलिये जागरित अवस्थामें स्थूल प्रज्ञा  
उसकी भोज्य है । किन्तु तैजसके लिये  
केवल वासनामात्र प्रज्ञा भोजनीया है,  
इसलिये इसका भोग सूक्ष्म है । शेष  
अर्थ पहलेहीके समान है । यह  
तैजस ही दूसरा पाद है ॥ ४ ॥

दर्शनादर्शनवृत्त्योस्तत्त्वाप्रबोध-  
लक्षणस्य स्वापस्य तुल्यत्वात्  
सुषुप्तिग्रहणार्थं यत्र सुप्त इत्यादि  
विशेषणम् । अथ वा त्रिष्वपि  
स्थानेषु तत्त्वाप्रतिबोधलक्षणः  
स्वापोऽग्निशिष्ट इति पूर्वार्थ्यां  
सुषुप्तं विभजते—

[ तत्त्वज्ञानका अभावरूप ] स्वापा-  
वस्थाके दर्शन ( जाग्रत्स्थान ) और  
अदर्शन ( स्वप्नस्थान ) इन दोनों ही  
वृत्तियोंमें समान होनेके कारण सुषुप्ति  
अवस्थाको [ उससे पृथक् ] ग्रहण  
करनेके लिये 'यत्र सुप्त.' इत्यादि  
विशेषण दिये जाते हैं । अथवा तीनों  
ही अवस्थाओंमें तत्त्वका अज्ञानरूप  
निद्रा समान ही है इसलिये पहले  
दो स्थानोंसे सुषुप्तिका विभाग  
करते हैं—

आत्माका तृतीय पाद—प्राज्ञ

यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन  
स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् । सुषुप्तस्थान एकीभूतः  
प्रज्ञानधन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः  
प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥

जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है उसे सुषुप्ति कहते हैं । वह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकभूत प्रकृत ज्ञानस्वरूप होता हुआ ही आनन्दमय, आनन्दका भोक्ता और चेतनारूप मुखवाला है वह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है ॥५॥

यत्र यस्मिन्स्थाने काले वा  
सुप्तो न कञ्चन स्वप्नं पश्यति न  
कञ्चन कामं कामयते । न हि  
सुषुप्ते पूर्वयोरिवान्यथाग्रहणलक्षणं  
स्वप्नदर्शनं कामो वा कञ्चन विद्यते।  
तदेतत्सुषुप्तं स्थानमस्येति  
सुषुप्तस्थानः ।

स्थानद्वयप्रविभक्तं मनः स्पन्दितं  
द्वैतजातं तथारूपापरित्या-  
गेनाविवेकापन्नं नैशतमोग्रस्तमि-  
वाहः सप्रपञ्चमेकीभूतमित्युच्यते ।  
अत एव स्वप्नजाग्रन्मनःस्पन्दनानि

जहाँ यानी जिस स्थान अथवा समयमें सोया हुआ पुरुष न कोई स्वप्न देखता और न किसी भोगकी ही इच्छा करता है, क्योंकि सुषुप्तावस्थामें पहली दोनों अवस्थाओंके समान अन्यथा ग्रहणरूप स्वप्नदर्शन अथवा किसी प्रकारकी कामना नहीं होती, वह यह सुषुप्त अवस्था ही जिसका स्थान है उसे सुषुप्तस्थान कहते हैं ।

जिस प्रकार रात्रिके अन्धकारसे दिन आच्छादित हो जाता है उसी प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानोंमें विभिन्न रूपसे प्रतीत होनेवाला मनका स्फुरणरूपद्वैतसमूह [इस अवस्थामें] प्रपञ्चके सहित अपने उस (विशिष्ट) स्वरूपका त्याग न कर अज्ञानसे आच्छादित हो जाता है; इसलिये इसे 'एकीभूत'

प्रज्ञानानि धनीभूतानीव सेयमव-  
स्थाविवेकरूपत्वात्प्रज्ञानघन

उच्यते । यथा रात्रौ नैशेन

तमसाविमज्यमानं सर्वं घनमिव

तद्वत्प्रज्ञानघन एव । एवशब्दान्न

जात्यन्तरं प्रज्ञानव्यतिरेकेणा-

स्तीत्यर्थः ।

मनसो विषयविपर्ययाकार-

स्पन्दनायासदुःखामावादानन्द-

मय आनन्दप्रायो नानन्द एव ।

अनात्यन्तिकत्वात् । यथा लोके

निरायासस्थितः सुख्यानन्द-

भुगुच्यते, अत्यन्तानायासरूपा

हीयं स्थितिरतेनानुभूयत इत्या-

नन्दभुक्, "एषोऽस्य परम

आनन्दः" ( वृ० उ० ४ । ३ ।

१ ३२ ) इति श्रुतेः ।

ऐसा कहा जाता है । अतः जिस अवस्थामें स्वप्न और जाग्रत्—ये मनके स्फुरणरूप प्रज्ञान धनीभूत-से हो जाते हैं, वह यह अवस्था अविवेकरूपा होनेके कारण प्रज्ञानघन कही जाती है । जिस प्रकार रात्रिमें रात्रिके अन्धकारसे पृथक्पृथक् प्रतीति न होनेके कारण सम्पूर्ण प्रपञ्च धनीभूत-सा जान पड़ता है उसी प्रकार यह प्रज्ञानघन ही है । 'एव' शब्दसे यह तात्पर्य है कि उस समय प्रज्ञानके सिवा कोई अन्य जाति नहीं रहती ।

मनका जो विषय और विषयी-रूपसे स्फुरित होनेके आयासका दुःख है उसका अभाव होनेके कारण यह आनन्दमय अर्थात् आनन्दबहुल है, केवल आनन्दभाव ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें आनन्दकी आत्यन्तिकता नहीं है, जिस प्रकार लोकमें अनायासरूपसे स्थित पुरुष सुखी या आनन्द भोग करनेवाला कहा जाता है, उसी प्रकार, क्योंकि इस अवस्थामें यह आत्मा इस अत्यन्त अनायासरूपा स्थितिका अनुभव करता है, इसलिये यह आनन्दभुक् कहा जाता है, जैसा कि "यह इसका परम आनन्द है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ।



स्वप्नादिप्रतिबोधचेतः प्रति  
द्वारीभूतत्वाच्चेतोमुखः । बोध-  
लक्षणं वा चेतो द्वारं मुखमस्य  
स्वप्नाद्यागमनं प्रतीति चेतोमुखः ।  
भूतभविष्यज्ज्ञातृत्वं सर्वविषय-  
ज्ञातृत्वमस्यैवेति प्राज्ञः । सुषुप्तोऽपि  
हि भूतपूर्वगत्या प्राज्ञ उच्यते ।  
अथवा प्रज्ञप्तिमात्रमस्यैवासा-  
धारणं रूपमिति प्राज्ञः, इतरयो-  
र्विंशिष्टमपि विज्ञानमस्ति । सोऽयं  
प्राज्ञस्त्वतीयः पादः ॥ ५ ॥

स्वप्नादिज्ञानरूप चेतनाके प्रति  
द्वारस्वरूप होनेके कारण यह  
चेतोमुख है । अथवा स्वप्नादिकी  
प्राप्तिके लिये ज्ञानस्वरूप चित्त ही  
इसका द्वार यानी मुख है, इसलिये  
यह चेतोमुख है । भूत-भविष्यत्का  
तथा सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञाता यही  
है, इसलिये यह प्राज्ञ है ।  
सुषुप्त होनेपर भी इसे भूतपूर्वगतिसे  
'प्राज्ञ' कहा जाता है । अथवा  
केवल प्रज्ञप्ति (ज्ञान) मात्र इसीका  
असाधारणरूप है, इसलिये यह  
प्राज्ञ है, क्योंकि दूसरोंको ( विन्ध  
और तैजसको ) तो विंशिष्ट विज्ञान  
भी होता है । वह यह प्राज्ञ ही  
तीसरा पाद है ॥ ५ ॥

प्राज्ञका सर्वकारणत्व

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः  
सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् ॥ ६ ॥

यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यामी है और समस्त  
जीवोंकी उत्पत्ति तथा लयका स्थान होनेके कारण यह सबका कारण  
भी है ॥ ६ ॥

एष हि स्वरूपावस्थः सर्वेश्वरः  
साधिदैविकस्य भेदजातस्य सर्वस्ये-  
शिता नैतस्माज्जात्यन्तरभूतो-  
ऽन्येषामिव । "प्राणवन्धनं हि

अपने स्वरूपमें स्थित यह ( प्राज्ञ )  
ही सर्वेश्वर है, अर्थात् अधिदैवके  
सहित सम्पूर्ण भेदसमूहका ईश्वर—  
ईशान ( शासन ) करनेवाला है ।  
'हे सोम्य ! यह मन ( जीव ) प्राण

सोम्य मनः" ( छा० उ० ६ । ८ ।

२ ) इति श्रुतेः । अयमेव हि सर्वस्य-

सर्वभेदावस्थो ज्ञातेत्येव सर्वज्ञः ।

एषोऽन्तर्याम्यन्तरनुप्रविश्य सर्वेषां

भूतानां, नियन्ताप्येष । एव । अत

एव यथोक्तं समेदं जगत्प्रसूयत

इत्येष योनिः सर्वस्य । यत एवं

प्रभवश्चाप्ययश्च प्रमराप्यर्या हि

भूतानामेष एव ॥ ६

( प्राणसज्ञक ब्रह्म ) रूप बन्धनवाला है" इस श्रुतिसे अन्य मतावलम्बियों-के सिद्धान्तानुसार [ सर्वज्ञ परमेश्वर ] इस प्राज्ञसे कोई विजातीय पदार्थ नहीं है । सम्पूर्ण भेदमें स्थित हुआ यही सबका ज्ञाना है, इसलिये यह सर्वज्ञ है । [ अनएत्र ] यह अन्तर्यामी है अर्थात् समस्त प्राणियों-के भीतर अनुप्रविष्ट होकर उनका नियमन करनेवाला भी यही है । इसीसे पूर्वोक्त भेदके सहित सारा जगत् उत्पन्न होता है, इसलिये यही सबका कारण है । क्योंकि ऐसा है इसलिये यही समस्त प्राणियोंका उत्पत्ति और लयस्थान भी है ॥ ६ ॥

एक ही आत्माके तीन भेद  
अत्रैते श्लोका भवन्ति—  
इसी अर्थमें ये श्लोक हैं—

अत्रैतस्मिन् यथोक्तेऽर्थे एते  
श्लोका भवन्ति—

यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थमें ये श्लोक  
हैं—

बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः ।

घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः ॥ १ ॥

विभु विश्व बहिष्प्रज्ञ है, तैजस अन्तःप्रज्ञ है तथा प्राज्ञ घनप्रज्ञ ( प्रज्ञानघन ) है । इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कहा जाता है ॥ १ ॥

बहिष्प्रज्ञ इति । पर्यायेण  
त्रिस्थानत्वात्सोऽहमिति स्मृत्या

बहिष्प्रज्ञ इत्यादि । इस श्लोकका  
तात्पर्य यह है कि क्रमशः तीन

प्रतिसन्धानाच्च स्थानत्रयव्यतिरि-  
क्तत्वमेकत्वं शुद्धत्वमसङ्गत्वं च  
सिद्धमित्यभिप्रायः । महामत्स्यादि-  
दृष्टान्तश्रुतेः ॥ १ ॥

स्थानोंवाला होनेसे और 'मैं वही हूँ'  
इस प्रकारकी स्मृतिद्वारा अनुसन्धान  
क्रिया जानेके कारण आत्माका तीनों  
स्थानोंसे पृथक्त्व, एकत्व, शुद्धत्व  
और असङ्गत्व सिद्ध होता है, जैसा  
कि महामत्स्यादि दृष्टान्तका वर्णन  
करनेवाली श्रुति \* बतलाती है ॥१॥

### विश्वादिके विभिन्न स्थान

जागरितावस्थायामेव विश्वा-  
दीनां त्रयाणामनुभवप्रदर्शनार्थोऽ-  
यं श्लोकः—

जाग्रत्-अवस्थामें ही विश्व आदि  
तीनोंका अनुभव दिखलानेके लिये  
यह श्लोक कहा जाता है—

दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः ।

आकाशे च हृदि प्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः ॥ २ ॥

दक्षिणनेत्ररूप द्वारमें विश्व रहता है, तैजस मनके भीतर रहता है,  
प्राज्ञ हृदयाकाशमें उपलब्ध होता है । इस प्रकार यह [ एक ही आत्मा ]  
शरीरमें तीन प्रकारसे स्थित है ॥ २ ॥

दक्षिणमक्ष्येव मुखं तस्मिन्  
प्राधान्येन द्रष्टा स्थूलानां विश्वो-  
ऽनुभूयते । "इन्धो ह वै नामैष

दक्षिण नेत्र ही मुख ( उपलब्धि-  
का स्थान ) है; उसीमें प्रधानतासे  
स्थूल पदार्थोंके साक्षी विश्वका  
अनुभव होता है । यह जो दक्षिण

\* जिस प्रकार किसी नदीमें रहनेवाला कोई बलवान् मत्स्य उसके प्रवाहसे  
विचलित न होकर उसके दोनों तटोंपर आता-जाता रहता है; किन्तु उन  
तटोंसे पृथक् होनेके कारण उनके गुण-दोषोंसे युक्त नहीं होता तथा जिस प्रकार  
कोई बड़ा पक्षी आकाशमें स्वच्छन्दगतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार स्वप्न  
और जाग्रत् दोनों स्थानोंमें सञ्चार करनेवाला आत्मा एक, असङ्ग और शुद्ध है-  
ऐसा मानना उचित ही है । ( देखिये वृ० उ० ४ । ३ । १८-१९ )

योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः' ( वृ०  
उ० ४ । २ । २ ) इति श्रुतेः ।  
इन्धो दीप्तिगुणो वैश्वानरः ।  
आदित्यान्तर्गतो वैराज आरमा  
चक्षुषि च द्रष्टैकः ।

नन्वन्यो हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञो

दक्षिणेऽक्षन्पुरुषोर्नियन्ता द्रष्टा  
चान्यो देहस्वामी ।

न, स्वतो भेदानभ्युपगमात् ।

“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः”

( श्वे० उ० ६ । ११ ) इति

श्रुतेः । “क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि  
सर्वक्षेत्रेषु भारत” ( गीता १३ ।

२ ) “अविमक्तं च भूतेषु विमक्त-

मिव च स्थितम्” ( गीता १३ ।

१६ ) इति स्मृतेः । सर्वेषु करणे-

ष्वविशेषेऽपि दक्षिणाक्षन्पु-

लब्धिपाटवदर्शनाच्च विशेषेण

निर्देशो विश्वाय ।

दक्षिणाक्षिगतो रूपं दृष्ट्वा नि-  
मीलिताक्षस्तदेव सरन्मनस्यन्तः-

नेत्रमें स्थित पुरुष है ‘इन्धं’ नाममे  
प्रसिद्ध है” इस श्रुतिमे भी यही प्रमाणित  
होता है । दीप्तिगुणविशिष्ट वैश्वानरको  
‘इन्ध’ कहते हैं । आदित्यान्तर्गत  
वैराजसक्षक आत्मा और नेत्रमें स्थित  
साक्षी—ये दोनों एक ही हैं ।

शब्दा—हिरण्यगर्भ अन्य है तथा  
दक्षिण नेत्रमें स्थित नेत्रेन्द्रियका  
नियन्ता और साक्षी देहका स्वामी  
क्षेत्रज्ञ अन्य है । [ उन दोनोंकी  
एकता कैसे हो सकती है ? ]

समाधान—नहीं [ ऐसी बात  
नहीं है ], क्योंकि उनका स्वाभाविक  
भेद नहीं माना गया, क्योंकि  
“सम्पूर्ण भूतोंमें एक ही देव छिपा  
हुआ है” इस श्रुतिमे तथा “हे भारत !  
समस्त क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान”  
“[ यह वस्तुतः ] विभक्त न होकर  
भी विभक्तके समान स्थित है” इत्यादि  
स्मृतियोंसे भी [ यही बात सिद्ध  
होती है ] । सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें समान-  
रूपसे स्थित होनेपर भी दक्षिण  
नेत्रमें उसकी उपलब्धिकी स्पष्टता  
देखनेसे यही विश्वका विशेषरूपसे  
निर्देश किया जाता है ।

दक्षिणनेत्रस्थित जीवात्मा रूप-  
को देखकर फिर नेत्र भूँद मूलमें

१- जो जागरित अवस्थामे स्थूल पदार्थोंका भोक्ता होनेके कारण इन्द्र-दीप्त  
होता है ।

स्वप्न इव तदेव वासनारूपाभि-  
व्यक्तं पश्यति । यथात्र तथा  
स्वप्ने । अतो मनस्वन्तस्तु तैजसो-  
ऽपि विश्व एव ।

आकाशे च हृदि स्मरणरूप-  
व्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीभूतो  
घनप्रज्ञ एव भवति; मनोव्यापा-  
राभावात् । दर्शनस्मरणे एव हि  
मनःस्पन्दिते; तदभावे हृद्येवा-  
विशेषेण प्राणात्मनावस्थानम् ।  
“प्राणो ह्येवैतान्सर्वान्संवृङ्क्ते”  
(छा० उ० ४।३।३) इति श्रुतेः।  
तैजसो हिरण्यगर्भो मनः-  
स्थत्वात् । “लिङ्गं मनः” ( बृ०  
उ० ४।४।६ ) । “मनोमयोऽयं  
पुरुषः” ( बृ० उ० ५।६।१ )  
इत्यादिश्रुतिभ्यः ।

उसीका स्मरण करता हुआ वासना-  
रूपसे अभिव्यक्त उसी रूपका स्वप्नमें  
उपलब्धकी तरह दर्शन करता है ।  
जिस प्रकार इस अवस्थामें होता है,  
ठीक वैसा ही स्वप्नमें होता है ।  
[ इसलिये यह जाग्रतमें स्वप्न ही है ]  
अतः मनके भीतर स्थित तैजस भी  
विश्व ही है ।

तथा स्मरणरूप व्यापारके निवृत्त  
हो जानेपर हृदयाकाशमें स्थित प्राज्ञ  
मनोव्यापारका अभाव हो जानेके  
कारण एकीभूत और घनप्रज्ञ ही  
हो जाता है । दर्शन और स्मरण ही  
मनके स्फुरण हैं, उनका अभाव  
हो जानेपर जो जीवका हृदयके  
भीतर ही निर्विशेष प्राणरूपसे स्थित  
होना है [ यही जाग्रतमें सुषुप्ति है ] ।  
“प्राण ही इन सबको अपनेमें लीन  
कर लेता है” इस श्रुतिसे यही  
प्रमाणित होता है । मनःस्थित  
होनेके कारण तैजस ही हिरण्यगर्भ  
है ।\* “[ सत्रह अवयववाला ]  
लिङ्गरूप मन” “यह पुरुष  
मनोमय है” इत्यादि श्रुतियोंसे भी  
[ तैजस और हिरण्यगर्भकी एकता  
सिद्ध होती है ] ।

\* क्योंकि तैजसकी उपाधि व्यष्टि मन है और हिरण्यगर्भकी समष्टि मन तथा  
समष्टि-व्यष्टिका परस्पर अभेद है ।

३. यहाँ हिरण्यगर्भको ही ‘पुरुष’ कहा गया है ।

ननु व्याकृतः प्राणः सुषुप्ते ।

तदात्मकानि करणानि भवन्ति ।

कथमव्याकृतता ?

नैष दोषः, अव्याकृतस्य

सुषुप्तौ देशकालविशेषामा-  
प्राणानाम् वात् । यद्यपि प्राणा-  
अव्याकृतत्वम् मिमाने सति व्या-

कृतत्वैव प्राणस्य तथापि पिण्ड-

परिच्छिन्नविशेषामिमाननिरोधः

प्राणे भवतीत्यव्याकृत एव प्राणः

सुषुप्ते परिच्छिन्नामिमानवताम् ।

यथा प्राणलये परिच्छिन्ना-

भिमानिनां प्राणोऽव्याकृतस्तथा

प्राणामिमानिनोऽप्यविशेषापत्ताव-

व्याकृतता समाना प्रसवत्रीजात्म-

कत्वं च तदध्यक्षश्चैकोऽव्याकृता-

शङ्का—सुषुप्तिमें भी प्राण तो  
व्याकृत ( विशेषभावापन्न ) ही होता  
है\* तथा [ 'प्राणो ह्येवैतान्सर्गान्सृ-  
ष्ट्के' इस श्रुतिके अनुसार ] इन्द्रियों  
भी प्राणरूप ही हो जाती हैं । फिर  
उसकी अव्याकृतता कैसे कही गयी ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं  
है, क्योंकि अव्याकृत पदार्थमें देश-  
कालरूप विशेष भावका अभाव होता  
है । यद्यपि [ जैसा कि स्वप्नावस्थामें  
होता है ] प्राणका अभिमान रहते हुए  
तो उसकी व्याकृतता है ही तथापि  
सुषुप्तावस्थामें प्राणमें पिण्डपरिच्छिन्न-  
विशेषका अभिमान [ अर्थात् यह  
मेरे शरीरसे परिच्छिन्न प्राण है—  
ऐसा अभिमान ] नहीं रहता, अतः  
परिच्छिन्नदेहाभिमानियोंके लिये भी  
उस समय वह अव्याकृत ही है ।

जिस प्रकार प्राणका लय [ अर्थात्  
मृत्यु ] होनेपर परिच्छिन्न देहा-  
भिमानियोंका प्राण अव्याकृतरूपमें  
रहता है उसी प्रकार प्राणामिमानियों-  
को भी प्राणकी अविशेषता प्राप्त  
होनेपर उसकी अव्याकृतता और  
प्रसवत्रीजरूपता वैसी ही है । अतः  
[ अव्याकृत और सुषुप्ति ] इन दोनों

\* क्योंकि सोये हुए पुरुषके पास बैठे हुए लोगोंको वह ऐसा ही दिखायी देता है ।

वयः । परिच्छिन्नाभिमानिना-  
मध्यक्षाणां च तेनैकत्वमिति  
पूर्वोक्तं विशेषणमेकीभूतः प्रज्ञान-  
घन इत्याद्युपपन्नम् । तस्मिन्नुक्त-  
हेतुत्वाच्च ।

कथं प्राणशब्दत्वमव्याकृतस्य ।

“प्राणवन्धनं हि सोम्य मनः”  
(छा० उ० ६।८।२) इति श्रुतेः ।

ननु तत्र “सदेव सोम्य”  
(छा० उ० ६।२।१) इति  
प्रकृतं सद्ब्रह्म प्राणशब्दवाच्यम् ।

नैष दोषः, वीजात्मकत्वाभ्यु-  
पगमात्सतः । यद्यपि  
सद्ब्रह्म प्राणशब्दवाच्यं  
तत्र तथापि जीवप्रसव-  
वीजात्मकत्वमपरित्य-  
ज्यैव प्राणशब्दत्वं सतः सच्छब्द-  
वाच्यता च । यदि हि निर्वीजरूपं  
विवक्षितं ब्रह्माभविष्यत् “नेति

अवस्थाओंका साक्षी भी अव्याकृत  
अवस्थामें रहनेवाला एक ही [ चेतन  
आत्मा ] है । परिच्छिन्न देहोंके  
अभिमानी और उनके साक्षियोंकी  
उसके साथ एकता है; अतः [ प्राज्ञके  
लिये ] ‘एकीभूतः प्रज्ञानघनः’ आदि  
पूर्वोक्त विशेषण उचित ही है;  
विशेषतः इसलिये भी, क्योंकि इसमें  
[ अधिदैव, अव्याकृत और अध्यात्म  
प्राज्ञकी एकतारूप ] उपर्युक्त हेतु  
भी विद्यमान है ।

शङ्का—किन्तु अव्याकृत ‘प्राण’  
शब्दवाच्य कैसे हुआ ?

समाधान—“हे सोम्य ! मन  
प्राणके ही अधीन है” इस श्रुतिके  
अनुसार ।

शङ्का—किन्तु वहाँ तो “सदेव  
सोम्य” इस श्रुतिके अनुसार प्रसङ्ग-  
प्राप्त सद्ब्रह्म ही ‘प्राण’ शब्दका  
वाच्य है ।

समाधान—वहाँ यह दोष नहीं  
हो सकता, क्योंकि [ उस प्रसङ्गमें ]  
सद्ब्रह्मकी वीजात्मकता स्वीकार की  
है । यद्यपि वहाँ ‘प्राण’ शब्दका  
वाच्य सद्ब्रह्म है तथापि जीवोंकी  
उत्पत्तिकी वीजात्मकताका त्याग  
न करते हुए ही उस सद्ब्रह्ममें  
प्राणशब्दत्व और ‘सत्’ शब्दका  
वाच्यत्व माना गया है ! यदि वहाँ

नेति" ( वृ० उ० ४।४।२।२,  
४।५।१५ ) "यतो वाचो  
निवर्तन्ते" ( तै० उ० २।९ )  
"अन्यदेव तद्विदितादथो अवि-  
दितात्" ( के० उ० १।३ )  
इत्यवक्ष्यत "न सत्तन्नासदुच्यते"  
( गीता १३।१२ ) इति स्मृतेः ।

निर्वीजतयैव चेत्सति लीनानां

सुप्तप्रलययोः पुनरुत्थानानु-  
पपत्तिः स्यात् । मुक्तानां च  
पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गः, बीजाभावा-  
विशेषात् । ज्ञानदाह्यबीजाभावे च  
ज्ञानानर्थक्यप्रसङ्गः । तस्मात्सबीज-  
त्वाभ्युपगमेनैव सतः प्राणत्व-  
व्यपदेशः सर्वश्रुतिषु च कारणत्व-  
व्यपदेशः ।

'सत्' शब्दमे निर्बीजब्रह्म कहना  
इष्ट हो तो उसे "यह नहीं है,  
यह नहीं है" "जहाँसे वाणी लौट  
आती है" "यह विदितसे अन्य है  
और अविदितसे भी ऊपर है"  
इत्यादि प्रकारसे कहा जायगा, जैसा  
कि "यह न सत् कहा जाता है और  
न असत्" इस स्मृतिसे भी सिद्ध  
होता है ।

और यदि वहाँ [ 'सत्'  
शब्दसे ] ब्रह्मका निर्बीजरूपसे  
ही निर्देश करना इष्ट हो तो सुषुप्ति  
और प्रलय ( मरण ) अवस्थामें सत्में  
लीन हुए पुरुषोंका फिर उठना [ अर्थात्  
उत्पन्न होना ] सम्भव नहीं होगा तथा  
मुक्त पुरुषोंके पुन उत्पन्न होनेका  
प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा, \*क्योंकि  
[ मुक्त और सत्में लीन हुए पुरुषोंमें ]  
बीजका अभाव समान ही है ।  
तथा ज्ञानसे दग्ध होनेवाले बीजका  
अभाव होनेपर ज्ञानकी व्यर्थताका  
भी प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । अतः  
सद्ब्रह्मकी सबीजता स्वीकार करके  
ही उसका प्राणरूपसे समस्त श्रुतियोंमें  
कारणरूपसे उल्लेख किया गया है ।

\* क्योंकि निर्बीज ब्रह्ममें लीन हुए मुक्तोंका पुनर्जन्म माना नहीं गया  
और यदि उस अवस्थामें भी पुनर्जन्म स्वीकार किया जाय तो मुक्ति हो जानेके बाद  
भी पुनर्जन्म मानना पड़ेगा ।



अत एव “अक्षरात्परतः परः”  
 ( मु० उ० २ । १ । २ ) ।  
 “सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” ( मु०  
 उ० २ । १ । २ ) । “यतो  
 वाचो निवर्तन्ते” ( तै० उ० २ ।  
 ९ ) । “नेति नेति” ( वृ० उ०  
 ४ । ४ । २२ ) इत्यादिना वीज-  
 वत्त्वापनयनेन व्यपदेशः ।  
 तामवीजावस्थां तस्यैव प्राज्ञशब्द-  
 वाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादिसंबन्ध-  
 जाग्रदादिरहितां पारमार्थिकीं  
 पृथग्बुध्यति । वीजावस्थापि न  
 किञ्चिद्वेदिषमित्युत्थितस्य  
 प्रत्ययदर्शनाद्देहेऽनुभूयत एवेति  
 त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते ॥ २ ॥

इसीलिये “वह पर अक्षरसे भी  
 पर है” “वह ब्राह्म ( कार्य ) और  
 अभ्यन्तर’ ( कारण ) के सहित  
 [ उनका अधिष्ठान होनेके कारण ]  
 अजन्मा है” “जहाँसे वाणी लौट  
 आती है” “यह नहीं है यह नहीं  
 है” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा शुद्ध ब्रह्मका  
 निर्देश वीजवत्त्वका निरास करके  
 ही किया गया है । उस ‘प्राज्ञ’  
 शब्दवाच्य जीवकी, देहादिसंबन्ध  
 तथा जाग्रत् आदि अवस्थासे रहित,  
 उस पारमार्थिकी अवीजावस्थाका  
 तुरीयरूपसे अलग वर्णन करेंगे ।  
 वीजावस्थामें भी जाग्रत् होनेपर ‘मुझे  
 कुछ भी पता नहीं रहा’ ऐसी प्रतीति  
 देखनेसे शरीरमें अनुभव होता ही  
 है । इसीसे ‘वह देहमें तीन प्रकारसे  
 स्थित है’ ऐसा कहा गया है ॥ २ ॥

विश्वादिका त्रिविध भोग

विश्वो हि स्थूलभुङ् नित्यं तैजसः प्रविविक्तमुक् ।

आनन्दमुक्तथा प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निबोधत ॥ ३ ॥

विश्व सर्वदा स्थूल पदार्थोंको ही भोगनेवाला है, तैजस सूक्ष्म पदार्थों-  
 का भोक्ता है तथा प्राज्ञ आनन्दको भोगनेवाला है; इस प्रकार इनका  
 तीन तरहका भोग जानो ॥ ३ ॥

स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसम् ।

आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिं निबोधत ॥ ३ ॥

स्थूल पदार्थ विश्वको तृप्त करता हैं, सूक्ष्म तैजसकी तृप्ति करने-  
वाला है तथा आनन्द प्राज्ञकी, इस प्रकार इनकी तृप्ति भी तीन तरहकी  
समझो ॥ ४ ॥

उक्तार्थो श्लोकौ ॥ ३-४ ॥ | इन दोनों श्लोकोंका अर्थ कहा  
जा चुका है ॥ ३-४ ॥

त्रिविध भोक्ता और भोग्यके ज्ञानका फल

त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः ।

वेदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते ॥ ५ ॥

[ जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति—इन ] तीनों स्थानोंमें जो भोग्य और  
भोक्ता बतलाये गये हैं— इन दोनोंको जो जानता है, वह [ भोग्यको ]  
भोगते हुए भी उनसे उल्लिखित नहीं होता ॥ ५ ॥

<p>त्रिषु धामसु जाग्रदादिषु स्थूलप्रविविक्तानन्दार्यं भोज्य- मेकं त्रिधाभूतम् । यश्च विश्व- तैजसप्राज्ञार्यो भोक्तैकः सोऽह- मित्येकत्वेन प्रतिसन्धानाद्द्रष्टृ- त्वाविशेषाच्च प्रकीर्तितः; यो वेदै- तदुभयं भोज्यभोक्तृतयानेरुधा मिन्नं स भुञ्जानो न लिप्यते; भोज्यस्य सर्वस्यैकस्य भोक्तु- र्भोज्यत्वात् । न हि यस्य यो विषयः</p>	<p>जाग्रत् आदि तीन स्थानोंमें जो स्थूल, सूक्ष्म और आनन्दसङ्गत् तीन भेदोंमें बँटा हुआ एक ही भोज्य है और 'यह मैं हूँ' इस प्रकार एकरूपसे अनुसन्धान क्रिये जाने तथा द्रष्टृत्वमें कोई विशेषता न होनेके कारण विश्व, तैजस और प्राज्ञनामक जो एक ही भोक्ता बतलाया गया है— इस प्रकार भोज्य और भोक्तेरूपसे अनेक प्रकार विभिन्न हुए इन दोनों ( भोक्ता और भोग्यको जो जानता है वह भोगता हुआ भी उल्लिखित नहीं होता, क्योंकि समस्त भोज्य एक ही भोक्ताका भोग है । जैसे अग्नि अपने त्रिपय काष्ठादिको जलाकर [ न्यूना- धिक नहीं होता । अपने स्वरूपमें</p>
---	--

स तेन हीयते वर्धते वा; न  
ह्यग्निः स्वविषयं दग्ध्वा काष्ठादि  
तद्वत् ॥ ५ ॥

सदा समान रहता है ] उसी प्रकार  
जिसका जो विषय होता है वह उस  
विषयके कारण हास अथवा वृद्धिको  
प्राप्त नहीं होता ॥ ५ ॥

. प्राण ही सबकी सृष्टि करता है

प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः ।

सर्वं जनयति प्राणश्चेतोऽशूनूपुरुषः पृथक् ॥ ६ ॥

यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं  
सबकी उत्पत्ति हुआ करती है । बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति  
करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्यके आभासभूत जीवोंको अलग-  
अलग प्रकट करता है ॥ ६ ॥

सतां विद्यमानानां स्वेनाविद्या-  
कृतनामरूपमायास्वरूपेण सर्व-  
भावानां विश्वतैजसप्राज्ञभेदानां  
प्रभव उत्पत्तिः । वक्ष्यति च—  
“वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया  
वापि जायते” इति । यदि  
ह्यसतामेव जन्म स्याद्ब्रह्मणो-  
ऽव्यवहार्यस्य ग्रहणद्वाराभावाद-  
सत्त्वप्रसङ्गः । दृष्टं च रज्जुसर्पादी-  
नामविद्याकृतमायाबीजोत्पन्नानां  
रज्ज्वाद्यात्मना सत्त्वम् । न हि  
निरास्पदा रज्जुसर्पमृगवृष्णि-  
कादयः क्वचिदुपलभ्यन्ते

सत् अर्थात् अपने अविद्याकृत  
नामरूपात्मक मायिक स्वरूपसे  
विद्यमान विश्व, तैजस और प्राज्ञ  
भेदवाले सम्पूर्ण पदार्थोंकी उत्पत्ति  
हुआ करती है । आगे (प्रक० ३ का०  
२८ में) यह कहेंगे भी कि “वन्ध्यापुत्र  
न तो वस्तुतः और न मायासे ही उत्पन्न  
होता है ।” यदि असत् ( स्वरूपसे  
अविद्यमान ) पदार्थोंकी ही उत्पत्ति  
हुआ करती तो अव्यवहार्य ग्रहणको  
ग्रहण करनेका कोई मार्ग न रहनेसे  
उसकी असत्ताका प्रसङ्ग उपस्थित  
हो जाता । अविद्याकृत मायामय  
बीजसे उत्पन्न हुए रज्जुसर्पादिकी भी  
रज्जु आदिरूपसे सत्ता देखी गयी है

केनचित् । यथा रज्ज्वां प्राक्सर्पोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्पः सन्नेवासीत्, एवं सर्वमावा-  
नामुत्पत्तेः प्राक्प्राणबीजात्मनैव सत्त्वम् । इत्यतः श्रुतिरपि वक्ति-  
“ब्रह्मैवेदम्” (मु० उ० २।२।११)  
“आत्मैवेदमग्र आसीत्” (बृ० उ०  
१।४।१) इति ।

सर्वं जनयति प्राणश्चेतो-  
ऽग्रंशुभ्र इव रवेधिदात्मरस्य  
पुरुषस्य चेतोरूपा जलार्कसमाः  
प्राज्ञतैजसविश्वमेदेन देवतिर्य-  
गादिदेहभेदेषु विभाव्यमाना-  
श्चेतोऽश्वोघेतान्पुरुषः पृथग्विपय-  
मात्रविलक्षणानग्निविस्फुलिङ्गचत्  
सलक्षणाञ्जलार्कवच्च जीवलक्षणां-  
स्त्वितरान् सर्वमामान् प्राणो  
बीजात्मा जनयति “यथोर्ण-  
नामिः” (मु० उ० १।१।७) “यथा-  
ग्रेः क्षुद्रानिस्फुलिङ्गाः” (बृ० उ०  
२।१।२०) इत्यादिश्रुतेः ॥६॥

किसी भी पुरुषने निराश्रय रज्जुसर्प  
अथवा मृगतृष्णा आदि कभी नहीं  
देखे । जिस प्रकार सर्पकी उत्पत्तिसे  
पूर्व यह रज्जुमें रज्जुरूपसे सत् ही  
या उसी प्रकार समस्त पदार्थ अपनी  
उत्पत्तिसे पूर्व प्राणात्मक बीजरूपसे  
सत् ही थे । इसीसे श्रुति भी कहती  
है—“यह ब्रह्म ही है” “पहले यह  
आत्मा ही था” इत्यादि ।

सब पदार्थोंको [ बीजरूप ] प्राण  
ही उत्पन्न करता है । तथा जो  
जलमें प्रतिबिम्बित सूर्यके समान  
देव, मनुष्य और तिर्यगादि विभिन्न  
शरीरोंमें प्राज्ञ, तैजस एव निम्नरूपसे  
भासमान चिदात्मक पुरुषके  
किरणरूप चिदाभास हैं, उन  
विषयभाससे विलक्षण तथा अग्निकी  
चिनगारी और जलमें प्रतिबिम्बित  
सूर्यके समान सजातीय जीवोंको  
पुरुष अलग ही उत्पन्न करता है ।  
उनके सिवा अन्य समस्त पदार्थों-  
को बीजात्मक प्राण उत्पन्न करता है,  
जैसा कि “जिस प्रकार मरुडी  
[ जाल बनाती है ]” तथा “जैसे  
अग्निसे छोटी-छोटी चिनगारियाँ  
निकलती हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे  
सिद्ध होता है ॥ ६ ॥

सृष्टिके विषयमें भिन्न-भिन्न विकल्प

विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः ।

स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता ॥ ७ ॥

सृष्टिके विषयमें विचार करनेवाले दूसरे लोग भगवान्की विभूतिको ही जगत्की उत्पत्ति मानते हैं तथा दूसरे लोगोंद्वारा यह सृष्टि स्वप्न और मायाके समान मानी गयी है ॥ ७ ॥

विभूतिर्विस्तार ईश्वरस्य सृष्टि-

रिति सृष्टिचिन्तका मन्यन्ते न

तु परमार्थचिन्तकानां सृष्टावादे

इत्यर्थः । “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप

ईयते” ( वृ० उ० २।५।१९ )

इति श्रुतेः । न हि मायाविनं

सूत्रमाकाशे निक्षिप्य तेन

सायुधमारुह्य चक्षुर्गोचरतामतीत्य

युद्धेन खण्डशश्छिन्नं पतितं

पुनरुत्थितं च पश्यतां तत्कृत-

मायादिसतत्त्वचिन्तायामादरो

भवति । तथैवायं मायाविनः सूत्र-

प्रसारणसमः सुषुप्तस्वप्नादिविका-

सस्तदारूढमायाविसमश्च तत्स्थः

यह सृष्टि ईश्वरकी विभूति यानी उसका विस्तार है—ऐसा सृष्टिके विषयमें विचार करनेवाले लोग मानते हैं । तात्पर्य यह है कि परमार्थ-चिन्तन करनेवालोंका सृष्टिके विषयमें आदर नहीं होता; जैसा कि “इन्द्र- ( परमात्मा ) मायासे अनेक रूपवाला हो जाता है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है, [ केवल बहिर्मुख पुरुष ही उसकी उत्पत्तिके विषयमें तरह-तरहकी कल्पना किया करते हैं ] । आकाशमें सूत फेंककर उसपर शखोंसहित आरूढ़ हो नेत्रेन्द्रियकी पहुँचसे परे जाकर युद्धके द्वारा अनेकों टुकड़ोंमें विभक्त होकर गिरे हुए मायावीको पुनः उठता देखने-वाले पुरुषोंको उसकी रची हुई माया आदिके स्वरूपके चिन्तनमें आदर नहीं होता । उस मायावीके सूत्र-विस्तारके समान ही ये सुषुप्ति एवं स्वप्नादिके विकास हैं; तथा उस ( सूत्र ) पर चढ़े हुए मायावीके समान ही उन ( सुषुप्ति आदि

प्राज्ञतैजसादिः । सूत्रतदारूढाभ्या-  
मन्यः परमार्थमायावी स एव  
भूमिष्ठो मायाच्छन्नोऽदृश्यमान एव  
स्थितो यथा तथा तुरीयाख्यं  
परमार्थतत्त्वम् । अतस्तच्चिन्ताया-  
मेवादरो मुमुक्षूणामार्याणां न  
निष्प्रयोजनायां सृष्टावादर इत्यतः  
सृष्टिचिन्तकानामेवैते विकल्पा  
इत्याह—स्वप्नमायासरूपेति ।  
स्वप्नरूपा मायासरूपा चेति ॥७॥

अपत्याओं ) में स्थित प्राज्ञ एव  
तैजस आदि हैं । किन्तु वास्तविक  
मायावी तो सूत्र और उसपर चढ़े  
हुए मायावीसे भिन्न है और वही  
जैसे मायासे आच्छादित रहनेके  
कारण दिखलायी न देता हुआ ही  
पृथिवीपर स्थित रहता है वैसे ही  
तुरीयसज्ञक परमार्थ तत्त्व भी है ।  
अन मोक्षकामी आर्य पुरुषोंका उन्मी-  
के चिन्तनमें आदर होता है ।  
प्रयोजनहीन सृष्टिमें उनका आदर  
नहीं होता । अतः ये सब विकल्प  
सृष्टिका चिन्तन करनेवालोंके ही  
हैं, इसीसे कहा है—‘स्वप्नमायासरूपा  
इति’ अर्थात् [ दूसरे इसे ] स्वप्नरूपा  
और मायारूपा [ बतलाते हैं ] ॥७॥

इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः ।

कालात्प्रसूति भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥ ८ ॥

कोई-कोई सृष्टिके विषयमें ऐसा निश्चय रखते हैं कि ‘प्रभुकी इच्छा  
ही सृष्टि है ।’ तथा कालके विषयमें विचार करनेवाले [ ज्योतिषी लोग ]  
कालमें ही जीवोंकी उत्पत्ति मानते हैं ॥ ८ ॥

इच्छामात्रं प्रभोः सत्यसंकल्प-  
न्वात्सृष्टिर्घटादिः संकल्पनामात्रं  
न संकल्पनातिरिक्तम् । कालादेव  
सृष्टिरिति केचित् ॥ ८ ॥

भगवान् सत्यसंकल्प हैं, अन  
घटादिकी सृष्टि प्रभुका संकल्पमात्र  
है—उनके संकल्पसे भिन्न नहीं है ।  
तथा कोई-कोई ‘सृष्टि कालहीसे हुई  
है’ ऐसा कहते हैं ॥ ८ ॥

भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे ।

देवस्यैष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा ॥ ९ ॥

कुछ लोग 'सृष्टि भोगके लिये है' ऐसा मानते हैं और कुछ 'क्रीडाके लिये है' ऐसा समझते हैं । [ परन्तु वास्तवमें तो ] यह भगवान्‌का स्वभाव ही है; क्योंकि पूर्णकामको इच्छा ही क्या हो सकती है ? ॥ ९ ॥

भोगार्थं क्रीडार्थमिति चान्ये  
सृष्टिं मन्यन्ते । अनयोः पक्षयो-  
र्दूषणं देवस्यैष स्वभावोऽयमिति  
देवस्य स्वभावपक्षमाश्रित्य, सर्वेषां  
वा पक्षाणामाप्तकामस्य का स्पृहेति ।  
न हि रज्ज्वादीनामविद्यास्वभाव-  
व्यतिरेकेण सर्पाद्याभासत्वे  
कारणं शक्यं वक्तुम् ॥ ९ ॥

दूसरे लोग सृष्टिको 'यह भोगार्थ  
अथवा क्रीडार्थ है'—ऐसा मानते हैं ।  
'देवस्यैष स्वभावोऽयम्' इस वाक्यसे  
देवके स्वभावपक्षका आश्रय लेकर  
इन दोनों पक्षोंको दोषयुक्त बतलाते  
हैं । अथवा 'आप्तकामस्य का स्पृहा'  
यह चौथा पाद सभी पक्षोंको दोष-  
युक्त बतलानेवाला है; क्योंकि  
अविद्यारूप अपने स्वभावके बिना  
रज्जु आदिका सर्पादिकी अभिव्यक्ति-  
में कारणत्व नहीं बतलाया जा  
सकता ॥ ९ ॥

### चतुर्थ पादका विवरण

चतुर्थः पादः क्रमप्राप्तो वक्तव्य  
इत्याह—नान्तःप्रज्ञमित्यादिना ।  
सर्वशब्दप्रवृत्तिनिमित्तशून्यत्वा-  
त्तस्य शब्दानभिधेयत्वमिति

अब क्रमसे प्राप्त हुआ चौथा  
पाद भी बतलाना है, अतः यही  
वात 'नान्तःप्रज्ञम्' इत्यादि मन्त्रसे  
कहते हैं । वह ( चौथा पाद )  
सम्पूर्ण शब्दप्रवृत्तिके निमित्तसे रहित  
है, अतः शब्दसे उसका वर्णन नहीं  
किया जा सकता । इसलिये श्रुति  
[अन्तःप्रज्ञत्व आदि ] विशेष भावका

विशेषप्रतिषेधेनैव च तुरीयं  
निर्दिदिक्षति ।

शून्यमेव तर्हि तत् ।

न; मिथ्याविकल्पस्य  
निर्निमित्तत्वानुपपत्तेः । न हि  
रजतसर्पपुरुषमृगतृष्णिकादिवि-  
कल्पाःशुक्तिकारज्जुस्थाणूपरादि-  
व्यतिरेकेणावस्त्रास्पदाः शक्याः  
कल्पयितुम् ।

एवं तर्हि प्राणादि सर्वविकल्पा-  
स्पदत्वात्तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वम्  
इति न प्रतिषेधैः प्रत्याख्यत्वम् ।  
उदकाधारादेरिव घटादेः ।

न; प्राणादिविकल्पस्यासच्चा-  
च्छुक्तिकादिष्विव रजतादेः ।  
न हि सदसतोः सम्बन्धः शब्द-  
प्रवृत्तिनिमित्तभागवस्तुत्वात् ।  
नापि प्रमाणान्तरनिषयत्वं स्वरूपेण  
गवादिवत्; आत्मनो निरुपाधि-  
कत्वात् । गवादिवन्नापि जाति-

प्रतिषेध करके ही उस तुरीयका  
निर्देश करनेमें प्रवृत्त होती है ।

पूर्व०—तब तो वह शून्यरूप ही  
हुआ ।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि मिथ्या  
विकल्पका बिना किसी निमित्तके  
होना सम्भव नहीं है । चाँदी, सर्प,  
पुरुष और मृगतृष्णा आदि विकल्प  
[ क्रमशः ] सीपी, रस्ती, टूँठ और  
ऊसर आदिके बिना निराश्रय ही  
कल्पना नहीं किये जा सकते ।

पूर्व०—यदि ऐसी बात है तब  
तो प्राणादि सम्पूर्ण विकल्पका  
आश्रय होनेके कारण वह तुरीय  
शब्दका वाच्य सिद्ध होता है, जलके  
आधारभूत घट आदिके समान  
[अन्तःप्रज्ञादिके] प्रतिषेधद्वारा उस-  
की प्रतीति नहीं करायी जा सकती ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि शुक्ति आदिमें प्रतीत होने-  
वाली चाँदी आदिके समान प्राणादि  
विकल्प असद्रूप हैं तथा सत् और  
असत्का सम्बन्ध अवस्तुरूप होनेके  
कारण शब्दकी प्रवृत्तिका हेतु नहीं  
हो सकता, और न गौ आदिके  
समान वह स्वरूपमें किसी अन्य  
प्रमाणका ही निषय हो सकता है,  
क्योंकि आत्मा उपाधिरहित है ।  
इसी प्रकार अद्वितीयरूप होनेके



मत्त्वमद्वितीयत्वेन सामान्य-  
विशेषाभावात् । नापि क्रियावत्त्वं  
पाचकादिवदधिक्रियत्वात् ।  
नापि गुणवत्त्वं नीलादिव-  
न्निर्गुणत्वात् । अतो नाभिधानेन  
निर्देशमर्हति ।

शशविपाणादिसमत्वान्निरर्थ-  
कत्वं तर्हि ।

न; आत्मत्वावगमे तुरीय-

स्यानात्मतृष्णाव्या-  
वृत्तिहेतुत्वाच्छुक्ति-  
कावगम इव रजत-  
तृष्णायाः । न हि तुरीयस्यात्म-  
त्वावगमे सत्यविद्यातृष्णादिदो-  
षाणां सम्भवोऽस्ति । न च तुरीयस्या-  
त्मत्वानवगमे कारणमस्ति; सर्वो-  
पनिषदां तादर्थ्येनोपक्षयात् ।  
“तत्त्वमसि” (छा० उ० ६।८।१६)  
“अयमात्मा ब्रह्म” (वृ० उ० २।  
५।१९) “तत्सत्यं स  
आत्मा” (छा० उ० ६।८।१६)  
“यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म” ( वृ०  
उ० ३।४।१) “सचाद्या-  
भ्यन्तरो ह्यजः” ( मु० उ० २।

कारण सामान्य अथवा विशेष भाव-  
का अभाव होनेसे उसमें गौ आदिके  
समान जातिमत्त्व भी नहीं है । और  
न अविकारी होनेके कारण उसमें  
पाचकादिके समान क्रियावत्त्व तथा  
निर्गुण होनेके कारण नीलता आदि-  
के समान गुणवत्त्व ही है । इसलिये  
उसका किसी भी नामसे निर्देश  
नहीं किया जा सकता ।

पूर्व०—तव तो शशशृङ्गादिके  
समान [ असद्रूप होनेके कारण ]  
उसकी निरर्थकता ही सिद्ध होती है ।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि शुक्तिका  
ज्ञान होनेपर जिस प्रकार [ उस-  
में आरोपित ] चाँदीकी तृष्णा नष्ट  
हो जाती है उसी प्रकार तुरीय हमारा  
आत्मा है—ऐसा ज्ञान होनेपर वह  
अनात्मसम्बन्धिनी तृष्णाको निवृत्त  
करनेका कारण होता है । तुरीयको  
अपना आत्मा जान लेनेपर अविद्या एवं  
तृष्णादि दोषोंकी सम्भावना नहीं  
रहती । और तुरीयको अपने आत्म-  
स्वरूपसे न जाननेका कोई कारण भी  
नहीं है, क्योंकि “तत्त्वमसि” “अय-  
मात्मा ब्रह्म” “तत्सत्यं स आत्मा”  
“यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म” “स-

१ । २ ) । “आत्मैवेदः सर्वम्”  
( छा० उ० ७ । २५ । २ )  
इत्यादीनाम् ।

सोऽयमात्मा परमार्थापरमार्थ-  
रूपश्चतुष्पादित्युक्तस्तस्यापरमार्थ-  
रूपमविद्याकृतं रज्जुसर्पादि-  
सममुक्तं पादत्रयलक्षणं बीजाङ्क-  
कुरस्थानीयम् । अधेदानीम-  
बीजात्मकं परमार्थस्वरूपं रज्जु-  
स्थानीयं सर्पादिस्थानीयोक्तस्थान-  
त्रयनिराकरणेनाह—नान्तःप्रज्ञ-  
मित्यादि ।

बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” “आत्मैवेदः  
सर्वम्” इत्यादि समस्त उपनिषद्वाक्यों-  
का पर्यवसान इसी अर्थमें हुआ है ।  
वह यह आत्मा परमार्थ और  
अपरमार्थरूपसे चार पादवाला है—  
ऐसा कहा है । उसका बीजाङ्कुर-  
स्थानीय पादत्रयस्वरूप अपरमार्थ-  
रूप रज्जुसर्पादिके समान अविद्या-  
जनित कहा गया है । अब सर्पादि-  
स्थानीय उक्त तीनों पादोंका निरा-  
करण कर ‘नान्तःप्रज्ञम्’ इत्यादि  
रूपसे उसके रज्जुस्थानीय  
अबीजात्मक परमार्थस्वरूपका वर्णन  
करते हैं—

तुरीयका स्वरूप

नान्तःप्रज्ञं न वहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञान-  
घनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् । अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यम-  
लक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चो-  
पशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा  
स विज्ञेयः ॥ ७ ॥

त्रिवेर्जाजन तुरीयको ऐसा मानते हैं कि वह न अन्तःप्रज्ञ है, न  
बहिष्प्रज्ञ है, न उभयतः ( अन्तर्वहि ) प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न  
प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ है । वन्कि अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण,  
अचिन्त्य, अव्यपदेश्य, एकात्मप्रत्ययसार, प्रपञ्चका उपशम, शान्त, शिव  
और अद्वैतरूप हैं । वही आत्मा है और वही साक्षात् जाननेयोग्य है ॥७॥

नन्वात्मनश्चतुष्पात्त्वं प्रतिज्ञाय  
पादत्रयकथनेनैव चतुर्थस्यान्तः-  
प्रज्ञादिभ्योऽन्यत्वे सिद्धे नान्तः-  
प्रज्ञमित्यादिप्रतिषेधोऽनर्थकः ।

न; सर्पादिविकल्पप्रतिषेधेनैव  
आत्मावगतौ रज्जुस्वरूपप्रतिपत्ति-  
अनात्मप्रतिषेध वत्त्र्यवस्थस्यैवात्म-  
एव प्रमाणम् नस्तुरीयत्वेन प्रति-  
पिपादयिषितत्वात्;

“तत्त्वमसि” ( छा० उ० ६ । ८ ।

१६ ) इतिवत् । यदि हि त्र्यव-

स्थात्मविलक्षणं तुरीयमन्यत्तत्प्र-

तिपत्तिद्वाराभावाच्छास्त्रोपदेशा-

नर्थक्यं शून्यतापत्तिर्वा ।

रज्जुरिव सर्पादिभिविकल्प्य-

माना स्थानत्रयेऽप्यात्मैक एवान्तः-

प्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते यदा

तदान्तःप्रज्ञत्वादिप्रतिषेधविज्ञान-

पूर्व०—किन्तु आत्मा चार पादों-  
वाला है—ऐसी प्रतिज्ञाकर उसके  
तीन पादोंका वर्णन कर देनेसे ही  
चौथे पादका अन्तःप्रज्ञादि विशेषणों-  
से भिन्न होना तो सिद्ध ही है; अतः  
यह “नान्तःप्रज्ञम्” इत्यादि प्रतिषेध  
तो व्यर्थ ही है ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है;  
क्योंकि जिस प्रकार सर्पादि विकल्प-  
का प्रतिषेध करनेसे ही रज्जुके  
स्वरूपका ज्ञान हो जाता है उसी  
प्रकार, जैसा कि “तत्त्वमसि” इत्यादि  
वाक्यमें देखा जाता है, यहाँ

[ जाग्रदादि ] तीनों अवस्थाओंमें स्थित  
आत्माका ही तुरीयरूपसे प्रतिपादन  
करना इष्ट है । यदि तुरीय आत्मा  
अवस्थात्रयविशिष्ट आत्मासे सर्वथा  
भिन्न होता तो उसकी उपलब्धिका  
कोई उपाय न रहनेके कारण  
शास्त्रोपदेशकी व्यर्थता अथवा  
शून्यवादकी प्राप्ति हो जाती । जब  
कि सर्पादि ( सर्प, धारा, भूच्छिद्रादि )  
रूपसे विकल्पित रज्जुके समान  
[ जाग्रदादि ] तीनों स्थानोंमें एक ही  
आत्मा अन्तःप्रज्ञादिरूपसे विकल्पित  
हो रहा है तब तो अन्तःप्रज्ञत्वादिके  
प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणकी उत्पत्ति-  
के समकाल ही आत्मामें अनर्थ-

प्रमाणसमकालमेवात्मन्यनर्थप्रपञ्च-  
निवृत्तिलक्षणफलं परिसमाप्तम्,  
इति तुरीयाधिगमे प्रमाणान्तरं  
साधनान्तरं वा न भृग्यम् ।  
रज्जुसर्पविवेकसमकाल इव  
रज्ज्वां सपनिवृत्तिफले सति  
रज्ज्वधिगमस्य ।

येषां पुनस्तमोऽपनयव्यतिरेकेण  
घटाधिगमे प्रमाणं व्याप्रियते  
तेषां छेद्यावयवसम्बन्धवियोग-  
व्यतिरेकेणान्यतरावयवेऽपि-  
च्छिदिव्याप्रियत इत्युक्तं स्यात् ।

यदा पुनर्घटतमसोर्विवेककरणे  
प्रवृत्तं प्रमाणमनुपादित्सततमो-

प्रपञ्चकी निवृत्तिरूप फल सिद्ध हो  
जाता है, अतः तुरीयका साक्षात्कार  
करनेके लिये इसके सिवा किसी  
अन्य प्रमाण अथवा साधनकी खोज  
करनेकी आवश्यकता नहीं है, जैसे  
कि रज्जु और सर्पका विवेक होनेके  
समानकालमें ही रज्जुमें सर्पनिवृत्ति  
रूप फलकी प्राप्ति होते ही रज्जुका  
ज्ञान हो जाता है [ उसी प्रकार यहाँ  
समझना चाहिये ] ।

किन्तु जिनके मतमें घटज्ञानमें  
अन्धकारकी निवृत्तिके सिवा किसी  
और कार्यमें भी प्रमाणकी प्रवृत्ति  
होनी है उनका तो मानो ऐसा कथन  
है कि छेद्य पदार्थोंके अवयवोंका  
सम्बन्धविच्छेद करनेके अतिरिक्त भी  
छेदनक्रियाका वस्तुके किसी एक  
अवयवमें कोई व्यापार होता है ।\*  
छेद्य अवयवोंका सम्बन्धच्छेद  
करनेमें प्रवृत्त छेदनक्रिया जिस

\* तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अन्धकारमें रहते हुए घटका ज्ञान  
प्राप्त करनेके लिये अन्धकारकी निवृत्तिमात्र ही आवश्यक है, अन्य किसी  
क्रियाकी अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उसमें  
आरोपित अन्तःप्रशुत्तादिका निषेध ही कर्तव्य है । जो लोग घटज्ञानमें अन्धकार  
निवृत्तिके सिवा उसके उत्पादक प्रमाणका कोई और व्यापार भी स्वीकार करते  
हैं वे मानो ऐसा करते हैं कि छेदनक्रिया छेद्यपदार्थके अवयवोंका सम्बन्धच्छेद  
करनेके सिवा उसके किसी भी अवयवमें कोई अन्य कार्य भी कर देती है । परन्तु  
यह बात सर्वसम्मत है कि छेदनक्रियाका अवयवविद्वलेपणके सिवा कोई अन्य  
व्यापार नहीं होता । इसीलिये उनका कथन माननीय नहीं है ।

१ यदि प्रमाण अज्ञानका ही निवर्तक है तो विषयके स्फुरण होनेका तो

निवृत्तिफलावसानं छिदिरिव-  
च्छेद्यावयवसम्बन्धविवेककरणे  
प्रवृत्ता तदवयवद्वैधीभावफला-  
वसाना तदा नान्तरीयकं घट-  
विज्ञानं न तत्प्रमाणफलम् ।

न च तद्दृष्ट्यात्मन्यध्यारो-  
पितान्तःप्रज्ञत्वादिविवेककरणे  
प्रवृत्तस्य प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणस्य  
अनुपादित्सितान्तःप्रज्ञत्वादिनि-  
वृत्तिव्यतिरेकेण तुरीये व्यापारो-  
पपत्तिः । अन्तःप्रज्ञत्वादिनि-  
वृत्तिसमकालमेव प्रमावृत्वादि-  
भेदनिवृत्तेः; तथा च वक्ष्यति—  
“ज्ञाते द्वैतं न विद्यते” ( माण्डू०  
का० १ । १८ ) इति । ज्ञानस्य  
द्वैतनिवृत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा-

प्रकार उसके अवयवोंके विभक्त  
हो जानेमें समाप्त होनेवाली  
है उसी प्रकार जब कि घट  
और अन्धकारका पार्यक्य करनेमें  
प्रवृत्त प्रमाण अनिष्ट अन्धकारकी  
निवृत्तिरूप फलमें ही समाप्त हो जाने-  
वाला है तब घटज्ञान तो अवश्यम्भावी  
है, वह प्रमाणका फल नहीं है ।

उसीके समान आत्मामें आरोपित  
अन्तःप्रज्ञत्वादिके विवेक करनेमें  
प्रवृत्त प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणका,  
अनुपादित्सित ( जिसका स्वीकार  
करना इष्ट नहीं है उस) अन्तःप्रज्ञत्वादि-  
की निवृत्तिके सिवा तुरीय आत्मामें  
कोई अन्य व्यापार होना सम्भव  
नहीं है; क्योंकि अन्तःप्रज्ञत्वादिकी  
निवृत्तिके समकालमें ही प्रमावृत्वादि  
भेदकी निवृत्ति हो जाती है । ऐसा  
ही “ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं  
रहता” इत्यादि वाक्यद्वारा आगे कहेंगे  
भी; क्योंकि वृत्तिज्ञानकी भी स्थिति  
द्वैतनिवृत्तिके क्षणके सिवा दूसरे  
क्षणमें नहीं रहती; और यदि स्थिति  
मानी जाय तो अनवस्थाका प्रसङ्ग\*

कोई कारण दिखायी नहीं देता; अतः विषयज्ञान होना ही नहीं चाहिये—  
ऐसी आशङ्का करके आगेकी बात कहते हैं ।

\* अद्वैत बोधके लिये जिन-जिन प्रमाणोंका आश्रय लिया जाता है वे  
सब द्वैतप्रपञ्चके ही अन्तर्गत हैं । निखिलद्वैतकी निवृत्ति करनेवाला वृत्तिज्ञान भी  
वृत्तिरूप होनेके कारण द्वैतके ही अन्तर्गत है । यदि वह सम्पूर्ण द्वैतकी निवृत्ति  
करके भी बना रहे तो उसकी निवृत्तिके लिये किसी अन्य वृत्तिकी अपेक्षा होगी

न्तरानवस्थानात् । अवस्थाने  
चानवस्थाप्रसङ्गाद् द्वैतानिवृत्तिः ।  
तस्मात्प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणव्यापा-  
रसमकालैवात्मन्यध्यारोपितान्तः-  
प्रज्ञत्वाद्यनर्थनिवृत्तिरिति सिद्धम् ।

नान्तःप्रज्ञमिति तैजसप्रतिषेधः ।  
न बहिष्प्रज्ञमिति विश्वप्रतिषेधः ।  
नोभयतःप्रज्ञमिति जाग्रत्स्वमयो-  
न्तरालावस्थाप्रतिषेधः । न  
प्रज्ञानघनमिति सुषुप्तावस्थाप्रति-  
षेधः । बीजभावाविवेकरूपत्वात् ।  
न प्रज्ञमिति युगपत्सर्वविषयप्रज्ञा-  
वृत्त्वप्रतिषेधः । नाप्रज्ञमित्य-  
चैतन्यप्रतिषेधः ।

कथं पुनरन्तःप्रज्ञत्वादीना-

मात्मनि गम्यमानानां रज्ज्वादी

उपस्थित हो जानेसे द्वैतकी निवृत्ति  
ही नहीं होगी । अतः यह सिद्ध  
हुआ कि प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणके  
प्रवृत्त होनेके समकालमें ही आत्मामें  
आरोपित अन्तःप्रज्ञत्वादि अनर्थकी  
निवृत्ति हो जाती है ।

‘अन्तःप्रज्ञ नहीं है’ ऐसा कहकर  
तैजसका प्रतिषेध किया है, ‘बहि-  
ष्प्रज्ञ नहीं है’ इसमें विश्वका निषेध  
किया है, ‘उभयतःप्रज्ञ नहीं है’  
इस वाक्यसे जाग्रत् और स्वप्नके  
बीचकी अवस्थाका प्रतिषेध किया है,  
‘प्रज्ञानघन नहीं है’ इससे सुषुप्तिका  
प्रतिषेध हुआ है, क्योंकि वह बीज-  
भासमय अविभक्तस्वरूपा है, ‘प्रज्ञ  
नहीं है’ इससे एक साथ सब  
विषयोंके ज्ञातृत्वका प्रतिषेध किया है,  
तथा ‘अप्रज्ञ नहीं है’ इससे  
अचेतनताका निषेध किया है ।

किन्तु जब कि अन्तःप्रज्ञत्वादि  
धर्म आत्मामें प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं  
तो केवल प्रतिषेधके ही कारण  
उनका रज्जुमें प्रतीत होनेवाले  
सर्पादिके समान असत्यत्व कैसे सिद्ध

और उसके लिये किसी तीसरीकी । इस प्रकार अनवस्था दोष उपस्थित हो  
जायगा और द्वैतकी निवृत्ति कभी न हो पावेगी । इसलिये निखिलद्वैतकी निवृत्ति  
करनेके उत्तर-क्षणमें ही वृत्तिज्ञान स्वयं भी निवृत्त हो जाता है—यही मत समी-  
चीन है ।

सर्पादिवत्प्रतिषेधादसत्त्वं गम्यत  
इत्युच्यते । ज्ञस्वरूपाविशेषेऽपि  
इतरेतरव्यभिचाराद्रज्ज्वादाविव  
सर्पधारादिविकल्पित भेदवत्  
सर्वत्राव्यभिचाराज्ज्ञस्वरूपस्य  
सत्यत्वम् ।

सुषुप्ते व्यभिचरतीति चेन्न ।  
सुषुप्तस्यानुभूयमानत्वात् । “न  
हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो  
विद्यते” ( वृ० उ० ४।३।३० )  
इति श्रुतेः ।

अत एवादृष्टम् । यस्माददृष्टं  
तस्मादव्यवहार्यम् । अग्राह्यं कर्मे-  
न्द्रियैः । अलक्षणमलिङ्गमित्येतद-  
ननुमेयमित्यर्थः । अत एवा-  
चिन्त्यम् । अत एवाव्यपदेश्यं  
शब्दैः । एकात्मप्रत्ययसारं  
जाग्रदादिस्थानेष्वेकोऽयमात्मेत्य-  
व्यभिचारी यः प्रत्ययस्तेनानु-  
सरणीयम् । अथ वैक आत्मप्रत्ययः  
सारं प्रमाणं यस्य तुरीयस्याधिगमे

हो सकती है ? इसपर कहते हैं—  
रज्जु आदिमें प्रतीत होनेवाले सर्प,  
धारा आदि विकल्पभेदोंके समान  
उनके चित्स्वरूपमें कोई भेद न  
होनेपर भी परस्पर एक-दूसरेका  
व्यभिचार होनेके कारण वे असद्रूप  
हैं । किन्तु चित्स्वरूपका कहीं भी  
व्यभिचार नहीं है; इसलिये वह  
सत्य है ।

यदि कहो कि सुषुप्तिमें उसका  
व्यभिचार होता है तो ऐसा कहना  
भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुषुप्तिका  
भी अनुभव हुआ करता है; जैसा कि  
“विज्ञाताकी विज्ञातिका लोप नहीं  
होता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ।

इसीलिये यह अदृश्य है । और  
क्योंकि अदृश्य है इसलिये अव्यवहार्य  
है तथा कर्मेन्द्रियोंसे अप्राह्य और  
अलक्षण यानी लिङ्गरहित है ।  
तात्पर्य यह है कि उसका अनुमान  
नहीं किया जा सकता । इसीसे वह  
अचिन्त्य है अतएव शब्दोंद्वारा  
अकथनीय है । वह एकात्मप्रत्ययसार  
है अर्थात् जाग्रत् आदि स्थानोंमें  
एक ही आत्मा है—ऐसा जो  
अव्यभिचारी प्रत्यय है उससे  
अनुसरण किये जाने योग्य है ।  
अथवा आत्मा है—इस प्रकार ही

तत्तुरीयमेकात्मप्रत्ययसारम् ।  
 “आत्मेत्येवोपासीत” ( घृ० उ०  
 १ । ४ । ७ ) इति श्रुतेः ।

अन्तःप्रज्ञत्वादिस्थानिधर्म-  
 प्रतिषेधः कृतः । प्रपञ्चोपशममिति  
 जाग्रदादिस्थानधर्माभाव उच्यते ।  
 अत एव शान्तमतिक्रियम्,  
 शिवं यतोऽद्वैतं मेदविकल्प-  
 रहितम् । चतुर्थं तुरीयं मन्यन्ते;  
 प्रतीयमानपादत्रयरूपवैलक्षण्यात् ।  
 स आत्मा स विज्ञेय इति  
 प्रतीयमानसर्पमूच्छिद्रदण्डादिव्य-  
 तिरिक्ता यथा रज्जुस्तथा  
 तत्त्वमसीत्यादिवाक्यार्थ आत्मा  
 “अदृष्टो द्रष्टा” ( घृ० उ० ३ । ७ ।  
 २३ ) “न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो  
 विद्यते” ( घृ० उ० ४ । ३ । २३ )  
 इत्यादिभिरुक्तो यः । स विज्ञेय  
 इति, भूतपूर्वगत्या ज्ञाते  
 द्वैताभावः ॥ ७ ॥

उपासना करे” इस श्रुतिके अनुसार  
 जिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमें  
 एक आत्मप्रत्यय ही सार यानी प्रमाण  
 है वह तुरीय एकात्मप्रत्ययसार है ।  
 अन्तःप्रज्ञत्वादि स्थानियों ( जाग्रत्  
 आदि अवस्थाओंके अभिमानियों )  
 के धर्मोंका प्रतिषेध किया गया,  
 अब ‘प्रपञ्चोपशमम्’ इत्यादिसे  
 जाग्रत् आदि स्थानों ( अवस्थाओं )के  
 धर्मोंका अभाव बतलाया जाता  
 है । इसीलिये वह शान्त यानी  
 अविकारी है और क्योंकि वह अद्वैत  
 अर्थात् भेदरूप विकल्पसे रहित है,  
 इसलिये शिव है । उसे चतुर्थ यानी  
 तुरीय मानते हैं, क्योंकि यह प्रतीत  
 होनेवाले पूर्वोक्त तीन पादोंसे विलक्षण  
 है । वही आत्मा है और वही  
 ज्ञातव्य है । अतः जिस प्रकार रज्जु  
 अपनेमें प्रतीत होनेवाले सर्प, दण्ड  
 और मूच्छिद्र आदिसे सर्वथा भिन्न है  
 उसी प्रकार ‘तत्त्वमसि’ इत्यादि  
 वाक्योंका अर्थस्वरूप आत्मा, जिसका  
 कि “अदृश्य होकर भी देखनेवाला है”  
 “द्रष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं होता”  
 इत्यादि श्रुतियोंने प्रतिपादन किया है,  
 [ अपनेमें अध्यस्त जाग्रदादि अवस्थाओं-  
 से सर्वथा भिन्न है ] । वही ज्ञातव्य है  
 —ऐसा भूतपूर्वगतिसे\* कहा जाता  
 है, क्योंकि उसका ज्ञान होनेपर  
 द्वैतका अभाव हो जाता है ॥ ७ ॥

\* अर्थात् अविद्यावस्थामें आत्मामें जो ज्ञेयत्व मान रखा या उसीका  
 आश्रय लेकर तुरीयको ‘शतव्य’ कहा जाता है । वास्तवमें तो जो अव्यवहार्य और  
 अप्रमेय है उसे शतव्य भी नहीं कहा जा सकता ।



तुरीयका प्रभाव

अत्रैते श्लोका भवन्ति

इसी अर्थमें ये श्लोक हैं—

निवृत्ते सर्वदुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः ।

अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुः स्मृतः ॥ १० ॥

तुरीय आत्मा सब प्रकारके दुःखोंकी निवृत्तिमें ईशान—प्रभु ( समर्थ ) है । वह अविकारी, सब पदार्थोंका अद्वैतरूप देव, तुरीय और व्यापक माना गया है ॥ १० ॥

प्राज्ञतैजसविश्वलक्षणानां  
सर्वदुःखानां निवृत्तेरीशानस्तुरीय  
आत्मा । ईशान इत्यस्य पदस्य  
व्याख्यानं प्रभुरिति । दुःखनिवृत्तिं  
प्रति प्रभुर्भवतीत्यर्थः । तद्विज्ञान-  
निमित्तत्वाद् दुःखनिवृत्तेः ।

अव्ययो न व्येति स्वरूपाच्च  
व्यभिचरतीति यावत् । एतत्कुतः  
यस्मादद्वैतः सर्वभावानां रज्जु-  
सर्पवन्मृपात्वात्स एष देवो  
द्योतनातुरीयश्चतुर्थो विभुर्व्यापी  
स्मृतः ॥ १० ॥

तुरीय आत्मा प्राज्ञ, तैजस और विश्वरूप समस्त दुःखोंकी निवृत्तिमें ईशान है । 'ईशान' इस पदकी व्याख्या 'प्रभु' है । तात्पर्य यह है कि वह दुःखनिवृत्तिमें समर्थ है, क्योंकि उसका विज्ञान दुःखनिवृत्ति-का कारण है ।

अव्यय—जो व्यय ( विकार ) को प्राप्त नहीं होता; अर्थात् जो स्वरूपसे व्यभिचरित यानी च्युत नहीं होता । क्यों च्युत नहीं होता ? क्योंकि वह अद्वैत है । अन्य सब पदार्थ रज्जुमें अध्यस्त सर्पके समान मिथ्या हैं; इसलिये प्रकाशनशील होनेके कारण वह यह देव तुर्य यानी चतुर्थ और विभु यानी व्यापक माना गया है ॥ १० ॥

विश्व और तैजससे तुरीयका भेद

विश्वादीनां सामान्यविशेष- | तुरीयका यथार्थ स्वरूप समझनेके  
भावो निरूप्यते तुर्ययाथात्म्या- | लिये विश्व आदिके सामान्य और  
वधारणार्थम्— | विशेष भावका निरूपण किया  
जाता है—

कार्यकारणवद्भौ ताविप्येते विश्वतैजसौ ।

प्राज्ञः कारणवद्भस्तु द्वौ तौ तुर्ये न सिध्यतः ॥ ११ ॥

विश्व और तैजस—ये दोनों कार्य ( फलवस्था ) और कारण ( बीजावस्था ) से बँधे हुए माने जाते हैं, किन्तु प्राज्ञ केवल कारणावस्था-से ही बद्ध है तथा तुरीयमें तो ये दोनों ही नहीं हैं ॥ ११ ॥

कार्यं क्रियत इतिफलभावः । | जो किया जाय उसे कार्य कहते  
कारणं करोतीति बीजभावः । | है, वह फलभाव है । और जो करता  
तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहणाभ्यां | है उसे कारण कहते हैं; वह बीज-  
बीजफलमात्राभ्यां तौ यथोक्तौ | भाव है । ये उपर्युक्त विश्व और  
विश्वतैजसौ बद्धौ संगृहीताविप्येते । | तैजस तत्त्वके अग्रहण एव अन्यथा-  
प्राज्ञस्तु बीजभावेनैव बद्धः । | ग्रहणरूप बीजभाव और फलभावसे  
तत्त्वाप्रतिबोधमात्रमेव हि बीजं | बँधे अर्थात् सम्पत् प्रकाशसे पकड़े  
प्राज्ञत्वे निमित्तम् । ततो द्वौ तौ | हुए माने जाते हैं । किन्तु प्राज्ञ  
बीजफलभावौ तत्त्वाग्रहणान्यथा- | केवल बीजभावसे ही बँधा हुआ है ।  
ग्रहणे तुर्ये न सिध्यतो न विद्येते | तत्त्वका अप्रतिबोधरूप बीज ही  
न सम्भवत इत्यर्थः ॥ ११ ॥ | उसके प्राज्ञत्वमें कारण है । इससे  
तात्पर्य यह है कि तुरीयमें वे बीज  
और फलभावरूप तत्त्वका अग्रहण  
एवं अन्यथाग्रहण दोनों ही नहीं  
रहते, उनकी तो वहाँ रहनेकी  
सम्भावना ही नहीं है ॥ ११ ॥

## प्राज्ञसे तुरीयका भेद

कथं पुनः कारणवद्वत्त्वं प्राज्ञस्य  
तुरीये वा तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहण-  
लक्षणौ बन्धा न सिध्यत इति ।  
यस्मात्—

किन्तु प्राज्ञकी कारणवद्वत्ता  
किस प्रकार है ? तथा तुरीयमें  
तत्त्वका अग्रहण और अन्यथाग्रहण-  
रूप बन्धन कैसे सिद्ध नहीं होते ?  
इसपर कहते हैं, क्योंकि—

नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चानृतम् ।

प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुर्यं सत्सर्वदृक्सदा ॥ १२ ॥

प्राज्ञ तो न अपनेको, न परायेको और न सत्यको अथवा अनृतको  
ही जानता है किन्तु वह तुरीय सर्वदा सर्वदृक् है ॥ १२ ॥

आत्मविलक्षणमविद्याबीजप्रसृतं  
वाह्यं द्वैतं प्राज्ञो न किञ्चन संवेत्ति  
तथा विश्वतैजसौ । ततश्चासौ तत्त्वा-  
ग्रहणेन तमसान्यथाग्रहणबीज-  
भूतेन बद्धो भवति । यस्मात्तुरीयं  
सत्सर्वदृक्सदा तुरीयादन्यस्या-  
भावात्सर्वदा सदैवेति सर्वं च  
तद्दृक्चेति सर्वदृक्त्वस्मान्न  
तत्त्वाग्रहणलक्षणं बीजं तत्र ।  
तत्प्रसृतस्यान्यथाग्रहणस्याप्यत  
एवाभावो न हि सवितरि सदा  
प्रकाशात्मके तद्विरुद्धमप्रकाशन-  
मन्यथाप्रकाशनं वा सम्भवति ।

प्राज्ञ आत्मासे भिन्न अविद्यारूप बीज-  
से उत्पन्न हुए बहिःस्थित वेद्यपदार्थरूप  
द्वैतको कुछ भी नहीं जानता, जैसा  
कि विश्व और तैजस उसे जानते हैं ।  
इसीलिये यह अन्यथाग्रहणके बीज-  
भूत तत्त्वाग्रहणरूप अन्धकारसे बँधा  
रहता है । और क्योंकि तुरीयसे  
भिन्न पदार्थका सर्वथा अभाव होनेके  
कारण वह सदा-सर्वदा सर्वदृक्स्वरूप  
ही है—जो सर्वरूप और उसका  
साक्षी भी हो उसे 'सर्वदृक्' कहते  
हैं—इसलिये उसमें तत्त्वका अग्रहण-  
रूप बीजावस्था नहीं है और इसी-  
लिये उसमें उससे उत्पन्न होनेवाले  
अन्यथाग्रहणका भी अभाव है,  
क्योंकि सदा प्रकाशस्वरूप सूर्यमें  
उसके विपरीत अप्रकाशन अथवा

“नहि द्रष्टुर्दृष्टेर्निपरिलोपो विद्यते”  
( वृ० उ० ४ । ३ । २३ ) इति  
श्रुतेः ।

अथ वा जाग्रत्स्वप्नयोः सर्व-  
भूतावस्थः सर्ववस्तुदृग्गामास-  
स्तुरीय एवेति सर्वदृक्सदा  
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्टुः” ( वृ०  
उ० ३ । ८ । ११ ) इत्यादि  
श्रुतेः ॥ १२ ॥

अन्यथा-प्रकाशन सम्भन नहीं है,  
जैसा कि “द्रष्टाकी दृष्टिका त्रिपरिलोप  
नहीं होता” इस श्रुतिसे सिद्ध  
होना है ।

अथवा जाग्रत् एव स्वप्नावस्थाने  
सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और समस्त  
पदार्थोंके साक्षीरूपसे तुरीय ही  
भाममान है इसलिये वह सर्वदा  
सर्वसाक्षी है, जैसा कि “इससे भिन्न  
और कोई द्रष्टा नहीं है” इस श्रुतिसे  
प्रमाणित होता है ॥ १२ ॥

द्वैतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः ।

बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्ये न विद्यते ॥ १३ ॥

द्वैतका अग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनोंहीको समान है, किन्तु  
प्राज्ञ बीजस्वरूपा निद्रामे युक्त है और तुरीयमें वह निद्रा है नहीं ॥ १३ ॥

निमित्तान्तरप्राप्ताशङ्कानि-  
वृत्त्यर्थोऽयं श्लोकः । कथं द्वैता-  
ग्रहणस्य तुल्यत्वात्कारणवद्वत्त्वं  
प्राज्ञस्यैव न तुरीयस्येति प्राप्ता-  
शङ्का निवर्त्यते ।

यह श्लोक निमित्तान्तरसे प्राप्त  
आशङ्काकी निवृत्तिके लिये है ।  
मन्त्र द्वैताग्रहणकी समानता होनेपर  
भी प्राज्ञकी ही कारणवद्धता क्यों  
है ? तुरीयकी क्यों नहीं है ?—इस  
प्रकार प्राप्त हुई आशङ्काको ही  
निवृत्त किया जाता है ।

यस्माद्बीजनिद्रायुतमत्त्वा-  
प्रतिबोधो निद्रा, संव च विशेष-  
प्रतिबोधप्रसन्नस्य बीजम्: सा

[ इसका यह कारण है ] क्योंकि  
यह ( प्राज्ञ ) बीजनिद्रामे युक्त  
है—तत्त्वके अज्ञानका नाम निद्रा  
है, वही विशेष विज्ञानकी उत्पत्तिका

बीजनिद्रा, तथा युतः प्राज्ञः ।  
सदा दृक्स्वभावत्वात्तत्त्वाप्रति-  
बोधलक्षणा निद्रा तुरीये न  
विद्यते । अतो न कारणबन्ध-  
स्तस्मिन्नित्यभिप्रायः ॥ १३ ॥

बीज है; अतः उसे 'बीजनिद्रा'  
कहते हैं—प्राज्ञ उससे युक्त है ।  
किन्तु सर्वदा सर्वदृक्स्वरूप होनेके  
कारण तुरीयमें वह बीजनिद्रा नहीं  
है; अतः उसमें कारणबद्धता नहीं  
है—यह इसका तात्पर्य है ॥ १३ ॥

तुरीयका स्वप्न-निद्राशून्यत्व

स्वप्ननिद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्न निद्रया ।

न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः ॥ १४ ॥

विश्व और तैजस—ये स्वप्न और निद्रासे युक्त हैं तथा प्राज्ञ स्वप्नरहित  
निद्रासे युक्त है; किन्तु निश्चित पुरुष तुरीयमें न निद्रा ही देखते हैं और  
न स्वप्न ही ॥ १४ ॥

स्वप्नोऽन्यथाग्रहणं सर्प इव  
रज्ज्वाम् । निद्रोक्ता तत्त्वाप्रति-  
बोधलक्षणं तम इति । ताभ्यां  
स्वप्ननिद्राभ्यां युक्तौ विश्वतैजसौ ।  
अतस्तौ कार्यकारणवद्भावित्युक्तौ ।  
प्राज्ञस्तु स्वप्नवर्जितकेवलयैव  
निद्राया युत इति कारणवद्  
इत्युक्तम् । नोभयं पश्यन्ति तुरीये  
निश्चिता ब्रह्मविदो विरुद्धत्वात्  
सवितरीय तमः । अतो न कार्य-  
कारणवद् इत्युक्तस्तुरीयः ॥ १४ ॥

रज्जुमें सर्प-ग्रहणके समान  
अन्यथाग्रहणका नाम स्वप्न है; तथा  
तत्त्वके अप्रतिबोधरूप तमको निद्रा  
कहते हैं । उन स्वप्न और निद्रासे  
विश्व और तैजस युक्त हैं; अतः वे  
कार्यकारणवद्द कहे गये हैं । किन्तु  
प्राज्ञ तो स्वप्नरहित केवल निद्रासे ही  
युक्त है; इसलिये उसे कारणवद्द  
कहा है । निश्चित यानी ब्रह्मवेत्ता  
लोग तुरीयमें ये दोनों ही बातें नहीं  
देखते, क्योंकि सूर्यमें अन्धकारके  
समान वे उससे विरुद्ध हैं । अतः  
तुरीय कार्य अथवा कारणसे बँधा  
हुआ नहीं है—ऐसा कहा गया  
है ॥ १४ ॥

कदा तुरीये निश्चितो | अत्र यह बतलाया जाता है कि  
मनुष्य तुरीयमें कब निश्चित होता  
है—  
भवतीत्युच्यते—

अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः ।

विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते ॥ १५ ॥

अन्यथा ग्रहण करनेसे स्वप्न होता है तथा तत्त्वज्ञो न जाननेसे निद्रा होती है और इन दोनों विपरीत ज्ञानोंका क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी प्राप्ति होती है ॥ १५ ॥

स्वप्नजागरितयोरन्यथा रज्ज्वां  
सर्प इव गृह्णतस्तच्च स्वप्नो भवति ।  
निद्रा तत्त्वमजानतस्त्विष्य-  
वस्थासु तुल्या । स्वप्ननिद्रयो-  
स्तुल्यत्वाद्विश्वतैजसयोरेकराशि-  
त्वम् । अन्यथाग्रहणप्राधान्याच्च  
गुणभूता निद्रेति तस्मिन्विपर्यासः  
स्वप्नः । तृतीये तु स्थाने तच्चा-  
ज्ञानलक्षणा निद्रैव केवला  
विपर्यासः ।

अतस्तयोः कार्यकारणस्थानयोः  
अन्यथाग्रहणाग्रहणलक्षणविपर्यासे  
कार्यकारणबन्धरूपे परमार्थ-  
तत्त्वप्रतिबोधतः क्षीणे तुरीयं  
पदमश्नुते । तदोभयलक्षणं बन्ध-

रज्जुमें सर्पग्रहणके समान स्वप्न  
और जागरित अवस्थामें तत्त्वके  
अन्यथाग्रहणसे स्वप्न होता है तथा  
तत्त्वके न जाननेसे निद्रा होती है,  
जो तीनों अवस्थाओंमें तुल्य हैं ।  
इस प्रकार स्वप्न और निद्रामें तुल्य  
होनेके कारण विश्व और तैजसकी  
एक राशि है । उनमें अन्यथा-  
ग्रहणकी प्रधानता होनेके कारण  
निद्रा गौण है, अतः उन अवस्थाओं-  
में स्वप्नरूप विपरीत ज्ञान रहता है ।  
किन्तु तृतीय स्थान ( सुषुप्ति ) में  
केवल तत्त्वाग्रहणरूप निद्रा ही  
विपर्यास है ।

अतः उन कार्यकारणरूप स्थानों-  
के अन्यथाग्रहण और तत्त्वाग्रहण-  
रूप विपर्यासोंका परमार्थतत्त्वके  
बोधसे क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी  
प्राप्ति होती है । तब उस अवस्थामें  
दोनों प्रकारका बन्धन न देखनेसे

रूपं तत्रापश्यंस्तुरीये, निश्चितो पुरुष, तुरीयमें निश्चित हो जाता  
भवतीत्यर्थः ॥ १५ ॥ है—ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १५ ॥

बोध कब होता है ?

अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते ।

अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा ॥ १६ ॥

जिस समय अनादि मायासे सोया हुआ जीव जागता है [ अर्थात् तत्त्वज्ञान लाभ करता है ] उसी समय उसे अज, अनिद्र और स्वप्नरहित अद्वैत आत्मतत्त्वका बोध प्राप्त होता है ॥ १६ ॥

योऽयं संसारी जीवः स  
उभयलक्षणेन तत्त्वाप्रतिबोधरूपेण  
बीजात्मनान्यथाग्रहणलक्षणेन च  
अनादिकालप्रवृत्तेन मायालक्षणेन  
स्वप्नेन ममायं पिता पुत्रोऽयं  
नप्ता क्षेत्रं पशवोऽहमेपां स्वामी  
सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन  
वर्धितश्चानेनेत्येवं प्रकारान्खमान्  
स्थानद्वयेऽपि पश्यन्सुप्तः ।

यदा वेदान्तार्थतत्त्वाभिज्ञेन  
परमकारुणिकेन गुरुणा नास्येवं  
त्वं हेतुफलात्मकः किं तु तत्त्व-  
मसीति प्रतिबोध्यमानः, तदैवं  
प्रतिबुध्यते—

यह जो संसारी जीव है वह  
तत्त्वाप्रतिबोधरूप बीजात्मिका एवं  
अन्यथाग्रहणरूप अनादिकालसे  
प्रवृत्त मायारूप निद्राके कारण  
[ स्वप्न और जागरित ] दोनों ही  
अवस्थाओंमें 'यह मेरा पिता है, यह  
पुत्र है, यह नाती है, ये मेरे क्षेत्र,  
गृह और पशु हैं, मैं इनका स्वामी  
हूँ तथा इनके कारण सुखी-दुःखी,  
क्षीण और वृद्धिको प्राप्त होता हूँ'  
इत्यादि प्रकारके स्वप्न देखता हुआ  
सो रहा है ।

जिस समय वेदान्तार्थके तत्त्वको  
जाननेकाले किसी परम कारुणिक  
गुरुके द्वारा 'तू इस प्रकार हेतु एवं  
फलस्वरूप नहीं है, किन्तु तू वही है'  
इस प्रकार जगाया जाता है उस  
समय उसे ऐसा बोध प्राप्त होता है—

कथम् ? नास्मिन्वाह्यमाभ्यन्तरं  
 वा जन्मादिभावविकारोऽस्त्यतो-  
 ऽजं सवाह्याभ्यन्तरसर्वभावविकार-  
 वजितमित्यर्थः । यस्माज्जन्मादि-  
 कारणभूतं नास्मिन्नविद्यातमोवीज  
 निद्रा विद्यत इत्यनिद्रम् । अनिद्रं  
 हि तत्तुरीयमत एवास्वप्नम्;  
 तन्निमित्तत्वादन्यथाग्रहणस्य ।  
 यस्माच्चानिद्रमस्वप्नं तस्मादजमद्वैतं  
 तुरीयमात्मानं बुध्यते तदा ॥१६॥

किस प्रकारका बोध होता है ?  
 [ सो बतलाते हैं— ] इसमें वाह्य  
 अथवा आभ्यन्तर जन्मादि विकार  
 नहीं है, इसलिये यह अजन्मा यानी  
 सम्पूर्ण भाव-विकारोंसे रहित है ।  
 और क्योंकि इसमें जन्मादिकी  
 कारणभूत तथा अविद्यारूप अन्-  
 वारकी बीजभूत अविद्या नहीं है  
 इसलिये यह अनिद्र है । वह तुरीय  
 अनिद्र है, इसीलिये अस्वप्न भी है,  
 क्योंकि अन्यथाग्रहण तो [ तत्त्वा-  
 प्रतिबोधरूप ] निद्राहीके कारण  
 हुआ करता है । इस प्रकार क्योंकि  
 वह अनिद्र और अस्वप्न है इसलिये  
 ही उस समय अजन्मा और अद्वैत  
 तुरीय भात्माका बोध होता है ॥१६॥

प्रपञ्चनिवृत्त्या चेत्प्रतिबुध्यते-  
 ऽनिवृत्ते प्रपञ्चे कथमद्वैत-  
 मित्युच्यते—

यदि बोध प्रपञ्चनिवृत्तिसे ही  
 होता है तो जबतक प्रपञ्चकी  
 निवृत्ति न हो तबतक अद्वैत कैसा ?  
 इसपर कहा जाता है—

प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव

प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः ।

मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः ॥ १७ ॥

प्रपञ्च यदि होता तो निवृत्त हो जाता—इसमें सन्देह नहीं ।  
 किन्तु [ वास्तवमें ] यह द्वैत तो मायामात्र है, परमार्थत तो अद्वैत  
 ही है ॥ १७ ॥



सत्यमेवं स्यात्प्रपञ्चो यदि  
विद्येत, रज्ज्वां सर्प इव  
कल्पितत्वात् न तु स विद्यते ।  
विद्यमानश्चेन्निरवर्तेत न संशयः ।  
न हि रज्ज्वां भ्रान्तिबुद्ध्या  
कल्पितः सर्पो विद्यमानः  
सन्निवेकतो निवृत्तः । नैव माया  
मायाविना प्रयुक्ता तद्दर्शिनां  
चक्षुर्वन्धापगमे विद्यमाना सती  
निवृत्ता । तथेदं प्रपञ्चाख्यं  
मायामात्रं द्वैतं रज्जुवन्मायावि-  
वच्चाद्वैतं परमार्थतस्तस्मान्न  
कश्चित्प्रपञ्चः प्रवृत्तो निवृत्तो  
वास्तीत्यभिप्रायः ॥ १७ ॥

यदि प्रपञ्च विद्यमान होता तो  
सचमुच ऐसा ही होता; किन्तु वह  
तो रज्जुमें सर्पके समान कल्पित  
होनेके कारण [ वस्तुतः ] है ही  
नहीं । यदि वह होता तो, इसमें  
सन्देह नहीं, निवृत्त भी हो जाता ।  
रज्जुमें भ्रमबुद्धिसे कल्पना किया  
हुआ सर्प [ वस्तुतः ] विद्यमान  
रहते हुए विवेकसे निवृत्त नहीं  
होता । मायावीद्वारा फैलायी हुई  
माया, देखनेवालोंके दृष्टिवन्धनके  
हटाये जानेपर, पहले विद्यमान  
रहती हुई निवृत्त नहीं होती । इसी  
प्रकार यह प्रपञ्चसंज्ञक द्वैत भी  
मायामात्र ही है; परमार्थतः तो  
रज्जु अथवा मायावीके समान, अद्वैत  
ही है । अतः तात्पर्य यह है कि  
कोई भी प्रपञ्च प्रवृत्त अथवा निवृत्त  
होनेवाला नहीं है ॥ १७ ॥

गुरु-शिष्यादि विकल्प व्यावहारिक है

ननु शास्ता शास्त्रं शिष्य इति  
विकल्पः कथं निवर्तते इत्युच्यते—

यदि कहो कि शासक, शाल  
और शिष्य—इस प्रकारका विकल्प  
किस प्रकार निवृत्त हो सकता है ?  
तो इसपर कहा जाता है—

विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् ।

उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ॥ १८ ॥

इस [ गुरु-शिष्यादि ] विकल्पकी यदि किसीने कल्पना की होती तो यह निवृत्त भी हो जाता । यह [ गुरु शिष्यादि ] वाद तो उपदेशके ही त्रिये है । आत्मज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता ॥ १८ ॥

विकल्पो विनिवर्तेत यदि  
केनचित्कल्पितः स्यात् । यथायं  
प्रपञ्चो मायारज्जुसर्पवत्तथायं  
शिष्यादि भेदविकल्पोऽपि प्राक्  
प्रतिषेधादेवोपदेशनिमित्तोऽत  
उपदेशादयं वादः शिष्यः शान्ता  
शास्त्रमिति । उपदेशकार्ये तु  
ज्ञाने निर्दृष्टे ज्ञाते परमार्थतत्त्वे  
द्वैतं न विद्यते ॥ १८ ॥

यदि किसीने इसकी कल्पना  
की होती तो यह विकल्प निवृत्त  
हो जाता । जिस प्रकार यह प्रपञ्च  
माया और रज्जुसर्पके सदृश है उसी  
प्रकार यह शिष्यादि भेदविकल्प  
भी आत्मज्ञानसे पूर्व ही उपदेशके  
निमित्तमे है । अतः शिष्य, शासक  
और शास्त्र—यह वाद उपदेशके  
ही त्रिये हैं । उपदेशके कार्यस्वरूप  
ज्ञानके निष्पन्न होनेपर, अर्थात्  
परमार्थतत्त्वका ज्ञान हो जानेपर  
द्वैतकी सत्ता नहीं रहती ॥ १८ ॥

आत्मा और उसके पादोंके साथ ओङ्कार और

उसकी मात्राओंका तादात्म्य

अभिधेयप्रधान ओङ्कारश्च— अत्रतः जिस ओङ्काररूप चतु-  
ष्षाद आत्मान्न अभिधेय ( वाच्यार्थ )  
तुष्पादात्मेति व्याख्यातो यः— की प्रधानतामे वर्णन किया है—

सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा  
मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ॥

वह यह आत्मा अक्षरदृष्टिसे ओङ्कार है, वह मात्राओंको त्रिपय करके  
स्थित है । पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं, वे मात्रा अकार,  
उकार और मकार हैं ॥ ८ ॥

सोऽयमात्माध्यक्षरमक्षरमधि-  
कृत्याभिधानप्राधान्येन वर्ण्य-  
मानोऽध्यक्षरम् । किं पुनस्तद-  
क्षरमित्याह, ओङ्कारः । सोऽय-  
मोङ्कारः पादशः प्रविमज्यमानः,  
अधिमात्रं मात्रामधिकृत्य वर्तत  
इत्यधिमात्रम् । कथम् ? आत्मनो  
ये पादास्त ओङ्कारस्य मात्राः ।  
कास्ताः ? अकार उकारो मकार  
इति ॥ ८ ॥

वह यह आत्मा अध्यक्षर है;  
अक्षरका आश्रय लेकर जिसका  
अभिधानकी प्रधानतासे वर्णन किया  
जाय उसे अध्यक्षर कहते हैं ।  
किन्तु वह अक्षर है क्या ? इसपर  
कहते हैं—वह ओङ्कार है । वह  
यह ओङ्कार पादरूपसे विभक्त  
किये जानेपर अधिमात्र यानी  
मात्राको आश्रय करके वर्तमान  
रहता है, इसलिये इसे 'अधिमात्र'  
कहते हैं । सो किस प्रकार ? क्योंकि  
आत्माके जो पाद हैं वे ही  
ओङ्कारकी मात्राएँ हैं । वे मात्राएँ  
कौन-सी हैं ? अकार, उकार और  
मकार—ये ही [ वे मात्राएँ हैं ] ॥८॥

अकार और विश्वका तादात्म्य

तत्र विशेषनियमः क्रियते—

अत्र उनमें विशेष नियम किया  
जाता है—

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा-  
प्तेरादिमत्त्वाद्वाप्नोति ह वै सर्वान्काशानादिश्च भवति  
य एवं वेद ॥ ९ ॥

जिसका जागरित स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्त्वके  
कारण [ ओङ्कारकी ] पहली मात्रा अकार है । जो उपासक इस प्रकार  
जानता है वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और [ महापुरुषोंमें ]  
आदि ( प्रधान ) होता है ॥ ९ ॥

जागरितस्थानो वैश्वानरो यः  
सओङ्कारस्याकारः प्रथमा मात्रा ।

जो जागरित स्थानवाला वैश्वानर  
है वही ओङ्कारकी पहली मात्रा

केन सामान्येनेत्याह—आप्तेराप्ति-  
व्याप्तिरकारेण सर्वा वाग्व्याप्ता  
'अकारो वै सर्वा वाक्' ( ऐ०  
आ० २ । ३ । ६ ) इति श्रुतेः ।  
तथा वैश्वानरेण जगत्; "तस्य  
ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य  
मूर्धैव सुतेजाः" ( छा० उ० ५ ।  
१८ । २ ) इत्यादि श्रुतेः ।

अभिधानाभिधेययोरेकत्वं

चावोचाम । आदिरस्य विद्यत  
इत्यादिमद्यथैवादिमदकाराख्यम-  
क्षरं तथैव वैश्वानरस्तस्माद्वा  
सामान्यादकारत्वं वैश्वानरस्य ।  
तदेकत्वविदः फलमाह—आप्नोति  
ह वै सर्वाङ्कामानादिः प्रथमश्च  
भवति महतां य एवं वेद,  
यथोक्तमेकत्वं वेदेत्यर्थः ॥ ९ ॥

अकार है । किस समानताके कारण  
पहली मात्रा है—दसपर कहते हैं—  
आप्तिके कारण, आप्तिका अर्थ व्याप्ति  
है । "अकार निश्चय ही सम्पूर्ण  
वाणी है" इस श्रुतिके अनुसार  
अकारसे समस्त वाणी व्याप्त है ।  
तथा "उस इस वैश्वानर आत्माका  
मस्तक ही चुड़ोक है" इस श्रुतिके  
अनुसार वैश्वानरमे सारा जगत्  
व्याप्त है ।

अभिधान ( वाचक ) और  
अभिधेय ( वाच्य ) की एकता तो  
हम कह ही चुके हैं । जिसमें आदि  
( प्रथमता ) हो उमे आदिमत्  
कहते हैं । जिस प्रकार अकार  
नामक अक्षर आदिमान् है उसी  
प्रकार वैश्वानर भी है उसी  
समानताके कारण वैश्वानरकी  
अकाररूपता है । उसकी एकता  
जाननेवालेके लिये फल बतलाया  
जाता है—'जो पुरुष ऐसा जानता  
है अर्थात् उपर्युक्त एकत्वको जानने-  
वाला है वह समस्त कामनाओंको  
प्राप्त कर लेता है तथा महापुरुषोंमें  
आदि—प्रथम होता है' ॥ ९ ॥

उकार और तैजसका तात्पर्य

स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षा-  
दुभयत्वाद्बोत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति  
नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद ॥ १० ॥

खण्ड जिसका स्थान है वह तैजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्वके कारण ओङ्कारकी द्वितीय मात्रा उकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह अपनी ज्ञानसन्तानका उत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और उसके वंशमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥

स्वप्नस्थानस्तैजसो यः स  
ओङ्कारस्योकारो द्वितीया मात्रा  
केन सामान्येनेत्याह—उत्कर्षात् ।  
अकारादुत्कृष्ट इव ह्युकारस्तथा  
तैजसो विश्वाद्भयत्वाद्वाकारम-  
कारयोर्मध्यस्थ उकारस्तथा  
विश्वप्राज्ञयोर्मध्ये तैजसोऽत  
उभयभाक्त्वसामान्यात् ।

जो खण्डस्थानवाला तैजस है वह ओङ्कारकी दूसरी मात्रा उकार है। किस समानताके कारण दूसरी मात्रा है—इसपर कहते हैं—उत्कर्षके कारण। जिस प्रकार अकारसे उकार उत्कृष्ट-सा है उसी प्रकार विश्वसे तैजस उत्कृष्ट है। अथवा मध्यवर्तित्वके कारण [ उन दोनोंमें समानता है ]। जिस प्रकार उकार अकार और मकारके मध्यमें स्थित है उसी प्रकार विश्व और प्राज्ञके मध्यमें तैजस है। अतः उभयपरत्वरूप समानताके कारण भी [ उनमें अभिन्नता है ]।

विद्वत्फलमुच्यते—उत्कर्षति  
इ वै ज्ञानसंततिम् । विज्ञानसन्ततिं  
वर्धयतीत्यर्थः । समानस्तुल्यश्च  
मित्रपक्षस्येव शत्रुपक्षाणामप्यप्र-  
द्वेष्यो भवति । अत्रह्यविदस्य  
कुले न भवति य एवं वेद ॥१०॥

अब इस प्रकार जाननेवालेको जो फल मिलता है वह बतलया जाता है—जो इस प्रकार जानता है वह ज्ञानसन्तति अर्थात् विज्ञान सन्तानका उत्कर्ष यानी वृद्धि करता है, सबके प्रति समान—तुल्य होता है अर्थात् मित्रपक्षके समान शत्रु-पक्षका भी अद्वेष्य होता है तथा उसके कुलमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥

मकार और प्राज्ञका तादात्म्य

सुपुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा  
मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति  
य एवं वेद ॥ ११ ॥

सुपुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान और त्यक्के कारण ओङ्कार की तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह इस सम्पूर्ण जगत्का मान—प्रमाण कर लेता है और उसका व्यवस्थान हो जाता है ॥ ११ ॥

सुपुप्तस्थानः प्राज्ञो यः स  
ओङ्कारस्य मकारस्तृतीया मात्रा ।  
केन सामान्येनेत्याह सामान्य-  
मिदमत्र; मितेमितिर्मानं भीयते  
इव हि विश्वतैजसो प्राज्ञेन  
प्रलयोत्पत्त्योः प्रवेशनिर्गमाभ्यां  
प्रस्थेनेव यवाः । यथोङ्कारसमाप्ती  
पुनः प्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छत  
इवाकारोकारौ मकारे ।

, अपीतेर्वा। अपीतिरप्यय एकी-  
भावः । ओङ्कारोच्चारणे ह्यन्त्ये-  
ऽक्षर एकीभूताविनाकारोकारौ ।

सुपुप्तिस्थानवाला जो प्राज्ञ है वह ओङ्कारकी तीसरी मात्रा मकार है। जिस समानताके कारण ? सो बतलाते हैं—यहाँ इनमें यह समानता है—ये मिनिके कारण [समान हैं]। मितिमानयो कहते हैं, जिस प्रकारप्रस्थ (एक प्रकारके वाट) से जौ तौले जाते हैं उसी प्रकार प्रलय और उत्पत्तिके समय मानो प्रवेश और निर्गमनके द्वारा प्राज्ञमे मिथ और तैजस मापे जाते हैं, क्योंकि ओङ्कारकी समाप्तिपर उसका पुन प्रयोग किये जानेपर मानो अकार और उकार मकारमें प्रवेश करके उसमे पुन निकलने हैं।

अथवा अपीतिके कारण भी उनमें एकता है। अपीति अप्यय अर्थात् एकीभावको कहते हैं। क्योंकि [जिस प्रकार] ओङ्कारका उच्चारण करनेपर अकार और उकार अन्तिम अक्षरमें एकीभूत से हो जाते हैं

तथा विश्वतैजसौ सुपुत्रकाले  
प्राज्ञे । अतो वा सामान्यादेकत्वं  
प्राज्ञमकारयोः ।

विद्वत्फलमाह; मिनोति ह  
वा इदं सर्वं जगद्याथात्म्यं  
जानातीत्यर्थः । अपीतिश्च  
जगत्कारणात्मा भवतीत्यर्थः ।  
अत्रावान्तरफलवचनं प्रधान-  
साधनस्तुत्यर्थम् ॥ ११ ॥

उसी प्रकार सुपुत्रिके समय विश्व  
और तैजस प्राज्ञमें लीन हो जाते  
हैं । सो, इस समानताके कारण भी  
प्राज्ञ और मकारकी एकता है ।

अब इस प्रकार जाननेवालेको जो  
फल मिलता है वह बतलाते हैं—  
[ जो ऐसा जानता है ] वह इस  
सम्पूर्ण जगत्को माप लेता है,  
अर्थात् इसका यथार्थ स्वरूप जान  
लेता है; तथा अपीति यानी जगत्का  
कारणस्वरूप हो जाता है । यहाँ  
जो अवान्तर फल बतलाये गये हैं वे  
प्रधान साधनकी स्तुतिके लिये  
हैं ॥ ११ ॥

मात्राओंकी विश्वादिरूपता  
अत्रैते श्लोका भवन्ति—  
इसी अर्थमें ये श्लोक भी हैं—

विश्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यमुत्कटम् ।

मात्रासंप्रतिपत्तौ स्यादाप्तिसामान्यमेव च ॥ १९ ॥

जिस समय विश्वका अत्व-अकारमात्रत्व बतलाना इष्ट हो, अर्थात्  
वह अकारमात्रारूप है ऐसा जाना जाय तो उनके प्राथमिकत्वकी  
समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी व्याप्तिरूप समानता भी स्पष्ट  
ही है ॥ १९ ॥

विश्वस्यात्वमकारमात्रत्वं यदा  
विवक्ष्यते तदादित्वसामान्य-  
मुक्तन्यायेनोत्कटमुद्भूतं दृश्यत

जिस समय विश्वका अत्व यानी  
अकारमात्रत्व कहना इष्ट होता  
है उस समय पूर्वोक्त न्यायसे उनके  
प्राथमिकत्वकी समानता उत्कट

इत्यर्थः । अत्रविश्वामित्यस्य | अर्थात् उद्धृत (प्रकटरूपसे)  
 व्याख्यानं मात्रासंप्रतिपत्ताविति | दिखायी देती है । 'मात्रासंप्रति-  
 विश्वस्याकारमात्रत्वं यदा पत्तौ'—यह 'अत्रविश्वाम्'  
 संप्रतिपद्यत इत्यर्थः । आप्ति- इस पदकी ही व्याख्या है ।  
 सामान्यमेव चोत्कटमित्यनुवर्तते तत्पर्य यह है कि जिस समय  
 चशब्दात् ॥ १९ ॥ अनुवृत्ति की जाती है ॥ १९ ॥

तैजसस्योत्वविज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम् ।

मात्रासंप्रतिपत्तौ स्यादुभयत्वं तथाविधम् ॥ २० ॥

तैजसको उकाररूप जाननेपर अर्थात् तैजस उकारमात्रारूप हे ऐसा जाननेपर उनका उत्कर्ष स्पष्ट दिखायी देता है । तथा उनका उभयत्व भी स्पष्ट ही है ॥ २० ॥

तैजसस्योत्वविज्ञान उकारत्व- | तैजसके उत्र-विज्ञानमें अर्थात्  
 विश्वामित्यस्योत्कर्षो दृश्यते स्फुटं | उसका उकाररूपसे प्रतिपादन करने-  
 स्पष्ट इत्यर्थः उभयत्वं च स्फुट- में उसका उत्कर्ष तो स्पष्ट ही दिखाया  
 मेवेति । पूर्ववत्पूर्वम् ॥ २० ॥ | देता है । इसी प्रकार उभयत्व भी  
 स्पष्ट ही है । शेषमव पूर्ववत् है ॥ २० ॥

मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम् ।

मात्रासंप्रतिपत्तौ तु लयसामान्यमेव च ॥ २१ ॥

प्राज्ञकी मकाररूपतामें अर्थात् प्राज्ञ मकारमात्रारूप है—ऐसा जाननेमें उनकी मान करनेकी समानता स्पष्ट है । इसी प्रकार उनमें लय-  
 स्थान होनेकी समानता भी स्पष्ट ही है ॥ २१ ॥



मकारत्वे प्राज्ञस्य मितिलया- | प्राज्ञके मकाररूप होनेमें मान  
 और ल्यरूप समानता स्पष्ट है—  
 बुत्कृष्टे सामान्ये इत्यर्थः ॥२१॥ | यह इसका तात्पर्य है ॥ २१ ॥

### ओङ्कारोपासकका प्रभाव

त्रिषु धामसु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः ।

स पूज्यः सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः ॥ २२ ॥

जो पुरुष तीनों स्थानोंमें [ वतलायी गयी ] तुल्यता अथवा समानताको निश्चयपूर्वक जानता है वह महामुनि समस्त प्राणियोंका पूजनीय और वन्दनीय होता है ॥ २२ ॥

यथोक्तस्थानत्रये यस्तुल्यमुक्तं | उपर्युक्त तीनों स्थानोंमें तुल्य-  
 सामान्यं वेत्येवमेवैतदितिनिश्चितो | रूपसे वतलायी गयी समानताको  
 जो 'यह इसी प्रकार है' ऐसा निश्चय-  
 यः स पूज्यो वन्द्यश्च ब्रह्मचिल्लोके | पूर्वक जानता है वह ब्रह्मवेत्ता लोकमें  
 पूजनीय एवं वन्दनीय होता है ॥२२॥  
 भवति ॥ २२ ॥

### ओङ्कारकी व्यस्तोपासनाके फल

यथोक्तैः सामान्यैरात्मपादानां | पूर्वोक्त समानताओंसे आत्माके  
 मात्राभिः सहैकत्वं कृत्वा | पादोंका मात्राओंके साथ एकत्व  
 यथोक्तोङ्कारं प्रतिपद्य यो ध्यायति | करके उपर्युक्त ओङ्कारको जानते हुए  
 तम्— | जो उसका ध्यान करता है उसे—

अकारो नयते विश्वमुकारश्चापि तैजसम् ।

मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः ॥ २३ ॥

अकार विश्वको प्राप्त करा देता है तथा उकार तैजसको और मकार प्राज्ञको; किन्तु अमात्रमें किसीकी गति नहीं है ॥ २३ ॥

अकारो नयते विश्वं प्रापयति ।  
 अकारालम्बनोद्धारं विद्वान्वैश्वानरो भवतीत्यर्थः । तथोकारस्तैजसम् । मकारश्चापि पुनः प्राज्ञम् । चशब्दान्नयत इत्यनुवर्तते क्षीणे तु मकारे वीजभावक्षयादत्र ओङ्कारे गतिर्न विद्यते क्वचिदित्यर्थः ॥ २३ ॥

आकार विश्वको प्राप्त करा देता हैं, अर्थात् अकारके आश्रित ओङ्कारको जाननेवाला पुरुष वैश्वानर होता है । इसी प्रकार उकार तैजसमें और मकार पुन प्राज्ञको प्राप्त करा देता है । 'च' शब्दसे 'नयते' (प्राप्त करा देता है) इस क्रियाकी अनुवृत्ति होती है । तथा मकारका क्षय होनेपर वीजभावका क्षय हो जानेसे मात्राहीन ओङ्कारमें कोई गति नहीं होती—यह इसका तात्पर्य है ॥२३॥

अमात्र और आत्माका तादात्म्य

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोद्धार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद ॥ १२ ॥

मात्रारहित ओङ्कार तुरीय आत्मा ही है । वह अव्यवहार्य, प्रपञ्चोपशम, शिव और अद्वैत है । इस प्रकार ओङ्कार आत्मा ही है । जो उसे इस प्रकार जानता है वह स्वतः अपने आत्मामें ही प्रवेश कर जाता है ॥ १२ ॥

अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति सोऽमात्र ओङ्कारश्चतुर्थस्तुरीय आत्मैव केवलोऽभिधानामिधेयरूपयोर्वाङ्मनसयोः क्षीणत्वादव्यवहार्यः । ; प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैतः संकृत- एवं यथोक्त-

अमात्र—जिसकी मात्रा नहीं है वह अमात्र ओङ्कार चौथा अर्थात् तुरीय केवल आत्मा ही है । अभिधानरूप वाणी और अभिवेयरूप मनका क्षय हो जानेके कारण वह अव्यवहार्य है तथा वह प्रपञ्चकी निषेधावधि, मङ्गलमय और अद्वैत-

विज्ञानवता प्रयुक्त ओङ्कार-  
स्त्रिमात्रस्त्रिपाद आत्मैव । संवि-  
शत्यात्मना स्वेनैव । स्वंपारमार्थि-  
कमात्मानं य एवं वेद । परमार्थ-  
दर्शी ब्रह्मवित् तृतीयं बीजभावं  
दग्ध्वात्मानं प्रविष्ट इति न  
पुनर्जायते तुरीयस्याबीजत्वात् ।

न हि रज्जुसर्पयोर्विवेके  
रज्ज्वां प्रविष्टः सर्पो बुद्धिसंस्का-  
रात्पुनः पूर्ववत्तद्विवेकिनामुत्था-  
स्यति । मन्दमध्यमधियां तु  
प्रतिपन्नसाधकभावानां सन्मार्ग-  
गामिनां संन्यासिनां मात्राणां  
पादानां च क्लृप्तसामान्यविदां  
यथावदुपास्यमान ओङ्कारो ब्रह्म-  
प्रतिपत्तय आलम्बनी भवति तथा  
च वक्ष्यति—“आश्रमास्त्रिविधाः”  
( माण्डू०. का० ३ । १६ )  
इत्यादि ॥ १२ ॥

स्वरूप है । इस प्रकार पूर्वोक्त  
विज्ञानवान् उपासकद्वारा प्रयोग  
किया हुआ तीन मात्रावाला ओङ्कार  
तीन पादवाला आत्मा ही है । जो  
इस प्रकार जानता है [ अर्थात्  
इस प्रकार उसकी उपासना करता  
है ] वह स्वतः ही अपने पारमार्थिक  
आत्मामें प्रवेश करता है । परमार्थ-  
दर्शी ब्रह्मवेत्ता तीसरे बीजभावको  
भी दग्ध करके आत्मामें प्रवेश करता  
है; इसलिये उसका पुनर्जन्म नहीं  
होता, क्योंकि तुरीय आत्मा अबीजा-  
त्मक है ।

रज्जु और सर्पका विवेक हो  
जानेपर रज्जुमें लीन हुआ सर्प जिन्हें  
उसका विवेक हो गया है उन  
पुरुषोंको बुद्धिके संस्कारवश पुनः  
प्रतीत नहीं हो सकता । किन्तु जो  
मन्द और मध्यम बुद्धियाले, साधक-  
भावको प्राप्त, सन्मार्गगामी संन्यासी  
पूर्वोक्त मात्रा और पादोंके निश्चित  
सामान्यभावको जाननेवाले हैं उनके  
लिये तो विधिवत् उपासना किया  
हुआ ओङ्कार ब्रह्मप्राप्तिके लिये  
आश्रयस्वरूप होता है । यही बात  
“तीन प्रकारके आश्रम हैं” इत्यादि  
शक्योंसे कहेंगे ॥ १२ ॥

समस्त और व्यस्त ओङ्कारोपासना

पूर्ववत्—

पहलेके समान—

अत्रैते श्लोका भवन्ति—

इसी अर्थमें ये श्लोक भी हैं—

ओङ्कारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशयः ।

ओङ्कारं पादशो ज्ञात्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ २४ ॥

ओङ्कारको एक-एक पाद करके जाने, पाद ही मात्राएँ हैं—इसमें सन्देह नहीं । इस प्रकार ओङ्कारको पादक्रमसे जानकर कुछ भी चिन्तन न करे ॥ २४ ॥

यथोक्तैः सामान्यैः पादा एव  
मात्रा मात्राश्च पादास्तस्मादोङ्कारं  
पादशो विद्यादित्यर्थः । एवमोङ्कारे  
ज्ञाते दृष्टार्थमदृष्टार्थं वा न किञ्चित्  
प्रयोजनं चिन्तयेत्कृतार्थत्वादित्यर्थः ॥ २४ ॥

पूर्वोक्त समानताओंके कारण पाद ही मात्राएँ हैं और मात्राएँ ही पाद हैं । अतः तात्पर्य यह है कि ओङ्कारको पादक्रमसे जाने । इस प्रकार ओङ्कारका ज्ञान हो जानेपर कृतार्थ हो जानेके कारण किसी भी दृष्टार्थ ( ऐहिक ) अथवा अदृष्टार्थ ( पारलौकिक ) प्रयोजनका चिन्तन न करे—यह इसका अभिप्राय है ॥ २४ ॥

युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् ।

प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् ॥ २५ ॥

चित्तको ओङ्कारमें समाहित करे, ओङ्कार निर्भय ब्रह्मपद है । ओङ्कारमें नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता ॥ २५ ॥

युञ्जीत समादध्याद्यथाध्या- | जिसकी पहले व्याख्या की जा  
ख्याते परमार्थरूपे प्रणवे चेतो | चुकी है उस परमार्थस्वरूप ओङ्कारमें

मनः । यस्मात्प्रणवो ब्रह्म चित्तको युक्त-समाहित करे, क्योंकि निर्भयम् । न हि तत्र सदा ओङ्कार ही निर्भय ब्रह्म है । उसमें युक्तस्य भयं विद्यते क्वचित् नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको “विद्वान् कहीं भी भय नहीं होता, जैसा कि “विद्वान् कहीं भी भयको प्राप्त नहीं होता” इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ २५ ॥

प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः ।

अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥ २६ ॥

ओङ्कार ही परब्रह्म है और ओङ्कार ही अपरब्रह्म माना गया है, वह ओङ्कार अपूर्व ( अकारण ), अन्तर्बाह्यशून्य, अकार्य तथा अव्यय है ॥ २६ ॥

परापरे ब्रह्मणी प्रणवः । पर-

मार्थता क्षीणेषु मात्रापादेषु पर एवात्मा ब्रह्मेति न पूर्वं कारणमस्य विद्यत इत्यपूर्वः । नास्यान्तरं भिन्न-जातीयं किञ्चिद्विद्यत इत्यनन्तरः । तथा बाह्यमन्यन्न विद्यत इत्य-बाह्यः । अपरं कार्यमस्य न विद्यत इत्यनपरः । सबाह्या-भ्यन्तरो ह्यजः सैन्धवघनवत् प्रज्ञानघन इत्यर्थः ॥ २६ ॥

पर और अपर ब्रह्म प्रणव हैं वस्तुतः मात्रारूप पादोंके क्षीण होनेपर आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिये इसका कोई पूर्व यानी कारण न होनेसे यह अपूर्व है । इसका कोई अन्तर-भिन्नजातीय भी नहीं है, इसलिये यह अनन्तर है तथा इससे बाह्य भी कोई और नहीं है इसलिये यह अबाह्य है और इसका कोई अपर-कार्य भी नहीं है इसलिये यह अनपर है । तात्पर्य यह है कि यह बाहर-भीतरसे अजन्मा तथा सैन्धवघनके समान प्रज्ञानघन ही है ॥ २६ ॥

सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर्मध्यमन्तस्तथैव च ।

एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम् ॥ २७ ॥

प्रणव ही सवका आदि, मध्य और अन्त है । प्रणवको इस प्रकार जाननेके अनन्तर तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है ॥ २७ ॥

आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थिति-  
प्रलयाः सर्वस्यैव । मायाहस्ति-  
रञ्जुसर्पमृगवृष्णिकास्वमादिवत्  
उत्पद्यमानस्य वियदादिप्रपञ्चस्य  
यथा मायाव्यादयः । एवं हि  
प्रणवमात्मानं मायाव्यादिस्था-  
नीयं ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्म-  
मावं व्यश्नुते इत्यर्थः ॥ २७ ॥

सवका आदि, मध्य और अन्त  
अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय  
प्रणव ही है । जिस प्रकार कि माय-  
मय हाथी, रज्जुमें प्रतीत होनेवाले  
सर्प, मृगवृष्णा और स्वप्नादिके  
मगान उत्पन्न होनेवाले आकाशादि-  
रूप प्रपञ्चके कारण मायावी आदि  
हैं उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय  
उम प्रणवरूप आत्माको जानकर  
विद्वान् तत्काल ही तद्रूपताको प्राप्त हो  
जाता है—ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ २७ ॥

प्रणवं हीश्वरं विद्यात्सर्वस्य हृदि संस्थितम् ।

सर्वव्यापिनमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २८ ॥

प्रणवको ही सवके हृदयमें स्थित ईश्वर जाने । इस प्रकार सर्वव्यापी  
ओङ्कारको जानकर बुद्धिमान् पुरुष शोक नहीं करता ॥ २८ ॥

सर्वप्राणिजातस्य स्मृति-  
प्रत्ययास्पदे हृदये स्थितमीश्वरं  
प्रणवं विद्यात्सर्वव्यापिनं व्योम-  
वदोङ्कारमात्मानमसंसारिणं धीरो  
बुद्धिमान्मत्वा न शोचति

प्रणवको ही समस्त प्राणि-  
समुदायके स्मृतिप्रययके आश्रयमूर्त  
हृदयमें स्थित ईश्वर समझे । बुद्धिमान्  
पुरुष आकाशके समान सर्वव्यापी  
ओङ्कारको असन्तारी आत्मा [—शुद्ध  
आमन्त्र ] जानकर, शोकके कारण

शोकनिमित्तानुपपत्तेः । “तरति का अभाव हो जानेसे शोक नहीं करता; जैसा कि “आत्मवेत्ता शोक-को पार कर जाता है” इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है ॥२८॥

ओंकारार्थज्ञ ही मुनि है

अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ।

ओङ्कारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः ॥२९॥

जिसने मात्राहीन, अनन्त मात्रावाले, द्वैतके उपशमस्थान और मङ्गलमय ओंकारको जाना है वही मुनि है; और कोई पुरुष नहीं ॥२९॥

अमात्रस्तुरीय ओङ्कारः । मीयते- अमात्र तुरीय ओंकार है । जिससे मान किया जाय उसे ‘मात्रा’ अर्थात् ‘परिच्छित्ति’ कहते हैं, वह मात्रा जिसकी अनन्त हो उसे ‘अनन्तमात्र’ कहा जाता है । तात्पर्य यह है कि इसकी इयत्ताका परिच्छेद नहीं किया जा सकता । सम्पूर्ण द्वैतका उपशमस्थान होनेके कारण ही वह शिव ( मङ्गलमय ) है । इस प्रकार व्याख्या किया हुआ ओंकार जिसने जाना है वही परमार्थ-तत्त्वका मनन करनेवाला होनेसे ‘मुनि’ है; दूसरा पुरुष शालज्ञ होनेपर भी मुनि नहीं है—ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ २९ ॥

—H—H—H—

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य  
शङ्करभगवतः कृतावागमशास्त्रविवरणे गौडपादीयकारिका-  
सहितमाण्डूक्योपनिषद्भाष्ये प्रथममागमप्रकरणम् ॥१॥

ॐ तत्सत् ।

## वैतथ्यप्रकरण

ज्ञाते द्वैतं न विद्यत इत्युक्तम्,

प्रकरणम्  
प्रवेशनम्

“एकमेवाद्वितीयम्”  
( छा० उ० ६।२।१ )  
इत्यादिश्रुतिभ्यः ।

आगमभात्रं तत् । तत्रोपपत्त्यापि  
द्वैतस्य वैतथ्यं शक्यतेऽवधारयि-  
तुमिति द्वितीयं प्रकरणमारभ्यते-

“एकमेवाद्वितीयम्” इत्यादि श्रुति-  
योंके अनुसार ( आगम प्रकरणकी  
१८ वीं कारिकामें ) यह कहा गया  
है कि ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं  
रहता । वह केवल आगम ( शास्त्र-  
वचन ) मात्र था । किन्तु द्वैतज्ञ  
मिथ्यात्व युक्तिसे भी निश्चय किया  
जा सकता है, इसीलिये इस दूसरे  
प्रकरणका आरम्भ किया जाता है-

स्वमदृष्ट पदार्थोंका मिथ्यात्व

वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः ।

अन्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना ॥ १ ॥

[ स्वप्नावस्थामें ] सब पदार्थ शरीरके भीतर स्थित होते हैं, अतः  
स्थानके सङ्कोचके कारण मनीषिण स्वप्नमें सब पदार्थोंका मिथ्यात्व  
प्रतिपादन करते हैं ॥ १ ॥

वितथस्य भावो वैतथ्यम्,  
असत्यत्वमित्यर्थः । कस्य ? सर्वेषां  
बाह्याध्यात्मिकानां भावानां  
पदार्थानां स्वप्न उपलभ्यमाना-  
नाम्, आहुः कथयन्ति, मनीषिणः  
प्रमाणकुशलाः । वैतथ्ये हेतुमाह-

वितथ ( मिथ्या ) के भावका  
नाम 'वैतथ्य' अर्थात् असत्य है ।  
किसका वैतथ्य ? स्वप्नमें प्रतीत  
होनेवाले सम्पूर्ण बाह्य और आन्तरिक  
पदार्थोंका मनोविगण अर्थात् प्रमाण-  
कुशल पुरुष वैतथ्य वक्तृगते हैं ।  
उनके मिथ्यात्वमें हेतु वक्तृगते हैं-



अन्तःस्थानात्, अन्तः  
 शरीरस्य मध्ये स्थानं  
 यन्तःसंवृत-  
 स्थानात् येपाम् । तत्र हि  
 भावा उपलभ्यन्ते  
 पर्वतहस्त्यादयो न वहिः  
 शरीरात् । तस्मात्ते वितथा भवितु-  
 मर्हन्ति। नन्वपवरकाद्यन्तरुपलभ्य-  
 मानैर्घटादिभिरनैकान्तिको हेतु-  
 रित्याशङ्क्याह—संवृतत्वेन हेतु-  
 नेति, अन्तःसंवृतस्थानादित्यर्थः।  
 न ह्यन्तः संवृते देहान्तर्नाडीपु  
 पर्वतहस्त्यादीनां सम्भवोऽस्ति, न  
 हि देहे पर्वतोऽस्ति ॥ १ ॥

अन्तःस्थ होनेके कारण, अन्तर  
 अर्थात् शरीरके मध्यमे स्थान  
 है जिनका [ ऐसे होनेके कारण ];  
 क्योंकि वहाँ पर्वत एवं हस्ती आदि  
 समस्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं,  
 शरीरसे बाहर उनकी उपलब्धि नहीं  
 होनी; इसलिये वे मिथ्या होने चाहिये।  
 किन्तु [ यदि शरीरके भीतर उपलब्ध  
 होनेके कारण ही स्वप्नदृष्ट पदार्थ  
 मिथ्या हैं तो ] गृह आदिके  
 भीतर दिखायी देनेवाले घट आदिमें  
 तो यह हेतु व्यभिचरित हो जायगा  
 [ क्योंकि वहाँ जो उनकी प्रतीति है वह  
 तो सत्य ही है ]—ऐसी शङ्का होने-  
 पर कहते हैं—स्थानके संकोचके  
 कारणसे। तात्पर्य यह कि शरीरके  
 भीतर संकुचित स्थान होनेसे [ उन-  
 का मिथ्यात्व कष्ट जाता है ]।  
 देहके अन्तर्वर्ती संकुचित नाडीजालमें  
 पर्वत या हाथी आदिका होना सम्भव  
 नहीं है। देहके भीतर पर्वत नहीं  
 हो सकता ॥ १ ॥

स्वप्नदृश्यानां भावानामन्तः

संवृतस्थानमित्येतदसिद्धम्,

यस्मात् प्राच्येषु सुप्त उदक्षु

स्वप्नमें दिखलायी देनेवाले पदार्थों-  
 का शरीरके भीतर संकुचित स्थान  
 है—यह बात सिद्ध नहीं हो सकती,  
 क्योंकि पूर्व दिशामें सोया हुआ  
 पुरुष उत्तर दिशामें स्वप्न देखता-सा  
 देखा जाता है [ अतः वह शरीरसे

स्वप्नान्पश्यन्निव दृश्यत इत्ये- बाहर वहाँ जाकर उन्हें देखता होगा ]  
तदाशङ्क्याह— -ऐसी आगङ्गा करके कहते हैं—

अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति ।

प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ २ ॥

समयकी अदीर्घता होनेके कारण वह देहसे बाहर जाकर उन्हें नहीं देखता तथा जागनेपर भी कोई पुरुष उस देशमें विद्यमान नहीं रहता । [ इममें भी उसका स्वप्नदृष्ट देशमें न जाना ही सिद्ध होता है ] ॥ २ ॥

न देहाद्दहिर्देशान्तरं गत्वा  
स्वप्नान्पश्यति । यस्मा-  
त्सुप्तमात्र एव देह-  
देशाद्योजनशतान्तरिते  
मासमात्रप्राप्ये देशे स्वप्नान्पश्य-  
न्निव दृश्यते । न च तद्देशप्राप्ते-  
रागमनस्य च दीर्घः कालोऽस्ति ।  
अतोऽदीर्घत्वाच्च कालस्य न  
स्वप्नदृग्देशान्तरं गच्छति ।

वह देहसे बाहर देशान्तरमें जाकर स्वप्न नहीं देखता, क्योंकि वह सोया हुआ ही देहके स्थानमें एक मासमें पहुँचने योग्य सौ योजनकी दूरीपर स्वप्न देखता-सा देखा जाता है । [ उस समय ] उस देशमें पहुँचने और वहाँसे लौटने योग्य दीर्घकाल है ही नहीं । अतः काठकी अदीर्घताके कारण वह स्वप्न-द्रष्टा किसी देशान्तरमें नहीं जाता ।

किं च प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः  
स्वप्नदृक्स्वप्नदर्शनदेशे न विद्यते ।  
यदि च स्वप्ने देशान्तरं गच्छे-  
द्यस्मिन्देशे स्वप्नान्पश्येत्तत्रैव  
प्रतिबुध्येत । न चैतदस्ति । रात्रौ  
मुप्तोऽहनीव भावान्पश्यति; बहुभिः  
संगतो भवति, यश्च संगत-

यही नहीं, जागनेपर भी कोई स्वप्नद्रष्टा स्वप्न देखनेके स्थानमें नहीं रहता । यदि वह स्वप्नके समय किसी देशान्तरमें जाता तो जिस देशमें स्वप्न देखता उसीमें जागता । किन्तु ऐसी बात नहीं होती । वह रात्रिमें सोया हुआ मानो दिनमें पदार्थोंको देखता है और बहुतोंसे मिलता है, अतः जिनसे उसका मेळ होता है उनके द्वारा वह गृहीत

स्तैर्गृह्येत । न च गृह्यते; गृहीत-  
श्चेत्त्वामद्य तत्रोपलब्धवन्तो  
वयमिति ब्रूयुः । न चैतदस्ति,  
तस्मान्न देशान्तरं गच्छति  
स्वप्ने ॥ २ ॥

होना चाहिये था । परन्तु गृहीत  
होता नहीं; यदि गृहीत होता तो  
'हमने तुझे वहाँ पाया था' ऐसा  
कहते । परन्तु ऐसी बात है नहीं;  
अतः स्वप्ने वह किसी देशान्तरको  
नहीं जाता ॥ २ ॥

इत्थं स्वप्नदृश्या भावा  
वितथा यतः—

स्वप्ने दिखायी देनेवाले पदार्थ  
इसलिये भी मिथ्या हैं, क्योंकि—

अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् ।

वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहुः प्रकाशितम् ॥ ३ ॥

श्रुतिमें भी [ स्वप्नदृष्ट ] रथादिका अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया है ।  
अतः [ उपर्युक्त युक्तिसे ] सिद्ध हुए मिथ्यात्वको ही स्वप्नमें स्पष्ट बतलाते  
हैं ॥ ३ ॥

अभावश्चैव रथादीनां स्वप्न-  
रथाद्यभावदृष्टे-दृश्यानां श्रूयते न्याय-  
मिथ्यात्वन् पूर्वकं युक्तितः श्रुतौ "न  
तत्र रथाः" (बृ० उ० ४।३।१०)  
इत्यत्र । देहान्तःस्थानसंवृतत्वादि-  
हेतुना प्राप्तं वैतथ्यं तदनुवादिन्या  
श्रुत्या स्वप्ने स्वयंज्योतिष्टप्रति-  
पादनपरया प्रकाशितमाहुर्ब्रह्म-  
विदः ॥ ३ ॥

"इस अवस्थामें रथ नहीं हैं"  
इत्यादि श्रुतिमें भी स्वप्नदृष्ट रथादि-  
का अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया  
है । अतः अन्तःस्थान तथा स्थानके  
संकोच आदि हेतुओंसे सिद्ध हुआ  
मिथ्यात्व, उसका अनुवाद करनेवाली  
तथा स्वप्ने आत्माका स्वयंप्रकाशत्व  
प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिद्वारा  
ब्रह्मवेत्ता स्पष्ट बतलाते हैं ॥ ३ ॥

जाग्रद्दृश्य पदार्थोंके मिथ्यात्वमें हेतु

अन्तःस्थानात्तु भेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम् ।

यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते ॥ ४ ॥

इसीसे जाग्रत्-अस्थामें भी पदार्थोंका मिथ्यात्व है, क्योंकि जिस प्रकार वे वहाँ स्वप्नावस्थामें [ मिथ्या ] होते हैं उसी प्रकार जाग्रत्में भी होते हैं । केवल शरीरके भीतर स्थित होने और म्यानके सकुचित होनेमें ही स्वप्नदृष्ट पदार्थोंका भेद है ॥ ४ ॥

जाग्रद्दृश्यानां भावानां वैत-  
स्वप्नपदावयव<sup>१</sup> ध्यमिति प्रतिज्ञा ।  
दृश्यत्वेन दृश्यत्वादिति हेतुः  
मिथ्यात्वेन स्वप्नदृश्यमावयवदिति  
दृष्टान्तः । यथा तत्र स्वप्ने  
दृश्यानां भावानां वैतथ्यं तथा  
जागरितेऽपि दृश्यत्प्रमविशिष्ट-  
मिति हेतूपनयः । तस्माज्जाग-  
रितेऽपि वैतथ्यं स्मृतमिति  
निगमनम् । अन्तःस्थानाःसंवृत-  
त्वेन च स्वप्नदृश्यानां भावानां  
जाग्रद्दृश्येभ्यो भेदः । दृश्यत्प्रम-  
सत्यत्वं चाविशिष्टमुभयत्र ॥ ४ ॥

जाग्रत्-अस्थामें देखे हुए पदार्थ  
मिथ्या हैं—यह प्रतिज्ञा है । दृश्य  
होनेके कारण—यह उसका हेतु  
है । स्वप्नमें देखे हुए पदार्थोंके समान  
—यह दृष्टान्त है । जिस प्रकार वहाँ  
स्वप्नमें देखे हुए पदार्थोंका मिथ्यात्व  
है उसी प्रकार जाग्रत्में भी उनका  
दृश्यत्प्रम समानरूपसे है—यह हेतु-  
पनय है । अतः जागृतिमें भी उन-  
का मिथ्यात्व माना गया है—यह  
निगमन है । अन्तःस्थ होने और  
स्थानका संकोच होनेमें स्वप्नदृष्ट  
भावोंका जाग्रद्दृष्ट भावोंसे भेद है ।  
दृश्यत्प्रम और असत्यत्व तो दोनों ही  
अस्थायोंमें समान हैं ॥ ४ ॥

स्वप्नजागरितस्थाने

ह्येकमाहुर्मनीषिणः ।

भेदानां हि समत्वेन

प्रसिद्धेनैव हेतुना ॥ ५ ॥

इस प्रकार प्रसिद्ध हेतुसे ही पदार्थोंमें समानता होनेके कारण  
त्रिवेणी पुरुषोंने स्वप्न और जागरित अस्थायोंको एक ही बतलाया है ॥ ५ ॥

१. व्याप्तिविशिष्ट हेतु पक्षमें है—ऐसा प्रतिपादन करना 'हेतुपनय'  
बहलाता है ।

प्रसिद्धेनैव भेदानां ग्राह्य-  
ग्राह्यग्राहक- ग्राहकत्वेन हेतुना  
त्वात् समत्वेन स्वप्न-  
जागरितस्थानयोरेकत्वमाहुर्विवे-  
किन इति पूर्वप्रमाणसिद्धस्यैव  
फलम् ॥ ५ ॥

पदार्थोंके ग्राह्यग्राहकत्वरूप प्रसिद्ध  
हेतुसे समानता होनेके कारण ही  
विवेकी पुरुषोंने स्वप्न और जागरित  
अवस्थाओंका एकत्व प्रतिपादन किया  
है—इस प्रकार यह पूर्व प्रमाणसे  
सिद्ध हुए हेतुका ही फल है ॥ ५ ॥

इतथ वैतथ्यं जाग्रद्दृश्यानां  
भेदानामाद्यन्तयोरभावात् ।

जाग्रत्-अवस्थामें दिखलायी देने-  
वाले पदार्थोंका मिथ्यात्व इसलिये भी  
है, क्योंकि आदि और अन्तमें उनका  
अभाव है ।

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ।

वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ६ ॥

जो आदि और अन्तमें नहीं है [ अर्थात् आदि और अन्तमें अस-  
द्रूप है ] वइ वर्तमानमें भी वैसा ही है । ये पदार्थसमूह असत्के समान  
होकर भी सत्-जैसे दिखायी देते हैं ॥ ६ ॥

यदादावन्ते च नास्ति वस्तु  
मृगतृष्णिकादि तन्म-  
आदावन्ते ध्येऽपि नास्तीति  
चानावात् निश्चितं लोके तथेमे  
जाग्रद्दृश्या भेदाः । आद्यन्तयोर-  
भावाद्वितथैरेव मृगतृष्णिकादिभिः  
सदृशत्वाद्वितथा एव तथाप्यवि-  
तथा इव लक्षिता मूर्द्धरनात्म-  
विद्धिः ॥ ६ ॥

जो मृगतृष्णादि वस्तु आदि और  
अन्तमें नहीं है वह मध्यमें भी नहीं  
होती—यह बात लोकमें निश्चित  
ही है । इसी प्रकार ये जाग्रत्-  
अवस्थामें दिखलायी देनेवाले भिन्न-  
भिन्न पदार्थ भी आदि और अन्तमें  
न होनेसे मृगतृष्णा आदि असद्व-  
स्तुओंके समान होनेके कारण असत्  
ही हैं; तथापि मूढ़ अनात्मज्ञ पुरुषों-  
द्वारा वे सद्वस्तु समझे जाते हैं ॥ ६ ॥

स्वप्नदृश्यवज्रागारितदृश्याना-  
मभ्यसत्त्वमिति यदुक्तं तदपुक्तम् ।  
यस्माज्जाग्रद्दृश्या अन्नपानवाह-  
नादयः क्षुत्पिपासादिनिवृत्तिं  
कुर्वन्तो गमनागमनादिकार्यं च  
सप्रयोजना दृष्टाः । न तु  
स्वप्नदृश्यानां तदस्ति तस्मात्स्वप्न-  
दृश्यवज्राग्रद्दृश्यानामसत्त्व मनो-  
रथमात्रमिति ।

तन्न । कस्मात् ? यस्मात्—

ज्ञा—स्वप्नदृश्योंके समान जाग-  
रित अवस्थामें दृश्योंका भी जो  
अस्तित्व बतलाया गया है वह ठीक  
नहीं; क्योंकि जाग्रद्दृश्य अन्न, पान  
और वाहन आदि पदार्थ भूख-प्यास-  
की निवृत्ति तथा गमनागमन आदि  
कार्योंके करनेके कारण प्रयोजनवाले  
देखे गये हैं । किन्तु स्वप्नदृश्योंके  
विषयमें ऐसी बात नहीं है । अतः  
स्वप्नदृश्योंके समान जाग्रद्दृश्योंकी  
अस्तित्वा केवल मनोरथमात्र है ।

समाधान—ऐसी बात नहीं है ।  
क्यों नहीं है ? क्योंकि—

सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते ।

तस्मादाद्यन्तवचनेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ॥ ७ ॥

स्वप्नमें उन ( जाग्रद्-पदार्थों ) की सप्रयोजनतामें विपरीतता आ  
जाती है । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे मिथ्य मिथ्या ही  
माने गये हैं ॥ ७ ॥

सप्रयोजनता दृष्टा यान्नपाना-  
दीनां स्वप्ने विप्रतिपद्यते ।  
जागरिते हि भुक्त्वा पीत्वा च  
वृत्तो विनिवर्तितवृत्सुप्तमात्र एव  
क्षुत्पिपासाद्यार्तमहोरात्रोपितम-  
भुक्तवन्तमात्मानं मन्यते । यथा

[ जागरित अवस्थामें ] जो अन्न-  
पानादिकी सप्रयोजनता देखी गयी  
है वह स्वप्नमें नहीं रहती । जागरित  
अवस्थामें खा-पीकर तृप्त हुआ पुरुष  
तृप्पारहित होकर सोनेपर भी [ स्वप्नमें ]  
अपनेको क्षुधा-पिपासा आदिसे आर्त,  
दिन-रात उपवास किया हुआ और  
बिना भोजन किया हुआ मानता है,

स्वप्ने भुक्त्वा पीत्वा चातृप्तोत्थि-  
तस्तथा । तस्माज्जाग्रद्दृश्यानां  
स्वप्ने विप्रतिपत्तिर्दृष्टा । अतो  
मन्यामहे तेषामप्यसत्त्वं स्वप्न-  
दृश्यवदनाशङ्कनीयमिति ।  
तस्मादाद्यन्तच्चमुभयत्र समान-  
मिति मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ॥७॥

जिस प्रकार कि स्वप्नमें, खा-पीकर  
जागा हुआ पुरुष अपनेको अतृप्त  
अनुभव करता है । अतः स्वप्नावस्था-  
में जाग्रद्-दृश्योंकी विपरीतता देखी  
जाती है । इसलिये स्वप्नदृश्योंके  
समान उनकी असत्यताको भी हम  
शङ्का न करनेयोग्य मानते हैं । इस  
प्रकार दोनों ही अवस्थाओंमें आदि-  
अन्तवत्त्व समान है; अतः वे निश्चय  
मिथ्या ही माने गये हैं ॥ ७ ॥

स्वप्न जाग्रद्भेदयोःसमत्वाज्जा-  
ग्रद्भेदानामसत्त्वमिति यदुक्तं  
तदसत्, कस्मात् ? दृष्टान्तस्या-  
सिद्धत्वात् । कथम् ? न हि  
जाग्रद्दृष्टा एवैते भेदाः स्वप्ने  
दृश्यन्ते । किं तर्हि ?

स्वप्न और जाग्रत्-पदार्थोंके समान  
होनेसे जाग्रत्-पदार्थोंकी जो असत्यता  
बतलायी गयी है वह ठीक नहीं है ।  
क्यों ? क्योंकि यह दृष्टान्त सिद्ध नहीं  
हो सकता । कैसे सिद्ध नहीं हो  
सकता ? क्योंकि जो पदार्थ जाग्रत्-  
अवस्थामें देखे जाते हैं वे ही स्वप्नमें  
नहीं देखे जाते । तो उस समय  
और क्या देखा जाता है ?

अपूर्वं स्वप्ने पश्यति; चतुर्दन्त-  
राजमारूढमष्टभुजमात्मानं मन्यते।  
अन्यदप्येवंप्रकारमपूर्वं पश्यति  
स्वप्ने । तन्नान्येनासता सममिति

स्वप्नमें तो यह अपूर्व वस्तुएँ  
देखता है । अपनेको चार दाँतोंवाले  
हाथीपर चढ़ा हुआ तथा आठ  
भुजाओंवाला मानता है । इसी प्रकार  
स्वप्नमें और भी अपूर्व वस्तुएँ देखा  
करता है । वे किसी अन्य असत्  
वस्तुके समान नहीं होतीं; इसलिये वे

सदेव । अतो दृष्टान्तोऽसिद्धः ।  
तस्मात्स्वप्नज्जागरितस्यासच्चमि-  
त्युक्तम् ।

तन्न; स्वप्ने दृष्टमपूर्वं  
यन्मन्यसे न तत्स्वतः सिद्धम्  
किं तर्हि ?

सत् ही हैं । अत यह दृष्टान्त सिद्ध  
नहीं हो सकता । अत स्वप्नके समान  
जागरितभी भी असत्यता है—यह  
कथन ठीक नहीं ।

ऐसी बात नहीं है । स्वप्नमें देखी  
हुई जिन वस्तुओंको अपूर्व समझता है  
वे स्वतः सिद्ध नहीं हैं तो कैसी हैं ?

अपूर्वं स्थानिधर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनाम् ।

तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः ॥ ८ ॥

जिस प्रकार [ इन्द्रादि ] स्वर्गनिवासियोंकी [ सहस्रनेत्रत्वादि ]  
अलौकिक अवस्थाएँ सुनी जाती हैं उसी प्रकार यह ( स्वप्न ) भी स्थानी  
( स्वप्नद्रष्टा आत्मा ) का अपूर्व वर्म है । उन स्वप्न पदार्थोंको यह इसी  
प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस लोकमें [ किसी मार्गनिशेषके  
सम्बन्धमें ] सुशिक्षित पुरुष [ उस मार्गसे जाकर अपने अभीष्ट दृश्यपर  
पहुँचकर उसे देखता है ] ॥ ८ ॥

अपूर्वं स्थानिधर्मो हि स्थानिनो

द्रष्टुरेव हि स्वप्नस्थानवतो

धर्मः । यथा स्वर्गनिवासि-

नामिन्द्रादीना सहस्राक्षत्यादि

तथा स्वप्नद्रष्टोऽपूर्वोऽयं धर्मः ।

न स्वतः सिद्धो द्रष्टुः स्वरूपवत् ।

तानेवंप्रकारापूर्वान्स्वचित्तवि-

कल्पानयंस्थानी स्वप्नदृक्स्वप्नस्थानं

गत्वा प्रेक्षते । यथैवेह लोके

सुशिक्षितो देशान्तरमार्गस्तेन

वे स्थानीका अपूर्वधर्म ही हैं, स्थानी

अर्थात् स्वप्नस्थानमाले द्रष्टाका ही धर्म

हैं । जैसे कि स्वर्गनिवासी इन्द्रादिके

सहस्राक्षत्वादि धर्म हैं उसी प्रकार

स्वप्नद्रष्टाका यह अपूर्व धर्म है ।

द्रष्टाके स्वरूपके समान यह स्वत-

सिद्ध नहीं है । इस प्रकारके अपने

चित्तद्वारा कल्पना किये हुए उन

धर्मोंको यह जो स्वप्न देखनेवाला

स्थानी है स्वप्नस्थानमें जाकर देखा

करता है, जिस प्रकार इस लोकमें

देशान्तरके मार्गके नियममें सुशिक्षित



मार्गेण देशान्तरं गत्वा  
तान्पदार्थान्पश्यति तद्वत् ।  
तस्माद्यथा स्थानिधर्माणां रज्जु-  
सर्पमृगतृष्णिकादीनामसत्त्वं तथा  
स्वप्नदृश्यानामपूर्वाणां स्थानिधर्म-  
त्वमेवेत्यसत्त्वमतो न स्वप्नदृष्टान्त-  
स्यासिद्धत्वम् ॥ ८ ॥

पुरुष उस मार्गसे देशान्तरमें जाकर  
वहाँके पदार्थोंको देखता है उसी  
प्रकार [ यह भी देखता है ] । अतः  
जिस प्रकार स्थानीके धर्म रज्जु-सर्प  
और मृगतृष्णा आदिकी असत्यता है  
उसी प्रकार स्वप्नमें देखे जानेवाले  
अपूर्व पदार्थोंका भी स्थानिधर्मत्व ही  
है, अतः वे भी असत् हैं । इसलिये  
स्वप्नदृष्टान्तकी असिद्धता नहीं है ॥ ८ ॥

स्वप्नमें मनःकल्पित और इन्द्रियग्राह्य दोनों ही  
प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं

अपूर्वत्वाशङ्का निराकृता  
स्वप्नदृष्टान्तस्वप्नुनः स्वप्नतुल्यतां  
जाग्रद्भेदानां प्रपञ्चयन्नाह —

स्वप्नदृष्टान्तके अपूर्वत्वकी आश-  
ङ्का निराकरण कर दिया । अब  
पुनः जाग्रत्पदार्थोंकी स्वप्नतुल्यताका  
विस्तृतरूपसे प्रतिपादन करते हुए  
कहते हैं—

स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् ।

बहिश्चेतोऽगृहीतं सद्दृष्टं वैतथ्यमेतयोः ॥ ९ ॥

स्वप्नावस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत्  
और चित्तसे बाहर [ इन्द्रियोंद्वारा ] ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत् जान  
पड़ता है; किन्तु इन दोनोंका ही मिथ्यात्व देखा गया है ॥ ९ ॥

स्वप्नवृत्तावपि स्वप्नस्थानेऽपि  
अन्तश्चेतसा मनोरथसङ्कल्पितम-  
सत् । सङ्कल्पानन्तरसमकालमेवा-

स्वप्नकी वृत्ति अर्थात् स्वप्नस्थानमें  
भी चित्तके भीतर मनोरथसे सङ्कल्प  
की हुई वस्तु असत् होती है; क्योंकि  
वह सङ्कल्पके पश्चात् तत्क्षण  
ही दिखायी नहीं देती । तथा उस

दर्शनात्तत्रैव स्वप्ने बहिश्चेतसा  
 गृहीतं चक्षुरादिद्वारेणोपलब्धं  
 घटादि सत् । इत्येवमसत्यमिति  
 निश्चितेऽपि सदसद्विभागो दृष्टः ।  
 उभयोरप्यन्तर्बहिश्चेतःकल्पितयो-  
 र्वैतथ्यमेव दृष्टम् ॥ ९ ॥

स्वप्नावस्थामें ही चित्तमें बाहर चक्षु  
 आदिद्वारा ग्रहण किये हुए घट  
 आदि सत् होते हैं । इस प्रकार स्वप्न  
 असत्य है—ऐसा निश्चय हो जानेपर  
 भी उसमें सत्-असत्का विभाग देखा  
 जाता है । किन्तु चित्तमें कल्पना किये  
 हुए इन आन्तरिक और बाह्य दोनों  
 ही प्रकारके पदार्थोंका मिथ्यात्व  
 देखा गया है ॥ ९ ॥

जाग्रत्में भी दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं

जाग्रद्वृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् ।

बहिश्चेतोऽगृहीतं सद्युक्तं वैतथ्यमेतयोः ॥ १० ॥

इसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किये हुआ  
 पदार्थ असत् तथा चित्तमें बाहर ग्रहण किये हुआ पदार्थ सत् समझा  
 जाता है । परन्तु इन दोनोंका ही मिथ्यात्व मानना उचित है ॥ १० ॥

सदसतोर्वैतथ्यं युक्तम्,  
 अन्तर्बहिश्चेतःकल्पितत्वाविशेषा-  
 दिति व्याख्यातमन्यत् ॥ १० ॥

इन सत् और असत् पदार्थोंका  
 मिथ्यात्व ठीक ही है, क्योंकि दृष्टयके  
 भीतर या बाहर कल्पित होनेसे उनमें  
 कोई विशेषता नहीं होती । शेष  
 सबकी व्याख्या हो चुकी है ॥ १० ॥

इन मिथ्या पदार्थोंकी कल्पना करनेवाला कौन है ?

चौदक आह—

[ इसपर ] पूर्वपक्षी कहता है—

उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि ।

क एतान्नुध्यते भेदान्को वै तेषां विकल्पकः ॥ ११ ॥

यदि [ जागरित और स्वप्न ] दोनों ही स्थानोंके पदार्थोंका मिथ्यात्व है तो इन पदार्थोंको जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करने-वाला है ? ॥ ११ ॥

स्वप्नजाग्रत्स्थानयोर्भेदानां यदि  
वैतथ्यं क एतानन्तर्वाहिश्चेतः-  
कल्पितान्बुध्यते । को वै तेषां  
विकल्पकः । स्मृतिज्ञानयोः क  
आलम्बनमित्यभिप्रायः; न  
चेन्निरात्मवाद इष्टः ॥ ११ ॥

यदि स्वप्न और जागरित [ दोनों  
ही स्थानों ] के पदार्थोंका मिथ्यात्व  
है तो चित्तके भीतर या बाहर  
कल्पना किये हुए इन पदार्थोंको  
जानता कौन है ? और कौन उनकी  
कल्पना करनेवाला है ? तात्पर्य यह  
है कि यदि निरात्मवाद अभीष्ट नहीं  
है तो [ यह बताना चाहिये कि ] उक्त  
स्मरण ( स्वप्न ) और ज्ञान ( जागरित )  
का आलम्बन कौन है ? ॥ ११ ॥

इनकी कल्पना करनेवाला और इनका  
साक्षी आत्मा ही है

कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया ।

स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ १२ ॥

स्वयंप्रकाश आत्मा अपनी मायासे स्वयं ही कल्पना करता है और  
वही सब भेदोंको जानता है—यही वेदान्तका निश्चय है ॥ १२ ॥

स्वयं स्वमायया स्वमात्मान-  
मात्मा देव आत्मन्येव वक्ष्यमाणं  
भेदाकारं कल्पयति रज्ज्वादाविव  
सर्पादीन् स्वयमेव च तान्बुध्यते  
भेदांस्तद्वदेवेत्येवं वेदान्तनिश्चयः।

स्वयंप्रकाश आत्मा अपनी माया-  
से रज्जुमें सर्पादिके समान अपनेमें  
आपहीको आगे बतलाये जानेवाले  
भेदरूपसे कल्पना करता है और  
स्वयं ही उन भेदोंको जानता है—  
इस प्रकार यही वेदान्तका निश्चय  
है । उसके सिवा स्मृति और ज्ञान-

नान्योऽस्ति ज्ञानस्मृत्याश्रयः । का कोई और आश्रय नहीं है ।  
न च निरास्पदे एव ज्ञानस्मृती तात्पर्य यह कि वैनाशिकों ( बौद्धों )  
वैनाशिकानामिवेत्यभिप्रायः ॥ १२ ॥ के कथनके समान ये ज्ञान और  
स्मृति निराधार नहीं है ॥ १२ ॥

### पदार्थकल्पनाकी विधि

सङ्कल्पयन्केन प्रकारेण वह सरल्य करते हुए किस  
कल्पयतीत्युच्यते— प्रकार कल्पना करता है ? सो  
बतलाया जाता है—

विकरोत्यपरान्भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् ।

नियतांश्च बहिश्चित्त एव कल्पयते प्रभुः ॥ १३ ॥

प्रभु आत्मा अपने अन्त करणमें [ वासनारूपसे ] स्थित अन्य  
( लौकिक ) भावोंको नानारूप करता है तथा बहिश्चित्त होकर पृथिवी  
आदि नियत और अनियत पदार्थोंकी भी इसी प्रकार कल्पना करता है ॥ १३ ॥

विकरोति नाना करोत्यपरान् वह चित्तके भीतर वासनारूपसे  
लौकिकान् भावान् पदार्थान् स्थित अयाकृत लौकिक भावों—  
शब्दादीनन्यांश्चान्तश्चित्ते वासना- शब्दादि पदार्थोंको तथा अन्य पृथिवी  
रूपेण व्यवस्थितानच्याकृतान् आदि नियत और कल्पनाकालमें ही  
नियतांश्च पृथ्व्यादीननियतांश्च उत्पन्न होनेवाले अनियत पदार्थोंको  
कल्पनाकालान्बहिश्चित्तः संस्तथा- बहिश्चित्त होकर एव मनोरथारूप  
न्तश्चित्तो मनोरथादिलक्षणा- पदार्थोंको अन्तश्चित्त होकर विकृत  
नित्येवं कल्पयति प्रभुरीश्वर करता अर्थात् नाना कर्ता है—इस  
आत्मेत्यर्थः ॥ १३ ॥ प्रकार प्रभु—ईश्वर अर्थात् आत्मा  
कल्पना करता है ॥ १३ ॥

आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं

स्वप्नवच्चित्तपङ्क्तिपत सर्व- रूपके समान सब कुछ चित्तम  
मित्येतदाशङ्कयते । यस्माच्चित्त- ही कल्पना किया हुआ है—इस

परिकल्पितैर्मनोरथादिलक्षणैश्चित्त-

परिच्छेदैर्वैलक्षण्यं बाह्याना-

मन्योन्यपरिच्छेद्यत्वमिति ।

सा न युक्ताशङ्का ।

विषयमें यह शङ्का होती है; क्योंकि केवल चित्तपरिकल्पित और चित्तसे ही परिच्छेद्य मनोरथादिसे बाह्य पदार्थोंकी अन्योन्यपरिच्छेद्यस्वरूप विलक्षणता है [ अतः स्वप्नके समान ये मिथ्या नहीं हो सकते ] ।

समाधान—यह शङ्का ठीक नहीं है, [ क्योंकि— ]

चित्तकाला हि येऽन्तस्तु द्वयकालाश्च ये बहिः ।

कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ॥ १४ ॥

जो आन्तरिक पदार्थ केवल कल्पनाकालतक ही रहनेवाले हैं और जो बाह्य पदार्थ द्विकालिक [ अर्थात् अन्योन्यपरिच्छेद्य ] हैं वे सभी कल्पित हैं । उनकी विशेषताका [ अर्थात् आन्तरिक पदार्थ असत्य हैं और बाह्य सत्य हैं—इस प्रकारकी भेदकल्पनाका ] कोई दूसरा कारण नहीं है ॥ १४ ॥

चित्तकाला हि येऽन्तस्तु  
चित्तपरिच्छेद्याः; नान्यश्चित्त-  
कालव्यतिरेकेण परिच्छेदकः  
कालो येषां ते चित्तकालाः ।  
कल्पनाकाल एवोपलभ्यन्त  
इत्यर्थः । द्वयकालाश्च भेदकाला  
अन्योन्यपरिच्छेद्याः । यथा-  
गोदोहनमास्ते; यावदास्ते तावद्ग्रां  
दोग्धि यावद्ग्रां दोग्धि तावदास्ते ।  
तावानयमेतावान्स इति परस्पर-

जो आन्तरिक हैं अर्थात् चित्त-  
परिच्छेद्य हैं वे चित्तकाल हैं; जिनका  
चित्तकालके सिवा और कोई काल  
परिच्छेदक न हो उन्हें चित्तकाल  
कहते हैं । अर्थात् वे केवल कल्पना-  
के समय ही उपलब्ध होते हैं । तथा  
बाह्य पदार्थ दो कालवाले—भेदकालिक  
यानी अन्योन्यपरिच्छेद्य हैं । जैसे  
गोदोहनपर्यन्त बैठा है; यानी  
जबतक बैठता है तबतक गौ दुहता  
है और जबतक गौ दुहता है तबतक  
बैठता है । उतने समयतक यह रहता  
है और इतने समयतक बइ रहता है—

परिच्छेद्यपरिच्छेदकत्वं बाह्यानां | इस प्रकार बाह्य पदार्थोंका परस्पर  
भेदानां ते द्वयकालाः अन्त- | परिच्छेद्य-परिच्छेदकत्व है; अतः वे  
चित्तकाला बाह्याश्च द्वयकालाः | दो कालवाले हैं । किन्तु आन्तरिक  
कल्पिता एव ते सर्वे । न बाह्यो | चित्तकालिक और बाह्य द्विकालिक-  
द्वयकालत्वविशेषः कल्पितत्व- | ये सब कल्पित ही हैं । बाह्य पदार्थों-  
व्यतिरेकेणान्यहेतुकः । अत्रापि | की जो द्विकालिकत्वरूप विशेषता है  
हि स्वप्नदृष्टान्तो भवत्येव ॥१४॥ | वह कल्पितत्वके सिवा किसी अन्य  
कारणसे नहीं है । इस विषयमें भी  
स्वप्नका दृष्टान्त\* है ही ॥ १४ ॥

आन्तरिक और बाह्य पदार्थोंका भेद केवल इन्द्रियजनित है

अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये वहिः ।

कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे ॥ १५ ॥

जो आन्तरिक पदार्थ हैं वे अव्यक्त ही हैं और जो बाह्य हैं वे स्पष्ट प्रतीत होनेवाले हैं । किन्तु वे सब हैं कल्पित ही । उनकी विशेषता तो केवल इन्द्रियोंके ही भेदमें है ॥ १५ ॥

यदप्यन्तरव्यक्तत्वं भावानां | चित्तकी वासनामात्रसे अभिव्यक्त  
मनोवासनामात्रामिव्यक्तानां | हुए पदार्थोंका जो अन्त करणमें  
स्फुटत्वं वा वहिश्चक्षुरादीन्द्रि- | अव्यक्तत्व ( अस्फुटत्व ) और बाह्य  
यान्तरे विशेषो नासौ भेदाना- | चक्षु आदि अन्य इन्द्रियोंमें जो  
मस्तिव्यकृतः स्वप्नेऽपि तथा | उनका स्फुटत्व है वह विशेषता  
दर्शनात् । किंतुहिं? इन्द्रियान्तर- | पदार्थोंकी सत्ताके कारण नहीं है,  
कृत एव । अतः कल्पिता एव | क्योंकि ऐसा ही स्वप्नमें भी देखा  
जाता है । तो फिर इसका क्या  
कारण है? यह इन्द्रियोंके भेदके ही

\* अर्थात् जाग्रतके समान स्वप्नके भी चित्तपरिकल्पित पदार्थ कल्पना-  
कालिक और बाह्य पदार्थ द्विकालिक ही होते हैं, परन्तु वे होते दोनों ही मिथ्या  
हैं । इसी प्रकार जाग्रतमें भी समझो ।

जाग्रद्भावां अपि स्वप्नभाववदिति  
सिद्धम् ॥ १५ ॥

कारण है। अतः सिद्ध हुआ कि  
स्वप्नके पदार्थोंके समान जाग्रत्कालीन  
पदार्थ भी कल्पित ही हैं ॥ १५ ॥

पदार्थकल्पनाकी मूल जीवकल्पना है

बाह्याध्यात्मिकानां भावाना-  
मितरेतरनिमित्तनैमित्तिकतया  
कल्पनायां किं मूलमित्युच्यते—

बाह्य और आन्तरिक पदार्थोंकी  
परस्पर निमित्त और नैमित्तिकरूपसे  
कल्पना होनेमें क्या कारण है ? सो  
बतलाया जाता है—

जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान्पृथग्विधान् ।

बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथाविद्यस्तथास्मृतिः ॥ १६ ॥

[ वह प्रभु ] सबसे पहले जीवकी कल्पना करता है; फिर तरह-  
तरहके बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थोंकी कल्पना करता है। उस जीवका  
जैसा विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति भी होती है ॥ १६ ॥

जीवं हेतुफलात्मकम्; अहं  
करोमि मम सुखदुःखे इत्येवं-  
लक्षणम्; अनेवंलक्षण एव शुद्ध  
आत्मनि रज्जाविव सर्प कल्पयते  
पूर्वम् । ततस्तादर्थ्येन क्रिया-  
कारकफलभेदेन प्राणादीन्नाना-  
विधान्भावान्बाह्यानाध्यात्मिकां-  
श्चैव कल्पते ।

सबसे पहले 'मैं करता हूँ, मुझे  
सुख-दुःख हैं' इस प्रकारके हेतु-  
फलात्मक जीवकी [ वह प्रभु ] इस-  
से विपरीत लक्षणोंवाले शुद्ध आत्मामें  
रज्जुमें सर्पके समान कल्पना करता  
है। फिर उसीके लिये क्रिया, कारक  
और फलके भेदसे प्राण आदि नाना  
प्रकारके बाह्य और आध्यात्मिक  
पदार्थोंकी कल्पना करता है।

तत्र कल्पनायां को हेतुरि-  
त्युच्यते । योऽसौ स्वयंकल्पितो  
जीवः सर्वकल्पनायामधिकृतः स

उस कल्पनामें क्या हेतु है—इस-  
पर कहा जाता है—यह जो स्वयं  
कल्पना किया हुआ जीव सब प्रकार-  
की कल्पनाका अधिकारी है, वह जैसी

यथाविद्यः, यादृशी विद्या विज्ञान-  
 मस्येति यथाविद्यः; तथाविधैव  
 स्मृतिस्तस्येति तथास्मृतिर्भवति  
 स इति । अतो हेतुकल्पना-  
 विज्ञानात्फलविज्ञानं ततो हेतुफल-  
 स्मृतिस्ततस्तद्विज्ञानं तदर्थक्रिया-  
 कारकतत्फलभेदविज्ञानानि  
 तेभ्यस्तत्स्मृतिस्तत्स्मृतेश्च पुन-  
 स्तद्विज्ञानानीत्येवं बाह्यानाध्या-  
 त्मिकांश्चेतरेतरनिमित्तनैमित्तिक-  
 भावेनानेकधा कल्पयते ॥ १६ ॥

विद्यामाला होता है अर्थात् उसकी  
 जैसी विद्या यानी विज्ञान होना है वैसी  
 ही स्मृति भी होती है । अतः  
 वह वैसी ही स्मृतिमाला होता है ।  
 इस प्रकार [ अन्नभक्षणादि ] हेतुकी  
 कल्पनाके विज्ञानसे ही [ तृप्ति आदि ]  
 फलका विज्ञान होता है, उससे [ दूसरे  
 दिन भी ] उन हेतु और फलकी स्मृति  
 होती है और उस स्मृतिसे उनका ज्ञान  
 तथा उनके लिये होनेवाले [ पाकादि ]  
 कर्म, [ तण्डुलादि ] कारक और उनके  
 [ तृप्ति आदि ] फलभेदके ज्ञान होते हैं ।  
 उनसे उनकी स्मृति होती है तथा उस  
 स्मृतिसे फिर उन [ हेतु आदि ] के  
 विज्ञान होते हैं । इस प्रकार यह जीव  
 बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थोंकी  
 पारस्परिक निमित्त-नैमित्तिकभावसे  
 अनेक प्रकार कल्पना करता है ॥ १६ ॥

जीवकल्पनाका हेतु अज्ञान है

तत्र जीवकल्पना सर्वकल्पना-  
 मूलमित्युक्तं सैव जीवकल्पना  
 किंनिमित्तेति दृष्टान्तेन प्रति-  
 पादयति—

यहाँतक जीवकल्पना ही सब  
 कल्पनाओंका मूल है—यह कहा गया,  
 किन्तु यह जीव-कल्पना है किस  
 निमित्तसे ?—इस बातका दृष्टान्तसे  
 प्रतिपादन करते हैं—

अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता ।

सर्पधारादिभिर्भावैस्तद्वदात्मा विकल्पितः ॥ १७ ॥



जिस प्रकार [ अपने स्वरूपसे ] निश्चय न की हुई रज्जु अन्वकार-  
में सर्प-धारा आदि भावोंसे कल्पना की जाती है उसी प्रकार आत्मामें भी  
तरङ्ग-तरङ्गकी कल्पनाएँ हो रही हैं ॥ १७ ॥

यथा लोके स्वेन रूपेणानिश्चि-  
तानवधारितैवमेवेति रज्जुर्मन्दा-  
न्वकारे किं सर्प उदकधारा  
दण्ड इति वानेकधा विकल्पिता  
भवति पूर्वं स्वरूपानिश्चयनिमित्तम्  
यदि हि पूर्वमेव रज्जुः स्वरूपेण  
निश्चिता स्यात्; न सर्पादिवि-  
कल्पोऽभविष्यद् यथा स्वहस्ता-  
ङ्गुल्यादिषु, एष दृष्टान्तः ।  
तद्वद्देहेतुफलादिसंसारधर्मानर्थवि-  
लक्षणतया स्वेन विशुद्धविज्ञप्ति-  
मात्रसत्ताद्वयरूपेणानिश्चितत्वा-  
जीवप्राणाद्यनन्तभावभेदैरात्मा-  
विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां  
सिद्धान्तः ॥ १७ ॥

जिस प्रकार अपने स्वरूपसे  
अनिश्चित अर्थात् यह ऐसी ही है—  
इस प्रकार निर्धारण न की हुई रज्जु  
मन्दअन्वकारमें 'यह सर्प है ?' 'जल-  
की धारा है ?' अथवा 'दण्ड है ?'  
इस प्रकार—पहलेसे स्वरूपका निश्चय  
न होनेके कारण—अनेक प्रकारसे  
कल्पना की जाती है; यदि रज्जु  
पहले ही अपने स्वरूपसे निश्चित हो  
तो उसमें सर्पादिका विकल्प नहीं हो  
सकता, जैसे कि अपने हाथकी अँगुली  
आदिमें [ ऐसा कोई विकल्प नहीं  
होता ] । यह एक दृष्टान्त है । इसी  
तरह हेतु-फलादि सांसारिक धर्मरूप  
अनर्थसे विलक्षण अपने विशुद्ध  
विज्ञप्तिमात्र अद्वितीय सत्तास्वरूपसे  
निश्चित न होनेके कारण ही आत्मा  
जीव एवं प्राण आदि अनन्त विभिन्न  
भावोंसे विकल्पित हो रहा है—यही  
सम्पूर्ण उपनिषदोंका सिद्धान्त है ॥ १७ ॥

अज्ञाननिवृत्ति ही आत्मज्ञान है

निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पां विनिवर्तते ।

रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः ॥ १८ ॥

जिस प्रकार रज्जुका निश्चय हो जानेपर उसमें [ सर्पादिका ] विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा 'यह रज्जु ही है' ऐसा अद्वैत निश्चय होता है उसी प्रकार आत्माका निश्चय है ॥ १८ ॥

रज्जुरेवेति निश्चये सर्वविकल्पनिवृत्तौ रज्जुरेवेति चाद्वैतं यथा तथा "नेति नेति" ( वृ० उ० ४।४।२२ ) इति सर्वसंसारधर्मशून्यप्रतिपादकशास्त्रजनितविद्वानसूर्यालोककृतात्मविनिश्चयः "आत्मैवेदं सर्वम्" ( छा० उ० ७।२५।२ ) "अपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्" ( वृ० उ० २।५।१९ ) "सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः" ( मु० उ० २।१।२ ) "अजरोऽमरोऽमृतोऽभयः" ( वृ० उ० ४।४।२५ ) "एक एवाद्द्वयः" इति ॥ १८ ॥

'यह रज्जु ही है' ऐसा निश्चय होनेसे सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति हो जानेपर जिस प्रकार 'यह रज्जु ही है' ऐसा अद्वैत भाव हो जाता है उसी प्रकार "नेति-नेति" इस सर्वसंसारधर्मशून्य आत्माका प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रसे उत्पन्न हुए विज्ञानरूप सूर्यके प्रकाशसे आत्माका ऐसा निश्चय होता है कि "यह सब आत्मा ही है" "यह कारण-कार्यसे रहित और अन्तर्बाह्यशून्य है" "ब्राह्म-भीतरसे ( कार्य-कारण दोनों दृष्टियोंसे ) अजन्मा है" "वह जराशून्य अमर, अमृत और अमय है" तत्रा "वह एक अद्वितीय ही है" ॥ १८ ॥

यद्यात्मैक एवेति निश्चयः कथं प्राणादिभिरनन्तैर्भावेरैतैः संसारलक्षणैर्विकल्पित इति, उच्यते, शृणु—

यदि यह बात निश्चित है कि आत्मा एक ही है तो वह इन संसाररूप प्राणादि अनन्त भावोंसे कैसे विकल्पित हो रहा है ? सो इस विषयमें कहा जाता है, सुनो—

विकल्पकी मूल माया है

प्राणादिभिरनन्तैश्च

भावरैतैर्विकल्पितः ।

मायैषा तस्य देवस्य यया संमोहितः स्वयम् ॥ १९ ॥

यह जो इन प्राणादि अनन्त भावोंसे विकल्पित हो रहा है सो यह उस प्रकाशमय आत्मदेवकी माया ही है, जिससे कि वह स्वयं ही मोहित हो रहा है ॥ १९ ॥

मायैषा तस्यात्मनो देवस्य ।  
यथा मायाविना विहिता माया  
गगनमतिविमलं कुसुमितैः  
सपलाशैस्तरुभिराकीर्णमिव करोति  
तथेयमपि देवस्य माया ययायं  
स्वयमपि मोहित इव मोहितो  
भवति । “मम माया दुरत्यया”  
(गीता ७।१४) इत्युक्तम् ॥ १९ ॥

यह उस आत्मदेवकी माया है ।  
जिस प्रकार मायावीद्वारा प्रयोग की  
हुई माया अति निर्मल आकाशको  
पल्लवयुक्त पुष्पित पादपोंसे परिपूर्ण  
कर देती है उसी प्रकार यह भी  
उस देवकी माया है जिससे कि यह  
स्वयं भी मोहित हुएके समान मोह-  
ग्रस्त हो रहा है । “मेरी मायाका पार  
पाना कठिन है” ऐसा [ भगवान्ने ]  
कहा भी है ॥ १९ ॥

मूलतत्त्वसम्बन्धी विभिन्न मतवाद

प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः ।

गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः ॥ २० ॥

प्राणोपासक कहते हैं—‘प्राण ही जगत्का कारण है ।’ भूतज्ञों  
( प्रत्यक्षवादी चार्वाकादि ) का कथन है—‘[ पृथिवी आदि ] चार भूत  
ही परमार्थ हैं ।’ गुणोंको जाननेवाले [ सांख्यवादी ] कहते हैं—‘गुण ही  
सृष्टिके हेतु हैं ।’ तथा तत्त्वज्ञ ( शैव ) कहते हैं—‘[ आत्मा, अविद्या  
और शिव—ये तीन ] तत्त्व ही जगत्के प्रवर्तक हैं’ ॥ २० ॥

पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः ।

लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः ॥ २१ ॥

पादवेत्ता कहते हैं—‘विश्व आदि पाद ही सम्पूर्ण व्यवहारके हेतु हैं ।’  
[ वात्स्यायनादि ] त्रिषयज्ञ कहते हैं—‘शब्दादि त्रिषय ही सत्य वस्तु हैं ।’

लोकवेत्ताओं ( पौराणिकों ) का कथन है—‘लोक ही सत्य हैं ।’ तथा देवोपासक कहते हैं—‘इन्द्रादि देवता ही सृष्टिके सञ्चालक हैं’ ॥ २१ ॥

वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः ।

भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः ॥ २२ ॥

वेदज्ञ कहते हैं—‘ऋगादि चार वेद ही परमार्थ हैं ।’ याज्ञिक कहते हैं—‘यज्ञ ही संसारके आदिकारण हैं ।’ भोक्तानो जाननेवाले भोक्ताकी ही प्रधानता बतलाते हैं तथा भोज्यके मर्मज्ञ ( सूत्रकारादि ) भोज्यपदार्थोंकी ही सारवत्ताका प्रतिपादन करते हैं ॥ २२ ॥

सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः ।

मूर्त इति मूर्तविदोऽमूर्त इति च तद्विदः ॥ २३ ॥

सूक्ष्मवेत्ता कहते हैं—‘आत्मा सूक्ष्म ( अणु-परिमाण ) है ।’ स्थूलवादी ( चार्वाकादि ) कहते हैं—‘वह स्थूल है ।’ मूर्तवादी ( साकारोपासक ) कहते हैं—‘परमार्थ वस्तु मूर्तिमान् है ।’ तथा अमूर्तवादियों ( शून्यवादियों ) का कथन है कि वह मूर्तिहीन है ॥ २३ ॥

काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः ।

वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः ॥ २४ ॥

कालज्ञ ( ज्योतिषी लोग ) कहते हैं—‘काल ही परमार्थ है ।’ दिशाओंके जाननेवाले ( खरोदयशास्त्री ) कहते हैं—‘दिशाएँ ही सत्य वस्तु हैं ।’ वादवेत्ता कहते हैं—‘[ धातुवाद, मन्त्रवाद आदि ] वाद ही सत्य वस्तु हैं ।’ तथा भुवनकोषके ज्ञाताओंका कथन है कि भुवन ही परमार्थ हैं ॥ २४ ॥

मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः ।

चित्तमिति चित्तविदो धर्माधर्मौ च तद्विदः ॥ २५ ॥

मनोविद् कहते हैं—‘मन ही आत्मा है’, बौद्धोंका कथन है—‘बुद्धि ही आत्मा है’, चित्तज्ञोंका विचार है—‘चित्त ही सत्यवस्तु है’, तथा धर्माधर्मवेत्ता ( मीमांसक ) धर्माधर्मको ही परमार्थ मानते हैं ॥ २५ ॥

पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे ।

एकत्रिंशक इत्याहुरनन्त इति चापरे ॥ २६ ॥

कोई ( सांख्यवादी ) पञ्चीस तत्त्वोंको, कोई ( पातञ्जलमतावलम्बी ) छब्बीसोंको और कोई ( पाशुपत ) इकतीस तत्त्वोंको सत्य मानते हैं\* तथा अन्य मतावलम्बी परमार्थको अनन्त भेदोंवाला मानते हैं ॥ २६ ॥

लोकाँल्लोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः ।

स्त्रीपुंनपुंसकं लैङ्गाः परापरमथापरे ॥ २७ ॥

लौकिक पुरुष लोकानुरञ्जनको और आश्रमवादी आश्रमोंको ही प्रधान बतलाते हैं । लिङ्गवादी लीलिङ्ग, पुँलिङ्ग और नपुंसकलिङ्गोंको तथा दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्मको ही परमार्थ मानते हैं ॥ २७ ॥

सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः ।

स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेह तु सर्वदा ॥ २८ ॥

सृष्टिवेत्ता कहते हैं—‘सृष्टि ही सत्य है’, लयवादी कहते हैं—‘लय ही परमार्थ वस्तु है’ तथा स्थितिवेत्ता कहते हैं—‘स्थिति ही सत्य है ।’ इस प्रकार ये [ कहे हुए और बिना कहे हुए ] सभी वाद इस आत्मतत्त्वमें सर्वदा कल्पित हैं ॥ २८ ॥

प्राणः प्राज्ञो बीजात्मा  
तत्कार्यभेदा हीतरे स्थित्यन्ताः ।  
अन्ये च सर्वे लौकिकाः सर्व-  
प्राणिपरिकल्पिता भेदा रज्ज्वा-  
मिव सर्पादयः तच्छून्य आत्म-

प्राण बीजस्वरूपप्राज्ञको कहते हैं ।  
उपर्युक्त स्थितिपर्यन्त सब विकल्प  
उसीके कार्यभेद हैं, सम्पूर्ण प्राणियों-  
से परिकल्पित अन्य सब लौकिक-  
धर्म रज्जुमें सर्पके समान उन  
विकल्पोंसे शून्य आत्मामें आत्म-

\* प्रधान, महत्तत्त्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच विषय और मन—ये सांख्यवादियोंके पञ्चीस तत्त्व हैं; योगी इनके सिवा छब्बीसवाँ तत्त्व ईश्वर मानते हैं और पाशुपतोंके मनमें इन पञ्चीस तत्त्वोंके अतिरिक्त राग, अविद्या, नियति, काल, कला और माया—ये छः तत्त्व और हैं ।

न्यात्मस्वरूपानिश्चयहेतोरविद्यया  
कल्पिता इति पिण्डीकृतोऽर्थः ।  
प्राणादिश्लोकानां प्रत्येकं पदार्थ-  
व्याख्याने फल्गुप्रयोजनत्वा-  
त्सिद्धपदार्थत्वाच्च यत्नो न  
कृतः ॥ २८ ॥

स्वरूपके अनिश्चयके कारण अविद्यासे  
कल्पना किये गये हैं—यह इन  
श्लोकोंका समुदायार्थ है । प्राणादि  
श्लोकोंके प्रत्येक पदार्थके व्याख्यान-  
का अत्यन्त अल्प प्रयोजन होनेके  
कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ हैं इस-  
लिये प्रयत्न नहीं किया ॥ २८ ॥



किं बहुना--

। अधिक क्या ?--

यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति ।

तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तम् ॥ २९ ॥

[ गुरु ] जिसे जो भाव दिखला देता है वह उसीको आत्मस्वरूपमे  
देखने लगता है तथा इस प्रकार देखनेवाले उस व्यक्तिकी वह भाव तद्रूप  
होकर रक्षा करने लगता है । फिर उस ( भाव ) में होनेवाला अभिनिवेश  
उस [ के आत्मभाव ] को प्राप्त हो जाता है ॥ २९ ॥

प्राणादीनामन्यतममुक्तमनुक्तं

वान्यं भावं पदार्थं दर्शयेद्यस्या-  
चार्योऽन्यो वाप्त इदमेव तत्त्वमिति  
स तं भावमात्मभूतं पश्यत्यय-  
महमिति वा ममेति वा । तं च  
द्रष्टारं स भावोऽवति यो दर्शितो  
भावोऽसौ भूत्वा रक्षति । स्वेना-  
त्मना सर्वतो निरुणद्धि ।

जिसका आचार्य अथवा कोई  
अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राणादिमेंसे  
किसी कहे हुए अथवा किसी बिना  
कहे हुए अन्य भावको भी 'यही  
परमार्थ तत्त्व है' इस प्रकार दिखा  
देना है वह उसी भावको आत्मभूत  
हुआ देखता है [ और समझता है  
कि- ] 'मैं यही हूँ' अथवा 'यही  
मेरा स्वरूप है' । तथा उस द्रष्टाकी  
भी, जो भाव उसे दिखलाया गया  
है, तद्रूप होकर रक्षा करता है,  
अर्थात् उसे सब प्रकार अपने स्वरूप-

तस्मिन्ग्रहस्तद्ग्रहस्तदभिनिवेशः ।  
इदमेव तत्त्वमिति स तं ग्रहीतार-  
मुपैति । तस्यात्मभावं निगच्छ-  
तीत्यर्थः ॥ २९ ॥

से निरुद्ध कर देता है । उसी भावमें जो ग्रह—आग्रह अर्थात् 'यही तत्त्व है' इस प्रकारका अभिनिवेश है वह उस भावके ग्रहण करनेवालेको प्राप्त होता है, अर्थात् उसके आत्म-स्वरूपको प्राप्त हो जाता है ॥ २९ ॥



आत्मा सर्वाधिष्ठान है—ऐसा जाननेवाला ही परमार्थदर्शी है

एतैरेषोऽपृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः ।

एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सोऽविशङ्कितः ॥ ३० ॥

[ इस प्रकार सबका अधिष्ठान होनेके कारण ] इन प्राणादि अपृथक् भावोंसे [ पृथक् न होनेपर भी अज्ञानियोंद्वारा ] वह आत्मा भिन्न ही माना गया है । इस बातको जो वास्तविकरूपसे जानता है वह निःशंक होकर [ वेदार्थकी ] कल्पना कर सकता है ॥ ३० ॥

एतैः प्राणादिभिरात्मनो-  
ऽपृथग्भूतैरपृथग्भावैरेव आत्मा  
रज्जुरिव सर्पादिविकल्पनारूपैः  
पृथगेवेति लक्षितोऽभिलक्षितो  
निश्चितो मूढैरित्यर्थः । विवेकिनां  
तु रज्ज्वामिव कल्पिताः सर्पादयो  
नात्मव्यतिरेकेण प्राणादयः  
सन्तीत्यभिप्रायः “इदं सर्वं  
यदयमात्मा” ( वृ० उ० २ । ४ ।  
६, ४ । ५ । ७ ) इति श्रुतेः ।

एवमात्मव्यतिरेकेणासत्त्वं  
रज्जुसर्पवदात्मनि कल्पिताना-

रज्जुमें कल्पित सर्पादि भावोंसे रज्जुके समान यह आत्मा अपनेसे अपृथग्भूत प्राणादि अपृथग्भावोंसे पृथक् ही है—ऐसा मूर्खोंको लक्षित—अभिलक्षित अर्थात् निश्चित हो रहा है । विवेकियोंकी दृष्टिमें तो “यह जो कुछ है सब आत्मा ही है” इस श्रुतिके अनुसार रज्जुमें कल्पित सर्पादिके समान ये प्राणादि आत्मासे भिन्न हैं ही नहीं—ऐसा इसका तात्पर्य है ।

इस प्रकार रज्जुमें कल्पित सर्पके समान जो आत्मामें कल्पित पदार्थों-

मात्मानं च केवलं निर्विकल्पं  
 यो वेद तत्त्वेन श्रुतितो युक्तितश्च  
 सोऽविशङ्कितो वेदार्थं विभागतः  
 कल्पयेत्कल्पयतीत्यर्थः—इदमेवं-  
 परं वाक्यमदोऽन्यपरमिति । न  
 ह्यनध्यात्मविद्वेदाञ्ज्ञातुं शक्नोति  
 तच्चतः । “न ह्यनध्यात्मवित्कश्चि-  
 त्क्रियाफलमुपाश्नुते” ( मनु०  
 ६ । ८२ ) इति हि मानवं  
 वचनम् ॥ ३० ॥

का आत्माके सिवा असत्यत्व समझना  
 है तथा आत्माको श्रुति और युक्तिसे  
 परमार्थतः निर्विकल्प्य जानता है वह  
 नि शक होकर वेदार्थकी ‘यह वाक्य  
 इस अर्थका प्रतिपादन करनेवाला  
 है और यह अन्यार्थपरक है’ इस  
 प्रकार विभागपूर्वक कल्पना कर  
 सकता है—यह इसका तात्पर्य है ।  
 जो अध्यात्मतत्त्वको नहीं जानता  
 वह पुरुष तत्त्व वेदोंको भी नहीं  
 जान सकता । “अध्यात्मतत्त्वको न  
 जाननेवाला पुरुष किसी भी कर्मफल-  
 को प्राप्त नहीं करता” ऐसा मनुजी-  
 का भी वचन है ॥ ३० ॥

द्वैतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य है

यदेतद्द्वैतस्यासत्त्वमुक्तं युक्ति-  
 तस्तदेतद्वेदान्तप्रमाणावगत-  
 मित्याह—

यह जो युक्तिपूर्वक द्वैतकी  
 असत्यता बतलायी है वह वेदान्त-  
 प्रमाणसे जानी गयी है—इस आशयसे  
 कहते हैं—

स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा ।

तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥ ३१ ॥

जिस प्रकार स्वप्न और माया देखे गये हैं तथा जैसा गन्धर्वनगर  
 जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषोंने वेदान्तोंमें इस जगत्को  
 देखा है ॥ ३१ ॥

स्वप्नश्च माया च स्वप्नमाये | अद्विवेकी पुरुषोंद्वारा स्वप्न और  
 असद्वस्त्वात्मिके असत्यौ सद्व- | माया, जो असद्वस्त्वरूप अर्थात्



स्वात्मिके इव लक्ष्येते  
 अविवेकिभिः। यथा च प्रसारित-  
 पण्यापणगृहप्रासादस्त्रीपुंजनपद-  
 व्यवहाराकीर्णमिव गन्धर्वनगरं  
 दृश्यमानमेव सदकस्मादभावतां  
 गतं दृष्टम्, यथा च स्वप्नमाये  
 दृष्टे असद्रूपे, तथा विश्वमिदं द्वैतं  
 समस्तमसद्दृष्टम् ।

कवेत्याह-वेदान्तेषु । “नेह  
 नानास्ति किंचन” (क०उ० २।१।  
 ११, वृ० उ० ४।४।१९) “इन्द्रो  
 मायाभिः” (वृ० उ० २।५।१९)  
 “आत्मैवेदमग्र आसीत्” (वृ० उ०  
 १।४।१७) “ब्रह्म वा इदमग्र आ-  
 सीत्” (वृ० उ० १।४।१०) “द्विती-  
 याद्वै भयं भवति” (वृ० उ० १।४।  
 २) “न तु तद्द्वितीयमस्ति”  
 (वृ० उ० ४।३।२३) “यत्र  
 त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्” (वृ०  
 उ० ४।५।१५) इत्यादिषु  
 विचक्षणैर्निपुणतरवस्तुदर्शिभिः  
 पण्डितैरित्यर्थः ।

“तमःश्वभ्रनिभं दृष्टं वर्षबुद्-  
 बुदसंनिभम् । नाशप्रायं सुखा-

असत्य हैं, सद्वस्तुरूप देखे जाते हैं ।  
 जिस प्रकार विस्तृत दूकान, बाजार,  
 गृह, प्रासाद और नगरनिवासी स्त्री-  
 पुरुषोंके व्यवहारसे भरपूर-सा गन्धर्व-  
 नगर देखते-ही-देखते अकस्मात्  
 अभावको प्राप्त होता देखा गया है,  
 और जिस प्रकार ये स्वप्न और माया  
 असद्रूप देखे गये हैं, उसी प्रकार  
 यह विश्व अर्थात् समस्त द्वैत असत्  
 देखा गया है ।

कहाँ देखा गया है ? इसपर  
 कहते हैं-वेदान्तोंमें । “यहाँ नाना  
 कुछ नहीं है” “इन्द्रने मायासे”  
 “पहले यह आत्मा ही थी”  
 “पहले यह ब्रह्म ही था” “दूसरे-  
 से निश्चय भय होता है” “उससे  
 दूसरा कोई नहीं है” “यहाँ इसके  
 लिये सब आत्मा ही हो गया है”  
 इत्यादि वेदान्तोंमें विचक्षण अर्थात्  
 निपुणतर वस्तुदर्शा पण्डितोंद्वारा  
 देखा गया है—यह इसका  
 तात्पर्य है ।

“यह जगत् अँधेरे गढ़के समान  
 और नर्पकी बूँदके सदृश नाशप्राय,  
 सुखसे रहित और नाशके अनन्तर  
 अभावको प्राप्त हो जानेवाला देखा

द्वीनं नाशोत्तरमभावगम्” इति  
व्यासस्मृतेः ॥ ३१ ॥

गया है”—इस व्यासस्मृतिसे भी  
यही बात प्रमाणित होती है ॥ ३१ ॥

परमार्थ क्या है ?

प्रकरणार्थोपसंहारार्थोऽयं  
श्लोकः । यदा वितथं द्वैतमात्मै-  
वैकः परमार्थतः संस्तदेदं निष्पन्नं  
भवति सर्वोऽयं लौकिको वैदिकश्च  
व्यवहारोऽविद्याविषय एवेति ।  
तदा—

यह ( आगेका ) श्लोक इस  
प्रकरणके विषयका उपसंहार करनेके  
लिये है । जब कि द्वैत असत् है  
और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः  
सत् है तो यह निश्चित होता है कि  
यह सारा लौकिक और वैदिक  
व्यवहार अविद्याका ही विषय है ।  
उस अवस्थामें—

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ३२ ॥

न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है  
और न मुक्त ही है—यही परमार्थता है ॥ ३२ ॥

न निरोधः—निरोधनं निरोधः  
प्रलयः, उत्पत्तिर्जननम्, बद्धः  
संसारी जीवः, साधकः साधन-  
वान्मोक्षस्य, मुमुक्षुर्मोचनार्थी,  
मुक्तो विमुक्तनन्धः । उत्पत्ति-  
प्रलययोरभावाद्ब्रह्मादयो न  
सन्तीत्येषा परमार्थता ।

न निरोध है । निरोधनका नाम  
निरोध यानी प्रलय है । उत्पत्ति-  
जननको, बद्ध—संसारी जीवको,  
साधक मोक्षके साधनवालेको, मुमुक्षु  
मुक्त होनेकी इच्छावालेको और मुक्त  
बन्धनसे छूटे हुएको कहते हैं ।  
उत्पत्ति और प्रलयका अभाव होनेके  
कारण ये बद्ध आदि भी नहीं हैं—  
यही परमार्थता है ।

कथमुत्पत्तिप्रलययोरभावः,  
इत्युच्यते, द्वैतस्यासत्त्वात् । “यत्र

उत्पत्ति और प्रलयका अभाव  
किस प्रकार है ? इसपर कहा जाता

हि द्वैतमिव भवति" ( वृ० उ० २ । ४।१४ ) "य इह नानेव पश्यति" ( क० उ० २।१।१०, ११ ) "आत्मै-वेदं सर्वम्" ( छा० उ० ७।२।५।२ ) "ब्रह्मैवेदं सर्वम्" ( नृसिंहोत्तर० ७ ) "एकमेवाद्वितीयम्" ( छा० उ० ६।२।१ ) "इदं सर्वं यदयमात्मा" ( वृ० उ० २ । ४।६, ४।५।७ ) इत्यादि-नानाश्रुतिभ्यो द्वैतस्यासत्त्वं सिद्धम्।

सतो ह्युत्पत्तिः प्रलयो वा स्यान्नासतः शशविषाणादेः । नाप्यद्वैतमुत्पद्यते लीयते वा । अद्वयं चोत्पत्तिप्रलयवच्चेति विप्र-तिपिद्धम् ।

यस्तु पुनर्द्वैतसंन्यवहारः स रज्जुसर्पवदात्मनि प्राणादिलक्षणः कल्पित इत्युक्तम् । न हि मनो-विकल्पनाया रज्जुसर्पादि-लक्षणाया रज्ज्वां प्रलय उत्पत्तिर्वा । न च मनसि रज्जुसर्पस्योत्पत्तिः प्रलयो वा न चोभयतो वा । तथा मानसत्त्वा-

है-द्वैतकी असत्यता होनेके कारण [ इनकी भी सत्ता नहीं है ] । "जहाँ द्वैत-जैसा होता है" "जो यहाँ नानावत् देखता है" "यह सब आत्मा ही है" "यह सब ब्रह्म ही है" "एक ही अद्वितीय" "यह जो कुछ है सब आत्मा है" इत्यादि अनेकों श्रुतियोंसे द्वैतकी असत्यता सिद्ध होती है ।

उत्पत्ति अथवा प्रलय सत्की ही हो सकती है, शशशृङ्गादि अस्त्वकी नहीं हो सकती । इसी प्रकार अद्वैत वस्तु भी उत्पन्न या लीन नहीं होती । जो अद्वय हो वह उत्पत्ति-प्रलयवान् भी हो-यह तो सर्वथा विरुद्ध है ।

इसके सिवा जो प्राणादिरूप द्वैतव्यवहार है वह रज्जुमें सर्पके समान आत्मामें ही कल्पित है-यह बात पहले कही जा चुकी है । रज्जु-सर्पादिरूप मनोविकल्पकी भी रज्जुमें उत्पत्ति या प्रलय नहीं होती । रज्जुसर्पकी उत्पत्ति या प्रलय न तो मनमें ही होती है और न [ मन और रज्जु ] दोनोंहीमें । इसी प्रकार द्वैतका मनोमयत्व भी समान ही है,

विशेषाद्द्वैतस्य । न हि नियते  
मनसि सुपुप्ते वा द्वैतं गृह्यते ।

अतो मनोविकल्पनामात्रं  
द्वैतमिति सिद्धम् । तस्मात्सूक्तं  
द्वैतस्यासत्त्वान्निरोधाद्यभावात्  
परमार्थतेति ।

यद्येवं द्वैताभावे शास्त्रव्यापारो

नाद्वैते विरोधात् ।

शून्यवादादशून्य  
तन्निवर्तनञ्च

तथा च सत्यद्वैतस्य

वस्तुत्वे प्रमाणाभावाच्छून्यवादा-  
प्रसङ्गः, द्वैतस्य चाभावात् ।

न; रज्जुसर्पादिविकल्पनाया

निरास्पदत्वानुपपत्तिरिति प्रत्यु-

क्तमेतत्कथमुज्जीवयसीत्याह—

रज्जुरपि सर्वविकल्पस्यास्पदभूता

विकल्पितैवेति दृष्टान्तानुप-

पत्तिः ।

न, विकल्पनाक्षयेऽविकल्पित-  
तस्याविकल्पितत्वादेव सत्त्वोप-

क्योकि मनके समाहित अथवा सुपुप्त  
हो जानेपर द्वैतका ग्रहण नहीं होता ।

अतः यह सिद्ध हुआ कि द्वैत  
मनकी कल्पनामात्र है । इसलिये  
यह ठीक ही कहा है कि द्वैतकी  
असत्यता होनेके कारण निरोधादि-  
का अभाव ही परमार्थता है ।

पूर्व०—यदि ऐसा है तो शास्त्रका  
व्यापार द्वैतका अभाव प्रतिपादन  
करनेमें ही है, अद्वैत-बोधमें नहीं,  
क्योंकि इससे विरोध आता है ।\* ऐसी  
अप्रस्थामें अद्वैतके वस्तुत्वमें कोई  
प्रमाण न होनेके कारण शून्यवादका  
प्रसंग उपस्थित हो जाता है, क्योंकि  
द्वैतका तो अभाव ही है ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि रज्जु-सर्पादि विकल्पका  
निराधार होना सम्भव नहीं है—इस  
प्रकार पहले निराकरण कर दिये  
जानेपर भी इसी शकाको फिर क्यों  
उठाता है ? इसीपर [शून्यवादी] कहता  
है—‘सर्पभ्रमकी अधिष्ठानभूता रज्जु  
भी कल्पिता ही है । इसलिये यह  
दृष्टान्त ठीक नहीं है ।’

सिद्धान्ती—नहीं, कल्पनाका  
क्षय हो जानेपर अविकल्पित आत्मा-

\* क्योंकि द्वैतका अभाव प्रतिपादन करनेसे ही यह नहीं समझा जा सकता कि शास्त्रको अद्वैतकी सत्ता अभीष्ट है ।

पत्तेः । रज्जुसर्पवदसत्त्वमिति

चेत् ? न, एकान्तेनाविकल्प-

तत्त्वादविकल्पतरज्ज्वंशवत्प्राक्

सर्पाभावविज्ञानात् । विकल्प-

यितुश्च प्राग्विकल्पनोत्पत्तेः

सिद्धत्वाभ्युपगमादसत्त्वानुप-

पत्तिः ।

कथं पुनः स्वरूपे व्यापाराभावे

शास्त्रस्य द्वैतविज्ञाननिवर्तकत्वम् ?

नैप दोषः । रज्ज्वां सर्पादि-

वदात्मनि द्वैतस्याविद्याध्यस्त-

त्वात् । कथम् ? सुख्यहं दुःखी

मृदो जातो मृतो जीर्णो देहवान्

पश्यामि व्यक्तोऽव्यक्तः कर्ता

फली संयुक्तो वियुक्तः क्षीणो

बृद्धोऽहं ममैत इत्येवमादयः सर्व

आत्मन्यध्यारोप्यन्ते । आत्मै-

की सत्ता उसके अविकल्पितत्वके कारण ही सम्भव हो सकती है ।

यदि कहो कि रज्जु-सर्पके समान उसकी असत्ता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह अविकल्पित रज्जु-अंशके समान सर्पाभावके विज्ञानके पहलेसे ही सर्वथा अविकल्पितरूपसे विद्यमान है । इसके सिवा, जो विकल्पना करनेवाला होता है उसे विकल्पकी उत्पत्तिसे पहले ही विद्यमान स्वीकार करनेके कारण उसकी असत्ता नहीं मानी जा सकती ।

पूर्व०—किन्तु आत्मस्वरूपमें प्रमाणकी गति न होनेपर भी शास्त्र द्वैतविज्ञानका निवर्तक कैसे है ?

सिद्धान्ती—[ यहाँ ] यह दोष नहीं है, क्योंकि रज्जुमें सर्पादिके समान आत्मामें अविद्याके कारण द्वैतका अध्यास है । किस प्रकार ?—(मैं) सुखी हूँ, दुखी हूँ, मूढ़ हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ, मरा हूँ, जराग्रस्त हूँ, देहधारी हूँ, देखता हूँ, व्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, कर्ता हूँ, फलवान् हूँ, संयुक्त हूँ, वियुक्त हूँ, क्षीण हूँ, बृद्ध हूँ, ये मेरे हैं— इत्यादि प्रकारके सम्पूर्ण विकल्प आत्मामें आरोपित किये जाते हैं तथा आत्मा इनमें अनुस्यूत है, क्योंकि

तेष्वनुगतः सर्वत्राव्यभिचारात् ।

यथा सर्पधारादिभेदेषु रज्जुः ।

यदा चैवं विशेष्यस्वरूपप्रत्ययस्य

सिद्धत्वात् कर्तव्यत्वं शास्त्रेण ।

अकृतकर्तृ च शास्त्रं कृतानु-

कारित्वेऽप्रमाणम् । यतोऽविद्या-

ध्यारोपितसुखित्वादिविशेषप्रति-

बन्धादेवात्मनः स्वरूपेणानवस्थानं

स्वरूपावस्थानं च श्रेय इति

सुखित्वादिनिर्गतं शास्त्रम्

आत्मन्यसुखित्वादिप्रत्ययरूपेण

नेतिनेत्यस्थूलादिवाक्यैः । आत्म-

स्वरूपवदसुखित्वाद्यपि सुखित्वा-

दिभेदेषु नानुवृत्तोऽस्ति धर्मः ।

यद्यनुवृत्तः स्यान्नाध्यारोपित-

सुखित्वादिलक्षणो विशेषः ।

यथोष्णत्वगुणविशेषवत्यग्नौ

शीतता । तस्मान्निविशेष एवा-

त्मनि सुखित्वादयो विशेषाः

उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं है, जैसे कि सर्प और धारा आदि भेदोंमें रज्जु ।

जब कि ऐसी बात है तो विशेष्य-रूप ब्रह्मके स्वरूपकी प्रतीति सिद्ध होनेके कारण उसके सम्बन्धमें शास्त्रको कुछ कर्तव्य नहीं है । शास्त्र तो असिद्ध वस्तुको सिद्ध करनेवाला है, सिद्ध वस्तुका अनुवाद करनेमें वह प्रमाण नहीं माना जाता । क्योंकि अविद्यासे आरोपित सुखित्व आदि विशेष प्रतिबन्धनोंके कारण ही आत्माकी स्वरूपसे स्थिति नहीं है, और स्वरूपसे स्थिति ही श्रेय है, इसलिये 'नेति-नेति' और 'अस्थूलम्' आदि वाक्योंसे आत्मामें असुखित्वादिकी प्रतीति करानेके द्वारा शास्त्र [ उसमें आरोपित ] सुखित्व आदिकी निवृत्ति करनेवाला है । आत्मस्वरूपके समान असुखित्व आदि भी सुखित्व आदि भेदोंमें अनुवृत्त धर्म नहीं है । यदि वह भी अनुवृत्त होता तो उसमें सुखित्व आदिरूप विशेष धर्मका आरोप नहीं किया जा सकता था, जिस प्रकार कि उष्णत्वधर्मविशिष्ट अग्निमें शीतत्वका आरोप नहीं किया जा सकता । अतः सुखित्वादि विशेष निर्विशेष

कल्पिताः । यत्त्वसुखित्वादिशास्त्र-  
मात्मनस्तत्सुखित्वादि विशेषनि-  
वृत्त्यर्थमेवेति सिद्धम् । “सिद्धं तु  
निवर्तकत्वात्” इत्यागमविदां  
सूत्रम् ॥ ३२ ॥

आत्मामें ही कल्पना किये गये हैं ।  
इससे सिद्ध हुआ कि आत्माके  
विषयमें जो असुखित्व आदि  
शास्त्र है वह सुखित्व आदि विशेषकी  
निवृत्तिके ही लिये हैं । शास्त्र-  
वेत्ताओंका सूत्र भी है—“[ सुखित्व  
आदि धर्मोंका ] निवर्तक होनेसे  
[ अस्थूलम् आदि ] शास्त्रकी प्रामा-  
णिकता सिद्ध होती है” ॥ ३२ ॥

अद्वैतभाव ही मङ्गलमय है

पूर्वश्लोकार्थस्य हेतुमाह—

पूर्व श्लोकके अर्थका हेतु बत-  
लते हैं—

भावैरसद्भिरेवायमद्वयेन च कल्पितः ।

भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा ॥ ३३ ॥

यह ( आत्मतत्त्व ) प्रमाणादि असद्भावोंसे और अद्वैतरूपसे कल्पित  
है । वे असद्भाव भी अद्वैतसे ही कल्पना किये गये हैं । इसलिये अद्वैत-  
भाव ही मङ्गलमय है ॥ ३३ ॥

यथा रज्ज्वामसद्भिः सर्प-  
धारादिभिरद्वयेन च रज्जुद्रव्येण  
सतायं सर्प इयं धारा दण्डोऽय-  
मिति वा रज्जुद्रव्यमेव कल्प्यत  
एवं प्राणादिभिरनन्तरसद्भिरेवा-  
विद्यमानैः न परमार्थतः—न  
ह्यप्रचलिते मनसि कश्चिद्भाव

जिस प्रकार रज्जुमें अविद्यमान  
सर्प धारा आदि भावोंसे तथा  
विद्यमान अद्वितीय रज्जुद्रव्यसे ‘यह  
सर्प है, यह धारा है, यह दण्ड है’  
इस प्रकार रज्जुद्रव्य ही कल्पना  
किया जाता है उसी प्रकार  
प्राणादि अनन्त असत्-अविद्यमान  
अर्थात् जो परमार्थतः नहीं हैं, [ उन  
भावोंसे आत्मा विकल्पित हो रहा है ]—

उपलक्षयितुं शक्यते केनचित्;  
 न चात्मनः प्रचलनमस्ति;  
 प्रचलितस्यैवोपलभ्यमाना भावा  
 न परमार्थतः सन्तः कल्पयितुं  
 शक्याः—अतोऽसद्भिरेव प्राणादि-  
 भावैरद्वयेन च परमार्थसत्ता-  
 त्मना रज्जुवत्सर्वविकल्पास्पद-  
 भूतेनायं स्वयमेवात्मा कल्पितः;  
 सदैकस्वभावोऽपि सन् ।

ते च प्राणादिभावा अप्यद्व-  
 येनैव सतात्मना विकल्पिताः ।  
 न हि निरास्पदा काचित्कल्प-  
 नोपलभ्यते; अतः सर्वकल्पना-  
 स्पदत्वात्स्वेनात्मनाद्वयस्याव्य-  
 भिचारात्कल्पनावस्थायामप्यद्व-  
 यता शिवा । कल्पना एव  
 त्वशिवाः । रज्जुसर्पादिवत्प्राप्सो-  
 दिकारिण्यो हि ताः । अद्वयता-  
 भयातः सैव शिवा ॥ ३३ ॥

क्योंकि चित्तके चलायमान न होनेपर  
 किसीके द्वारा कोई भाव उपलक्षित  
 नहीं हो सकता, और आत्मामें  
 प्रचलन है नहीं, तथा केवल चलाय-  
 मान चित्तमें ही उपलब्ध होनेवाले  
 भाव परमार्थतः सत्य हैं—ऐसी कल्पना  
 नहीं की जा सकती । अतः यह  
 आत्मा, स्वयं एकमात्र सत्स्वभाव होने-  
 पर भी असत्स्वरूप प्राणादि भावोंमें  
 तथा रज्जुके समान सब प्रकारके  
 विकल्पके आश्रयभूत परमार्थ सत्  
 आत्मस्वरूपसे कल्पित है ।

वे प्राणादि भाव भी अद्वय सत्स्वरूप  
 आत्मासे ही कल्पना किये गये हैं,  
 क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार  
 नहीं हो सकती । अतः समस्त  
 कल्पनाकी आश्रयभूता होनेसे और  
 अपने स्वरूपसे अद्वयता कभी  
 व्यभिचार न होनेसे कल्पना अस्था-  
 में भी अद्वयता ही मङ्गलमयी है । केवल  
 कल्पना ही अमङ्गलमयी है, क्योंकि  
 वह रज्जु-सर्पादिके समान भय आदि  
 उत्पन्न करनेवाली है । अद्वयता  
 अभयरूपा है, इसलिये वही मङ्गल-  
 मयी है ॥ ३३ ॥

तत्त्ववेत्ताकी दृष्टिमें नानात्वका अत्यन्ताभाव है

कुतश्चाद्वयता शिवा ? नानाभूतं ।

और भी अद्वयता क्यों मङ्गलमयी



पृथक्त्वमन्यस्यान्यसाद्यत्र दृष्टं  
तत्राशिवं भवेत् ।

है?—जहाँ एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका  
नानाभूत पार्थक्य देखा जाता है  
वही अनङ्गल हो सकता है ।  
[ किन्तु— ]

नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन ।

न पृथङ् नापृथक्किंचिदिति तत्त्वविदो विदुः ॥ ३४ ॥

यह नानात्न न तो आत्मरूपसे है और न अपने ही स्वरूपसे  
कुछ है । कोई भी वस्तु न तो ब्रह्मसे पृथक् है और न अपृथक् ही—ऐसा  
तत्त्ववेत्ता जानते हैं ॥ ३४ ॥

न ह्यत्रद्वये परमार्थसत्यात्मनि  
प्राणादिसंसारजातमिदं जगदा-  
त्मभावेन परमार्थस्वरूपेण निरूप्य-  
माणं नानावस्तुवन्तरभूतं भवति ।  
यथा रज्जुस्वरूपेण प्रकाशेन  
निरूप्यमाणो न नानाभूतः  
कल्पितः सर्पोऽस्ति तद्वत् । नापि  
स्वेन प्राणाद्यात्मनेदं विद्यते।  
कदाचिदपि रज्जुसर्पवत्कल्पि-  
तत्त्वादेव ।

तथान्योन्यं न पृथक्प्राणादि  
वस्तु यथाश्वान्महिपः पृथग्विद्यते  
एवम् । अतोऽसत्त्वान्नापृथग्विद्यते

इस अद्वितीय परमार्थ सत्य  
आत्मामें यह प्राणादि संसारजातरूप  
जगत् आत्मभावसे—परमार्थसत्यरूपसे  
निरूपण किये जानेपर नाना अर्थात्  
पृथक् वस्तुके अन्तर्भूत नहीं रहता ।  
जिस प्रकार प्रकाशद्वारा रज्जुरूपसे  
निरूपित होनेपर कल्पित सर्प पृथक्-  
रूपसे नहीं रहता उसी प्रकार  
[ परमार्थरूपसे निरूपण किया जानेपर  
जगत् आत्मसे पृथक् वस्तु नहीं  
ठहरता ]; और न यह, रज्जु-सर्पके  
समान कल्पित होनेके कारण ही,  
अपने प्राणादिस्वरूपसे कभी कुछ  
रहता है ।

तथा जिस प्रकार घोड़ेसे भैंस  
पृथक् है उस प्रकार प्राणादि वस्तु  
आपसमें भी पृथक् नहीं है । इसी-  
लिये असद्रूप होनेसे आपसमें अथवा

अन्योन्यं परेण वा किञ्चिदिति  
एवं परमार्थतत्त्वमात्मप्रिदो  
ब्राह्मणा विदुः । अतोऽशिवहेतु-  
त्वाभावादद्वयतैव शिवेत्य-  
भिप्रायः ॥ ३४ ॥

किसीके अन्यसे कोई वस्तु अपृथक् भी  
नहीं है—ऐसा आत्मज्ञ ब्राह्मणलोग  
परमार्थतत्त्वको जानते हैं । अत  
अमङ्गलकी हेतुताका अभाव होनेसे  
अद्वयता ही मङ्गलमयी है—यह इसका  
तात्पर्य है ॥ ३४ ॥

इस रहस्यके साक्षी कौन थे ?

” तदेतत्सम्यग्दर्शनं स्तूयते— | अत्र इस सम्यग्ज्ञानकी स्तुति की  
जाती है—

वीतरागभयक्रोधैर्मुनिभिर्वेदपारगैः ।

निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः ॥ ३५ ॥

जिनके राग, भय और क्रोध निवृत्त हो गये हैं उन वेदके पारगामी  
मुनियोंद्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपञ्चोपशम अद्वय तत्त्व देखा गया है ॥३५॥

त्रिगतरागभयद्वेषक्रोधादिसर्व-  
दोषैः सर्वदा मुनिभिर्मननशीलै-  
र्विवेकिभिर्वेदपारगैरवगतवेदार्थ-  
तत्त्वज्ञानिभिर्निर्विकल्पः सर्ववि-  
कल्पशून्योऽयमात्मा दृष्ट उपलब्धो  
वेदान्तार्थतत्परैः प्रपञ्चोपशमः—  
प्रपञ्चो द्वैतभेदविस्तारस्तस्योप-  
शमोऽभावो यस्मिन्स आत्मा

जिनके राग, भय और क्रोधादि  
समस्त दोष निवृत्त हो गये हैं उन  
मुनियों अर्थात् सर्वदा मननशील  
विवेकियों और वेदके पारगामियों  
द्वारा वेदार्थके मर्मज्ञ वेदान्तार्थ-  
परायण तत्त्वज्ञानियोंद्वारा यह  
सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित  
निर्विकल्प और प्रपञ्चोपशम—द्वैतरूप,  
भेदके विस्तारका नाम प्रपञ्च है  
उसकी जिसमें निवृत्ति हो जाती है  
वह आत्मा प्रपञ्चोपशम है—इसीलिये  
जो अद्वय है ऐसा यह आत्मा पण्डित

प्रपञ्चोपशमोऽत एवाद्द्वयो  
विगतदोषैरेव पण्डितैर्वेदान्तार्थ-  
तत्परैः संन्यासिभिः परमात्मा  
द्रष्टुं शक्यः, नान्यै रागादिकलु-  
पितचेतोभिः स्वपक्षपातिदर्शनै-  
स्ताकिंकादिभिरित्यभिप्रायः ॥ ३५ ॥

यानी वेदान्तार्थमें तत्पर, दोषहीन  
संन्यासियोंद्वारा ही देखा जा सकता  
है। जिनके चित्त रागादि दोषसे  
दूषित हैं और जिनके दर्शन अपने  
पक्षका आग्रह करनेवाले हैं उन  
अन्य तार्किकादिको इस आत्माका  
साक्षात्कार नहीं हो सकता—यह  
इसका अभिप्राय है ॥ ३५ ॥

### तत्त्वदर्शनका आदेश

यस्मात्सर्वानर्थप्रशमरूपत्वाद्-  
द्वयं शिवमभयम्—

क्योंकि सम्पूर्ण अनर्थोंका निवृत्ति-  
स्थान होनेसे अद्वयत्व ही मङ्गल-  
मय और अभयरूप है—

तस्मादेवं विदित्वैनमद्वैते योजयेत्स्मृतिम् ।

अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत् ॥ ३६ ॥

इसलिये इस ( आत्मतत्त्व ) को ऐसा जानकर अद्वैतमें मनोनिवेश करे  
और अद्वैततत्त्वको प्राप्तकर लोकमें जडवत् व्यवहार करे ॥ ३६ ॥

अत एवं विदित्वैनमद्वैते स्मृतिं  
योजयेत् । अद्वैतावगमायैव स्मृतिं  
कुर्यादित्यर्थः । तच्चाद्वैतमवगम्या-  
हमसि परं ब्रह्मेति विदित्वा-  
शनायाद्यतीतं साक्षादपरोक्षादज-  
मात्मानं सर्वलोकव्यवहारातीतं

इसलिये इसे ऐसा जानकर अद्वैत-  
में मनोनिवेश करे अर्थात् अद्वैतबोध-  
के लिये ही चिन्तन करे । और  
उस अद्वैतको जानकर अर्थात् मैं  
ही परब्रह्म हूँ, ऐसा ज्ञान प्राप्तकर,  
यानी सम्पूर्ण लोकव्यवहारसे शून्य  
भोजनेच्छा आदिसे अतीत; साक्षात्  
अपरोक्ष अजन्मा आत्माको अनुभू-  
कर लोकमें जडवत् आचरण करे ।

अडबल्लोकमाचरेत् । अप्रख्याप- | तात्पर्य यह है कि 'मैं ऐसा हूँ'  
यन्नात्मानमहमेवविध इत्यमि- | इस प्रकार अपनेको प्रकट न करता  
श्रायः ॥ ३६ ॥ | हुआ व्यवहार करे ॥ ३६ ॥

### तत्त्वदर्शिका आचरण

कया चर्यया, लोकमाचरे- | लोकमें कैसे व्यवहारसे आचरण  
दित्याह— | करे ? इसपर कहते हैं—

निस्तुतिर्निर्ममस्कारो निःस्वधाकार एव च ।

चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत् ॥ ३७ ॥

यत्निको स्तुति, नमस्कार और स्वधाकार ( पैत्रकर्म ) से रहित  
हो चल ( शरीर ) और अचल ( आत्मा ) में ही विश्राम करनेवाला  
होकर यादृच्छिक ( अनायासलब्ध वस्तुद्वारा सन्तुष्ट रहनेवाला ) हो  
जाना चाहिये ॥ ३७ ॥

स्तुतिनमस्कारादिसर्वकर्म- | स्तुति-नमस्कारादि सम्पूर्णकर्मोंसे  
वर्जितस्त्यक्तसर्वबाह्यैषणः प्रति- | रहित तथा बाह्य एषणाओंका त्यागी  
पक्षपरमहंसपारिव्राज्य इत्यमि- | हो, अर्थात् 'निश्चय इस उस  
श्रायः--"एतं वै तमात्मानं | आत्माको जानकर" इत्यादि श्रुति  
विदित्वा" ( वृ० उ० ३ । ५ । १ ) | और "जिनकी बुद्धि, आत्मा और  
इत्यादिश्रुतेः; "तद्वबुद्धयस्त- | निष्ठा उसीमें लगी हुई हैं तथा जो  
दात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः" | उसीके शरणापन हैं" इस स्मृतिके  
( गीता ५ । १७ ) इत्यादि- | अनुसार परमहंस पारिव्राज्य भावको  
स्मृतेश्च—चलं शरीरं प्रतिक्षण- | प्राप्त हो-प्रतिक्षण अन्यथा भावको  
स्मृतेश्च—चलं शरीरं प्रतिक्षण- | प्राप्त होनेवाला होनेसे 'चल' शरीर-  
मन्यथाभावात्, अचलमात्म- | को कहते हैं तथा 'अचल' आत्म-  
तत्त्वम्, यदाकदाचिद्भोजना- | तरयका नाम है-इस प्रकार जब-  
तक भोजनादि व्यवहारके निमित्तसे | आकाशके समान अविचल अपने

दिव्यवहारनिमित्तमाकाशवदचलं  
स्वरूपमात्मतत्त्वमात्मनो निकेत-  
माश्रयमात्मस्थितिं विस्मृत्याह-  
मिति मन्यते यदा तदा चलो देहो  
निकेतो यस्य सोऽयमेवं चलाचल-  
निकेतो विद्वान् पुनर्बाह्यविषया-  
श्रयः; स च यादृच्छिको भवेद्  
यदृच्छाप्राप्तकौपीनाच्छादनग्रास-  
मात्रदेहास्थितिरित्यर्थः ॥ ३७ ॥

स्वरूपभूत आत्मतत्त्वको जो अपना  
निकेत यानी आश्रय है उसे अर्थात्  
आत्मस्थितिको भूलकर जब 'मैं हूँ'  
इस प्रकार अभिमान करता है,  
उस समय 'चल' यानी शरीर ही  
जिसका निकेत है—इस प्रकार विद्वान्  
चलाचलनिकेत होकर अर्थात् फिर  
बाह्य विषयोंका आश्रय न करके  
यादृच्छिक हो जाय; तात्पर्य यह कि  
अनायास ही प्राप्त हुए कौपीन,  
आच्छादन और ग्रासमात्रसे जिसकी  
देहास्थिति है—ऐसा हो जाय ॥ ३७ ॥

अविचल तत्त्वनिष्ठाका विद्यान

तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः ।

तत्त्वीभूतस्तद्वारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत् ॥ ३८ ॥

[ फिर वह विवेकी पुरुष ] आध्यात्मिक तत्त्वको देखकर और बाह्य  
तत्त्वका भी अनुभव कर, तत्त्वीभूत और तत्त्वमें ही रमण करनेवाला होकर  
तत्त्वसे च्युत न हो ॥ ३८ ॥

बाह्यं पृथिव्यादितत्त्वम् आध्या-  
त्मिकं च देहादिलक्षणं रज्जुसर्पा-  
दिवत्खण्डमायादिवच्च असत्  
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्”  
( छा० उ० ६।१।४ ) इत्या-  
दिश्रुतेः । आत्मा च सबाह्या-

पृथ्वी आदि बाह्य तत्त्व और  
देहादिरूप आध्यात्मिक तत्त्व  
‘वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्’  
इत्यादि श्रुतिके अनुसार रज्जु-  
सर्पादिके समान एवं खण्ड या मायाके  
समान मिथ्या हैं; तथा “वह सत्य  
है, यह आत्मा है और वही त् है”  
इस श्रुतिके अनुसार आत्मा बाह्य-

म्यन्तरो ह्यजोऽपूर्वोऽनन्तरोऽ-  
 नाथः कृत्स्न आकाशवत्सर्वगतः  
 सूक्ष्मोऽचलो निर्गुणो निष्कलो  
 निष्क्रियः "तत्सत्यं स आत्मा  
 तत्त्वमसि" (छा० उ० ६।८।१६)  
 इति श्रुतेः । इत्येवं तत्त्वं दृष्ट्वा  
 तत्त्वीभूतस्तदारामो न बाह्यरमणो  
 यथातत्त्वदर्शी कश्चिच्चित्तमात्म-  
 त्वेन प्रतिपन्नश्चित्तचलनमनु-  
 चलितमात्मानं मन्यमानस्तच्चा-  
 च्चलितं देहादिभूतमात्मानं  
 कदाचिन्मन्यते प्रच्युतोऽहमात्म-  
 तत्त्वादिदानीमिति; समाहिते  
 तु मनसि कदाचित्तत्त्वभूतं  
 प्रसन्नात्मानं मन्यत इदानीमसि  
 तत्त्वीभूत इति; न तथात्म-  
 विद्भवेत् । आत्मन एकरूपत्वा-  
 स्वरूपप्रच्यवनासम्भवाच्च ।  
 सदैव ब्रह्मासीत्यच्युतो मयेत्त-  
 चात्सदाच्युतात्मतत्त्वदर्शनो  
 भवेदित्यमिप्रायः "शुनि चैव  
 श्रपाके च पण्डिताः समदर्शिनः"  
 (गीता १२।१८) "समं सर्वेषु

मीतर विद्यमान, अजन्मा, कारण-  
 रहित, कार्यरहित, अन्तर्ब्रह्मरूप,  
 परिपूर्ण आकाशके समान सर्वगत,  
 सूक्ष्म, अचल, निर्गुण, निष्कल और  
 निष्क्रिय है । इस प्रकार तत्त्वमसि  
 साक्षात्कार कर तत्त्वीभूत और उसीमें  
 रमण करनेवाला होकर अर्थात् बाह्य-  
 रत न होकर, जिस प्रकार मनज्ञो  
 ही आत्मा माननेवाला कोई अतत्त्व-  
 दर्शी पुरुष किसी समय चित्तके  
 चलनेपर आत्माको भी चलाय-  
 मान मानकर अपनेको तत्त्वसे  
 विचलित और देहादिरूप समझकर  
 मानता है कि इस समय मैं तत्त्वसे  
 च्युत हो गया हूँ तथा किसी समय  
 चित्तके समाहित होनेपर अपनेको  
 तत्त्वीभूत और प्रसन्न समझकर  
 मानता है कि इस समय मैं तत्त्वसे  
 हूँ उसी प्रकार आत्मवेत्ताको न हो  
 जाना चाहिये; क्योंकि आत्मा सर्वदा  
 एकरूप है और उसका स्वरूपसे च्युत  
 होना भी सम्भव नहीं है । अतः वह  
 सदा ही "मैं ब्रह्म हूँ" ऐसा निश्चयकर  
 तत्त्वसे च्युत न हो, तात्पर्य यह कि  
 सदा ही अच्युत आत्मदर्शी हो, जैसा  
 कि "कुत्ते और चाण्डालमें भी विद्वानों-  
 की समान दृष्टि होती है" तथा "सम्पूर्ण

भूतेषु" ( गीता १३ । २७ )  
इत्यादिस्मृतेः ॥३८॥

भूतोंमें समान भावसे स्थित" आदि  
स्मृतियोंसे प्रमाणित होता है ॥३८॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य  
श्रीशङ्करभगवतः कृतौ गौडपादीयागमशास्त्रभाष्ये वैतथ्याख्यं  
द्वितीयं प्रकरणम् ॥ २ ॥

### अद्वैतप्रकरण

ओङ्कारनिर्णय उक्तः प्रपञ्चो-  
पशमः शिवोऽद्वैत आत्मेति  
प्रतिज्ञामात्रेण । ज्ञाते द्वैतं न  
विद्यत इति च । तत्र द्वैताभावस्तु  
वैतथ्यप्रकरणेन स्वप्नमायागन्धर्व-  
नगरादिदृष्टान्तैर्दृश्यत्वाद्यन्त-  
वच्चादिहेतुमिस्त्वेकेण च प्रति-  
पादिता । अद्वैतं किमागममात्रेण  
प्रतिपत्तव्यमाहोस्वित्त्वेणापीत्यत  
आह—शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम्;  
तत्कथमित्यद्वैतप्रकरणमारभ्यते  
उपास्योपासनादिभेदजातं सर्वं

[ आगमप्रकरणमें ] ओङ्कारका  
निर्णय करते समय यह बात केवल  
प्रतिज्ञामात्रसे कही है कि आत्मा  
प्रपञ्चका निवृत्तिस्थान शिव, और  
अद्वैतस्वरूप है तथा ज्ञान हो जाने-  
पर द्वैत नहीं रहता । फिर वैतथ्य-  
प्रकरणमें स्वप्न, माया और गन्धर्व-  
नगरादिके दृष्टान्तोंसे दृश्यत्व  
आदि-अन्तवस्व आदि हेतुओं  
तर्कसे भी द्वैतके अभावका प्र-  
क्रिया गया । किन्तु वह ॥ २ ॥  
शास्त्रमात्रसे ही ज्ञात अकृपणभाव  
तर्कसे भी जाना ज्ञानमें आ जायगा  
इसपर कहते हैं—नहीं हुआ ॥२॥  
जा सकता है अकार्षण्य अकृपण-  
इसी बातको अजन्मा ब्रह्मका वर्णन  
प्रकरणका, "जहाँ अन्य अन्यको  
उपास्य, अन्यको सुनता है और  
भेद तो ही जानता है वह अन्य है, वह

वितर्थं केवलश्चात्माद्वयः परमार्थः । परमार्थस्वरूप है—यह बात पिछे  
इति स्थितमतीते प्रकरणे; यतः— प्रकरणमें निश्चित हुई है, क्योंकि—

भेददर्शी कृपण है

उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते ।

प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः ॥ १ ॥

उपासनाका आश्रय लेनेवाला जीव कार्यब्रह्ममें ही रहता है [ अर्थात् उसे ही अपना उपास्य मानता है, और समझता है कि ] उत्पत्तिसे पूर्व ही सब अज [ अर्थात् अजन्मा ब्रह्मस्वरूप ] था । इसलिये वह कृपण ( दीन ) माना गया है ॥ १ ॥

उपासनाश्रित उपासनामात्मनो

मोक्षसाधनत्वेन गत उपासको-

ऽहं ममोपास्यं ब्रह्म । तदुपासनं

कृत्वा जाते ब्रह्मणीदानीं

तु त्तमानोऽजं ब्रह्म शरीरपातादूर्ध्वं

प्रसन्नास्त्ये प्रागुत्पत्तेश्चाजमिदं

तच्चीभूत च । यदात्मकोऽहं

विद्मवेत् । ३.

स्वरूपप्रच्यवना

सदैव ब्रह्मासीत्युपासनया

त्वात्सदाच्युतात्मतत्त्व- इत्येव-

भवेदित्यमिप्रायः “शु- साधको

श्रुपाके च पण्डिताः समदर्शि- करणेन

( गीता १२ । १८ ) “समं सर्वतो

‘उपासनाश्रितः’—उपासनाको

अपने मोक्षके साधनरूपसे मानने-

वाला पुरुष अर्थात् मैं उपासक

हूँ, और ब्रह्म मेरा उपास्य है ।

उसकी उपासना करके इस समय

कार्यब्रह्ममें रहता हुआ शरीरपातके

धनन्तर मैं अजन्मा ब्रह्मको प्राप्त हो

जाऊँगा तथा उत्पत्तिके पूर्व भी यह

सब और मैं अजरूप ही थे ।

उत्पत्तिसे पूर्व मैं जैसा था अब उत्पन्न

होकर जातब्रह्ममें वर्तमान हुआ

अन्तमें उपासनाद्वारा मैं फिर उसी

रूपको प्राप्त हो जाऊँगा’—इस प्रकार

उपासनाका आश्रय लेनेवाला साधक

जीव क्योंकि क्षुद्रब्रह्मवेत्ता है, इस

कारणसे ही यह सर्वदा अजन्मा

ब्रह्मका दर्शन करनेवाले महात्माओं-

द्वारा कृपण—दीन अर्थात् क्षुद्र माना



नित्याजत्रहृदशिभिरित्यभिप्रायः । गया है—यह इसका अभिप्राय है; जैसा कि “जो वाणीसे प्रकट नहीं होता बल्कि जिससे वाणी प्रकट होती है, वही ब्रह्म है—ऐसा जान; जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है” इत्यादि तत्त्वकार-श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ १ ॥

### अकार्पण्यनिरूपणकी प्रतिज्ञा

सवाह्याभ्यन्तरमजमात्मानं  
प्रतिपत्तुमशक्नुवन्नविद्यया दीन-  
मात्मानं मन्यमानो जातोऽहं  
जाते ब्रह्मणि वर्ते तदुपासनाश्रितः  
सन्ब्रह्म प्रतिपत्स्य इत्येवं प्रतिपन्नः  
कृपणो भवति यस्मात्—

बाहर और भीतर वर्तमान अजन्मा आत्माको प्राप्त करनेमें असमर्थ होनेके कारण अविद्यावश अपनेको दीन माननेवाला पुरुष, क्योंकि मैं उत्पन्न हुआ हूँ, उत्पन्न हुए ब्रह्ममें ही वर्तमान हूँ और उसकी उपासनाका आश्रय लेकर ही ब्रह्मको प्राप्त होऊँगा’ इस प्रकार माननेके कारण दीन है—

अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यमजाति समतां गतम् ।

यथा न जायते किञ्चिज्जायमानं समन्ततः ॥ २ ॥

इसलिये अब मैं सर्वत्र समानभावको प्राप्त जन्मरहित अकृपणभाव (अजन्मा ब्रह्म) का वर्णन करता हूँ [ जिससे यह समझमें आ जायगा कि ] किस प्रकार सब ओर उत्पन्न होनेपर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ ॥२॥

अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यमकृपणा-  
भावमजं ब्रह्म । तद्धि कार्पण्या-  
स्पदम् “यत्रान्योऽन्यत्पश्यत्य-  
न्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं

इसलिये मैं अकार्पण्य अकृपण-  
भाव अर्थात् अजन्मा ब्रह्मका वर्णन करता हूँ । “जहाँ अन्य अन्यको देखता है, अन्यको सुनता है और अन्यको ही जानता है वह अल्प है, वह

मर्त्यमसत्" (छा० उ० ७।२४।

१) "वाचारम्भणं विकारो

नामधेयम्" (छा० उ० ६।१।४)

इत्यादिश्रुतिभ्यः । तद्विपरीतं

सवाह्याभ्यन्तरमजमकार्पण्यं भूमा-

ख्यं ब्रह्म । यत्प्राप्याविद्याकृत-

सर्वकार्पण्यनिवृत्तिस्तदकार्पण्यं

वक्ष्यामीत्यर्थः ।

तदजाति, अविद्यमाना जाति-

रस्य समतां गतं सर्वसाम्यं

गतम् । कस्मात् ? अवयववैषम्या-

भावात् । यद्वि सावयवं वस्तु

तदवयववैषम्यं गच्छजायते इत्यु-

च्यते । इदं तु निरवयवत्वा-

त्समतां गतमिति न कश्चिदवयवैः

स्फुटत्यतोऽजात्यकार्पण्यम् ।

समन्ततः समन्ताद्यथा न जायते

किञ्चिदल्पमपि न स्फुटति

रज्जुसर्पवदविद्याकृतदृष्ट्या जाय-

मरणशील और असत् है" "विकार

वाणीमे आरम्भ होनेवाला नाममात्र

है" इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार

उपर्युक्त जातब्रह्म तो कृपणताका ही

आश्रय है । उससे विपरीत वाहर-

भीतर वर्तमान अजन्मा भूमासज्ञक

ब्रह्म अकार्पण्यरूप है, जिसे प्राप्त

होनेपर अविद्याकृत सम्पूर्ण कृपणता-

की निवृत्ति हो जाती है, उस कृपण

भावसे रहित ब्रह्मका मैं वर्णन करूँगा—

यइ इसका तात्पर्य है ।

वह अजाति अर्थात् जिसकी

जाति न हो और समताको प्राप्त

अर्थात् सबकी समानताको प्राप्त है ।

ऐसा क्यों है ? क्योंकि उसमें

अवयवोंकी विभक्तताका अभाव है ।

जो वस्तु सावयव होती है वह

अवयवोंकी विभक्तताको प्राप्त होनेके

कारण "उत्पन्न होती है" ऐसे कही

जाती है । किन्तु यइ ब्रह्म तो

निरवयव होनेके कारण समताको

प्राप्त है, इसलिये किन्हीं भी अवयवों-

के रूपमें प्रस्फुटित नहीं होता ।

अतः यह सब ओरसे अजाति अर्थात्

अकार्पण्यरूप है । जिस प्रकार कि

कुछ भी उत्पन्न नहीं होता अर्थात्

रज्जु-सर्पके समान आविद्यकदृष्टिसे

उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार

मानं घेन प्रकारेण न जायते  
सर्वतोऽजमेव ब्रह्म भवति तथा तं  
प्रकारं शृण्वित्यर्थः ॥ २ ॥

उत्पन्न नहीं होता—सब ओर अजन्मा  
ब्रह्म ही रहता है उस प्रकारको  
श्रवण करो—यह इसका अभिप्राय  
है ॥ २ ॥

जीवकी उत्पत्तिके विषयमें दृष्टान्त

अजाति ब्रह्माकार्पण्यं वक्ष्या-  
मीति प्रतिज्ञातम् । तत्सिद्धयर्थं  
हेतुं दृष्टान्तं च वक्ष्यामीत्याह—

में अजन्मा ब्रह्मका, जो कृपण-  
भावसे रहित है, वर्णन करता हूँ—  
ऐसी प्रतिज्ञा की है। उसकी सिद्धिके  
लिये हेतु और दृष्टान्त भी बतलाता  
हूँ—इस अभिप्रायसे कहते हैं—

आत्मा ह्याकाशवज्जीवैर्घटाकाशैरिवोदितः ।

घटादिवच्च संघातैर्जातावेतन्निदर्शनम् ॥ ३ ॥

आत्मा आकाशके समान है; वह घटाकाशोंके समान जीवरूपसे  
उत्पन्न हुआ है। तथा [ मृत्तिकासे ] घटादिके समान देहसंघातरूपसे भी  
उत्पन्न हुआ कहा जाता है। आत्माकी उत्पत्तिके विषयमें यही दृष्टान्त  
है ॥ ३ ॥

आत्मा परो हि यस्मादाकाश-  
वत्सूक्ष्मो निरवयवः सर्वगत  
आकाशवदुक्तो जीवैः क्षेत्रज्ञैर्घटा-  
काशैरिव घटाकाशतुल्य उदित  
उक्तः स एवाकाशसमः पर  
आत्मा ।

क्योंकि परमात्मा ही आकाशवत्  
अर्थात् आकाशके समान सूक्ष्म  
निरवयव और सर्वगत कहा गया है  
और वही घटाकाशसदृश क्षेत्रज्ञ  
जीवोंके रूपमें उत्पन्न हुआ कहा  
गया है, इसलिये वह परमात्मा ही  
आकाशके समान है।

अथ वा घटाकाशैर्यथाकाश  
उदित उत्पन्नस्तथा परो जीवात्म-

अथवा यों समझो कि जिस  
प्रकार घटाकाशोंके रूपमें आकाश  
उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार परमात्मा

मिरुत्पन्नः । जीवात्मनां परमा-  
दात्मन उत्पत्तिर्या श्रूयते वेदान्तेषु  
सा महाकाशाद्घटाकाशोत्पत्ति-  
समा न परमार्थत इत्यभिप्रायः ।

तस्मादेवाकाशाद्घटादयः

संघाता यथोत्पद्यन्त एवमाकाश-  
स्थानीयात्परमात्मनः पृथिव्या-  
दिभूतसंघाता आध्यात्मिकाश्च  
कार्यकरणलक्षणा रज्जुसर्पवद्वि-  
कल्पिता जायन्ते । अत उच्यते  
घटादिवच्च संघातैरुदित इति ।  
यदा मन्दबुद्धिप्रतिपिपादयिषया  
श्रुत्यात्मनो जातिरुच्यते जीवा-  
दीनां तदा जाताद्युपगम्यमानाया-  
मेतन्निदर्शनं दृष्टान्तो यथोदिता-  
काशवदित्यादिः ॥ ३ ॥

जीवात्माओंके रूपसे उत्पन्न हुआ  
है । तात्पर्य यह है कि वेदान्तोंमें  
जो परमात्मासे जीवात्माओंकी उत्पत्ति  
सुनी जाती है वह महाकाशसे  
घटाकाशोंकी उत्पत्तिके समान है,  
परमार्थतः नहीं ।

उसी आकाशसे जिस प्रकार घट  
आदि सबान उत्पन्न होते हैं, उसी  
प्रकार आकाशस्थानीय परमात्मामे  
रज्जुमें सर्पके समान विकल्पित हुए  
पृथिवी आदि भूतसंघात और शरीर  
तथा इन्द्रियरूप आध्यात्मिकमान  
उत्पन्न होते हैं । इसीसे कहा जाता  
है—घटादिके समान देहादिसंघात-  
रूपसे भी उदित हुआ है । जिस  
समय मन्दबुद्धि पुरुषोंके प्रति प्रति-  
पादन करनेकी इच्छासे श्रुतिने  
आत्मासे जीवादिकी उत्पत्तिकी वर्णन  
किया है उस समय उनकी उत्पत्ति  
माननेमें यह उपर्युक्त आकाशादिके  
समान ही निदर्शन-दृष्टान्त है ॥ ३ ॥

जीवके विलीन होनेमें दृष्टान्त

घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा ।

आकाशी संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि ॥ ४ ॥

घटादिके लीन होनेपर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाशमें लीन  
हो जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आत्मामें विलीन हो जाते हैं ॥ ४ ॥

यथा घटाद्युत्पत्त्या घटाकाशा-  
द्युत्पत्तिः; यथा वा घटादिप्रलये  
घटाकाशादिप्रलयस्तद्देहादि-  
संघातोत्पत्त्या जीवोत्पत्तिस्त-  
त्प्रलये च जीवानामिहात्मनि  
प्रलयो न स्यत इत्यर्थः ॥ ४ ॥

जिस प्रकार घटादिकी उत्पत्तिसे  
घटाकाशादिकी उत्पत्ति होती है और  
जिस प्रकार घटादिके नाशसे वटा-  
काशादिका नाश होता है उसी  
प्रकार देहादि\* संघातकी उत्पत्तिसे  
जीवकी उत्पत्ति होती है और उनका  
लय होनेपर जीवोंका इस आत्मामें  
लय हो जाता है । तात्पर्य यह है  
कि स्वतः उनका लय नहीं होता ॥ ४ ॥

हे

आत्माकी असङ्गतामें दृष्टान्त

सर्वदेहैवात्मैकत्व एकस्मि-  
न्ननमरणसुखादिभत्यात्मनि  
सर्वात्मनां तत्सम्बन्धः क्रियाफल-  
साङ्कर्यं च स्यादिति य आहुर्द्वैति-  
नस्तात्प्रतीदमुच्यते—

सम्पूर्ण देहोंमें एक ही आत्मा  
होनेपर तो एक आत्माके जन्म-मरण  
और सुख-दुःखादिमान् होनेपर  
सभीको उसका सम्बन्ध होगा तथा  
कर्म और फलकी संकरता हो जायगी  
[ अर्थात् कर्म किसीका होगा और  
उसका फल कोई और ही भोगेगा ]  
इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते हैं  
उनके प्रति कहा जाता है—

यथैकस्मिन्वटाकाशे रजोधूमादिभिर्युते ।

न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः ॥ ५ ॥

जिस प्रकार एक घटाकाशके धूलि और धुएँ आदिसे युक्त होनेपर  
समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव भी सुखादि  
धर्मोंसे लिप्त नहीं होते [ अर्थात् एक जीवके सुखादिमान् होनेपर सब  
जीव सुखादिमान् नहीं हो जाते ] ॥ ५ ॥

\* यहाँ 'देह' शब्दसे लिङ्ग-देह समझना चाहिये, क्योंकि जीवत्वका नाश  
लिङ्ग-देहके नाशसे ही हो सकता है; स्थूल देहके नाशसे नहीं ।

यथैकसिन्धटाकाशे रजोधूमा-  
दिभिर्युते संयुक्ते न सर्वे घटा-  
काशादयस्तद्रजोधूमादिभिः  
संयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः।

नन्वेक एवात्मा ?

षाढम्; ननु न श्रुतं त्वया-

काशवत्सर्वसंघातेष्वेक एवात्मेति?

यद्येक एवात्मा तर्हि सर्वत्र  
सुखी दुःखी च स्यात् ।

न चेदं सांख्यचौधं सम्मनति ।

न हि सांख्य आत्मनः

आत्मैकत्वे  
सांख्याक्षेप  
निवृत्ति  
सुखदुःखादिमत्त्वमि-  
च्छति बुद्धिसमवाया-  
भ्युपगमात्सुखदुःखा-  
दीनाम् । न चोपलब्धिस्वरूपस्या-  
त्मनो भेदकल्पनायां प्रमाणमस्ति ।

भेदाभावे प्रधानस्य पारार्थ्या-  
नुपपत्तिरिति चेत्, न; प्रधान-  
कृतस्यार्थस्यात्मन्यसमवायात् ।  
यदि हि प्रधानकृतो बन्धो मोक्षो  
वार्थः पुरुषेषु भेदेन समवैति  
ततः प्रधानस्य पारार्थ्यमात्मैकत्वे

जिस प्रकार एक घटाकाशके  
धूलि और धुएँसे युक्त होनेपर समस्त  
घटाकाशादि उस धूलि और धुएँसे  
सयुक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव  
भी सुखादिसे लिप्त नहीं होते ।

पूर्व०—आत्मा तो एक ही है न ?

सिद्धान्ती—हाँ, क्या तूने यह  
नहीं सुना कि सम्पूर्ण सघातोंमें  
आकाशके समान व्याप्त एक ही  
आत्मा है ?

पूर्व०—यदि आत्मा एक ही है  
तो वह सर्वत्र सुखी दुःखी होगा ।

सिद्धान्ती—साध्यवादीकी यह  
आपत्ति सम्भव नहीं है । साध्य  
आत्माका सुख-दुःखादिमत्त्व स्वीकार  
नहीं करता, क्योंकि सुख-दुःखादि तो  
बुद्धिसमवेत माने गये हैं तथा इसके  
सिवा अनुभवस्वरूप आत्माकी भेद-  
कल्पनामें कोई प्रमाण भी नहीं है ।

यदि कहो कि भेद न होनेपर तो  
प्रधानकी परार्थता भी सम्भव नहीं  
है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं,  
क्योंकि प्रधानद्वारा सम्पादित कार्य-  
का आत्माने साथ सम्बन्ध नहीं है ।  
यदि प्रधानकर्तृक बन्ध या मोक्ष  
पुरुषोंमें पृथक्-पृथक् रूपमें समवेत  
होते तो आत्माका एकत्व माननेमें

नोपपद्यत इति युक्ता पुरुषभेद-  
कल्पना । न च सांख्यैर्वन्धो  
मोक्षो वार्थः पुरुषसमवेतोऽभ्युप-  
गम्यते । निर्विशेषाश्च चेतन-  
मात्रा आत्मानोऽभ्युपगम्यन्ते।  
अतः पुरुषसत्तामात्रप्रयुक्तमेव  
प्रधानस्य पारार्थ्यं सिद्धं न तु  
पुरुषभेदप्रयुक्तमिति । अतः  
पुरुषभेदकल्पनायां न प्रधानस्य  
पारार्थ्यं हेतुः ।

न चान्यत्पुरुषभेदकल्पनायां  
प्रमाणमस्ति सांख्यानाम् ।  
परसत्तामात्रमेव चैतन्निमित्ती-  
कृत्य स्वयं बध्यते मुच्यते च  
प्रधानम् । परश्वोपलब्धिमात्र-  
सत्तास्वरूपेण प्रधानप्रवृत्तौ हेतुर्न  
केनचिद्विशेषेणेति केवलमूढतयैव  
पुरुषभेदकल्पना वेदार्थपरि-  
त्यागश्च ।

ये त्वाहुर्वैशेषिकादय इच्छादय

वैशेषिकमत-  
समीक्षा

आत्मसमवायिन इति;  
तदप्यसत् । स्मृति-  
हेतूनां संस्काराणाम-

प्रधानकी परार्थता सम्भव नहीं हो  
सकती थी और तब पुरुषोंके भेदकी  
कल्पना करनी ठीक थी । किन्तु  
सांख्यवादी तो बन्ध या मोक्षको  
पुरुषसे सम्बद्ध ही नहीं मानते; वे  
तो आत्माओंको निर्विशेष और चेतन-  
मात्र ही मानते हैं । अतः प्रधानकी  
परार्थता तो केवल पुरुषकी सत्ता-  
मात्रसे ही सिद्ध है, पुरुषोंके भेदके  
कारण नहीं । इसलिये पुरुषोंकी  
भेदकल्पनामें प्रधानकी परार्थता  
कारण नहीं है ।

इसके सिवा सांख्यवादियोंके  
पास पुरुषोंका भेद माननेमें और  
कोई प्रमाण नहीं है । पर-  
( आत्मा ) की सत्तामात्रको ही  
निमित्त बनाकर प्रधान स्वयं बन्ध  
और मोक्षको प्राप्त होता है और  
बह पर केवल उपलब्धिमात्र सत्ता-  
स्वरूपसे ही प्रधानकी प्रवृत्तिमें हेतु  
है, किसी विशेषताके कारण नहीं ।  
अतः केवल मूढतासे ही पुरुषोंकी  
भेदकल्पना और वेदार्थका परित्याग  
किया जाता है ।

इसके सिवा वैशेषिकादि मताव-  
लम्बी जो कहते हैं कि इच्छा आदि  
आत्माके धर्म हैं, सो उनका यह कथन  
भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृतिके  
हेतुभूत संस्कारोंका प्रदेशहीन

प्रदेशवत्यात्मन्यसमवायात् ।

आत्मनः संयोगाच्च स्मृत्युत्पत्तेः

स्मृतिनियमानुपपत्तिः । युगपद्वा

सर्वस्मृत्युत्पत्तिप्रसङ्गः ।

न च भिन्नजातीयानां स्पर्शा-

दिहीनानामात्मनां  
मन आदिभिः संबन्धो  
मन आदिभिः संबन्धो  
युक्तः । न च द्रव्या-  
द्रूपादयो गुणाः कर्म-  
सामान्यविशेषसमवाया वा  
मिन्नाः सन्ति परेषाम् । यदि

( निखयव ) आत्मासे समवाय-  
सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि  
आत्मा और मनके संयोगसे स्मृतिकी  
उत्पत्ति मानी जाय तो स्मृतिका  
कोई नियम ही सम्भव नहीं है  
अथवा एक साथ ही सम्पूर्ण स्मृतियों-  
की उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित हो  
जायगा ।\*

इसके सिवा स्पर्शादिसे रहित  
भिन्नजातीय आत्माओंका मन आदि-  
के साथ सम्बन्ध मानना ठीक भी  
नहीं है तथा दूसरोंके मतमें द्रव्यसे  
रूप आदि उसके गुण एव कर्म,  
सामान्य, विशेष और समवाय भिन्न  
भी नहीं हैं ।† यदि दूसरोंके मतमें

\* उस समय ऐसा नियम नहीं हो सकेगा कि वस्तुके प्रत्यक्ष अनुभवके  
समय उसकी स्मृति न हो, क्योंकि स्मृतिका असमवायी कारण आत्मा और  
मनका संयोग तो अनुभवकालमें भी है ही । इसके सिवा असमवायी कारणकी  
तुल्यताके कारण एक साथ समस्त स्मृतियोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग भी उपस्थित हो  
जायगा । यदि कहे कि स्मृतिके सस्कारोंका उद्बोध न होनेके कारण एक साथ  
स्मृति नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि सस्कार और उनका  
उद्बोध ये दोनों आत्मामें ही रहते हैं—इस विषयमें उनका एक मत नहीं है ।  
इसलिये इनकी गणना स्मृतिकी सामग्रीके अन्तर्गत नहीं हो सकती ।

† वैशेषिक मतमें साधारणतया द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और  
समवाय—ये छः प्रकारके भाव पदार्थ हैं । उनमें द्रव्य उसे कहते हैं जिसके साथ  
गुण एव क्रिया आदि समवाय-सम्बन्धसे रहें । गुण—रूप, रस एव गन्ध आदिको  
कहते हैं । कर्म—गमनादि क्रिया । सामान्य—जाति, मनुष्यत्व, पशुत्वादि ।  
विशेष—परमाणुओंका परस्पर भेद करनेवाला धर्म, जिसके कारण विभिन्न  
प्रकारके परमाणुओंके विभिन्न प्रकारका कार्य उत्पन्न होता है । समवाय—एक  
प्रकारका सम्बन्ध जैसा कि गुण एवं क्रिया आदिका द्रव्यके साथ है ।



ह्यत्यन्तमिन्ना एव द्रव्यात्स्यु-  
रिच्छादयश्चात्मनस्तथा च सति  
द्रव्येण तेषां सम्बन्धानुपपत्तिः ।

अयुतसिद्धानां समवायलक्षणः  
संबन्धो न विरुध्यत इति चेत्,  
न । इच्छादिभ्योऽनित्येभ्य  
आत्मनो नित्यस्य पूर्वसिद्धत्वा-  
न्नायुतसिद्धत्वोपपत्तिः । आत्मना-  
युतसिद्धत्वे चेच्छादीनामात्म-  
गतमहत्त्ववन्नित्यत्वप्रसङ्गः । स  
चानिष्टः । आत्मनोऽनिर्मोक्ष-  
प्रसङ्गात् ।

समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वे  
सति द्रव्येण सम्बन्धान्तरं वाच्यं  
यथा द्रव्यगुणयोः । समवायो  
नित्यसम्बन्ध एवेति न वाक्यमिति  
चेत्तथा च समवायसम्बन्धवतां

वे इच्छा आदि द्रव्यसे तथा आत्मासे  
अत्यन्त मिन्न ही हों तो ऐसा होनेपर  
तो द्रव्यके साथ उनका सम्बन्ध ही  
सिद्ध नहीं हो सकता ।

यदि कहो कि अयुतसिद्धपदार्थों-  
का समवाय-सम्बन्ध माननेमें विरोध  
नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; \*  
क्योंकि इच्छा आदि अनित्य धर्मोंसे  
नित्य आत्मा पूर्वसिद्ध होनेके कारण  
उनका परस्पर अयुतसिद्धत्व सम्भव  
नहीं है । यदि इच्छा आदि आत्माके  
साथ अयुतसिद्ध हों तो आत्मगत  
महत्त्वके समान उनकी भी नित्यता-  
का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा ।  
और यह घात इष्ट नहीं है, क्योंकि  
इससे आत्माके अनिमोक्षका प्रसङ्ग  
आ जाता है ।

यदि समवाय द्रव्यसे मिन्न है  
तो द्रव्यके साथ उसका कोई अन्य  
सम्बन्ध बतलाना चाहिये, जैसा कि  
द्रव्य और गुणका है । और यदि कोई  
कहे कि समवाय तो नित्यसम्बन्ध  
ही है, इसलिये उसके साथ कोई

१. जो पदार्थ परस्पर मिलकर सिद्ध हुए हों ।

\* अयुतसिद्धत्वमें चार पक्ष हैं—१ अभिन्न कालमें होना, २ अभिन्न देशमें  
होना, ३ अभिन्नस्वभाववाले होना, ४ संयोग और वियोगकी अव्योप्यतावाले  
होना । उनमेंसे प्रथम पक्षका खण्डन करते हैं—

नित्यसम्बन्धप्रसङ्गात्पृथक्त्वा-

नुपपत्तिः । अत्यन्तपृथक्त्वे च

द्रव्यादीनां स्पर्शवदस्पर्शद्रव्य-

योरिव पृथग्रथानुपपत्तिः ।

इच्छाद्युपजनापायवद्गुणवत्त्वे

आत्मनो चात्मनोऽनित्यत्व-

व्यावहारिक-प्रसङ्गः । देहफलादि-

बन्धमोक्षा-वत्सावयत्त्वं विक्रि-  
पुपयादिनन् यावत्त्वं च देहा-

दिवदेवेति दोषावपरिहार्यौ ।

यथा त्वाकाशस्याविद्याध्यारो-

पितरजोधूममलवत्त्वादिदोषवत्त्वं

तथात्मनोऽविद्याध्यारोपितबुद्ध्या-

द्युपाधिकृतसुखदुःखादिदोषवत्त्वे

बन्धमोक्षादयो व्यावहारिका न

विरुद्ध्यन्ते । सर्ववादिमिरविद्या-

कृतव्यवहाराभ्युपगमात्परमार्था-

नभ्युपगमाच्च । तस्मादात्मभेद-

सम्बन्ध वतलानेकी आवश्यकता नहीं है तो ऐसी अवस्थामें समवाय-सम्बन्धवालोंका नित्यसम्बन्ध होनेके कारण उनकी पृथक्ता सम्भव नहीं है । और यदि द्रव्यादिको परस्पर अत्यन्त भिन्न माना जाय तो जिस प्रकार स्पर्शवान् और स्पर्शहीन द्रव्योंमें परस्पर सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है उसी प्रकार उसका सम्बन्ध ही नहीं हो सकता ।

यदि आत्मानो इच्छादि उत्पत्ति-मिनाशशील गुणोंवाला माना जाय तो उसकी अनित्यताका प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । तथा उसके देह और फलादिके समान सायवत्त्व एव देहादिके समान ही विक्रियावत्त्व—ये दो दोष भी अपरिहार्य ही होंगे । जिस प्रकार कि आकाशका अविद्याध्यारोपित घटादि उपाधियोंके कारण ही धूलि, धूम और मलसे युक्त होना है उसी प्रकार आत्मानां, अविद्यासे आरोपित बुद्धि आदि उपाधिके कारण सुख-दुःखादि दोषसे युक्त होनेपर, व्यावहारिक बन्ध, मोक्ष आदि होनेमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सभी वादियोंने व्यवहारको अविद्याकृत माना है, परमार्थरूप नहीं माना । अतः

परिकल्पना वृथैव तार्किकैः | तार्किकलोग जीवोंके भेदकी कल्पना  
क्रियत इति ॥ ५ ॥ | वृथा ही करते हैं ॥ ५ ॥



### ध्यावहारिक जीवभेद

कथं पुनरात्मभेदनिमित्त इव | किन्तु एकही आत्मामें, आत्माओं-  
व्यवहार एकस्मिन्नात्मन्यविद्या-  
कृत उपपद्यत इति, उच्यते— | के भेदके कारण होनेवालेके समान,  
अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार  
सम्भव है ? इसपर कहते हैं—

रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै ।

आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः ॥ ६ ॥

[ घटादि उपाधियोंके कारण प्रतीत होनेवाले ] भिन्न-भिन्न आकाशों-  
के रूप, कार्य और नामोंमें तो भेद है, परन्तु आकाशमें तो कोई भेद नहीं  
है । उसी प्रकार जीवोंके विषयमें भी निश्चय समझना चाहिये ॥ ६ ॥

यथेहाकाश एकस्मिन्घटकर-  
कापत्ररकाद्याकाशानामल्पत्वम-  
हत्त्वादिरूपाणि भिद्यन्ते तथा  
कार्यमुदकाहरणधारणशयनादि-  
समाख्याश्च घटाकाशकरकाकाश  
इत्याद्यास्तत्कृताश्च भिन्ना दृश्यन्ते।  
तत्र तत्र वै व्यवहारविषय  
इत्यर्थः । सर्वोऽयमाकाशेरूपादि-  
भेदकृतो व्यवहारो न परमार्थ  
एव । परमार्थतस्त्वाकाशस्य न  
भेदोऽस्ति । न चाकाशभेद-  
निमित्तो व्यवहारोऽस्त्यन्तरेण

जिस प्रकार इस एक ही  
आकाशमें घट, कलण्डल और मठादि  
आकाशोंके अल्पत्व-महत्त्वादि रूपोंमें  
भेद है, तथा जहाँ-तहाँ व्यवहारमें  
उनके किये हुए जल लाना, जल  
धारण करना और शयन करना  
आदि कार्य एवं घटाकाश, करकाकाश  
आदि नाम भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं ।  
किन्तु आकाशमें रूपादिके कारण  
होनेवाला यह सब व्यवहार पार-  
मार्थिक ही नहीं है । परमार्थतः तो  
आकाशका कोई भेद नहीं है । अन्य  
उपाधिकृत निमित्तके सिवा वस्तुतः  
आकाशके भेदके कारण होनेवाला

परोपाधिकृतं द्वारम् । यथैतत्त-  
द्वदेहोपाधिभेदकृतेषु जीवेषु  
घटाकाशस्थानीयेष्वात्मसु नि-  
रूपणात्कृतो बुद्धिमद्भिर्निर्णयो  
निश्चय इत्यर्थः ॥ ६ ॥

कोई व्यवहार है ही नहीं । जैसा कि यह [ आकाशका भेद ] है उसी प्रकार देहादि उपाधिके भेदसे किये हुए घटाकाशस्थानीय जीवोंमें भेदका निरूपण किया जानेके कारण बुद्धिमानोंने [ उस भेदका अपार-मार्थिकत्वं ] निश्चय किया है—यह इसका तात्पर्य है ॥ ६ ॥

जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं है

ननु तत्र परमार्थकृत एव  
घटाकाशादिषु रूपकार्यादिभेद-  
व्यवहार इति ? नैतदस्ति, यस्मात्

किन्तु घटाकाशादिमें जो रूप और कार्य आदिका भेद-व्यवहार है वह तो वास्तविक ही है ? [ ऐसी गड़्गा होनेपर कहते हैं—] यह बात नहीं है, क्योंकि—

नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा ।

नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ॥ ७ ॥

जिस प्रकार घटाकाश आकाशका विकार या अवयव नहीं है उसी प्रकार जीव भी आत्माका विकार या अवयव कभी नहीं है ॥ ७ ॥

परमार्थाकाशस्य घटाकाशो  
न विकारः; यथा सुवर्णस्य  
रुचकादिर्यथा वापां फेनबुद्-  
बुदहिमादिः; नाप्यवयवो यथा  
वृक्षस्य शाखादिः । न तथा  
आकाशस्य घटाकाशो विकारा-  
वयवौ यथा तथा नैवात्मनः

परमार्थाकाशका घटाकाश न तो विकार है, जैसे कि सुवर्णके रुचकादि आमूषण तथा जलके फेन, बुद्बुद और हिम आदि हैं, और न जैसे शाखादि वृक्षके अवयव हैं उस प्रकार उसका अवयव ही है । इसी तरह, जैसे कि महाकाशका घटाकाश विकार या अवयव नहीं है, उसी

परस्य परमार्थसतो महाकाशस्था-  
नीयस्य घटाकाशस्थानीयो जीवः  
सदा सर्वदा यथोक्तदृष्टान्तवन्न  
विकारो नाप्यवयवः । अत  
आत्मभेदकृतो व्यवहारो मृषै-  
वेत्यर्थः ॥ ७ ॥

प्रकार, अर्थात् उपर्युक्त दृष्टान्तानुसार  
ही, महाकाशस्थानीय परमार्थ सत्  
परमात्माका घटाकाशस्थानीय जीव,  
किसी अवस्थामें विकार या अवयव  
नहीं है । अतः तात्पर्य यह है  
कि आत्मभेदजनित व्यवहार मिथ्या  
ही है ॥ ७ ॥

आत्माकी मलिनता अज्ञानियोंकी दृष्टिमें है

यस्माद्यथा घटाकाशादिभेद-  
बुद्धिनिवन्धनो रूपकार्यादिभेद-  
व्यवहारस्तथा देहोपाधिजीवभेद-  
कृतो जन्ममरणादिव्यवहारः ।  
तस्मात्तत्कृतमेव क्लेशकर्मफलमल-  
वच्चमात्मनो न परमार्थत  
इत्येतमर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपिपा-  
दयिषन्नाह—

क्योंकि जिस प्रकार घटाकाशादि  
भेदबुद्धिके कारण उसका रूप एवं  
कार्य आदि भेदव्यवहार है उसी  
प्रकार देहोपाधिक जीवभेदके कारण  
ही जन्म-मरण आदि व्यवहार है;  
इसलिये उसका किया हुआ ही  
आत्माका क्लेश, कर्मफल और मलसे  
युक्त होना है, परमार्थतः नहीं—  
इसी बातको दृष्टान्तसे प्रतिपादन  
करनेकी इच्छासे कहते हैं—

यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः ।

तथा भवत्यबुद्धानामात्मापि मलिनो मलैः ॥ ८ ॥

जिस प्रकार मूर्ख लोगोंको [ धूलि आदि ] मलके कारण आकाश  
मलिन जान पड़ता है उसी प्रकार अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमें आत्मा भी  
[ राग-द्वेषादि ] मलसे मलिन हो जाता है ॥ ८ ॥

यथा भवति लोके बालानाम-  
विवेकिनां गगनमाकाशं घन-  
रजोधूमादिमलैर्मलिनं मलवन्न

लोकमें जिस प्रकार बाल अर्थात्  
अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमें आकाश  
मेघ, धूलि और धुआँ आदि मलोंके

गगनं मलयद्याथात्म्यविवेकिनाम्,  
तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो  
विज्ञाता प्रत्यक्कलेशकर्मफलमलै-  
र्मलिनोऽबुद्धानां प्रत्यगात्मविवेक-  
रहितानां नात्मविवेकवताम् ।

नद्युपरदेशस्त्रुड्वत्प्राण्यध्यारो-

पितोदकफेनतरङ्गादिमांस्तथा

नात्माधुधारोपितक्लेशादिमलैर्मलि-

नो भवतीत्यर्थः ॥ ८ ॥

कारण मलिन—मलयुक्त हो जाता है, किन्तु आकाशके यथार्थ स्वरूपको जाननेवालोंकी दृष्टिमें ऐसा नहीं होता, उसी प्रकार अबुद्ध-प्रत्यगात्माके विवेकमे रहित पुरुषोंकी दृष्टिमें, जो प्रत्यक् और स्वका साक्षी है वह परात्मा भी क्लेश, कर्म और फलरूप मलोंसे मलिन हो जाता है, किन्तु आत्मज्ञानियोंकी दृष्टिमें ऐसा नहीं होता ।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार ऊसरदेश तृपित प्राणीके आरोपित किये हुए जलके फेन और तरङ्गादिसे युक्त नहीं होता उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञानियोंद्वारा आरोपित क्लेशादि मलोंसे मलिन नहीं होता ॥ ८ ॥

पुनरप्युक्तमेवार्थं प्रपञ्चयति—

फिर भी पूर्वोक्त अर्थका ही विस्तार कहते हैं—

मरणे सम्भवे चैव गत्यागमनयोरपि ।

स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः ॥ ९ ॥

यह आत्मा सम्पूर्ण शरीरोंमें मृत्यु, जन्म, लोकान्तरमें गमनागमन और स्थित रहनेमें भी आकाशसे अविलक्षण है । [ अर्थात् इन सब व्यवहारोंमें रहते हुए भी यह आकाशके समान निर्विकार और विभु है ] ॥९॥

घटाकाशजन्मनाशगमना-

गमनस्थितिवत्सर्वशरीरेष्व्वात्मनो

घटाकाशके जन्म, नाश, गमन, आगमन और स्थितिके समान सम्पूर्ण शरीरोंमें आत्माके जन्म-मरणादिको

जन्ममरणादिराकाशेनाविलक्षणः

आकाशासे अविलक्षण ( भेदरहित )

प्रत्येतव्य इत्यर्थः ॥ ९ ॥

ही अनुभव करना चाहिये—यह इसका अभिप्राय है ॥ ९ ॥

संघाताः स्वप्नवत्सर्वे आत्ममायाविसर्जिताः ।

आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते ॥ १० ॥

देहादि समस्त संघात स्वप्नके समान आत्माकी मायासे ही रचे हुए हैं । उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सत्रकी समानतामें भी कोई हेतु नहीं है ॥ १० ॥

घटादिस्थानीयास्तु देहादि-  
संघाताः स्वप्नदृश्यदेहादिबन्माया-  
विकृतदेहादिवचात्ममायावि-  
सर्जिताः; आत्मनो मायाविद्या  
तया प्रत्युपस्थापिता न परमार्थतः  
सन्तीत्यर्थः । यद्याधिक्यमधिक-  
भावस्तिर्यग्देहाद्यपेक्षया देवादि-  
कार्यकरणसंघातानां यदि वा  
सर्वेषां समतैव नैपामुपपत्तिः  
सम्भवः सद्भावप्रतिपादको  
हेतुर्विद्यते नास्ति, हि यस्मात्त-  
स्मादविद्याकृता एव न परमार्थतः  
सन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥

घटादिस्थानीय देहादिसंघात  
स्वप्नमें दीखनेवाले देहादिके समान  
तथा मायावीके रचे हुए देहादिके  
सदृश आत्माकी मायासे ही रचे  
हुए हैं । तात्पर्य यह है कि आत्माकी  
माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत  
किये हुए हैं, परमार्थतः नहीं हैं ।  
यदि तिर्यगादि देहोंकी अपेक्षा देवता  
आदिके शरीर और इन्द्रियोंकी  
अविकृता—उत्कृष्टता है अथवा यदि  
[ तत्त्वदृष्टिसे ] सत्रकी समानता ही  
है तो भी, क्योंकि उनके सद्भावका  
प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, इसलिये  
वे अविद्याकृत ही हैं, परमार्थतः नहीं  
हैं—ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १० ॥

उत्पत्त्यादिवर्जितस्याद्वयस्यात्म-

उत्पत्ति आदिसे रहित अद्वितीय  
आत्मतत्त्वका श्रुतिप्रमाणकत्त्व प्रदर्शित

तत्त्वस्य श्रुतिप्रमाणरुत्वप्रदर्शनार्थं  
वाक्यान्युपन्यस्यन्ते—

करनेके लिये [ उपनिषद्के ] वाक्यों-  
का उल्लेख किया जाता है—

रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके ।

तेपामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः ॥ ११ ॥

तैत्तिरीय श्रुतिमें जिन रसादि [ अन्नमयादि ] कोशोंकी व्याख्या की गयी है, आकाशवत् परमात्मा ही उनके आत्मा जीवरूपसे प्रकाशित किया गया है ॥ ११ ॥

रसादयोऽन्नरसमयः प्राणमय  
इत्येवमादयः कोशा इव कोशा  
अस्यादेरिवोत्तरोत्तरस्यापेक्षया  
बहिर्भावात्पूर्वपूर्वस्य व्याख्याता  
विस्पष्टमाख्यातास्तैत्तिरीयके  
तैत्तिरीयकशाखोपनिषद्वल्लयां तेषां  
कोशानामात्मा येनात्मना पञ्चापि  
कोशा आत्मवन्तोऽन्तरतमेन,  
स हि सर्वेषां जीवननिमित्तत्वा-  
जीवः ।

तैत्तिरीयकमें अर्थात् तैत्तिरीयक-  
शाखोपनिषद्वलीमें जिन रसादि—  
अन्नरसमय एव प्राणमय इत्यादि  
कोशोंकी व्याख्या—स्पष्ट विवेचना  
की गयी है और जो उत्तरोत्तरकी  
अपेक्षा पूर्व-पूर्व बहि स्थित होनेके  
कारण खड्गके कोशके समान कोश  
कहे गये हैं उन कोशोंका आत्मा,  
जिस अन्तरतम आत्माके कारण  
पाँचों कोश आत्मवान् हैं, वही सबके  
जीवनका निमित्त होनेके कारण  
'जीव' कहलाता है ।

कोऽसावित्याह—पर एवात्मा  
यः पूर्वम् “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”  
( तै० उ० २ । १ ) इति प्रकृतः ।

यस्मादात्मनः स्वप्नमायादिवदा-  
काशादिक्रमेण रसादयः कोश-

ब्रह्म कौन है ? इसपर कहते हैं—  
वह परमात्मा ही है, जिसका पहले  
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि  
वाक्योंमें प्रसङ्ग है और जिस  
आत्मासे स्वप्न और माया आदिके  
समान आकाशादि क्रमसे कोशरूप  
संघात आत्माकी मायासे ही रचे



लक्षणाः संघाता आत्ममाया-  
विसर्जिता इत्युक्तम् । स आत्मा-  
स्वामिर्नृथा खं तथेति संप्रकाशितः  
“आत्मा ह्याकाशवत्” (अद्वैत०  
३) इत्यादि श्लोकैः । न तार्किक-  
परिकल्पितात्मवत्पुरुषबुद्धि-  
प्रमाणगम्य इत्यभिप्रायः ॥११॥

गये हैं—ऐसा कहा गया है । उस  
आत्माको हमने “आत्मा ह्याकाश-  
वत्” इत्यादि श्लोकोंमें, जैसा आकाश  
है उसीके समान प्रकाशित किया  
है । तात्पर्य यह है कि वह तार्किकों-  
के कल्पना किये हुए आत्माके समान  
मनुष्यकी बुद्धिसे प्रमाणित होनेवाला  
नहीं है ॥ ११ ॥

द्वयोर्द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम् ।

पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः ॥ १२ ॥

लोकमें जिस प्रकार पृथिवी और उदरमें एक ही आकाश प्रकाशित  
हो रहा है, उसी प्रकार [ बृहदारण्योक्त ] मधु ब्राह्मणमें [ अध्यात्म और  
अधिदैवत—इन ] दोनों स्थानोंमें एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है ॥१२॥

किं चाधिदैवमध्यात्मं च  
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः पृथि-  
व्याद्यन्तर्गतो यो विज्ञाता पर  
एवात्मा ब्रह्म सर्वमिति  
द्वयोर्द्वयोराद्वैतक्षयात्परं ब्रह्म  
प्रकाशितम् । केत्याह—ब्रह्म-  
विद्याख्यं मध्वमृतममृतत्वं मोद-  
नहेतुत्वाद्विज्ञायते यस्मिन्निति  
मधुज्ञानं मधुब्राह्मणं तस्मिन्नि-

तथा अधिदैव और अध्यात्म-  
भेदसे जो तेजोमय और अमृतमय  
पुरुष पृथिवीके भीतर है और जो  
विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ  
है—इस प्रकार द्वैतका क्षय होनेपर्यन्त  
दोनों स्थानोंमें परब्रह्मका ही प्रति-  
पादन किया गया है । कहाँ किया  
गया है ? सो बतलाते हैं—जिसमें  
ब्रह्मविद्यासंज्ञक मधु यानी अमृतका  
ज्ञान है—आनन्दका हेतु होनेके  
कारण उसका अमृतत्व है—उस  
मधुज्ञान यानी मधुब्राह्मणमें [ उसका  
प्रतिपादन किया गया है ] ।  
किसके समान प्रतिपादन किया है ?

त्यर्थः । किमिवेत्याह—पृथिव्या-  
मुदरे चैव यथैक आकाशोऽनुमा-  
नेन प्रकाशितो लोके तद्वदि-  
त्यर्थः ॥ १२ ॥

इसपर कहते हैं कि जिस प्रकार लोकमें  
अनुमानसे पृथिवी और उदरमें एक  
ही आकाश प्रकाशित होता है,  
उसी तरह [ इनकी एकता समझो ]  
यह इसका अभिप्राय है ॥ १२ ॥

आत्मैकत्व ही समीचीन है

जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते ।

नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम् ॥ १३ ॥

क्योंकि जीव और आत्माके अमेदरूपसे एकत्वकी प्रशंसा की  
गयी है और उनके नानात्वकी निन्दा की गयी है । इसलिये वही [ यानी  
उनकी एकता ही ] ठीक है ॥ १३ ॥

यद्युक्तिः श्रुतितथ निर्धारितं  
जीवस्य परस्य चात्मनो जीवा-  
त्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते  
स्तूयते शास्त्रेण व्यासादिभिश्च ।  
यच्च सर्वप्राणिसाधारणं स्वाभाविकं  
शास्त्रग्रहिकृतैः कुतार्किकैर्विरचितं  
नानात्वदर्शनं निन्द्यते “न तु  
तद्विद्वितीयमस्ति” ( वृ० उ० ४ ।  
३ । २३ ) “द्वितीयाद्वै भयं  
भवति” ( वृ० उ० १ । ४ । २ )  
“उदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य  
भयं भवति” ( तै० उ० २ ।  
७ । १ ) “इदं सर्वं यदयमात्मा”  
( वृ० उ० २ । ४ । ६, ४ । ५ । ७ )  
“मृत्योः स मृत्युमामोति य इह

क्योंकि युक्ति और श्रुतिसे  
निश्चय किये हुए जीव और परमात्मा-  
के एकत्वकी शास्त्र और व्यासादि  
मुनियोंने समानरूपसे प्रशंसा यानी  
स्तुति की है और शास्त्रवाद्वा  
कुतार्किकोंद्वारा कल्पित सर्वप्राणि  
साधारण स्वाभाविक नानात्वदर्शनकी  
“उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं  
है” “दूसरेसे निश्चय भय होता है”  
“जो थोडा-सा भी भेद करता है,  
उसे भय प्राप्त होता है” “यह  
जो कुछ है सब आत्मा है” “जो  
यहाँ नानात्व देखता है वह  
मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है”  
इत्यादि वाक्यों तथा अन्य ब्रह्मवेत्ताओं-

नानेव पश्यति" ( क० उ० २ ।  
१ । १० ) इत्यादिवाक्यैश्चा-  
न्यैश्च ब्रह्मविद्धिः । यच्चैतत्तदेवं  
हि समञ्जसमृज्ववबोधं न्याय्य-  
मित्यर्थः । यास्तु तार्किकपरि-  
कल्पिताः कुदृष्टयस्ता अनृज्व्यो  
निरूप्यमाणा न घटनां प्राञ्चन्ती-  
त्यभिप्रायः ॥ १३ ॥

द्वारा निन्दा की गयी है । यह जो  
[ बतलाया गया ] है वह इसी  
प्रकार समझस-सरल बोधगम्य  
अर्थात् न्याययुक्त है । तथा तार्किकों-  
की कल्पना की हुई जो कुदृष्टियाँ हैं वे  
सरल नहीं हैं; अभिप्राय यह है कि  
वे निरूपण की जानेपर प्रसंगके  
अनुरूप नहीं ठहरतीं ॥ १३ ॥

श्रुत्युक्त जीव-ब्रह्मभेद गौण है

जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् ।

भविष्यद्बृत्त्या गौणं तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते ॥१४॥

पहले ( उपनिषदोंके कर्मकाण्डमें ) उत्पत्तिबोधक वाक्योंद्वारा जो  
जीव और परमात्माका पृथक्त्व बतलाया है वह भविष्यद्-बृत्तिसे गौण है,  
उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है ॥ १४ ॥

ननु श्रुत्यापि जीवपरमात्मनोः

पृथक्त्वं यत्प्रागुत्पत्तेरुत्पत्त्यर्थोप-

निषद्वाक्येभ्यः पूर्वं प्रकीर्तितं

कर्मकाण्डे अनेकशः कामभेदत

इदं कामोऽदःकाम इति; परश्च

“स दाधार पृथिवीं द्याम्”

( ऋ०सं १० । १ २१ । १ ) इत्यादि-

मन्त्रवर्णैः; तत्र कथं कर्मज्ञानकाण्ड-

शंका—जब श्रुतिने भी पहले—  
कर्मकाण्डमें उत्पत्ति-प्रतिपादक उप-  
निषद्-वाक्योंद्वारा ‘इदं कामः’ ‘अदः-  
कामः’ आदि प्रकारसे [ कर्मकाण्डमें  
भिन्न-भिन्न कामनाओंवाले कर्माधिकारी  
पुरुषके समान ] अनेकों कामनाओं-  
के भेदसे जीव और परमात्माका भेद  
प्रतिपादन किया है तथा परमात्माका  
“उसने पृथिवी और शुलोकको  
धारण किया” इत्यादि मन्त्रवर्णोंसे  
पृथक् ही निर्देश किया है, तब इस  
प्रकार कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके

वाक्यविरोधे ज्ञानकाण्डवाक्यार्थ-  
स्यैकत्वस्य सामञ्जस्यमवधार्यत  
इति ?

अत्रोच्यते—“यतो वा इमानि  
भूतानि जायन्ते” ( तै० उ० ३ ।  
१ ) “यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः”  
( वृ० उ० २ । १ । २० ) “तस्माद्वा  
एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः”  
( तै० उ० २ । १ । २ ) “तदैक्षत”  
( छा० उ० ६ । २ । ३ )  
“तत्तेजोऽसृजत” ( छा० उ०  
६ । २ । ३ ) इत्याद्युत्पत्त्यर्थोपनि-  
षद्वाक्येभ्यः प्राक्पृथक्त्वं कर्मकाण्डे  
प्रकीर्तितं यत्तन्न परमार्थम् । किं  
तर्हि ? गौणं महाकाशघटा-  
काशादिभेदवत् । यथादनं  
पचतीति भविष्यद्बृत्त्या यद्वत् ।  
न हि भेदवाक्यानां कदाचिदपि  
मुख्यभेदार्थत्वमुपपद्यते । स्वाभा-  
विकाविद्यावत्प्राणिभेद दृष्ट्यनुवा-  
दित्वादात्मभेदवाक्यानाम् ।

इह चोपनिषत्सूत्पत्तिप्रलयादि-  
वाक्यैर्जावपरमात्मनोरेकत्वमेव

वाक्योंमें विरोध उपस्थित होनेपर  
केवल ज्ञानकाण्डोक्त एकत्वका ही  
सामञ्जस्य ( यथार्थत्व ) किस प्रकार  
निश्चय किया जा सकता है ?

समाधान—इस विषयमें हमारा  
कथन है कि “जहाँसे ये सब भूत  
उत्पन्न होते हैं” “जिस प्रकार  
अग्निसे नन्ही-नन्ही चिनगारियाँ  
[ निकलती हैं ]” “उसी इस आत्मा-  
से आकाश उत्पन्न हुआ” “उसने  
ईक्षण किया” “उसने तेजको रचा”  
इत्यादि उत्पत्त्यर्थक उपनिषद्वाक्योंमें  
पहले कर्मकाण्डमें जो पृथक्त्वका  
प्रतिपादन किया गया है वह  
परमार्थत नहीं है । तो कैसा है ?  
वह महाकाश और घटाकाशादिके  
भेदके समान गौण है और जिस  
प्रकार भविष्यद्दृष्टिसे ‘भात पकाता  
है’\* ऐसा कहा जाता है उसीके  
समान है । आत्म-भेदवाक्योंका मुख्य  
भेदप्रतिपादकत्व सभी सम्भव नहीं  
हैं, क्योंकि भेदवाक्य तो अज्ञानी  
पुरुषोंकी स्वाभाविकी भेददृष्टिका ही  
अनुवाद करनेवाले हैं ।

यहाँ उपनिषदोंमें तो “वह  
है” “यह अन्य है और मैं अन्य

\* ‘भात’ उबले हुए चावलको कहते हैं; जो चावल पकाये जाते हैं  
उनकी मशा ‘भात’ नहीं है । अतः इस वाक्यमें जो उनके लिये ‘भात’ शब्दका  
प्रयोग हुआ है वह भविष्यद्दृष्टिसे है ।

प्रतिपिपादयिपितम् "तच्चमसि"  
 (छा० उ० ६।८-१६) "अन्यो  
 ऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद"  
 (बृ० उ० १।४।१०)  
 इत्यादिभिः । अत उपनिपत्सु  
 एकत्वं श्रुत्या प्रतिपिपादयिपितं  
 भविष्यतीति भाविनीमेकवृत्ति-  
 माश्रित्य लोके भेददृष्ट्यनुवादो  
 गौण एवेत्यभिप्रायः ।

अथ वा "तदैक्षत" (छा०  
 उ० ६।२।३) "तत्तेजो-  
 ऽसृजत" (छा० उ० ६।२।३)  
 इत्याद्युत्पत्तेः प्राक् "एकमेवा-  
 द्वितीयम्" (छा० उ० ६।२।२)  
 इत्येकत्वं प्रकीर्तितम् । तदेव च  
 "तत्सत्यं स आत्मा तच्चमसि"  
 (छा० उ० ६।८-१६) इत्येकत्वं  
 भविष्यतीति तां भविष्यद्वृत्तिम-  
 पेक्ष्य यज्ञीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्र  
 क्वचिद्वाक्ये गम्यमानं तद्गौणम्,  
 यथौदनं पचतीति तद्वत् ॥१४॥

हूँ [ ऐसा जो जानता है ] वह  
 नहीं जानता" इत्यादि श्रुतियोंके  
 अनुसार उत्पत्ति-प्रल्यादि-बोधक  
 वाक्योंसे भी जीव और परमात्मा-  
 का एकत्व ही प्रतिपादन करना  
 इष्ट है । अतः उपनिषदोंमें श्रुतिको  
 एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट  
 होगा—इस भविष्यद्वृत्तिको आश्रय  
 करके लोकमें भेददृष्टिका अनुवाद  
 गौण ही है—यह इसका अभिप्राय है ।

अथवा "उसने ईक्षण किया"  
 "उसने तेजको रचा" इत्यादि  
 श्रुतियोंद्वारा जो उत्पत्तिसे पूर्व "एक-  
 मेवाद्वितीयम्" इत्यादि प्रकारसे  
 एकत्वका निरूपण किया है वह  
 "वह सत्य है, वह आत्मा है और  
 वही तू है" इस प्रकार आगे एकत्व  
 हो जायगा इस भविष्यद्वृत्तिसे जहाँ  
 कहाँ किसी वाक्यमें जीव और  
 आत्माका पृथक्त्व जाना गया है  
 उसी प्रकार—गौण है, जैसे कि 'भात  
 पकाता है' इस वाक्यमें [ 'भात'  
 शब्दका प्रयोग ] ॥ १४ ॥

दृष्टान्तयुक्त उत्पत्ति-श्रुतिकी व्यवस्था

ननु यद्युत्पत्तेः प्रागजं सर्व-

मेकमेवाद्वितीयं तथाप्युत्पत्तेरूर्ध्वं

यदि कहो कि उत्पत्तिसे पूर्व तो  
 सब अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय  
 हैं तथापि उसके पीछे तो सब

जातमिदं सर्वं जीवाश्च भिन्ना  
इति, मैवम्; अन्यार्थत्वादुत्पत्ति-  
श्रुतीनाम् । पूर्वमपि परिहृत  
एवायं दोषः स्वप्नवदात्ममाया-  
विसर्जिताः संघाता घटाकाशो-  
त्पत्तिभेदादिवजीवानामुत्पत्ति-  
भेदादिरिति । इत एवोत्पत्ति-  
भेदादिश्रुतिभ्य आकृष्य इह  
पुनरुत्पत्तिश्रुतीनामैदंपर्यप्रतिपि-  
पादधिषयोपन्यासः—

उत्पन्न हुआ ही है और तब जीव  
भी भिन्न ही हैं—तो ऐसा कहना  
ठीक नहीं, क्योंकि उत्पत्तिसूचक  
श्रुतियाँ दूसरे ही अभिप्रायसे हैं ।  
'देहादिसंघात स्वप्नके समान  
आत्माकी मायासे ही प्रस्तुत किये हुए  
हैं' तथा 'घटाकाशकी उत्पत्तिसे  
होनेवाले भेदके समान जीवोंकी  
उत्पत्तिके भेद हैं' इन वाक्योंद्वारा  
पहले भी इस दोषका परिहार किया  
ही जा चुका है । इसीलिये पूर्वोक्त  
उत्पत्तिभेदादिसूचक श्रुतियोंसे उन-  
का निष्कर्ष लेकर यहाँ फिर उन  
उत्पत्तिश्रुतियोंका ब्रह्मात्मैक्यपरत्व  
प्रतिपादन करनेकी इच्छासे उपन्यास  
किया जाता है—

मृल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्या चोदितान्यथा ।

उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥१५॥

[ उपनिषदोंमें ] जो-मृत्तिका, लोहपिण्ड और विस्फुलिङ्गादि दृष्टान्तों-  
द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिका निरूपण किया है वह [ ब्रह्मात्मैक्यमें ]  
बुद्धिका प्रवेश करानेका उपाय है, घस्तुत उनमें कुछ भी भेद नहीं  
है ॥ १५ ॥

मृल्लोहविस्फुलिङ्गादिदृष्टान्तो-  
पन्यासैः सृष्टिर्या चोदिता  
प्रकाशितान्यथान्यथा च स सर्वः

मृत्तिका, लोहपिण्ड और विस्फु-  
लिङ्गादिके दृष्टान्तोंका उपन्यास करके  
जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिको  
प्रकाशित अर्थात् कल्पित किया  
गया है वह सृष्टिका सम्पूर्ण प्रकार

सृष्टिप्रकारो जीवपरमात्मैकत्व-

बुद्धयवतारायोपायोऽस्माकम् ।

यथा प्राणसंवादे वागाद्यासुर-

पाप्मवेधाद्याख्यायिका कल्पिता

प्राणवैशिष्ट्यबोधवताराय ।

तदप्यसिद्धमिति चेत् ।

न; शाखाभेदेष्वन्यथान्यथा

च प्राणादिसंवादश्रवणात् । यदि

हि संवादः परमार्थ एवाभूदेकरूप

एव संवादः सर्वशाखास्वश्रोष्यत

विरुद्धानेकप्रकारेण नाश्रोष्यत ।

हमें जीव और परमात्माका एकत्व निश्चय करानेवाली बुद्धि प्राप्त कराने-के लिये है, जिस प्रकार कि प्राण-संवादमें प्राणकी उत्कृष्टताका बोध करानेके लिये वागादि इन्द्रियोंके असुरोंद्वारा पापसे विद्ध हो जानेकी आख्यायिका\* कल्पना की गयी है ।

पूर्व०—परन्तु यह बात भी तो सिद्ध नहीं हो सकती । †

सिद्धान्ती—नहीं; भिन्न-भिन्न शाखाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्राण-संवाद सुना जानेके कारण [ उसका यही तात्पर्य होना चाहिये ] । ‡

यदि यह संवाद वस्तुतः हुआ होता तो सम्पूर्ण शाखाओंमें एक ही संवाद सुना जाता, परस्पर विरुद्ध

० छान्दोग्य उपनिषद्के प्रथम प्रपाठकके द्वितीय खण्डमें यह आख्यायिका इस प्रकार आयी है—एक बार देवताओंका असुरोंके साथ युद्ध छिड़ गया । यहाँ असुरसे मनकी राजसवृत्ति और देवतासे सात्त्विकवृत्ति समझनी चाहिये । इन दोनों वृत्तियोंका पारस्परिक युद्ध चिर प्रसिद्ध है । देवताओंने असुरोंको उद्गीथविद्याके प्रभावसे परास्त करना चाहा । अतः उन्होंने याक् आदि प्रत्येक इन्द्रियको एक-एक करके उद्गीथ-गानमें नियुक्त किया; किन्तु प्रत्येक ही इन्द्रिय स्वार्थपरताके पापसे असुरोंके सामने पराभूत हो गयी । अन्तमें मुख्य प्राणको नियुक्त किया गया । वह सभीके लिये समान भावसे सामगान करने लगा, अतः असुरगण उसका कुछ भी न बिगाड़ सके और देवताओंको विजय प्राप्त हुई ।

† अर्थात् उन आख्यायिकाओंका तात्पर्य प्राणकी उत्कृष्टताका बोध करानेमें ही है ।

‡ इसी आशयकी एक आख्यायिका बृहदारण्यकोपनिषद् अध्याय ६ ब्राह्मण १ में और दूसरी बृह० उ० अध्याय १ ब्राह्मण ३ में भी है ।

श्रूयते तु; तस्मान्न तादर्थ्यं  
संवादश्रुतीनाम् । तथोत्पत्ति-  
वाक्यानि प्रत्येतव्यानि ।

कल्पसर्गभेदात्संवादश्रुतीना-  
मुत्पत्तिश्रुतीनां च प्रतिसर्ग-  
मन्यथात्वमिति चेत् ?

न; निष्प्रयोजनत्वाद्यथोक्त-  
बुद्धधनतारप्रयोजनव्यतिरेकेण ।

न ह्यन्यप्रयोजनवत्त्वं संवादो-  
त्पत्तिश्रुतीनां शक्यं कल्पयितुम् ।

तथात्वप्रतिपत्तये ध्यानार्थ-

मिति चेन्न; कलहोत्पत्तिप्रलयानां

प्रतिपत्तेरनिष्टत्वात् । तस्मा-

दुत्पत्त्यादिश्रुतय आत्मैकत्व-

बुद्धधनतारायैव नान्यार्थाः

कल्पयितुं युक्ताः । अतो

नास्त्युत्पत्त्यादिकृतो भेदः

कथञ्चन ॥ १५ ॥

भिन्न-भिन्न प्रकारसे नहीं । परन्तु  
ऐसा सुना ही जाता है; इसलिये  
संवादश्रुतियोंका तात्पर्य यथाश्रुत  
अर्थमें नहीं है । इसी प्रकार उत्पत्ति-  
वाक्य भी समझने चाहिये ।

पूर्व-प्रत्येक कल्पकी सृष्टिके  
भेदके कारण संवादश्रुति और उत्पत्ति-  
श्रुतियोंमें प्रत्येक सर्गके अनुसार भेद  
है—यदि ऐसा माने तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि श्रुतिज्ञ  
उपर्युक्त [ ब्रह्मात्मैकत्वमें ] बुद्धि-  
प्रवेशरूप प्रयोजनके अतिरिक्त अन्य  
कोई प्रयोजन ही नहीं है । प्राण-  
संवाद और उत्पत्तिश्रुतियोंका इसके  
सिद्धा और कोई प्रयोजन नहीं  
कल्पना किया जा सकता । यदि  
कहो कि उनकी तद्रूपता प्राप्त करने-  
के प्रयोजनसे ध्यानके लिये ऐसा  
कहा गया है, तो ऐसा भी सम्भव  
नहीं है, क्योंकि कलह तथा उत्पत्ति  
या प्रलयकी प्राप्ति किसीको इष्ट  
नहीं हो सकती । अतः उत्पत्ति  
आदि प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियों  
आत्मैकत्वरूप बुद्धिकी प्राप्तिके ही  
लिये हैं, उन्हें किसी और प्रयोजन-  
के लिये मानना उचित नहीं है ।  
अतः उत्पत्ति आदिके कारण होने-  
वाला भेद कुछ भी नहीं है ॥ १५ ॥



त्रिविध अधिकारी और उनके लिये उपासनाविधि

यदि पर एवात्मा नित्यशुद्ध-  
बुद्धमुक्तस्वभाव एकः परमार्थः  
सन् “एकमेवाद्वितीयम्” ( छा०  
उ० ६ । २ । २ ) इत्यादि-  
श्रुतिभ्योऽसदन्यत्किमर्थेयमुपा-  
सनोपदिष्टा “आत्मा वा अरे  
द्रष्टव्यः” ( बृ० उ० २ । ४ । ५ )  
“य आत्मापहतपाप्मा” ( छा०  
उ० ८ । ७ । १, ३ ) “स क्रतुं  
कुर्वीत” ( छा० उ० ३ । १४ । १ )  
“आत्मेत्येवोपासीत्” ( बृ० उ०  
१ । ४ । ७ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः,  
कर्माणि चाग्निहोत्रादीनि ?

शृणु तत्र कारणम्—

शङ्का—यदि “एकमेवाद्वितीयम्”  
इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार परमार्थतः  
एकमात्र नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव  
परमात्मा ही सत्य है, अन्य सब  
मिथ्या है, तो “अरे, इस आत्माका  
साक्षात्कार करना चाहिये” “जो  
आत्मा पापरहित है” “वह (अधिकारी)  
क्रतु ( उपास्यसम्बन्धी संकल्प )  
करे” “आत्मा है—इस प्रकार ही  
उपासना करे” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा  
इस उपासनाका उपदेश क्यों दिया  
गया है ? तथा अग्निहोत्रादि कर्म  
भी क्यों बतलाये गये हैं ?

समाधान—इसमे जो कारण है,  
सो सुनो—

आश्रमास्त्रिविधा

हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः ।

उपासनोपदिष्टेयं

तदर्थमनुकम्पया ॥ १६ ॥

आश्रम ( अधिकारीपुरुष ) तीन प्रकारके हैं—हीन, मध्यम और  
उत्कृष्ट दृष्टिवाले । उनपर कृपा करके उन्हींके लिये यह उपासना उपदेश  
की गयी है ॥ १६ ॥

आश्रमा आश्रमिणोऽधिकृताः,  
वर्णिनश्च मार्गगाः, आश्रम-  
शब्दस्य प्रदर्शनार्थत्वात्त्रिविधाः ।  
कथम् ? हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः ।  
हीना निकृष्टा मध्यमोत्कृष्टा च

आश्रमाः—कर्माधिकारी आश्रमी  
एवं सन्मार्गगामी वर्णालोग—क्योंकि  
‘आश्रम’ शब्द उनका भी उप-  
लक्षण करनेवाला है—तीन प्रकारके  
हैं । किस प्रकार ? हीन, मध्यम  
और उत्कृष्ट दृष्टिवाले । अर्थात् जिनकी

दृष्टिर्दर्शनसामर्थ्यं येषां ते मन्द-  
मध्यमोत्तमबुद्धिसामर्थ्योपेता

इत्यर्थः ।

उपासनोपदिष्टेयं तदर्थं

मन्दमध्यमदृष्ट्याश्रमाद्यर्थं कर्माणि  
च, न चात्मैक एवाद्वितीय इति  
निश्चितोत्तमदृष्ट्यर्थं दयालुना

वेदेनानुक्रम्यया सन्मार्गागाः सन्तः

कथमिमासुत्तमामेकत्वदृष्टिं प्राप्नु-  
युरिति । “यन्मनसा न मनुते

येनाहुर्मनो मतम् । तदेव ब्रह्म  
त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते”

(के० उ० १ । ५) “तत्त्वमसि”

(छा० उ० ६ । ८-१६) “आत्मैवेदं  
सर्वम्” (छा० उ० ७ । २५ । २)

इत्यादिश्रुतिभ्यः ॥ १६ ॥

दृष्टि यानी दर्शनसामर्थ्य हीन-  
निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट है ऐसे  
मन्द, मध्यम और उत्तम बुद्धिकी  
सामर्थ्यसे सम्पन्न हैं ।

उन मन्द और मध्यम दृष्टिवाले  
आश्रमादिके लिये ही इस उपासना  
और कर्मका उपदेश किया गया है,  
'आत्मा एक और अद्वितीय ही है'  
ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि  
है, उनके लिये उसका उपदेश नहीं  
है । दयालु वेदने उसका इसीलिये  
उपदेश किया है कि जिससे वे  
किसी प्रकार सन्मार्गागामी होकर  
“जिसका मनसे मनन नहीं किया  
जा सकता, बल्कि जिसके द्वारा  
मन मनन किया कहा जाता है  
उसीको तू ब्रह्म जान, यह, जिसकी  
तू उपासना करता है, ब्रह्म नहीं  
है” “वह तू है” “यह सब आत्मा  
ही है” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा प्रति-  
पादित इस उत्तम एकत्व दृष्टिको  
प्राप्त कर सकें ॥ १६ ॥

अद्वैतात्मदर्शन किसीका विरोधी नहीं है

शास्त्रोपपत्तिभ्यामवधारित-

त्वाद्वयात्मदर्शनं सम्यग्दर्शनं

तद्ब्राह्मत्वान्मिथ्यादर्शनमन्यत् ।

शास्त्र और युक्तिसे निश्चित  
होनेके कारण अद्वितीय आत्मदर्शन  
ही सम्यग्दर्शन है, उससे बाह्य  
होनेके कारण और सब दर्शन मिथ्या  
हैं । द्वैतवादियोंके दर्शन इसलिये

इतश्च मिथ्यादर्शनं द्वैतिनां राग- भी मिथ्या हैं, क्योंकि वे राग-द्वेषादि  
द्वेषादिदोषास्पदत्वात् । कथम् ? [ सो बतलाते हैं ]—  
दोषोंके आश्रय हैं; किस प्रकार ?

स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम् ।

परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥ १७ ॥

द्वैतवादी अपने-अपने सिद्धान्तोंकी व्यवस्थामें दृढ़ आग्रही होनेके कारण आपसमें विरोध रखते हैं; परन्तु यह [ अद्वैतात्मदर्शन ] उनसे विरोध नहीं रखता ॥ १७ ॥

स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु स्वसिद्धान्त-  
न्तरचनानियमेषु कपिलकणाद-  
बुद्धार्हतादिदृष्टचनुसारिणो द्वैति-  
नो निश्चिताः । एवमेवैष परमार्थो  
नान्यथेति तत्र तत्रानुरक्ताः  
प्रतिपक्षं चात्मनः पश्यन्तस्तं  
द्विपन्त इत्येवं रागद्वेषोपेताः  
स्वसिद्धान्तदर्शननिमित्तम् एव  
परस्परमन्योन्यं विरुध्यन्ते ।

स्वसिद्धान्तव्यवस्थामें अर्थात्  
अपने-अपने सिद्धान्तकी रचनाके  
नियमोंमें कपिल, कणाद, बुद्ध और  
अर्हत् ( जिन ) की दृष्टियोंका अनु-  
सरण करनेवाले द्वैतवादी निश्चित  
हैं, अर्थात् यह परमार्थतत्त्व इसी  
प्रकार है अन्यथा नहीं—इस प्रकार  
अपने-अपने सिद्धान्तमें अनुरक्त हो  
अपने प्रतिपक्षीको देखकर उससे  
द्वेष करते हैं । इस तरह रागद्वेषसे  
युक्त हो अपने-अपने सिद्धान्तके  
दर्शनके कारण ही परस्पर एक-  
दूसरेसे विरोध मानते हैं ।

उन परस्पर विरोध माननेवालों-  
से हमारा यह आत्मैकत्वदर्शनरूप  
वैदिक सिद्धान्त सवने अभिन्न होनेके  
कारण विरोध नहीं मानता, जिस  
प्रकार कि अपने हाथ-पाँव आदिसे  
किसीका विरोध नहीं होता । इस

तैरन्योन्यविरोधिभिरसदीयो-  
ऽयं वैदिकः सर्वानन्यत्वादात्मैक-  
त्वदर्शनपक्षो न विरुध्यते यथा  
स्वहस्तपादादिभिः । एवं

रागद्वेषादिदोषानास्पदत्वादा-  
त्मैकत्वबुद्धिरेव सम्यग्दर्शनमित्य-  
मिप्रायः ॥ १७ ॥

प्रकार राग-द्वेषादि दोषोंका आशय  
न होनेके कारण आत्मैकत्वबुद्धि  
ही सम्यग्दृष्टि है—यह इसका  
तात्पर्य है ॥ १७ ॥

अद्वैतात्मदर्शनके अविरोधी होनेमें हेतु

केन हेतुना तैर्न विरुध्यत  
इत्युच्यते—

किस कारण उनसे इसका  
विरोध नहीं है—इसपर कहते हैं—

अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्वेद उच्यते ।

तेषामुभयथा द्वैतं तेनायं न विरुद्धयते ॥ १८ ॥

अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उसीका भेद ( कार्य ) कहा जाता है,  
तथा उन ( द्वैतवादियों ) के मतमें [ परमार्थ और अपरमार्थ ] दोनों  
प्रकारसे द्वैत ही है, इसलिये उनमें इसका विरोध नहीं है ॥ १८ ॥

अद्वैतं परमार्थो हि यस्माद्द्वैतं  
नानात्वं तस्याद्वैतस्य भेदस्त-  
द्भेदस्तस्य कार्यमित्यर्थः । “एकमे-  
वाद्वितीयम्” ( छा० उ० ६ ।  
२ । २ ) “तत्तेजोऽसृजत”  
( छा० उ० ६ । २ । ३ ) इति  
श्रुतेरुपपत्तेश्च स्वचित्त-  
स्पन्दनाभावे समार्थो मूर्च्छायां  
सुषुम्ना चामावात् । अतस्तद्भेद  
उच्यते द्वैतम् ।

अद्वैत परमार्थ है, और क्योंकि  
द्वैत यानी नानात्व उस अद्वैतका  
भेद अर्थात् उसका कार्य है, जैसा  
कि “एकमेवाद्वितीयम्” “तत्तेजो-  
ऽसृजत” इत्यादि श्रुतियोंसे तथा  
समाधि मूर्च्छा अथवा सुषुप्तिमें अपने  
चित्तके स्फुरणका अभाव हो जानेपर  
द्वैतका भी अभाव हो जानेके कारण  
युक्तिसे भी सिद्ध होता है, इसलिये  
द्वैत उसका भेद कहा जाता है ।

द्वैतिनां तु तेषां परमार्थतश्चा-  
परमार्थतश्चोभयथापि द्वैतमेव ।  
यदि च तेषां भ्रान्ताना द्वैत-  
दृष्टिरस्माकमद्वैतदृष्टिरभ्रान्ता-

किन्तु उन द्वैतवादियोंकी दृष्टिमें  
तो परमार्थत और अपरमार्थत  
दोनों प्रकार द्वैत ही है । यदि उन  
भ्रान्त पुरुषोंकी द्वैतदृष्टि है और हम

नाम्, तेनायं हेतुनासत्पक्षो न  
विरुध्यते तैः । “इन्द्रो मायाभिः  
पुरुषरूप ईयते” ( वृ० उ० २ ।  
५ । १९ ) “न तु तद्द्वितीयमस्ति”  
( वृ० उ० ४ । ३ । २३ ) इति  
श्रुतेः ।

यथा मत्तगजारूढ उन्मत्तं

भूमिष्ठं प्रति गजारूढोऽहं गजं वाहय

मां प्रतीति ह्यवाणमपि तं प्रति

न वाहयत्यविरोधबुद्ध्या तद्दत् ।

ततः परमार्थतो ब्रह्मविदात्मैव

द्वैतिनाम् । तेनायं हेतुनासत्पक्षो

न विरुध्यते तैः ॥ १८ ॥

भ्रमहीनोंकी अद्वैतदृष्टि है तो इस  
कारणसे ही हमारे पक्षका उनसे  
विरोध नहीं है । “इन्द्र मायासे  
अनेक रूप धारण करता है”  
“उससे भिन्न दूसरा है ही नहीं”  
इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही प्रमाणित  
होता है ।

जिस प्रकार मतवाले हाथीपर  
चढ़ा हुआ पुरुष किसी उन्मत्त  
भूमिस्थ मनुष्यके प्रति, उसके ऐसा  
कहनेपर भी कि मैं तेरे प्रतिद्वन्द्वी  
हाथीपर चढ़ा हुआ हूँ तू अपना  
हाथी मेरी ओर बढ़ा दे' विरोधबुद्धि  
न होनेके कारण उसकी ओर हाथी  
नहीं ले जाता, उसी प्रकार [ हमारा  
भी उनसे विरोध नहीं है ] । तब,  
परमार्थतः तो ब्रह्मवेत्ता द्वैतवादियोंका  
भी आत्मा ही है । इसीसे अर्थात्  
इसी कारण उनसे हमारे पक्षका  
विरोध नहीं है ॥ १८ ॥

आत्मा में भेद मायाहीके कारण है

द्वैतमद्वैतभेद इत्युक्ते द्वैत-

मन्थद्वैतवत्परमार्थसदिति स्यात्

कस्यचिदाशङ्कत्यत आह—

द्वैत-अद्वैतका भेद है—ऐसा  
कहनेपर किसी-किसीको शङ्का हो  
सकती है कि अद्वैतके समान द्वैत  
भी परमार्थ सत् ही होना चाहिये—  
इसलिये कहते हैं—

मायया मिद्यते ह्येतन्नान्यथाजं कथञ्चन ।

तत्त्वतो मिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं व्रजेत् ॥ १९ ॥

इस अजन्मा अद्वैतमें मायाहीके कारण भेद है और किसी प्रकार नहीं, यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अमृतस्वरूप मरणशीलताको प्राप्त हो जाता ॥ १९ ॥

यत्परमार्थमदद्वैतं मायया  
मिद्यते ह्येतच्चैमिरिकानेरुचन्द्र-  
घट्रज्जुः सर्पधारादिभिर्भेदैरिव न  
परमार्थतो निरवयवत्वादात्मनः ।  
सावयवं ह्यवयवान्यथात्वेन  
मिद्यते । यथा मृद् घटादिभेदैः ।  
तस्मान्निरवयवमजं नान्यथा  
कथञ्चन केनचिदपि प्रकारेण न  
मिद्यत इत्यभिप्रायः ।

तत्त्वतो मिद्यमाने ह्यमृतम-  
जमद्वयं स्वमायतः सन्मर्त्यतां  
व्रजेत्; यथाग्निः शीतताम् ।  
तच्चानिष्टं स्वभाववैपरीत्यगमनम्,  
सर्वप्रमाणविरोधात् । अजमव्यय-  
मात्मतत्त्वं माययैव मिद्यते न

जो परमार्थ सत् अद्वैत है वह निमिरदोषसे प्रतीत होनेवाले अनेक चन्द्रमा और सर्प-धारादि भेदोंसे विभिन्न दीखनेवाली रज्जुके समान मायासे ही भेदवान् प्रतीत होता है, परमार्थत नहीं, क्योंकि आत्मा निरवयव है । जो वस्तु सावयव होती है वही अवयवोंके भेदसे भेदको प्राप्त होती है, जिस प्रकार घट आदि भेदोंसे मृत्तिका । अतः निरवयव और अजन्मा आत्मा [ मायाके सिवा ] और किसी प्रकार भेदको प्राप्त नहीं हो सकता—यह इसका अभिप्राय है ।

यदि उसमें तत्त्वतः भेद हो तो अमृत अज अद्वय और स्वभावमे सत्स्वरूप होकर भी आत्मा मर्त्यताको प्राप्त हो जायगा, जिस तरह कि अग्नि शीतलताको प्राप्त हो जाय । और अपने स्वभावसे निरीत अग्न्याको प्राप्त हो जाना सम्पूर्ण प्रमाणोंसे विरुद्ध होनेके कारण किसीको इष्ट नहीं हो सकता । अतः अज और अद्वितीय आत्मतत्त्वं मायासे ही भेदको प्राप्त

परमार्थतः । तस्मान्न परमार्थ-  
सद्द्वैतम् ॥ १९ ॥

होता है, परमार्थतः नहीं; इसलिये  
द्वैत परमार्थ सत् नहीं है ॥ १९ ॥

जीवोत्पत्ति सर्वथा असंगत है

अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः ।

अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति ॥ २० ॥

द्वैतवादीलोग जन्महीन आत्माके भी जन्मकी इच्छा करते हैं; किंतु जो पदार्थ निश्चय ही अजन्मा और मरणहीन है वह मरणशीलताको किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ॥ २० ॥

ये तु पुनः केचिदुपनिष-  
द्धारख्यातारो ब्रह्मवादिनो  
वावदूका अजातस्यैवात्मतत्त्वस्य  
अमृतस्य स्वभावतो जातिम्  
उत्पत्तिमिच्छन्ति परमार्थत एव  
तेषां जातं चेत्तदेव मर्त्यतामेष्य-  
त्यवश्यम् । स चाजातो ह्यमृतो  
भावः स्वभावतः सन्नात्मा कथं  
मर्त्यतामेष्यति ? न कथञ्चन  
मर्त्यत्वं स्वभाववैपरीत्यमेष्यती-  
त्यर्थः ॥ २० ॥

किन्तु जो कोई उपनिषदोंकी  
व्याख्या करनेवाले बहुभाषी ब्रह्मवादी  
लोग अजात और अमृतस्वरूप आत्म-  
तत्त्वकी जाति यानी उत्पत्ति परमार्थतः  
ही सिद्ध करना चाहते हैं उनके मतमें  
यदि वह उत्पन्न होता है तो अवश्य  
ही मरणशीलताको भी प्राप्त हो  
जायगा । किन्तु वह आत्मतत्त्व  
स्वभावसे अजात और अमृत होकर  
भी किस प्रकार मरणशीलताको प्राप्त  
हो सकता है ? अतः तात्पर्य यह है  
कि वह किसी प्रकार अपने स्वभावसे  
विपरीत मरणशीलताको प्राप्त नहीं  
हो सकता ॥ २० ॥

यस्मात्—

क्योंकि

न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा ।

प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिन्नविष्यति ॥ २१ ॥

मरणहीन वस्तु कभी मरणशील नहीं होती, और मरणशील कभी अमर नहीं होती। किसी भी प्रकार स्वभावकी विपरीतता नहीं हो सकती ॥ २१ ॥

न भवत्यमृतं मर्त्यं लोके । लोकमें मरणहीन वस्तु मरण-  
नापि मर्त्यममृतं तथा । ततः शील नहीं होनी और न मरण-  
शील वस्तु मरणहीन ही होती  
प्रकृतेः स्वभावस्यान्यथामावः है । अन अग्निकी उष्णताके  
स्वतः प्रच्युतिर्न कथञ्चिद्भविष्यति, समान प्रकृति अर्थात् स्वभावकी  
विपरीतता—अपने स्वरूपमें च्युति  
अग्नेरिवौष्ण्यस्य ॥ २१ ॥ किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥ २१ ॥

उत्पत्तिशील जीव अमर नहीं हो सकता

स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् ।

कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥ २२ ॥

जिसके मतमें स्वभावसे मरणहीन पदार्थ भी मर्त्यत्वको प्राप्त हो जाता है उसके सिद्धान्तानुसार कृतक (जन्म) होनेके कारण वह अमृत पदार्थ चिरस्थायी कैसे हो सकता है ? ॥ २२ ॥

यस्य पुनर्वादिनः स्वभावेन । किन्तु जिस वादीके मतमें स्वभाव-  
अमृतो भावो मर्त्यतां गच्छति से अमृत पदार्थ भी मर्त्यताको प्राप्त  
होता है अर्थात् परमार्थतः जन्म  
परमार्थतो जायते तस्य प्रागुत्पत्तेः लेता है उसकी यह प्रतिज्ञा कि  
उत्पत्तिसे पूर्व वह पदार्थ स्वभावसे  
स भावः स्वभावतोऽमृत इति अमरणधर्मा है—मिथ्या ही है ।  
प्रतिज्ञा सूपैव । कथं तर्हि [ यदि ऐसा न मानें ] तो फिर कृतक  
होनेके कारण उसका स्वभाव अमरत्व  
कृतकेनामृतस्तस्य भावः ? कृत- कैसे हो सकता है ? और इस प्रकार  
कृतक होनेसे ही वह अमृत पदार्थ  
केनामृतः स कथं स्थास्यति निश्चल यानी अमृतस्वभाव भी कैसे रह



निश्चलोऽमृतस्वभावस्तथा न सक्रता है ; अर्थात् वह कभी ऐसा नहीं रह सकता । अतः आत्माका जन्म वतलानेवालेके मतमें तो अजन्मा वस्तु कोई है ही नहीं । उसके लिये यह सब मरणशील ही है । इससे यह अभिप्राय हुआ कि [ उसके मतमें ] मोक्ष होनेका प्रसंग है ही नहीं ॥ २२ ॥

### सृष्टिश्रुतिकी संगति

नन्वजातिवादिनः सृष्टिप्रतिपादिका श्रुतिर्न संगच्छते प्रामाण्यम् ?

वाढं विद्यते सृष्टिप्रतिपादिका श्रुतिः; सा त्वन्यपरा । उपायः सोऽवतारायेत्यवोचाम । इदानीमुक्तेऽपि परिहारे पुनश्चोद्य-परिहारौ विवक्षितार्थं प्रति सृष्टिश्रुत्यक्षराणामानुलोम्य-विरोधाशङ्कामात्रपरिहारार्थौ—

शङ्का—किन्तु अजातिवादीके मतमें सृष्टिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती ?

समाधान—हाँ ठीक है, सृष्टिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी है; किन्तु उसका उद्देश्य दूसरा है । “उपायः सोऽवताराय” इस प्रकार हम उसका उद्देश्य पहले ( अद्वैत० १५में) बता ही चुके हैं । इस प्रकार यद्यपि इस शङ्काका पहले समाधान किया जा चुका है तो भी ‘सृष्टिश्रुतिके अक्षरोंकी अनुकूलताका हमारे विवक्षित अर्थसे विरोध है’ इस शङ्काका परिहार करनेके लिये ही, इस समय तत्सम्बन्धी शङ्का और समाधानका पुनः उल्लेख किया जाता है—

भूततोऽभूततो वापि सृज्यमाने समा श्रुतिः ।  
निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भ्रूति नेतरत् ॥ २३ ॥

पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी प्रकारकी सृष्टि होनेमें श्रुति तो समान ही होगी । अतः उनमें जो निश्चित और युक्तियुक्त मत हो वही [ श्रुतिक्रम अभिप्राय ] हो सकता है, अन्य नहीं ॥ २३ ॥

भूततः परमार्थतः सृज्यमाने  
वस्तुन्यभूततो मायया वा  
मायाविनेव सृज्यमाने वस्तुनि  
समा तुल्या सृष्टिश्रुतिः । ननु  
गौणमुख्ययोर्मुख्ये शब्दार्थ-  
प्रतिपत्तिर्युक्ता । न, अन्यथा  
सृष्टेरप्रसिद्धत्वान्निष्प्रयोजनत्वाच्चे-  
त्यवोचाम । अविद्यासृष्टिविषयैव  
सर्वा गौणी मुख्या च सृष्टिर्न  
परमार्थतः “सत्राह्याभ्यन्तरो  
द्यजः” ( मु० उ० २।१।२ )

इति श्रुतेः ।

तस्माच्छ्रुत्या निश्चितं यदेकमेवा-  
द्वितीयमजममृतमिति युक्तियुक्तं  
च युक्त्या च सम्पन्नं तदेवेत्य-  
वोचाम पूर्वग्रन्थैः । तदेव श्रुत्यर्थो  
भवति नेतरत्कदाचिदपि ॥ २३ ॥

वस्तुके भूततः यानी परमार्थतः  
रचे जानेमें अथवा अभूततः यानी  
मायासे मायावीद्वारा रचे जानेमें सृष्टि-  
श्रुति तो समान ही होगी । यदि  
कशे कि गौण और मुख्य दोनों अर्थ  
होनेपर शब्दका मुख्य अर्थ लेना ही  
उचित है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं,  
क्योंकि अन्य प्रकारसे न तो सृष्टि  
सिद्ध ही होती है और न उसका  
कुछ प्रयोजन ही है—यह हम  
पहले कह चुके हैं । “आत्मा बाहर-  
भीतर विद्यमान और अजन्मा है”  
इस श्रुतिके अनुसार सब प्रकारकी  
गौण और मुख्य सृष्टि आविद्यक  
सृष्टिसम्बन्धिनी ही है, परमार्थत  
नहीं ।

अतः श्रुतिने जो एक, अद्वितीय,  
अजन्मा और अमृत तत्त्व निश्चित  
किया है वही युक्तियुक्त अर्थात्  
युक्तिसे भी सिद्ध होता है ऐसा  
प्रतिपादन कर चुके हैं वही श्रुतिका  
तात्पर्य हो सकता है, अन्य अर्थ  
कभी और किसी अवस्थामें नहीं हो  
सकता ॥ २३ ॥

कथं श्रुतिनिश्चयः ? इत्याह—

यह श्रुतिका निश्चय किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं—

नेह नानेति चास्त्रायांदिन्द्रो मायाभिरित्यपि ।

अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ॥ २४ ॥

‘नेह नानास्ति किंचन’ ‘इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते’ तथा ‘अजायमानो बहुधा विजायते’ इन श्रुतिवाक्योंके अनुसार वह परमात्मा मायासे ही उत्पन्न होता है ॥ २४ ॥

यदि हि भूतत एव सृष्टिः स्यात्ततः सत्यमेव नाना वस्त्विति तदभावप्रदर्शनार्थमात्मनायो न स्यात् । अस्ति च “नेह नानास्ति किंचन” (क० उ० २।१।११) इत्यादिरात्मनायो द्वैतभावप्रतिषेधार्थः । तस्मादात्मैकत्वप्रतिषेधार्था कल्पिता सृष्टिरभूतैव प्राणसंवादवत् । “इन्द्रो मायाभिः” (बृ० उ० २।५।१९) इत्यभूतार्थप्रतिपादकेन मायाशब्देन व्यपदेशात् ।

ननु प्रज्ञावचनो मायाशब्दः ।

सत्यम्; इन्द्रियप्रज्ञाया

अविद्यामयत्वेन मायात्वाभ्युप-

यदि वास्तवमें ही सृष्टि हुई है तो नाना वस्तु सत्य ही हैं; ऐसी अवस्थामें उनका अभाव प्रदर्शित करनेके लिये कोई शाल-वचन नहीं होना चाहिये था । किन्तु द्वैतभावका निषेध करनेके लिये “यहाँ नाना वस्तु कुछ नहीं है” इत्यादि शाल-वचन है ही । अतः प्राणसंवादके समान आत्मैकत्वकी प्राप्तिके लिये कल्पना की हुई सृष्टि अपर्याय ही है; क्योंकि “इन्द्र मायासे [ अनेक रूप हो जाता है ]” इस श्रुतिमें सृष्टिका, अपर्यायत्वप्रतिपादक ‘माया’ शब्दसे निर्देश किया गया है ।

शङ्का—‘माया’ शब्द तो प्रज्ञा-वाचक है [ इसलिये इससे सृष्टिका मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता ] ।

समाधान—ठीक है, आविद्यक होनेके कारण इन्द्रियप्रज्ञाका मायात्व माना गया है; इसलिये उसमें कोई

गमाददोषः । मायामिरिन्द्रिय-  
प्रज्ञामिः अविद्यारूपाभिरित्यर्थः

“अजायमानो बहुधा विजायते”

इति श्रुतेः, तस्मान्माययैव जायते

तु सः । तु शब्दोऽवधारणार्थः—

माययैवेति । न ह्यजायमानत्वं

बहुधा जन्म चैकत्र सम्भवति,

अग्नाविद्य शैत्यमौष्ण्यं च ।

फलवत्याच्चात्मैकत्वदर्शनमेव

श्रुतिनिश्चितोऽर्थः “तत्र को

मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः”

(ई० उ००७) इत्यादिमन्त्रवर्णात्;

“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति” (क०

उ० २ । १ । १०) इति निन्दि-

तत्वाच्च सृष्ट्यादिभेददृष्टेः ॥२४॥

दोष नहीं है । अतः मायासे अर्थात्  
अविद्यारूप इन्द्रियप्रज्ञासे, जैसा कि

“उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकार-  
से उत्पन्न होता है” इस श्रुतिसे सिद्ध

होता है । अतः वह मायासे ही

उत्पन्न होता है । यहाँ ‘तु’ शब्द

निश्चयार्थक है । अर्थात् मायासे ही

[ उत्पन्न होता है ] । अग्निमें

शीतलता और उष्णताके समान जन्म

न लेना और अनेक प्रकारसे जन्म

लेना एक ही वस्तुमें सम्भव नहीं है ।

“उस अवस्थामें एकत्वना

साक्षात्कार करनेवाले पुरुषको क्या

मोह और क्या शोक हो सकता है ?”

इत्यादि श्रुतिके अनुसार फलबुद्धि

होनेके कारण तथा “[ जो नानात्व

देखता है ] यह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त

होता है” इस श्रुतिसे सृष्टि आदि

श्रुति कार्य और कारण दोनोंका प्रतिषेध करती है

संभूतेरपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते ।

को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥२५॥

श्रुतिमें सम्भूति ( हिरण्यगर्भ ) की निन्दाद्वारा कार्यकारणका प्रतिषेध  
किया गया है तथा ‘इसे कोन उत्पन्न करे’ इस वाक्यद्वारा कारणका  
प्रतिषेध किया गया है ॥ २५ ॥

“अन्धं तमः प्रविशन्ति ये  
संभूतिमुपासते” (ई० उ० १२ )  
इति संभूतेरुपास्यत्वापवादा-  
त्संभवः प्रतिपिध्यते । न हि  
परमार्थतः संभूतायां संभूतौ  
तदपवाद उपपद्यते ।

ननु विनाशेन संभूतेः  
समुच्चयविध्यर्थः संभूत्यपवादः ।  
यथा “अन्धं तमः प्रविशन्ति  
येऽविद्यामुपासते” (ई० उ० ९ )  
इति ।

सत्यमेव देवतादर्शनस्य संभूति-  
विषयस्य विनाश-  
प्रयोजनम् शब्दवाच्यस्य कर्मणः  
समुच्चयविधानार्थः  
संभूत्यपवादः । तथापि विनाश-  
रूपस्य कर्मणः स्वाभाविकाज्ञान-  
प्रवृत्तिरूपस्य मृत्योरतितरणार्थ-  
त्वदेवतादर्शनकर्मसमुच्चयस्य  
पुरुषसंस्कारार्थस्य कर्मफलराग-  
प्रवृत्तिरूपस्य साध्यसाधनैपणा-  
द्वयलक्षणस्य मृत्योरतितरणार्थ-  
त्वम् । एवं ह्येपणाद्वयरूपा-

“जो सम्भूति ( हिरण्यगर्भ ) की  
उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें  
प्रवेश करते हैं” इस प्रकार सम्भूति-  
के उपास्यत्वकी निन्दा की जानेके  
कारण कार्यवर्गका प्रतिषेध किया  
गया है । यदि सम्भूति परमार्थ-  
सत्स्वरूप होती तो उसकी निन्दा  
की जानी सम्भव नहीं थी ।

शङ्का—सम्भूतिके उपास्यत्वकी  
जो निन्दा की गयी है वह तो विनाश  
( कर्म ) के साथ सम्भूति ( देवतो-  
पासना ) का समुच्चयविधान करनेके  
लिये है; जैसा कि “जो अविद्याकी  
उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें  
प्रवेश करते हैं” इस वाक्यसे सिद्ध  
होता है ।

समाधान—सचमुच ही, सम्भूति-  
विषयक देवतादर्शन और ‘विनाश’  
शब्दवाच्य कर्मका समुच्चयविधान  
करनेके लिये ही सम्भूतिका अपवाद  
किया गया है; तथापि जिस प्रकार  
‘विनाश’ संज्ञक कर्म स्वाभाविक  
अज्ञानजनित प्रवृत्तिरूप मृत्युको  
पार करनेके लिये है उसी प्रकार  
पुरुषके संस्कारके लिये विहित देवता-  
दर्शन और कर्मका समुच्चय कर्म-  
फलके रागते होनेवाली प्रवृत्तिरूपा  
जो साध्य साधनलक्षणा दो प्रकारकी  
वासनामयी मृत्यु है, उसे पार करनेके

न्मृत्योरशुद्धेर्विपुक्तः पुरुषः  
संस्कृतः स्यादतो मृत्योरतित-  
रणार्था देवतादर्शनकर्मसमुच्चय-  
लक्षणा ह्यविद्या ।

एवमेव एणालक्षणाविद्याया

मृत्योरतितीर्णस्य

संभूत्यपवादे

विरक्तस्योपनिषच्छा-

हेतु

स्वार्थालोचनपरस्य

नान्तरीयकी परमात्मैकत्व-  
विद्योत्पत्तिरिति पूर्वभाविनीम-  
विद्यामपेक्ष्य पश्चाद्भाविनी ब्रह्म-  
विद्यामृतत्वसाधनैकेन पुरुषेण  
सम्बन्धमानाविद्यया समुच्चीयत  
इत्युच्यते । अतोऽन्यार्थत्वाद-  
मृतत्वसाधनं ब्रह्मविद्यामपेक्ष्य  
निन्दार्थ एव भवति संभूत्य-  
पवादः । यद्यप्यशुद्धिनियोगहेतुः  
अतन्निष्ठत्वात् । अत एव संभूतेः  
अपवादात्संभूतेरापेक्षिकमेव सत्त्व-  
मिति परमार्थसदात्मैकत्वमपेक्ष्य  
अमृताख्यः संभवः प्रतिपिच्यते ।

लिये हैं । इस प्रकार एणालक्षणा  
मृत्युकी अशुद्धिसे मुक्त हुआ पुरुष ही  
सत्कारसम्पन्न हो सकता है । अत  
देवतादर्शन और कर्मसमुच्चयलक्षणा  
अविद्या मृत्युसे पार होनेके लिये ही है ।

इसी प्रकार एणालक्षणा  
अविद्यारूप मृत्युसे पार हुए तथा  
उपनिषच्छास्त्रके अर्थकी आलोचनामें  
तत्पर विरक्त पुरुषको ब्रह्मात्मैकरूप  
विद्याकी उत्पत्ति दूर नहीं है,  
इसीलिये ऐसा कहा जाता है कि पहले  
होनेवाली अविद्याकी अपेक्षासे पीछे  
प्राप्त होनेवाली ब्रह्मविद्या, जो अमृतत्व-  
का साधन है, एक ही पुरुषसे सम्बन्ध  
रखनेके कारण अविद्यासे समुच्चित  
की जाती है । अतः अमृतत्वके  
साक्षात् साधन ब्रह्मविद्याकी अपेक्षा  
अन्य प्रयोजनवाला होनेसे सम्भूतिका  
अपवाद निन्दाहीके लिये किया  
गया है । वह यद्यपि अशुद्धिके क्षयका  
कारण है, तो भी अतन्निष्ठ (मोक्षका  
साक्षात् हेतु न) होनेके कारण  
[ उसकी निन्दा ही की गयी है ] ।  
इसलिये सम्भूतिका अपवाद किया  
जानेके कारण उसका सत्त्व आपेक्षिक  
ही है, इसी आशयसे परमार्थ सत्  
आत्मैकत्वकी अपेक्षासे अमृतसज्ञक  
सम्भूतिका प्रतिषेध किया गया है ।

एवं मायानिर्मितस्यैव  
 विधोत्पत्त्यनन्तरं जीवस्याविद्यया प्रत्यु-  
 जीवभावस्य पस्थापितस्याविद्या-  
 अनुपपत्ति- नाशे स्वभावरूप-  
 प्रतिपादनम् त्वात्परमार्थतः को  
 न्वेनं जनयेत् । न हि रज्ज्वाम-  
 विद्यारोपितं सर्पं पुनर्विवेकतो  
 नष्टं जनयेत्कश्चित् । तथा न  
 कश्चिदेनं जनयेदिति को न्वित्या-  
 क्षेपार्थत्वात्कारणं प्रतिपिच्यते ।  
 अविद्योद्भूतस्य नष्टस्य जनयेत्-  
 कारणं न किञ्चिदस्तीत्यभिप्रायः  
 “नार्यं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्”  
 ( क० उ० १ । २ । १८ ) इति  
 श्रुतेः ॥ २५ ॥

इस प्रकार अविद्याद्वारा खड़ा  
 किया गया मायारचित जीव जब  
 अविद्याका नाश होनेपर अपने  
 स्वरूपसे स्थित हो जाता है तब उसे  
 परमार्थतः कौन उत्पन्न कर सकता  
 है ? रज्जुमें अविद्यासे आरोपित सर्प-  
 को, विवेकसे नष्ट हो जानेपर, फिर  
 कोई उत्पन्न नहीं कर सकता । उसी  
 प्रकार इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर  
 सकता । ‘को न्वेनम्’ इत्यादि श्रुति  
 आक्षेपार्थक है [ प्रश्नार्थक नहीं ]  
 इसलिये इससे कारणका प्रतिषेध  
 किया जाता है । इसका तात्पर्य यह  
 है कि अविद्यासे उत्पन्न हुए इस  
 जीवका विद्याद्वारा नाश हो जानेपर  
 फिर इसे उत्पन्न करनेवाला कोई भी  
 कारण नहीं है, जैसा कि “यह  
 कहींसे ( किसी कारणसे ) किसी  
 रूपमें उत्पन्न नहीं हुआ” इत्यादि  
 श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ २५ ॥

अनात्म प्रतिषेधसे अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है

स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः ।

सर्वमग्राह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाशते ॥ २६ ॥

क्योंकि ‘स एष नेति नेति’ ( यह यह आत्मा यह नहीं है, यह  
 नहीं है ) इत्यादि श्रुति आत्माके कारण अग्राह्यत्वके कारण [ उसके विषयमें ]  
 पहले बतलाये हुए सभी भावोंका निषेध करती हैं; अतः इस [ निषेध-  
 रूप ] हेतुके द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है ॥ २६ ॥

सर्वविशेषप्रतिषेधेन "अथात आदेशो नेति नेति" ( वृ० उ० २।३।६ ) इति प्रतिपादितस्यात्मनो दुर्वोध्यत्वं मन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनरुपायान्तरत्वेन तस्यैव प्रतिपादयिषया यद्व्याख्यातं तत्सर्वं निह्नुते, ग्राह्यं जनिमद्बुद्धिविषयमपलपति । अर्थात् "स एष नेति नेति" ( वृ० उ० ३।९।२६ ) इत्यात्मनोऽदृश्यतां दर्शयन्ती श्रुतिः उपायस्योपेयनिष्ठतामजानत उपायत्वेन व्याख्यातस्योपेयसद्ग्राह्यता मा भूदित्यग्राह्यभावेन हेतुना कारणेन निह्नुत इत्यर्थः । ततश्चैवमुपायस्योपेयनिष्ठतामेव जानत उपेयस्य च नित्यैकरूपत्वमिति तस्य सवाह्याभ्यन्तरमजमात्मतत्त्वं प्रकाशते स्वयमेव ॥ २६ ॥

"अथात आदेशो नेति नेति" इस प्रकार समस्त विशेषणोंके प्रतिषेध-द्वारा प्रतिपादन किये हुए आत्माका दुर्वोध्यत्व माननेवाली श्रुति बारबार दूसरे उपायमे उसीका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे, पहले जो कुछ व्याख्या की है उस सभीका अपहरण ( असत्यता प्रतिपादन ) करती है । यह ग्राह्य—बुद्धिके अन्य विषयोंका अपलाप करती है । अर्थात् "स एष नेति नेति" इस प्रकार आत्माका अदृश्यता दिखानेवाली श्रुति, उपायकी उपेयनिष्ठताको न जाननेवाले लोगोंको उपायरूपसे वनव्यये हुए विषय उपेयके समान ग्राह्य न हो जायँ—इसलिये, अग्राह्यतारूप हेतुमे उनका निषेध करती है—यही उसका अभिप्राय है । तदनन्तर इस प्रकार उपायकी उपेयनिष्ठताको जाननेवाले और उपेयकी नित्यैकरूपताको भी समझनेवाले पुरुषोंको यह बाहर-भीतर विद्यमान अजन्मा आत्मतत्त्व स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है ॥२६॥

सद्वस्तुकी उत्पत्ति मायिक होती है

एवं हि श्रुतिवाक्यशतैः । इस प्रकार सैकड़ों श्रुतिवाक्योंमे सवाह्याभ्यन्तरमजमात्मतत्त्वमद्वयं । यही निश्चित होना है कि बाहर-

१. इस ( मूर्त्त और अमूर्त्तके उपन्यास ) के अनन्तर [ निश्चित आत्मा का बोध करानेके लिये ] यह नहीं है, यह नहीं है—ऐसा उपदेश है ।



न ततोऽन्यदस्तीति निश्चितमेतत् ।

युक्त्या च अधुनैतदेव पुन-

निर्धार्यत इत्याह—

भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मतत्त्व अद्वितीय है, उससे भिन्न और कुछ नहीं है । यही बात अब युक्तिसे फिर निश्चय की जाती है; इसीसे कहते हैं—

सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः ।

तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥ २७ ॥

सद्वस्तुका जन्म मायासे ही हो सकता है, वस्तुतः नहीं । जिसके मतमें वस्तुतः जन्म होता है उसके सिद्धान्तानुसार भी उत्पत्तिशील वस्तुका ही जन्म हो सकता है ॥ २७ ॥

तत्रैतत्स्यात्सदाग्राह्यमेव चेदस-

देवात्मतत्त्वमिति । तन्न, कार्य-

ग्रहणात् । यथा सतो मायाविनो

मायया जन्म कार्यम् । एवं

जगतो जन्म कार्यं गृह्यमाणं

मायाविनमिव परमार्थसन्तम्

आत्मानं जगज्जन्ममायास्पदम्

अवगमयति । यस्मात्सतो हि

विद्यमानात्कारणान्मायानिर्मि-

तस्य हस्त्यादिकार्यस्यैव जगज्जन्म

युज्यते नासतः कारणात् । न

तु तत्त्वत एवात्मनो जन्म युज्यते ।

उस आत्मतत्त्वके विषयमें यह शङ्का होती है कि यदि आत्मतत्त्व सर्वदा अग्राह्य ही है तो वह असत् होना चाहिये । परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसका कार्य देखा जाता है । जिस प्रकार सत्-स्वरूप मायाश्रीका मायासे जन्म लेना कार्य है उसी प्रकार यह दिखलायी देनेवाला जगत्का जन्मरूप कार्य जगज्जन्मरूप मायाके आश्रयभूत परमार्थ सत् मायाश्रीके समान आत्माका बोध कराता है, क्योंकि मायासे रचे हुए हाथी आदि कार्यके समान सत् अर्थात् विद्यमान कारणसे ही जगत्का जन्म होना सम्भव है, किसी अविद्यमान कारणसे नहीं । तथा तत्त्वतः तो आत्माका जन्म होना सम्भव है ही नहीं ।

अथ वा सतो विद्यमानस्य  
वस्तुनो रज्ज्वादेः सर्पादिवत्  
मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतो  
यथा तथाग्राह्यस्यापि सत् एवा-  
त्मनो रज्जुसर्पवज्रगद्रूपेण मायया  
जन्म युज्यते । न तु तत्त्वत  
एवाजस्यात्मनो जन्म ।

यस्य पुनः परमार्थसद्वजमात्म-  
तत्त्वं जगद्रूपेण जायते वादिनो  
नहि तस्याजं जायत इति शक्यं  
वक्तुं विरोधात् । ततस्तस्या-  
र्थाज्ञातं जायत इत्यापन्नं  
ततश्चानवस्था जाताजायमान-  
त्वेन । तस्मादजमेकमेवात्म-  
तत्त्वमिति सिद्धम् ॥ २७ ॥

अथवा [ यों समझो कि ] जिस  
प्रकार रज्जु आदिसे सर्पादिके समान  
सत् अर्थात् विद्यमान वस्तुका जन्म  
मायासे ही हो सकता है, तत्त्वत,  
नहीं, उसी प्रकार अग्राह्य होनेपर  
भी सत्त्वरूप आत्माका, रज्जुसे  
सर्पके समान, जगत् रूपसे जन्म  
होना मायासे ही सम्भव है—उम  
अजन्मा आत्माका तत्त्वत जन्म  
नहीं हो सकता ।

किन्तु जिस वादीके मनमें  
परमार्थ सत् आत्मतत्त्व ही जगत्-  
रूपसे उत्पन्न होता है उसके  
सिद्धान्तानुसार यह नहीं कहा जा  
सकता कि अजन्मा वस्तुका ही जन्म  
होता है, क्योंकि इससे शिरो-  
उपस्थित होता है । अतः यह स्वतः  
सिद्ध हो जाता है कि उसके  
मतानुसार किसी जन्मशीलका ही  
जन्म होना है । किन्तु इस प्रकार  
जन्मशीलमे ही जन्म माननेपर  
अनवस्था उपस्थित हो जाती है,  
अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्मतत्त्व  
अजन्मा और एक ही है ॥ २७ ॥



असद्वस्तुकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है

असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते ।

बन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥ २८ ॥

असद्वस्तुका जन्म तो मायासे अथवा तत्त्वतः किसी प्रकार भी होना सम्भव नहीं है। बन्ध्याका पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न होता है और न मायासे ही ॥ २८ ॥

असद्वादिनामसतो भावस्य  
मायया तत्त्वतो वा न कथंचन  
जन्म युज्यते, अदृष्टत्वात् । न  
हि बन्ध्यापुत्रो मायया तत्त्वतो  
वा जायते तस्मादत्रासद्वादो दूरत  
एवानुपपन्न इत्यर्थः ॥ २८ ॥

असद्वादिकोंके पक्षमें भी, असत्  
वस्तुका जन्म मायासे अथवा वस्तुतः  
किसी प्रकार होना सम्भव नहीं,  
क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता।  
बन्ध्याका पुत्र न तो मायासे उत्पन्न  
होता है और न वस्तुतः ही। अतः  
तात्पर्य यह हुआ कि असद्वाद तो  
सर्वथा ही अयुक्त है ॥ २८ ॥

कथं पुनः सतो माययैव  
जन्मेत्युच्यते—

सत् वस्तुका जन्म मायासे ही कैसे  
हो सकता है—इसपर कहते हैं—

यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः ।

तथा जाग्रद्द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः ॥ २९ ॥

जिस प्रकार स्वप्नकालमें मन मायासे ही द्वैताभासरूपसे स्फुरित होता है उसी प्रकार जाग्रत्कालमें भी वह मायासे ही द्वैताभासरूपसे स्फुरित होता है ॥ २९ ॥

यथा रज्ज्वां विकल्पितः  
सर्पो रज्जुरूपेणावेक्ष्यमाणः सन्नेवं  
मनः परमार्थविज्ञप्त्यात्मरूपेणा-  
वेक्ष्यमाणं सद् ग्राह्यग्राहकरूपेण  
द्वयाभासं स्पन्दते स्वप्ने मायया,

जिस प्रकार रज्जुमें कल्पना  
किया हुआ सर्प रज्जुरूपसे देखे  
जानेपर सत् है उसी प्रकार मन  
भी परमार्थज्ञानरूप आत्मस्वरूपसे  
देखा जानेपर सत् है। यह  
रज्जुमें सर्पके समान स्वप्नावस्था-  
में मायासे ही ग्राह्य-ग्राहकरूप  
द्वैतके आभासरूपसे स्फुरित होता  
है। इसी प्रकार यह मन ही जाग्रत्-

रज्ज्वामिव सर्पः । तथा तद्वदेव | अवस्थामें भी मायासे [ त्रिविध रूपों-  
जाग्रज्जागरिते स्पन्दते मायया | में ] स्फुरित होता है, अर्थात् स्फुरित  
मनः स्पन्दत इवेत्यर्थः ॥ २९ ॥ | होता-सा मादृम होता है [ वास्तवमें  
स्फुरित भी नहीं होता ] ॥ २९ ॥

स्वप्न और जागृति मनके ही विलास हैं

अद्वयं च द्वयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः ।

अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ३० ॥

इसमें सन्देह नहीं स्वप्नस्थामें अद्वय मन ही द्वैतरूपसे भासनेवाला है, इसी प्रकार जाग्रत्कालमें भी नि सन्देह अद्वय मन ही द्वैतरूपसे भासता है ॥ ३० ॥

रज्जुरूपेण सर्प इव परमार्थत | रज्जुरूपसे सत् सर्पके समान  
आत्मरूपेणाद्वयं सद्द्वयाभासं | परमार्थत अद्वय आत्मरूपसे सत्  
मनः स्वप्ने न संशयः । न हि | मन ही स्वप्नमें द्वैतरूपसे भासनेवाला  
स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्यं तदग्राहकं | है—इसमें सन्देह नहीं । स्वप्नमें  
वा चक्षुरादिद्वयं विज्ञानव्यक्ति- | हाथी आदि ग्राह्य पदार्थ और उन्हें  
रेकेणास्ति । जाग्रदपि तथैवेत्यर्थः । | ग्रहण करनेवाला चक्षु आदि दोनों  
परमार्थसद्विज्ञानमात्राविशेषात् ३० | ही विज्ञानके सिवा और कुछ नहीं  
हैं, ऐसा ही जाग्रत्में भी है—यह  
इसका तात्पर्य है, क्योंकि दोनों ही  
अवस्थाओंमें परमार्थ सत् विज्ञान ही  
समानरूपसे विद्यमान है ॥ ३० ॥

रज्जुसर्पद्विकल्पनारूपं द्वैत- | रज्जुमें सर्पके समान विकल्पनारूप  
रूपेण मन एवेत्युक्तम् । तत्र | यह मन ही द्वैतरूपसे स्थित है—  
ऐसा पहले कहा गया । इसमें

किं प्रमाणमित्यन्वयव्यतिरेक-प्रमाण क्या है ? इसके लिये अन्वय-  
व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण कहा  
लक्षणमनुमानमाह । कथम्— जाता है; सो किस प्रकार—

मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित् सचराचरम् ।

मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ॥ ३१ ॥

यह जो कुछ चराचर द्वैत है सत्र मनका दृश्य है, क्योंकि मनका  
अमनीभाव ( संकल्पशून्यत्व ) हो जानेपर द्वैतकी उपलब्धि नहीं  
होती ॥ ३१ ॥

<p>तेन हि मनसा विकल्प्यमानेन दृश्यं मनोदृश्यमिदं द्वैतं सर्वं मन इति प्रतिज्ञा । तद्भावे भावात्तद्भावेऽभावात् । मनसो ह्यमनीभावे निरोधे विवेक- दर्शनाध्यासवैराग्याभ्यां रज्ज्वा- सिव सर्पे लयं गते वा सुपुप्ते द्वैतं नैवोपलभ्यत इत्यभावात्सिद्धं द्वैतस्यासत्त्वमित्यर्थः ॥ ३१ ॥</p>	<p>उस विकल्पित होनेवाले मनद्वारा दिखायी देने योग्य यह सम्पूर्ण द्वैत मन ही है—यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि उसके वर्तमान रहनेपर यह भी वर्तमान रहता है तथा उसका अभाव हो जानेपर इसका भी अभाव हो जाता है । मनका अमनीभाव— निरोध अर्थात् विवेकदृष्टिके अभ्यास और वैराग्यद्वारा रज्जुमें सर्पके समान लय हो जानेपर, अथवा सुषुप्ति-अवस्थामें द्वैतकी उपलब्धि नहीं होती । इस प्रकार अभाव हो जानेके कारण द्वैतकी असत्ता सिद्ध ही है—यह इसका तात्पर्य है ॥ ३१ ॥</p>
--	---

तत्त्वबोधसे अमनीभाव

कथं पुनरमनीभावः ? इति | किन्तु यह अमनीभाव होता  
किस प्रकार है । इस विषयमें कहा  
उच्यते— जाता है—

आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा ।

अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम् ॥३२॥

जिस समय आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेपर मन सकल्प नहीं करता उस समय वह अमनीभावको प्राप्त हो जाता है, उस अवस्थामें ग्राह्यका अभाव हो जानेके कारण वह ग्रहण करनेके विकल्पसे रहित हो जाता है ॥ ३२ ॥

आत्मैव सत्यमात्मसत्यं मृत्ति-  
कायत् “वाचारम्भणं विकारो  
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्”  
( छा० उ० ६ । १ । ४ ) इति  
श्रुतेः तस्य शास्त्राचार्योपदेश-  
मन्ववबोधः आत्मसत्यानुबोधः ।  
तेन सङ्कल्प्याभावतया न  
सङ्कल्पयते, दाह्याभावे ज्वलन-  
मित्राग्नेः, यदा यसिन्काले तदा  
तसिन्कालेऽमनस्ताममनोभावं  
याति, ग्राह्याभावे तन्मनोऽग्रहं  
ग्रहणविकल्पनावर्जितमित्यर्थः ३२

“[ वद्यदि ] वाणीसे आरम्भ होने  
वाला विकार नाममात्र है, मृत्तिका  
ही सत्य है” इस श्रुतिके अनुसार  
मृत्तिकाके समान आत्मा ही सत्य  
है । उस आत्म सत्यका शास्त्र और  
आचार्यके उपदेशके अनन्तर बोध  
होना आत्मसत्यानुबोध है । उसके  
कारण सङ्कल्पयोग्य वस्तुका अभाव  
हो जानेसे, दाह्य वस्तुका अभाव  
हो जानेपर अग्निके दाहकत्वके  
अभावके समान, जिस समय चित्त  
सङ्कल्प नहीं करता उस समय वह  
अमनस्कता अर्थात् अमनीभावको  
प्राप्त हो जाता है । ग्राह्य वस्तुका  
अभाव हो जानेसे वह मन अग्रह  
अर्थात् ग्रहण-विकल्पनासे रहित  
हो जाता है ॥ ३२ ॥

आत्मज्ञान किसे होता है ?

यद्यसदिदं द्वैतं केन स्वमज-  
मात्मतत्त्वं विबुध्यते ? इति  
उच्यते—

यदि यह सम्पूर्ण द्वैत असत्य है  
तो प्रकृत सत्य आत्मतत्त्वका ज्ञान  
किसे होता है ? इसपर कहते हैं—

अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते ।

ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यमजेनाजं विबुध्यते ॥ ३३ ॥

उस सर्वकल्पनागून्य अजन्मा ज्ञानको विवेकी लोग ज्ञेय ब्रह्मसे अभिन्न बतलाते हैं । ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है । उस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आत्मतत्त्व स्वयं ही जाना जाता है ॥ ३३ ॥

अकल्पकं सर्वकल्पनावर्जित-  
मत एवाजं ज्ञानं ज्ञप्तिमात्रं  
ज्ञेयेन परमार्थसत्ता ब्रह्मणाभिन्नं  
प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः ।  
न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो  
विद्यतेऽग्न्युष्णवत् “विज्ञानमा-  
नन्दं ब्रह्म” ( वृ० उ० ३ । ९ ।  
२८ ) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”  
( तै० उ० २ । १ ) इत्यादि-  
श्रुतिभ्यः ।

तस्यैव विशेषणं ब्रह्म ज्ञेयं  
यस्य स्वस्य तदिदं ब्रह्मज्ञेय-  
भौण्यस्येवाग्निवदभिन्नम् । तेना-  
त्मस्वरूपेणाजेन ज्ञानेनाजं ज्ञेय-  
मात्मतत्त्वं स्वयमेव विबुध्यते-  
ऽवगच्छति । नित्यप्रकाशस्वरूप  
इव सविता नित्यविज्ञानैकरस-  
घनत्वान्न ज्ञानान्तरमपेक्षत  
इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

अकल्पक—सम्पूर्ण कल्पनाओंसे  
रहित अतएव अजन्मा अर्थात्  
ज्ञप्तिमात्र ज्ञानको ब्रह्मवेत्ता लोग  
ज्ञेय यानी परमार्थसत्त्वरूप ब्रह्मसे  
अभिन्न बतलाते हैं । अग्नि की उष्णता-  
के समान विज्ञाताके ज्ञानका कभी  
लोप नहीं होता । “ब्रह्म विज्ञान  
और आनन्दस्वरूप है” “ब्रह्म सत्य,  
ज्ञान और अनन्त है” इत्यादि  
श्रुतियोंसे यही बात प्रमाणित  
होती है ।

उस ( ज्ञान ) के ही विशेषण  
बतलाते हैं—“ब्रह्मज्ञेयम्” अर्थात्  
ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वह ज्ञान अग्नि-  
से उष्णताके समान ब्रह्मसे अभिन्न  
है । उस आत्मस्वरूप अजन्मा  
ज्ञानसे अजन्मा ज्ञेयरूप आत्मतत्त्व  
स्वयं ही जाना जाता है । तात्पर्य  
यह है कि नित्यप्रकाशस्वरूप सूर्यके  
समान नित्यविज्ञानैकरसघनरूप  
होनेके कारण वह किसी अन्य  
ज्ञानकी अपेक्षा नहीं करता ॥ ३३ ॥

## शान्तगुप्तिका स्वरूप

आत्मसत्यानुबोधेन सङ्कल्पम-  
कुर्वद्ब्राह्मविषयाभावे निरिन्व-  
नाग्रियत्प्रशान्तं निगृहीतं निरुद्ध  
मनो भवतीत्युक्तम् । एवं च  
मनसो ह्यमनीभावे द्वैता-  
भावश्चोक्तः । तस्यैवम्—

आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेसे  
सकल्प न करता हुआ चित्त, ब्राह्म-  
विषयका अभाव हो जानेसे, इन्धन-  
रहित अग्निके समान शान्त होकर  
निगृहीत अर्थात् निरुद्ध हो जाता  
है—ऐसा कहा गया । इस प्रकार  
मनका अमनीभाव हो जानेपर द्वैत-  
का भी अभाव बनलया गया । उस  
इस प्रकार—

निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः ।

प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः ॥ ३४ ॥

निगृहीत, निर्विकल्प और विवेकसम्पन्न चित्तका जो व्यापार है वह विशेषरूपसे ज्ञातव्य है । सुषुप्ति-अवस्थामें जो चित्तकी वृत्ति है वह अन्य प्रकारकी है, वह उस ( निरुद्धावस्था ) के समान नहीं है ॥ ३४ ॥

निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनसो  
निर्विकल्पस्य सर्वकल्पनावर्जित-  
स्य धीमतो विवेकवतः प्रचारो  
यः स तु प्रचारो विशेषेण ज्ञेयो  
योगिमिः ।

निगृहीत—रोके हुए, निर्विकल्प-  
सब प्रकारकी कल्पनाओंसे रहित  
और धीमान्—विवेकसम्पन्न चित्तका  
जो प्रचार-व्यापार है, योगियोंको  
उसका वह व्यापार विशेषरूपसे  
जानना चाहिये ।

ननु सर्वप्रत्ययाभावे यादृशः

सुषुप्तस्य मनसः प्रचारस्तादृश

शङ्का—सब प्रकारकी प्रतीतियों-  
का अभाव हो जानेपर जैसा व्यापार  
सुषुप्तिस्थ चित्तका होना है वैसा ही  
निरुद्धका भी होगा, क्योंकि प्रतीति-  
का अभाव दोनों ही अवस्थाओंमें



एव निरुद्धस्यापि प्रत्ययाभावा-  
विशेषात्किं तत्र विज्ञेयमिति ।

अत्रोच्यते—नैवम्; यस्मात्

सुषुप्तेऽन्यः प्रचारोऽविद्यामोह-

तमोग्रस्तस्यान्तर्लीनानेकानर्थ-

प्रवृत्तिबीजवासनावतो मनस

आत्मसत्यानुबोधहुताश्विप्लुष्टा-

विद्यानर्थप्रवृत्तिबीजस्य निरुद्ध-

स्यान्य एव प्रशान्तसर्वक्लेशरजसः

स्वतन्त्रः प्रचारः । अतो न

तत्समः । तस्माद्युक्तः स विज्ञातु-

मित्यभिप्रायः ॥ ३४ ॥

समान है । उसमें विशेषरूपसे  
जाननेयोग्य कौन-सी बात है ?

समाधान—इस विषयमें हमारा  
कहना है कि ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि सुषुप्तिमें अविद्या-मोहरूप  
अन्धकारसे ग्रस्त हुए तथा जिसके  
भीतर अनेकों अनर्थ-प्रवृत्तिकी बीज-  
भूत वासनाएँ लीन हैं उस मनका  
व्यापार दूसरे प्रकारका है और  
आत्मसत्यके बोधरूप अग्निसे जिसकी  
अविद्यारूपी अनर्थ-प्रवृत्तिका बीज  
दग्ध हो गया है तथा जिसके सब  
प्रकारके क्लेशरूप दोष शान्त हो  
गये हैं उस निरुद्ध चित्तका स्वतन्त्र  
प्रचार दूसरे ही प्रकारका है । अतः  
वह उसके समान नहीं है । इसलिये  
तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान  
अवश्य प्राप्त करना चाहिये ॥ ३४ ॥

सुषुप्ति और समाधिका भेद

प्रचारभेदे हेतुमाह—

उन दोनोंके प्रचारभेदमें हेतु  
बतलाते हैं—

लीयते हि सुषुप्ते तन्निगृहीतं न लीयते ।

तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥ ३५ ॥

सुषुप्ति-अवस्थामें मन [ अविद्यामें ] लीन हो जाता है, किन्तु  
निरुद्ध होनेपर वह उसमें लीन नहीं होता । उस समय तो सब ओरसे  
चित्तप्रकाशमय निर्भय ब्रह्म ही रहता है ॥ ३५ ॥

लीयते सुपुत्राँ हि यस्मात्सर्वा-  
भिरधिद्यादिप्रत्ययबीजवासनाभिः  
सह तमोरूपमविशेषरूपं बीज-  
भावमापद्यते तद्विवेकविज्ञानपूर्वकं  
निरुद्धं निगृहीतं सन्न लीयते  
तमोबीजभावं नापद्यते । तस्माद्युक्तः  
प्रचारभेदः सुपुत्रस्य समाहितस्य  
मनसः ।

यदा ग्राह्यग्राहकाधिद्याकृत-  
मलद्वयवर्जितं तदा परमद्वय  
ब्रह्मैव तत्संवृत्तमित्यतन्तदेव  
निर्मयं द्वैतग्रहणस्य भयनिमित्तस्या-  
भावात् । शान्तममयं ब्रह्म,  
यद्विद्वान्न विभेति कुतश्चन ।

तदेव विशेष्यते ज्ञप्तिज्ञान-  
मात्मस्वभावचैतन्यं तदेव ज्ञान-  
मालोकः प्रकाशो यस्य तद्ब्रह्म  
ज्ञानालोकं विज्ञानैकरसधनमि-  
त्यर्थः । समन्ततः समन्तात्सर्वतो  
व्योमवन्नैरन्तर्येण व्यापक-  
मित्यर्थः ॥ ३५ ॥

क्योंकि सुपुत्रिमें मन अधिद्यादि  
सम्पूर्ण प्रतीतियोंकी बीजभूता  
वासनाओंके सहित तम.स्वभाव  
अविशेषरूप बीजभावको प्राप्त हो  
जाता है और उसके विवेक ज्ञान-  
पूर्वक निरुद्ध किया जानेपर लीन नहीं  
होता, अर्थात् अज्ञानरूप बीजभावको  
प्राप्त नहीं होता । अतः सुपुत्र और  
समाहित चित्तका प्रचारभेद ठीक  
ही है ।

जिस समय चित्त ग्राह्य-ग्राहकरूप  
अधिद्यासे होनेवाले दोनों प्रकारके  
मलोंसे रहित हो जाता है उस  
समय वह परम अद्वितीय ब्रह्मरूप  
ही हो जाता है । अतः द्वैतग्रहणरूप  
भयके कारणका अभाव हो जानेसे  
[ उस अवस्थामें ] वही निर्मय होता  
है । ब्रह्म शान्त और अभयपद हैं,  
जिसे जान लेनेपर पुरुष किसीसे  
नहीं डरता ।

उसीका विशेषण बतल रहे हैं  
—ज्ञानका अर्थ ज्ञप्ति अर्थात् आत्म-  
स्वरूप चैतन्य है, वह ज्ञान ही  
जिसका आलोक यानी प्रकाश है  
वह ब्रह्म ज्ञानालोक अर्थात् विज्ञानैक-  
रसरूप है । समन्तत —सब ओर  
अर्थात् आकाशके समान निरन्तरता-  
से सब ओर व्यापक है ॥ ३५ ॥

## ब्रह्मका स्वरूप

अजमनिद्रमस्वप्नमनामकरूपकम् ।

सकृद्विभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथंचन ॥ ३६ ॥

वह ब्रह्म जन्मरहित, [ अज्ञानरूप ] निद्रारहित, स्वप्नशून्य, नामरूपसे रहित, नित्य प्रकाशस्वरूप और सर्वज्ञ है; उसमें किसी प्रकारका कर्त्तव्य नहीं है ॥ ३६ ॥

जन्मनिमित्ताभावात्सवाह्या-

भ्यन्तरमजम् । अविद्यानिमित्तं

हि जन्म रज्जुसर्पवदित्यवोचाम ।

सा चाविद्यात्मसत्यानुबोधेन

निरुद्धा यतोऽजमत एवानिद्रम् ।

अविद्यालक्षणानादिर्माया निद्रा ।

स्वापात्प्रबुद्धोऽद्वयस्वरूपेणात्मनातः

अस्वप्नम् । अप्रबोधकृते ह्यस्य

नामरूपे । प्रबोधाच्च ते रज्जुसर्प-

वद्विनष्टे इति न नाम्नाभिधीयते

ब्रह्म रूप्यते वा न केनचित्प्रका-

रणेत्यनामकरूपकं च तत् ।

“यतो वाचो निवर्तन्ते” ( तै०

उ० २ । ४ । १ ) इत्यादिश्रुतेः ।

किं च सकृद्विभातं सदैव

विभातं सदा भारूपमग्रहणान्यथा-

जन्मके कारणका अभाव होनेसे

ब्रह्म वाह्याभ्यन्तरवर्ती और अजन्मा

है । रज्जुमें सर्पके समान जीवका जन्म

अविद्याके कारण है—ऐसा हम पहले

कह चुके हैं; क्योंकि आत्मसत्यका

अनुभव होनेसे उस अविद्याका निरोध

हो गया है; इसलिये ब्रह्म अजन्मा

है और इसीसे अनिद्र भी है ! यहाँ

अविद्यारूप अनादिमाया ही निद्रा है ।

अपने अद्वयस्वरूपसे वह स्वप्नसे जगा

हुआ है; इसलिये अस्वप्न है । उसके

नामरूप भी अज्ञानके ही कारण हैं ।

ज्ञान होनेपर वे रज्जुमें प्रतीत होने-

वाले सर्पके समान नष्ट हो जाते

हैं । अतः ब्रह्म किसी नामद्वारा कथन

नहीं किया जाता और न किसी

प्रकार उसका रूप ही बतलाया जाता

है, इसीलिये वह अनाम और अरूप है;

जैसा कि “जहाँसे चाणी लौट आती

है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है ।

यही नहीं, वह अग्रहण, अन्यथा-

ग्रहण तथा आविर्भाव-निरोभावसे

ग्रहणाविर्भावतिरोभाववर्जित-  
त्वात् । ग्रहणाग्रहणे हि रात्र्यहनी  
तमश्चाविद्यालक्षणं सदाग्रभात्वै-  
कारणम् । तदभावान्नित्यचैतन्य-  
मारूपत्वाच्च युक्तं सकृद्विमात-  
मिति । अत एव सर्वं च  
तज्जस्वरूपं चेति सर्वज्ञम् । नेह  
ब्रह्मण्येवंविध उपचरणमुपचारः  
कर्तव्यः । यथान्येषामात्मस्वरूप-  
व्यतिरेकेण समाधानाद्युपचारः ।  
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वा-  
द्ब्रह्मणः कथंचन न कथंचिदपि  
कर्तव्यसंभवोऽविद्यानाश इत्यर्थः  
॥ ३६ ॥

रहित होनेके कारण सकृद्विमात-  
सदा ही भासनेवाला अर्थात् नित्य-  
प्रकाशस्वरूप है । ग्रहण और  
अग्रहण ही रात्रि और दिन हैं तथा  
अविद्यारूप अन्धकार ही सर्वदा  
ब्रह्मके प्रकाशित न होनेमें कारण  
है । उसका अभाव होनेसे और  
नित्य चैतन्यस्वरूप होनेसे ब्रह्मका  
नित्यप्रकाशस्वरूप होना ठीक ही है ।  
अतः सर्व और ज्ञतिरूप होनेसे वह  
सर्वज्ञ है । इस प्रकारके ब्रह्ममें कोई  
उपचार यानी कर्तव्य नहीं है, जिस  
प्रकार कि दूसरोंको आत्मस्वरूपसे  
भिन्न समाधि आदि कर्तव्य हैं ।  
तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नित्य-शुद्ध-  
बुद्ध मुक्तस्वभाव है, इसलिये अविद्या-  
का नाश हो जानेपर विद्वान्को  
कुछ भी कर्तव्य रहना सम्भव नहीं  
है ॥ ३६ ॥



अनामकत्वाद्युक्तार्थमिद्वये  
हेतुमाह—

अनामकत्वं आदि उपर्युक्त अर्थ-  
की सिद्धिके लिये कारण बतलाते हैं—

सर्वाभिलाषविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः ।

सुप्रशान्तः सकृज्ज्योतिः समाधिरचलोऽभयः ॥ ३७ ॥

वह सब प्रकारके वाग्व्यापारसे रहित, सब प्रकारके चिन्तन  
( अन्तःकरणके व्यापार ) में ऊपर, अत्यन्त शान्त, नित्यप्रकाश, समाधि-  
स्वरूप, अचल और निर्भय है ॥ ३७ ॥

अभिलप्यतेऽनेनेत्यभिलापो  
वाकरणं सर्वप्रकारस्याभिधानस्य,  
तस्माद्विगतः । वागत्रोपलक्षणार्था  
सर्ववाह्यकरणवर्जित इत्येतत् ।

तथा सर्वचिन्तासमुत्थितः ।  
चिन्त्यतेऽनयेति चिन्ता बुद्धि-  
स्तस्याः समुत्थितोऽन्तःकरण-  
वर्जित इत्यर्थः “अप्राणो ह्यमनाः  
शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः” ( मु०  
उ० २ । १ । २ ) इत्यादिश्रुतेः ।

यस्मात्सर्वविषयवर्जितोऽतः  
सुप्रशान्तः, सकृज्ज्योतिः सदैव  
ज्योतिरात्मचैतन्यस्वरूपेण,  
समाधिः समाधिनिमित्तप्रज्ञाव-  
गम्यत्वात्, समाधीयतेऽस्मिन्निति  
वा समाधिः, अचलोऽविक्रियः,  
अत एवाभयो विक्रियाभावात् ३७

जिसके द्वारा शब्दोच्चारण किया  
जाता है वह ‘अभिलाप’ अर्थात्  
‘वाक्’ है, जो सब प्रकारके शब्दो-  
च्चारणका साधन है, उससे रहित ।  
यहाँ शक्तिन्द्रिय उपलक्षणके लिये है,  
अतः तात्पर्य यह है कि वह सब  
प्रकारकी वाह्य इन्द्रियोंसे रहित है ।

तथा सब प्रकारकी चिन्तासे  
उठा हुआ है । जिससे चिन्तन  
किया जाता है वह बुद्धि ही चिन्ता  
है, उससे उठा हुआ है अर्थात्  
अन्तःकरणसे रहित है; जैसा कि  
“प्राणरहित, मनोरहित और शुद्ध  
है तथा पर अक्षरसे भी पर है”  
इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है ।

क्योंकि वह सम्पूर्ण विषयोंसे रहित  
है इसलिये अत्यन्त शान्त है,  
सकृज्ज्योति अर्थात् आत्मचैतन्यरूप-  
से सदा ही प्रकाशस्वरूप है, समाधिके  
कारणसे होनेवाली प्रज्ञासे उपलब्ध  
होनेके कारण समाधि है, अथवा  
इसमें चित्त समाहित किया जाता  
है इसलिये इसे समाधि कहते हैं,  
अचल अर्थात् अविकारी है और  
इसीसे विकारका अभाव होनेके कारण  
ही अभय है ॥ ३७ ॥

यस्माद्ब्रह्मैव समाधिरचलोऽभय

क्योंकि ब्रह्म ही 'समाधिसवरूप,  
अचल और अभय है' ऐसा कहा  
गया है, इसलिये—

इत्युक्तमतः—

ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश्चिन्ता यत्र न विद्यते ।

आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम् ॥ ३८ ॥

जिस ( ब्रह्मपद ) में किसी प्रकारका चिन्तन नहीं है उसमें किसी तरहका ग्रहण और त्याग भी नहीं है । उस अवस्थामें आत्मनिष्ठ ज्ञान जन्मरहित और समताको प्राप्त हुआ रहता है ॥ ३८ ॥

न तत्र तस्मिन्ब्रह्मणि ग्रहो  
ग्रहणमुपादानम्, नोत्सर्ग उत्सर्जनं  
हानं वा विद्यते । यत्र हि  
विक्रिया तद्विषयत्व वा तत्र  
हानोपादाने स्यातां न तद्द्वयमिह  
ब्रह्मणि संभवति । विकारहेतोर-  
न्यस्याभावान्निखयवत्त्वाच्च ।  
अतो न तत्र हानोपादाने इत्यर्थः ।  
चिन्ता यत्र न विद्यते । सर्व-  
प्रकारैश्च चिन्ता न संभवति  
यत्रामनस्त्वात्कुतस्तत्र हानो-  
पादाने इत्यर्थः ।

वहाँ—उस ब्रह्ममें न तो ग्रह-  
ग्रहण यानी उपादान है और न  
उत्सर्ग—उत्सर्जन अर्थात् त्याग ही  
है । जहाँ विकार अथवा विकारकी  
विषयता ( निकृष्ट होनेकी योग्यता )  
होती है वहाँ ग्रहण और त्याग भी  
रहते हैं, किन्तु यहाँ ब्रह्ममें उन  
दोनोंहीसे सम्भावना नहीं है,  
क्योंकि उसमें विकारका हेतुमूल कोई  
अन्य पदार्थ है नहीं और वह स्वयं  
निरवयव है । इसलिये तात्पर्य यह है कि  
उसमें ग्रहण और त्याग भी सम्भव  
नहीं हैं । जहाँ चिन्ता नहीं है अर्थात्  
मनोरहित होनेके कारण जिसमें  
किसी प्रकारकी चिन्ता सम्भव नहीं  
है वहाँ त्याग और ग्रहण कैसे रह  
सकते हैं ?

यदैवात्मसत्यानुबोधो जात-  
स्तदैवात्मसंस्थं विषयामाना-

जिस समय भी आत्मसत्यका बोध  
होता है उसी समय आत्मसंस्थ

दग्न्युष्णवदात्मन्येव स्थितं  
ज्ञानम्, अजाति जातिवर्जितम्,  
समतां गतं परं साम्यमापन्नं  
भवति ।

यदादौ प्रतिज्ञातमतो वक्ष्या-  
म्यकार्पण्यमजाति समतां  
गतमितीदं तदुपपत्तितः शास्त्र-  
तथोक्तमुपसंहियते, अजाति  
समतां गतमिति । एतस्मादात्मस-  
त्यानुबोधोत्कार्पण्यविषयमन्यत्  
“यो वा एतदक्षरं गार्ग्यवि-  
दित्वास्माल्लोकात्प्रैति स कृपणः”  
( वृ० उ० ३ । ८ । १० ) इति  
श्रुतेः । प्राप्यैतत्सर्वः कृतकृत्यो  
ब्राह्मणो भवतीत्यभिप्रायः ॥३८॥

अर्थात् विषयका अभाव होनेके  
कारण अग्निकी उष्णताके समान  
आत्मामें ही स्थित ज्ञान अजाति—  
जन्मरहित और समताको प्राप्त  
हो जाता है ।

पहले ( इस प्रकरणके दूसरे  
श्लोकमें ) जो प्रतिज्ञा की थी कि  
‘इसलिये मैं समान भावको प्राप्त,  
अजन्मा अकृपणताका वर्णन करूँगा’  
उस पूर्वकथनका ही यहाँ ‘अजाति  
समतां गतम्’ ऐसा कहकर युक्ति  
और शास्त्रद्वारा उपसंहार किया  
गया है । “हे गार्गि ! जो पुरुष इस  
अक्षर ब्रह्मको धिना जाने ही इस  
लोकासे चला जाता है वह कृपण  
है” इस श्रुतिके अनुसार कृपणताका  
विषय तो इस आत्मसत्यके बोधसे  
भिन्न ही है । तात्पर्य यह है कि  
इस तत्त्वको प्राप्त कर लेनेपर तो हर  
कोई कृतकृत्य ब्राह्मण ( ब्रह्मनिष्ठ ) हो  
जाता है ॥ ३८ ॥

अस्पर्शयोगकी दुर्गमता

यद्यपीदमित्थं परमार्थतत्त्वम् | यद्यपि यह परमार्थ तत्त्व ऐसा है  
तथापि—

अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः ।

योगिनो विभ्यति ह्यस्माद्भये भयदर्शिनः ॥ ३९ ॥

[ सत्र प्रकारके स्पर्शसे रहित ] यह अस्पर्शयोग निश्चय ही योगियोंके लिये कठिनतासे दिखायी देनेवाला है । इस अभय पदमें भय देखनेवाले योगीलोग इससे भय मानते हैं ॥ ३९ ॥

अस्पर्शयोगो नामायं सर्व-  
संबन्धाख्यस्पर्शवर्जितत्वादस्पर्श-  
योगो नाम वै स्पर्शते प्रमिद्ध-  
मुपनिषत्सु । दुःखेन दृश्यत इति  
दुर्दर्शः सर्वैर्योगिभिः वेदान्त-  
विहितविज्ञानरहितैः सर्वयोगि-  
भिः । आत्मसत्यानुबोधायासलभ्य  
एवेत्यर्थः ।

योगिनो विभ्यति ह्यस्मात्सर्व-  
भयवर्जितादप्यात्मनाशरूपमिमं  
योगं मन्यमाना भयं कुर्वन्ति  
अभयेऽस्मिन्मयदर्शिनो भय-  
निमित्तात्मनाशदर्शनशीला  
अविवेकिन इत्यर्थः ॥ ३९ ॥

यह अस्पर्शयोग नामवाला है  
अर्थात् सर्वसम्बन्धरूप स्पर्शसे  
रहित होनेके कारण यह उपनिषदोंमें  
स्पर्शयोग नामसे प्रसिद्ध होकर  
स्मरण किया गया है । यह वेदान्त-  
विज्ञानमें रहित सभी योगियोंको  
कठिनतासे दिखायी देता है, इसलिये  
उनके लिये दुर्दर्श है । तात्पर्य यह  
है कि यह एकमात्र आत्ममन्यके  
अनुभव और [ श्रवण मनन एव  
प्राणायामादि ] आयासोंके द्वारा ही  
प्राप्त होने योग्य है ।

क्योंकि सम्पूर्ण भयसे रहित  
होनेपर भी इस योगको आत्मनाश-  
रूप माननेके कारण इस अभय  
योगमें भय देखनेवाले—भयका  
निमित्तभूत आत्मनाश देखनेवाले  
अर्थात् अविवेकी योगीलोग इससे  
भय मानते हैं ॥ ३९ ॥

अन्य योगियोंकी शान्ति मनोनिग्रहके अधीन है

येषां पुनर्ब्रह्मस्वरूपव्यतिरेकेण  
रज्जुसर्पवत्कल्पितमेव मन  
इन्द्रियादि च न परमार्थतो

जिनकी दृष्टिमें ब्रह्मस्वरूपसे  
अनिरिक्त मन और इन्द्रिय आदि  
रज्जुमें सर्पके समान कल्पित ही



विद्यते तेषां ब्रह्मस्वरूपाणामभयं  
मोक्षारूपा चाक्षया शान्तिः  
स्वभावत एव सिद्धा नान्यायत्ता  
नोपचारः कथंचनेत्यवोचाम ।  
ये त्वतोऽन्ये योगिनो मार्गगा  
हीनमध्यमदृष्टयो मनोऽन्यदात्म-  
व्यतिरिक्तमात्मसंबन्धि पश्यन्ति  
तेषामात्मसत्यानुबोधरहितानाम्-

है—परमार्थतः हैं ही नहीं, उन  
ब्रह्मभूतोंकी निर्भयता और मोक्ष-  
संज्ञक अक्षय शान्ति तो स्वभावसे  
ही सिद्ध है, किसी अन्यके अधीन  
नहीं है; जैसा कि 'उसके लिये  
कुछ भी कर्तव्य नहीं है' ऐसा हम  
पहले ( छत्तीसवें श्लोकमें ) कह चुके  
हैं । किन्तु जो इनसे अन्य परमार्थ-  
पथमें चलनेवाले हीन और मध्यम  
दृष्टिवाले योगी मनको आत्मासे भिन्न  
आत्माका सम्बन्धी मानते हैं, उन  
आत्मसत्यके बोधसे रहित—

मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्वयोगिनाम् ।

दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥ ४० ॥

समस्त योगियोंके अभय, दुःखक्षय, प्रबोध और अक्षय शान्ति  
मनके निग्रहके ही अधीन हैं ॥ ४० ॥

मनसो निग्रहायत्तमभयं  
सर्वेषां योगिनाम् । किं च  
दुःखक्षयोऽपि, न ह्यात्मसंबन्धिनि  
मनसि प्रचलिते दुःखक्षयोऽस्ति  
अविवेकिनाम् । किं चात्म-  
प्रबोधोऽपि मनोनिग्रहायत्त एव ।  
तथाक्षयापि मोक्षारूपा शान्तिः  
तेषां मनोनिग्रहायत्तैव ॥ ४० ॥

समस्त योगियोंका अभय मनके  
निग्रहके अधीन है । यही नहीं,  
दुःखक्षय भी [ मनोनिग्रहके ही  
अधीन है ], क्योंकि आत्मासे  
सम्बन्ध रखनेवाले मनके चलायमान  
रहते हुए अविवेकी पुरुषोंका दुःख-  
क्षय नहीं हो सकता । इसके सिवा  
उनका आत्मज्ञान भी मनके निग्रहके  
ही अधीन है तथा मोक्षनास्ती उनकी  
अक्षय शान्ति भी मनोनिग्रहके ही  
अधीन है ॥ ४० ॥

मनोनिग्रह धैर्यपूर्वक ही हो सकता है

उत्सेक उदधेर्यद्वत्कुशाग्रेणैकविन्दुना ।

मनसो निग्रहस्तद्वद्वेदपरिखेदतः ॥ ४१ ॥

जिस प्रकार [ उद्विग्नता छोड़कर ] कुशाके अग्रभागमें एक एक बूँदद्वारा समुद्रको उलीचा जा सकता है उसी प्रकार सब प्रकारकी खिन्नताका त्याग कर देनेपर मनका निग्रह हो सकता है ॥ ४१ ॥

मनोनिग्रहोऽपि	तेषामुदधेः	कुशाके	अग्रभागसे	एक-एक
कुशाग्रेणैकविन्दुना	उत्सेचनेन	बूँदके	द्वारा	समुद्रके
शोषणव्यवसायवद्व्यवसायवता-		अर्थात्	सुखानेके	प्रयत्नके
मनवसन्नान्तःकरणानामनिर्वेदा-		अखिन्नचित्त	और	उद्यमशील
दपरिखेदतो भवतीत्यर्थः ॥४१॥		रहनेवाले	उन	योगियोंके
		निग्रह	भी	खेदशून्य
		है—यह	इसका	तात्पर्य
		है	॥ ४१ ॥	

मनोनिग्रहके विषय

किमपरिखिन्नव्यवसायमात्र-	तो क्या	खेदरहित	उद्योग	ही
मेव मनोनिग्रह उपायः ? न,	मनोनिग्रहका	उपाय	है ?	इसपर
इत्युच्यते ।	कहते हैं—	'नहीं'		

उपायेन निगृहीयाद्विधिष्यं कामभोगयोः ।

सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा ॥ ४२ ॥

कामप्रविषय और भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तका उपायपूर्वक निग्रह करे तथा लयावस्थामें अत्यन्त प्रसन्नताको प्राप्त हुए चित्तका भी सम्यक करे, क्योंकि जैसा [ अनर्थकारक ] काम है वैसा ही लय भी है ॥ ४२ ॥

अपरिखिन्नव्यवसायवान्सन्	अथक	उद्योगशील	होकर	आगे
बह्यमाणेनोपायेन	कहे	जानेवाले	उपायमें	काम
विषयेषु विधिष्यं मनो निगृही-	भोगरूप	प्रियोंमें	विक्षिप्त	हुए
	चित्तका			

यान्निरुन्ध्यादात्मन्येवेत्यर्थः ।

किं च लीयतेऽस्मिन्निति सुपुप्तो

लयस्तस्मिँल्लये च सुप्रसन्नम्

आयासवर्जितम् अपि इत्येतत्,

निगृहीयादित्यनुवर्तते ।

सुप्रसन्नं चैत्कस्मान्निगृह्यत

इत्युच्यते । यस्माद्यथा कामो-

ऽनर्थहेतुस्तथा लयोऽपि । अतः

कामविषयस्य मनसो निग्रह-

ब्रह्मयादपि निरोद्धव्यमित्यर्थः ४२

निग्रह करे, अर्थात् उसका आत्मामें ही निरोध करे । तथा, जिस अवस्थामें चित्त लीन हो जाता है उस सुपुप्ति-का नाम लय है, उस लयावस्थामें अत्यन्त प्रसन्न अर्थात् आयासरहित स्थितिको प्राप्त हुए चित्तका भी निग्रह करे । यहाँ 'निगृहीयात्' इस पदकी अनुवृत्ति की जाती है ।

यदि उस अवस्थामें चित्त अत्यन्त प्रसन्न हो जाता है तो उसका निग्रह क्यों करना चाहिये ? इसपर कहा जाता है—क्योंकि जिस प्रकार काम अनर्थका कारण है उसी प्रकार लय भी है; इसलिये तात्पर्य यह है कि कामविषयक मनके निग्रहके समान उसका लयसे भी निरोध करना चाहिये ॥ ४२ ॥

कः स उपायः ? इत्युच्यते—

वह उपाय क्या है ? इस विषयमें कहा जाता है—

दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवर्तयेत् ।

अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति ॥ ४३ ॥

सम्पूर्ण द्वैत दुःखरूप है—ऐसा निरन्तर स्मरण करते हुए चित्तको कामजनित भोगोंसे हटावे । इस प्रकार निरन्तर सब वस्तुओंको अजन्मा ब्रह्मरूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता ॥ ४३ ॥

सर्वं द्वैतमविद्याविजृम्भितं

दुःखमेवेत्यनुस्मृत्य कामभोगा-

अविद्यासे प्रतीत होनेवाला सारा

द्वैत दुःखरूप ही है—ऐसा निरन्तर

त्कामनिमित्तो भोग इच्छाविषय-  
स्तस्माद्विप्रसृतं मनो निवर्तये-  
द्वैराग्यमाचनयेत्यर्थः । अजं ब्रह्म-  
सर्वमित्येतच्छास्त्राचार्योपदेशतो-  
ऽनुस्मृत्य तद्विपरीतं द्वैतजातं नैव  
तु पश्यति, अमाद्यात् ॥ ४३ ॥

स्मरण करता हुआ कामभोगपे-  
कामनानिमित्तक भोगमे अर्थात्  
इच्छाजनित विषयसे उसमे फैले हुए  
चित्तको वैराग्यभावनाद्वारा निवृत्त  
करे—यह इमका तात्पर्य हे । फिर  
'यह सब अजन्मा ब्रह्म ही है'  
ऐसा शास्त्र और आचार्यके उपदेशा-  
नुसार निरन्तर स्मरण करता हुआ  
उसमे विपरीत द्वैतजातको—उसका  
अभाव हो जानेके कारण—वह नहीं  
देखता ॥ ४३ ॥

लये संबोधयेचित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः ।

सकपायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालयेत् ॥ ४४ ॥

चित्त [ सुषुप्तिमें ] लीन होने लगे तो उसे आत्मविवेकमें नियुक्त  
करे, यदि विक्षिप्त हो जाय तो उसे पुन शान्त करे और [ यदि इन  
दोनोंके बीचकी अवस्थामें रहे तो उसे ] सकपाय—रागयुक्त समझे ।  
तथा साम्यावस्थाको प्राप्त हुए चित्तको चञ्चल न करे ॥ ४४ ॥

एवमनेन ज्ञानाभ्यासवैराग्य-  
द्वयोपायेन लये सुषुप्ते लीनं  
संबोधयेन्मन आत्मविवेक-  
दर्शनेन योजयेत् । चित्तं मन  
इत्यनर्थान्तरम् । विक्षिप्तं च  
कामभोगेषु शमयेत्पुनः । एवं  
पुनः पुनरभ्यस्यतो लयात्संबोधित

इस प्रकार ज्ञानाभ्यास और  
वैराग्य—इन दो उपायोंसे, लय अर्थात्  
सुषुप्तिमें लीन हुए चित्तको सम्बोधित  
अर्थात् आत्मविवेकदर्शनमें नियुक्त  
करे । चित्त और मन—ये कोई भिन्न  
पदार्थ नहीं हैं । तथा कामना और  
भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तको पुन  
शान्त करे । इस प्रकार बारंबार  
अभ्यासद्वारा लयावस्थासे सम्बोधित

विषयेभ्यश्च व्यावर्तितं नापि  
साम्यापन्नमन्तरालावस्थं सकपायं  
सरागं वीजसंयुक्तं मन इति  
विजानीयात् । ततोऽपि यत्नतः  
साम्यमापादयेत् । यदा तु  
समप्राप्तं भवति समप्राप्त्यभिमुखी-  
भवतीत्यर्थः, ततस्तन्न विचाल-  
येद्विषयाभिमुखं न कुर्यादि-  
त्यर्थः ॥ ४४ ॥

और विषयोंसे निवृत्त किया हुआ  
चित्त जब अन्तरालावस्थामें स्थित  
होकर समताको भी प्राप्त न हो  
तो यह समझे कि इस समय  
मन सकपाय—रागयुक्त अर्थात् बीजा-  
वस्थासंयुक्त है । उस अवस्थासे भी  
उसे यत्रपूर्वक साम्यावस्थामें स्थित  
करे । किन्तु जिस समय वह  
समताको प्राप्त हो अर्थात् साम्या-  
वस्थाप्राप्तिके अभिमुख हो उस समय  
उस अवस्थामें उसे विचलित न करे,  
अर्थात् विषयाभिमुख न करे ॥४४॥

नास्वादयेत्सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् ।

निश्चलं निश्चरच्चित्तमेकीकुर्यात्प्रयत्नतः ॥ ४५ ॥

उस साम्यावस्थामें [ प्राप्त होनेवाले ] सुखका आस्वादन न करे,  
बल्कि विवेकवती बुद्धिके द्वारा उससे निःसङ्ग रहे । फिर यदि चित्त बाहर  
निकलने लगे तो उसे यत्रपूर्वक निश्चल और एकाग्र करे ॥ ४५ ॥

समाधित्सतो योगिनो

यत्सुखं जायते तन्नास्वादयेत्,  
तत्र न रज्येतेत्यर्थः । कथं तर्हि ?  
निःसङ्गो निःस्पृहः प्रज्ञया विवेक-  
बुद्ध्या यदुपलभ्यते सुखं तद-  
विद्यापरिकल्पितं मृषैवेति  
विभावयेत् । ततोऽपि सुख-  
रागान्निगृहीयादित्यर्थः ।

समाधिकी इच्छावाले योगीको  
जो सुख प्राप्त होता है उसका  
आस्वादन न करे अर्थात् उसमें राग  
न करे । तो फिर कैसे रहे ? निः-  
सङ्ग अर्थात् निःस्पृह होकर प्रज्ञा—  
विवेकवती बुद्धिसे ऐसी भावना करे  
कि यह जो कुछ सुख अनुभव हो  
रहा है वह अविद्यापरिकल्पित और  
मिथ्या ही है । तात्पर्य यह कि उस  
सुखके रागसे भी चित्तका निग्रह  
करे ।

यदा पुनः सुखरागान्निवृत्तं  
निश्चलस्वभावं सन्निश्चरद्बहिर्नि-  
र्गच्छद्भवति चित्तं ततस्ततो  
नियम्योक्तोपायेनात्मन्येवैकी-  
कुर्यात्प्रयत्नतः । चित्तस्वरूपसत्ता-  
मात्रमेवापादयेदित्यर्थः ॥ ४५ ॥

जिस समय सुखके रागसे निवृत्त  
होकर निश्चलस्वभाव हुआ चित्त फिर  
बाहर निकलने लगे तब उसे उपर्युक्त  
उपायसे वहाँसे भी रोककर प्रयत्न-  
पूर्वक आत्मामें एकाग्र करे । तात्पर्य  
यह है कि उसे चित्तस्वरूप सत्ता-  
मात्र ही सम्पादित करे ॥ ४५ ॥

मन कब ब्रह्मरूप होता है ?

यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः ।

अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ ४६ ॥

जिस समय चित्त सुषुप्तिमें लीन न हो और फिर विक्षिप्त भी न हो  
तथा निश्चल और विषयाभाससे रहित हो जाय उस समय वह ब्रह्म ही  
हो जाता है ॥ ४६ ॥

यथोक्तोपायेन निगृहीतं  
चित्तं यदा सुषुप्ते न लीयते न  
च पुनर्विषयेषु विक्षिप्यते,  
अनिङ्गनमचलं निवातप्रदीप-  
कल्पम्, अनाभासं न केन-  
चित्कल्पितेन विषयभावेनाव-  
भासत इति, यदैवंलक्षणं चित्तं  
तदा निष्पन्नं ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपेण  
निष्पन्नं चित्तं भवतीत्यर्थः ॥ ४६ ॥

उपर्युक्त उपायसे निग्रह किया  
हुआ चित्त जिस समय सुषुप्तिमें  
लीन नहीं होता और न फिर  
विषयोंमें ही विक्षिप्त होता है तथा  
वायुशून्य स्थानमें रखे हुए दीपकके  
समान निश्चल और अनाभास अर्थात्  
जो किसी भी कल्पित विषयभावसे  
प्रकाशित नहीं होता—ऐसा जिस  
समय यह चित्त हो जाता है उस  
समय वह ब्रह्म ही हो जाता है,  
अर्थात् उस अवस्थामें चित्त ब्रह्म-  
रूपसे निष्पन्न हो जाता है ॥ ४६ ॥

स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणमकथ्यं सुखमुत्तमम् ।

अजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते ॥ ४७ ॥

[ उस अवस्थामें जो आनन्द अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ लोग ] स्वस्थ, शान्त, निर्वाणयुक्त, अकथनीय, निरतिशयसुखस्वरूप, अजन्मा, अजन्मा ज्ञेय ( ब्रह्म ) से अभिन्न और सर्वज्ञ बतलाते हैं ॥ ४७ ॥

यथोक्तं परमार्थसुखमात्म-  
सत्यानुबोधलक्षणं स्वस्थं स्वात्मनि  
स्थितम्, शान्तं सर्वानर्थोपशम-  
रूपम्, सनिर्वाणं निर्वृतिनिर्वाणं  
कैवल्यं सह निर्वाणेन वर्तते,  
तच्चाकथ्यं न शक्यते कथयितुम्,  
अत्यन्तासाधारणविषयत्वात् ;  
सुखमुत्तमं निरतिशयं हि  
तद्योगिप्रत्यक्षमेव । न जातमि-  
त्यज्ञं यथा विषयविषयम् ।  
अजेनानुत्पन्नेन ज्ञेयेनाव्यतिरिक्तं  
सत्त्वेन सर्वज्ञरूपेण सर्वज्ञं ब्रह्मैव  
सुखं परिचक्षते कथयन्ति  
ब्रह्मविदः ॥ ४७ ॥

उपर्युक्त आत्मसत्यानुबोधरूप  
परमार्थ-सुख 'स्वस्थम्'—अपने आत्मा-  
में ही स्थित 'शान्तम्'—सब प्रकारके  
अनर्थकी निवृत्तिरूप, 'सनिर्वाणम्'—  
निर्वाण—निर्वृति अर्थात् कैवल्यको  
कहते हैं, उस निर्वाणके सहित,  
तथा 'अकथ्यम्'—जो कहा न जा सके,  
क्योंकि उसका विषय अत्यन्त  
असाधारण है, 'सुखमुत्तमम्'—योगियों-  
को ही प्रत्यक्ष होनेवाला होनेके कारण  
निरतिशय सुख है । तथा 'अजम्'—जो  
उत्पन्न न हो, जिस प्रकार कि  
विषयसम्बन्धी सुख हुआ करता है,  
और अज यानी उत्पन्न न होनेवाले  
ज्ञेयसे अभिन्न होनेके कारण अपने  
सर्वज्ञरूपसे स्वयं ब्रह्म ही यह सुख  
है—ऐसा ब्रह्मज्ञलोग [ उसके विषयमें ]  
कहते हैं ॥ ४७ ॥

—११११११११—

परमार्थसत्य क्या है ?

सर्वोऽप्ययं मनोनिग्रहादिर्मृ-  
ल्लोहादिवत्सृष्टिरुपासना चोक्ता

मृत्तिका और लोहादिके समान  
ये मनोनिग्रहादि सम्पूर्ण सृष्टि तथा

परमार्थस्वरूपप्रतिपत्त्युपायत्वेन न | उपासना परमार्थस्वरूपकी प्राप्तिके  
उपायरूपमे ही कहे गये हैं, ये  
परमार्थसत्य नहीं हैं। परमार्थसत्य  
परमार्थसत्येति । परमार्थसत्य तु | तो यही है कि—

न कश्चिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते ।

एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ॥ ४८ ॥

कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। जिस अजन्मा ब्रह्ममें किमीकी उत्पत्ति नहीं होती वही सर्वोत्तम सत्य है ॥ ४८ ॥

न कश्चिजायते जीवः कर्ता  
भोक्ता च नोत्पद्यते केनचिदपि  
प्रकारेण । अतः स्वभावतो-  
ऽजसाम्यैकस्यात्मनः संभवः  
कारणं न विद्यते नास्ति ।  
यस्मान्न विद्यतेऽस्य कारणं तस्मान्न  
कश्चिजायते जीव इत्येतत् । पूर्व-  
पूपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेत-  
त्तदुत्तमं सत्यं यस्मिन्सत्यस्वरूपे  
ब्रह्मण्यणुमात्रमपि किञ्चिन्न  
जायत इति ॥ ४८ ॥

कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता—  
अर्थात् किसी भी प्रकारसे कर्ता-  
भोक्ताकी उत्पत्ति नहीं होती। अत  
स्वभावमे ही इस एक अजन्मा आत्मा-  
का कोई सम्भव-कारण नहीं है। और  
क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है  
इसलिये किसी जीवकी उत्पत्ति भी  
नहीं होती—यही इसका तात्पर्य है।  
पहले उपायरूपसे बतलाये हुए  
सत्योंमें यही उत्तम सत्य है, जिस  
सत्यस्वरूप ब्रह्ममें कोई भी वस्तु  
अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होती ॥४८॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य

श्रीशङ्करभगवत कृतौ गौडपादीयागमशास्त्रभाष्येऽद्वैताख्यं

तृतीय प्रकरणम् ॥ ३ ॥

ॐ तत्सत्



## अकालकशांतिप्रकरण

ओङ्कारनिर्णयद्वारेणागतः

प्रकरण-  
प्रयोजनम् प्रतिज्ञातस्याद्वैतस्य  
ब्राह्मविषयभेदवैतथ्या-  
च सिद्धस्य पुनरद्वैते  
शास्त्रयुक्तिभ्यां साक्षान्निर्धारित-  
स्यैतदुत्तमं सत्यमित्युपसंहारः  
कृतोऽन्ते । तस्यैतस्यागमार्थस्या-  
द्वैतदर्शनस्य प्रतिपक्षभूता द्वैतिनो  
वैनाशिकाश्च तेषां चान्योन्य-  
विरोधाद्रागद्वेषादिक्लेशास्पदं  
दर्शनमिति मिथ्यादर्शनत्वं  
सूचितम् । क्लेशानास्पदत्वा-  
त्सम्यग्दर्शनमित्यद्वैतदर्शनं  
स्तूयते । तदिह विस्तरेणान्योन्य-  
विरुद्धतयासम्यग्दर्शनत्वं प्रदर्श्य

ओङ्कारके निर्णयद्वारा आगम-  
प्रकरणमें प्रतिज्ञा किये अद्वैतका—  
जिसे कि [ वैतथ्यप्रकरणमें ] ब्राह्म  
विषयभेदके मिथ्यात्वद्वारा सिद्ध किया  
है और फिर अद्वैतप्रकरणमें शाल  
और युक्तियोंमें साक्षात् निश्चय  
किया है, [ पिछले प्रकरणके ]  
अन्तमें 'एतदुत्तमं सत्यम्' ऐसा  
कहकर उपसंहार किया गया । वेद-  
के तात्पर्यभूत इस अद्वैतदर्शनके  
विरोधी जो द्वैतवादी और वैनाशिक  
( बौद्ध आदि ) हैं उनके दर्शन परस्पर  
विरोधी होनेके कारण राग-द्वेषादि  
क्लेशोंके आश्रय हैं, अतः उनका  
मिथ्यादर्शनत्व सूचित होता  
है । और राग-द्वेषादि क्लेशोंका  
आश्रय न होनेके कारण अद्वैतदर्शन  
ही सम्यग्दर्शन है—इस प्रकार उसकी  
स्तुति की जाती है । अब यहाँ,  
परस्पर विरोधी होनेके कारण  
विस्तारपूर्वक उन ( द्वैतवादी आदि  
दार्शनिकोंके दर्शन ) का मिथ्या-  
दर्शनत्व प्रदर्शित कर उनके प्रति-  
पक्षद्वारा आवीनन्यायसे\* अद्वैतदर्शन-

\* अनुमान दो प्रकारका है—अन्वयी और व्यतिरेकी । अन्वयी अनु मान-  
में एक वस्तुकी सत्ताके दूसरी वस्तुकी सत्ता सिद्ध की जाती है तथा व्यतिरेकीमें  
एक वस्तुके अभावसे दूसरी वस्तुका अभाव सिद्ध किया जाता है । इस व्यतिरेकी  
अनुमानका ही दूसरा नाम 'आवीन अनुमान' भी है ।

तत्प्रतिषेधेनाद्वैतदर्शनसिद्धिरुप-  
संहर्तव्याचीतन्यायेनेत्यलात-  
शान्तिरारभ्यते ।

तत्राद्वैतदर्शनसम्प्रदायकर्तुः  
अद्वैतस्वरूपेणैव नमस्कारार्थो-  
ऽयमाद्यश्लोकः । आचार्यपूजा  
ह्यभिप्रेतार्थसिद्धयर्थेप्यते शास्त्रा-  
रम्भे ।

की सिद्धिका उपसहार करना है—इसी-  
लिये अलातशान्तिप्रकरणका आरम्भ  
किया जाता है ।

उसमें अद्वैतदर्शनसम्प्रदायके  
कर्ताको अद्वैतरूपसे ही नमस्कार  
करनेके लिये यह पहला श्लोक है,  
क्योंकि शास्त्रके आरम्भमें आचार्यकी  
पूजा अभिप्रेत अर्थकी सिद्धिके लिये  
इष्ट ही है ।

नारायण-नमस्कार

ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान् ।

ज्ञेयाभिन्नेन संवुद्धस्तं वन्दे द्विपदा वरम् ॥ १ ॥

जिसने ज्ञेय ( आत्मा ) से अभिन्न आकाशसदृश ज्ञानसे आकाश-  
सदृश धर्मों ( जीवों ) को जाना है उस पुरुषोत्तमको नमस्कार करता  
हूँ ॥ १ ॥

आकाशेनेपदसमाप्तमाकाश-  
कल्पमाकाशतुल्यमेतत् । तेना-  
काशकल्पेन ज्ञानेन, किम् ?  
धर्मानात्मनः, किंविशिष्टान्गग-  
नोपमान्गगनमुपमा येषां ते गग-  
नोपमास्तानात्मनो धर्मान् ।

जो आकाशकी अपेक्षा कुछ  
असम्पूर्ण हो\* उसे आकाशकल्प  
अर्थात् आकाशतुल्य कहते हैं ।  
उस आकाशसदृश ज्ञानसे—किसे ?  
आत्माके धर्मोंको । किस प्रकारके  
धर्मोंको ? गगनोपम धर्मोंको—गगन  
( आकाश ) जिनकी उपमा हो  
उन्हें गगनोपम कहते हैं—ऐसे आत्मा-

\* असम्पूर्णका यह भाव नहीं समझना चाहिये कि ब्रह्म आकाशकी अपेक्षा  
कुछ न्यून है । इसका केवल यही भाव है कि वह सर्वथा आकाशरूप ही नहीं  
है—आकाशसे कुछ मिला जुला है ।

ज्ञानस्वैव पुनर्विशेषणम्—

ज्ञेयैर्धर्मैरात्मभिरभिन्नमग्न्युष्ण-

वत्सवितृप्रकाशवच्च ज्ञानं तेन

ज्ञेयाभिन्नेन ज्ञानेनाकाशकल्पेन

ज्ञेयात्मस्वरूपाव्यतिरिक्तेन गग-

नोपमान्धर्मान्यः संबुद्धः संबुद्धवा-

निति, अयमेवेश्वरो यो नारायणा-

ख्यस्तं वन्देऽभिवादाये द्विपदां वरं

द्विपदोपलक्षितानां पुरुषाणां वरं

प्रधानं पुरुषोत्तममित्यभिप्रायः ।

उपदेष्टृनमस्कारमुखेन ज्ञान-

ज्ञेयज्ञातृभेदरहितं परमार्थतत्त्व-

दर्शनमिह प्रकरणे प्रतिपिपाद-

यिपितं प्रतिपक्षप्रतिषेधद्वारेण

प्रतिज्ञातं भवति ॥ १ ॥

के धर्मोंको । ज्ञानका ही फिर

विशेषण देते हैं—अग्निसे उष्णता

और सूर्यसे प्रकाशके समान जो

ज्ञान ज्ञेय धर्मों अर्थात् आत्माओंसे

अभिन्न है उस ज्ञेयामिन्न अर्थात्

ज्ञेय आत्माके स्वरूपसे अव्यतिरिक्त

आकाशसदृश ज्ञानसे जिसने

आकाशोपम धर्मोंको सदा ही सम्यक्

प्रकार जाना है—ऐसा जो नारायण-

संज्ञक\* ईश्वर है उस द्विपदां वर-

दो पदोंसे उपलक्षित पुरुषोंमें श्रेष्ठ

यानी प्रधान पुरुषोत्तमकी वन्दना-

अभिवादन करता हूँ ।

उपदेष्टाको नमस्कार करनेसे

यह प्रतिज्ञा की जाती है कि इस

प्रकरणमें विरुद्ध पक्षके प्रतिषेधद्वारा

ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे रहित

परमार्थदर्शनका प्रतिपादन करना

अभीष्ट है ॥ १ ॥

अद्वैतदर्शनकी वन्दना

अधुना अद्वैतदर्शनयोगस्य

अब अद्वैतदर्शनयोगको, उसकी

स्तुतिके लिये, नमस्कार किया

जाता है—

नमस्कारस्तत्स्तुतये—

अस्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखो हितः ।

अविवादोऽविरुद्धश्च देशितस्तं नमास्यहम् ॥ २ ॥

\* यहाँ अद्वैतसम्प्रदायके आदि आचार्य बदरिकाश्रमाधीश्वर तापताम्रगण्य श्रीनारायणकी वन्दना की गयी है ।

[ शास्त्रोंमें ] जिस सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये सुखकर, हितकारी, निर्विवाद और अविरोधी अस्पर्शयोगका उपदेश किया गया है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

स्पर्शनं स्पर्शः सम्यन्धो न विद्यते यस्य योगस्य केनचित्कदाचिदपि सोऽस्पर्शयोगो ब्रह्मस्वभाव एव वै नामेति ब्रह्मविदामस्पर्शयोग इत्येवंप्रसिद्ध इत्यर्थः । स च सर्वसच्चमुखः । भवति कश्चिदत्यन्तसुखसाधनविशिष्टोऽपिदुःखरूपः, यथा तपः । अयं तु न तथा । किं तर्हि सर्वसच्चानां मुखः ।

तथेह भवति कश्चिद्विषयोपभोगः सुखो न हितः अयं तु सुखो हितश्च नित्यमप्रचलितस्वभावत्वात् । किं चाविवादो विरुद्धवदनं विवादः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहेण यस्मिन्न विद्यते सोऽविवादः । कस्मात् ? यतोऽविरुद्धश्च । य ईदृशो योगो

जिस योगका किसीसे कभी स्पर्श यानी सम्बन्ध नहीं है उसे 'अस्पर्शयोग' कहते हैं, वह ब्रह्मस्वभाव ही है । 'वै' 'नाम' इन पदोंका यह तात्पर्य है कि वह 'ब्रह्मवेत्ताओंका अस्पर्शयोग' उस नामसे प्रसिद्ध है और वह समस्त प्राणियोंके लिये सुखकर होता है । कोई विषय तो अत्यन्त सुखसाधन-विशिष्ट होनेपर भी दुःखरूप होता है, जैसा कि तप । किन्तु यह ऐसा नहीं है । तो फिर कैसा है ? यह सभी प्राणियोंके लिये सुखदायक है ।

इसी प्रकार इस लोकमें कोई-कोई विषयसामग्री सुखदायक तो होती है किन्तु हिनकर नहीं होती । किन्तु यह तो सर्वदा अविचल-स्वभाव होनेके कारण सुखदायक भी है और हितकर भी । यही नहीं, यह अविवाद भी है । जिसमें पक्ष प्रतिपक्ष स्वीकार करके विरुद्ध कथनरूप विवाद नहीं होता उसे अविवाद कहते हैं । ऐसा यह क्यों है ? क्योंकि यह मरसे अविरुद्ध है । ऐसे जिस योगका शास्त्रने उपदेश

देशितः उपदिष्टः ज्ञास्त्रेण तं | कित्वा है, उसे मैं नमस्कार यानी  
नमाम्यहं प्रणमामीत्यर्थः ॥ २ ॥ | प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥

द्वैतवादियोंका पारस्परिक विरोध

कथं द्वैतिनः परस्परं | द्वैतवादियोंमें परस्पर किस प्रकार  
विरुध्यन्ते ? इत्युच्यते | विरोध है ? सो बतलाया जाता है—

भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि ।

अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम् ॥ ३ ॥

उनमेंसे कोई-कोई वादी तो सत् पदार्थकी उत्पत्ति मानते हैं और  
कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करने हुए असत्पदार्थकी उत्पत्ति  
स्वीकार करते हैं ॥ ३ ॥

भूतस्य विद्यमानस्य वस्तुनो  
जातिमुत्पत्तिमिच्छन्ति वादिनः  
केचिदेव हि सांख्या न सर्व  
एव द्वैतिनः । यस्माद्भूतस्या-  
विद्यमानस्यापरे वैशेषिका  
नैयायिकाश्च धीरा धीमन्तः  
प्राज्ञाभिमानिन इत्यर्थो विव-  
दन्तो विरुद्धं वदन्तो ह्यन्योन्य-  
मिच्छन्ति जेतुमित्यभिप्रायः ॥३॥

कोई-कोई वादी—केवल सांख्य-  
मतावलम्बी, सम्पूर्ण द्वैतवादी नहीं—  
भूत यानी विद्यमान वस्तुकी जाति—  
उत्पत्ति मानते हैं; और क्योंकि  
दूसरे धीर-बुद्धिमान् यानी प्राज्ञा-  
भिमानी वैशेषिक और नैयायिक-  
लोग अमृत अर्थात् अविद्यमान वस्तु-  
का जन्म स्वीकार करते हैं, इसलिये  
परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण  
करते हुए वे एक-दूसरेको जीतनेकी  
इच्छा करते रहते हैं—यह इसका  
तार्थ्य है ॥ ३ ॥

तैरेवं विरुद्धवदनेनान्योन्य-  
पक्षप्रतिपक्षं कुर्वद्भिः किं ख्यापितं  
भवत्युच्यते—

परस्पर विवाद करके एक-दूसरे-  
के पक्षका खण्डन करनेवाले उन  
वादियोंद्वारा किस सिद्धान्तका प्रकाश  
किया जाता है सो बतलाते हैं—

भूतं न जायते किञ्चिद्भूतं नैव जायते ।

विवदन्तोऽद्वया होवमजातिं ख्यापयन्ति ते ॥ ४ ॥

[ किन्हींका मत है—] 'कोई सदस्तु उत्पन्न नहीं होती' और [ कोई कहते हैं—] 'असदस्तुका जन्म नहीं होता'—इस प्रकार परस्पर विवाद करनेवाले ये अद्वैतवादी\* अजाति ( अजातवाद ) को ही प्रकाशित करते हैं ॥ ४ ॥

भूतं विद्यमानं वस्तु न जायते  
किञ्चिद्विद्यमानत्वादेवात्मवदित्येवं  
वदन्नसद्वादी सांख्यपक्षं प्रति-  
षेधति सज्जन्म । तथाभूतमविद्य-  
मानमविद्यमानत्वान्नैव जायते  
शश्विषाणवदित्येवं वदन्सां-  
ख्योऽप्यसद्वादिपक्षमसज्जन्म प्रति-  
षेधति । विवदन्तो विरुद्धं वदन्तो-  
ऽद्वया अद्वैतिनो ह्येते अन्योन्यस्य  
पक्षौ सदसतोर्जन्मनी प्रतिषेधन्तो-  
ऽजातिमनुत्पत्तिमर्थात्ख्यापयन्ति  
प्रकाशयन्ति ते ॥ ४ ॥

कोई भी भूत अर्थात् विद्यमान वस्तु विद्यमान होनेके कारण ही, उत्पन्न नहीं होती, जैसे कि आत्मा— इस प्रकार कहकर असद्वादी, सांख्य-के पक्ष सद्वादका खण्डन करता है । तथा सांख्य भी 'अभूत—अविद्यमान वस्तु अविद्यमान होनेके कारण ही शश्वृङ्गके समान उत्पन्न नहीं हो सकती'—ऐसा कहकर असद्वादीके पक्ष असत्की उत्पत्तिका प्रतिषेध करता है । इस प्रकार परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण करनेवाले ये अद्वैतवादी—न्योंकि वस्तुतः ये अद्वैत-वादी ही हैं—एक-दूसरेके पक्ष सज्जन्म और असज्जन्मका खण्डन करते हुए अर्थात् अजाति—अनुत्पत्ति-को ही प्रकाशित करते हैं ॥ ४ ॥

द्वैतवादियोंद्वारा प्रदर्शित अजातिका अनुमोदन

ख्याप्यमानामजातिं तैरनुमोदामहे वयम् ।

विवदामो न तैः सार्धमविवादं निबोधत ॥ ५ ॥

\* यहाँ द्वैतवादियोंको ही व्यंगसे 'अद्वैतवादी' कहा है ।

उनके द्वारा प्रकाशित की हुई अजातिका हम भी अनुमोदन करते हैं। हम उनसे विवाद नहीं करते अतः तुम उस निर्विवाद [ परमार्थ-दर्शन ] को अच्छी तरह समझ लो ॥ ५ ॥

तैरेवं ख्याप्यमानामजातिमेव-  
मस्त्वित्यनुमोदामहे केवलं न  
तैः सार्धं विवादामः पक्षप्रतिपक्ष-  
ग्रहणेन; यथा तेऽन्योन्यमित्य-  
मिप्रायः। अतस्तमविवादं विवाद-  
रहितं परमार्थदर्शनमनुज्ञातमस्मा-  
भिर्निबोधत हे शिष्याः ॥ ५ ॥

उनके द्वारा इस प्रकार प्रकाशित की गयी अजातिका हम 'ऐसा ही हो' इस प्रकार केवल अनुमोदन करते हैं। तात्पर्य यह है कि पक्ष-प्रतिपक्ष लेकर उनके साथ विवाद नहीं करते, जैसा कि वे आपसमें किया करते हैं। अतः हे शिष्यगण ! हमारेद्वारा उपदेश किये हुए उस अविवाद-विवादरहित परमार्थदर्शन-को तुम अच्छी तरह समझ लो ॥५॥

अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः ।

अजातो ह्यमृतो धर्मो मर्त्यतां कथमेप्यति ॥ ६ ॥

वे वादीलोग अजात वस्तुका ही जन्म होना स्वीकार करते हैं। किन्तु जो पदार्थ निश्चय ही अजात और अमृत है वह मरणशीलताको कैसे प्राप्त हो सकता है ? ॥ ६ ॥

सदसद्वादिनः सर्वेऽपीति

यहाँ [ 'वादिनः' पदसे ] सभी सद्वादी और असद्वादी अभिप्रेत हैं। इस श्लोकका भाष्य पहले\* किया जा चुका है ॥ ६ ॥

पुरस्तात्कृतभाष्यश्लोकः ॥ ६ ॥

स्वभावविपर्यय असम्भव हे

न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा ।

प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति ॥ ७ ॥

\* देखिये अद्वैतप्रकरण श्लोक २० का अर्थ ।

मरणरहित वस्तु कभी मरणशील नहीं हो सकती और मरणशील मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसीके स्वभावका विपर्यय किसी प्रकार होनेवाला नहीं है ॥ ७ ॥

स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम् ।

कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्यास्यति निश्चलः ॥ ८ ॥

जिसके मतमें स्वभावसे ही मरणहीन धर्म मरणशीलताको प्राप्त हो जाता है, उसके सिद्धान्तानुसार कृतक ( जन्म ) होनेके कारण वह अमृत पदार्थ निश्चल ( चिरस्थायी ) कैसा रह सकेगा ? ॥ ८ ॥

उक्तार्थानां श्लोकानामिहोप-  
न्यासः परवादिपक्षणामन्योन्य-  
विरोधख्यापितानुत्पत्त्यनुमोदन-  
प्रदर्शनार्थः ॥ ७-८ ॥

जिनका अर्थ पहले कहा जा चुका है ऐसे उपर्युक्त [ तीन ] श्लोकों-का उल्लेख यहाँ विपक्षी वादियोंके पक्षोंके पारस्परिक विरोधसे प्रकाशित अजानिका अनुमोदन प्रदर्शित करने-के लिये किया गया है ॥ ७-८ ॥

यस्माल्लौकिक्यपि प्रकृतिर्न

क्योंकि लौकिकी प्रकृतिका भी विपर्यय नहीं होना [ फिर पारमार्थिकी-का तो कैसे होगा ? ] किन्तु वह प्रकृति है क्या ? इसपर कहते हैं—

विपर्येति, कासावित्याह—

सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च या ।

प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या ॥ ९ ॥

जो उत्तम सिद्धिद्वारा प्राप्त, स्वभावसिद्धा, सहजा और अकृता है तथा कभी अपने स्वभावका परित्याग नहीं करती वही 'प्रकृति' है— ऐसा जानना चाहिये ॥ ९ ॥

सम्यक्सिद्धिः सांसिद्धिस्तत्र  
मवा सांसिद्धिकी यथा योगिनां

सम्यक् सिद्धिका नाम ससिद्धि  
है, उससे होनेवालीको 'सांसिद्धिकी'



सिद्धानाम् अणिमाद्यैश्वर्यप्राप्तिः  
 प्रकृतिः । सा भूतभविष्यत्काल-  
 योरपि योगिनां न विपर्येति  
 तथैव सा । तथा स्वाभाविकी  
 द्रव्यस्वभावत एव यथाग्न्या-  
 दीनाम् उष्णप्रकाशादिलक्षणा,  
 सापि न कालान्तरे व्यभिचरति  
 देशान्तरे च । तथा सहजा  
 आत्मना सहैव जाता यथा पक्ष्या-  
 दीनामाकाशगमनादिलक्षणा ।

अन्यापि या काचिदकृता  
 केनचिन्न कृता यथापां निम्न-  
 देशगमनादिलक्षणा । अन्यापि  
 या काचित्स्वभावं न जहाति सा  
 सर्वा प्रकृतिरिति विज्ञेया लोके ।  
 मिथ्याकल्पितेषु लौकिकेष्वपि  
 वस्तुषु प्रकृतिर्नान्यथा भवति  
 किमुताजस्वभावेषु परमार्थ-  
 वस्तुष्वमृतत्वलक्षणा प्रकृतिर्ना-  
 न्यथा भवतीत्यभिप्रायः ॥ ९ ॥

कहते हैं; जिस प्रकारकी सिद्धि  
 योगियोंको अणिमादि ऐश्वर्यकी प्राप्ति  
 उनकी प्रकृति है । योगियोंकी उस  
 प्रकृतिका भूत और भविष्यत् कालमें  
 भी विपर्यय नहीं होता—यह जैसी-की-  
 तैसी ही रहती है । तथा 'स्वाभाविकी'  
 वस्तुके स्वभावसे सिद्ध; जैसी कि  
 अग्नि आदिकी उष्णता एवं प्रकाशादि-  
 रूपा प्रकृति होती है । उसका भी  
 कालान्तर और देशान्तरमें व्य-  
 भिचार नहीं होता । तथा 'सहजा'—  
 अपने साथ ही उत्पन्न होनेवाली;  
 जैसे कि पक्षी आदिकी आकाश-  
 गमनादिरूपा प्रकृति होती है ।

और भी जो कोई 'अकृता'—  
 किसीके द्वारा सम्पादन न की हुई;  
 जैसे कि जलोंकी प्रकृति निम्न प्रदेश-  
 की ओर जानेकी है । तथा इसके  
 सिवा अन्यभी जो कोई अपने स्वभाव-  
 को नहीं छोड़ती उस सबको लोकमें  
 'प्रकृति' नामसे ही जानना  
 चाहिये । मिथ्या कल्पना की हुई  
 लौकिक वस्तुओंमें भी उनकी प्रकृति  
 अन्यथा नहीं होनी; फिर अजलभाव  
 परमार्थवस्तुओंमें उनकी अमृतत्व-  
 लक्षणा प्रकृति अन्यथा नहीं हो  
 सकती—इसमें तो कहना ही क्या  
 है ? यह इसका अभिप्राय है ॥ ९ ॥

जीवका जरा-मरण माननेमें दोष

किंपिपया पुनः सा प्रकृति-  
र्यस्या अन्यथाभावो वादिभिः  
कल्प्यते कल्पनायां वा को दोष  
इत्याह—

जरामरणनिर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः ।

जरामरणमिच्छन्तश्च्यवन्ते तन्मनीषया ॥ १० ॥

समस्त जीव स्वभावसे ही जरा-मरणमें रहित हैं । उनके जरा-मरण स्वीकार करनेवाले लोग, इस विचारके कारण ही, स्वभावसे च्युत हो जाते हैं ॥ १० ॥

जरामरणनिर्मुक्ताः—जरा-  
मरणादिसर्वविक्रियावर्जिता  
इत्यर्थः । के ? सर्वे धर्माः सर्व  
आत्मान इत्येतत्स्वभावतः  
प्रकृतितः । एवंस्वभावाः सन्तो  
धर्मा जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त  
इवेच्छन्तो रज्ज्वाभिः सर्वमात्मनि  
कल्पयन्तश्च्यवन्ते स्वभावतश्च-  
लन्तीत्यर्थः, तन्मनीषया जन्म-  
मरणचिन्तया तद्भावमाधितत्व-  
दोषेणेत्यर्थः ॥ १० ॥

वादीलोग जिसके अन्यथाभावकी कल्पना करते हैं उस प्रकृतिका विषय क्या है ? और उनकी कल्पनामें क्या दोष है ? इसपर कहते हैं—

‘जरामरणनिर्मुक्ता’ अर्थात् जरा मरणादि सम्पूर्ण विचारोंमें रहित हैं । ज्ञान ? सम्पूर्ण धर्म अर्थात् समस्त जीवात्मा, स्वभावतः यानी प्रकृतिसे ही । ऐसे स्वभाववाले होनेपर भी जरा-मरणके इच्छुकके समान इच्छा करनेवाले अर्थात् रज्जु-में सर्पकी भौंति आगामें जरा-मरणकी कल्पना करनेवाले जीव, उसकी मनीषा-जरामरणकी चिन्तासे अर्थात् उस भावसे भावित होनेके दोषप्रश अपने स्वभावसे च्युत—विचलित हो जाते हैं ॥ १० ॥

साख्यमतपर वैशेषिककी आपत्ति

कथं सञ्जातिवादिभिः  
सांख्यैरनुपपन्नमुच्यते इत्याह  
वैशेषिकः—

सञ्जातिवादी साख्यमत-  
वलम्बियोंका कथन किस प्रकार असङ्गत है ? सो वैशेषिकमतानुलम्बी कहते हैं—

कारणं यस्य वै कार्यं कारणं तस्य जायते ।

जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत् ॥ ११ ॥

जिस ( सांख्यमतावलम्बी ) के मतमें कारण ही कार्य है उसके सिद्धान्तानुसार कारण ही उत्पन्न होता है । किन्तु जब कि वह जन्म लेनेवाला है तो अजन्मा कैसे हो सकता है और भिन्न ( विदीर्ण ) होनेपर भी नित्य कैसे हो सकता है ॥ ११ ॥

कारणं मृद्ब्रुपादानलक्षणं  
यस्य वादिनो वै कार्यं कारणमेव  
कार्याकारेण परिणमते यस्य  
वादिन इत्यर्थः, तस्याजमेव  
सत्प्रधानादि कारणं महदादि-  
कार्यरूपेण जायत इत्यर्थः ।  
महदाद्याकारेण चेज्जायमानं  
प्रधानं कथमजमुच्यते तैर्वि-  
प्रतिषिद्धं चेदं जायतेऽजं चेति ।

नित्यं च तैरुच्यते प्रधानं  
भिन्नं विदीर्णं स्फुटितमेकदेशेन  
सत्कथं नित्यं भवेदित्यर्थः । न  
हि सावयवं घटादि एकदेश-  
स्फुटनधर्मि नित्यं दृष्टं लोक

जिस वादीके मतमें मृत्तिकाके समान उपादान कारण ही कार्य है अर्थात् जिसके मतमें कारण ही कार्यरूपमें परिणत होता है उसके सिद्धान्तानुसार प्रधानादि कारण अजन्मा होता हुआ भी महदादि कार्यरूपसे उत्पन्न होता है ऐसा इसका तात्पर्य है । किन्तु यदि प्रधान महदादिरूपसे उत्पन्न होनेवाला है तो वे उसे अजन्मा कैसे बतलाते हैं ? उत्पन्न होता है और अजन्मा भी है--ऐसा कथन तो परस्पर विरुद्ध है ।

इसके सिवा वे प्रधानको नित्य भी बतलाते हैं । किन्तु वह भिन्न-विदीर्ण अर्थात् एक देशमें स्फुटित यानी विकृत होनेवाला\* होकर भी नित्य कैसे हो सकता है ? तात्पर्य यह कि घटादि सावयव पदार्थ, जो एक देशमें स्फुटित होनेवाले हैं, लोकमें

\* जैसे बीज अक्षुरूपसे फूटता है ।

इत्यर्थः । विदीर्णं च स्यादेकदेशे-  
नाजं नित्यं चेति एतद्विप्रतिषिद्धं  
तैरभिधीयत इत्यभिप्रायः ॥११॥

कभी नित्य नहीं देगे गये । वह  
अपने एक देशमें विदीर्ण होना है  
तथा अज और नित्य भी हैं—यह  
तो उनका विरुद्ध कथन ही है—  
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ ११ ॥

उक्तमर्थार्थस्य स्पष्टीकरणार्थ-  
माह—

उपर्युक्त अभिप्रायका ही स्पष्ट-  
करण करनेके लिये कहते हैं—

कारणाद्यद्यनन्यत्वमतः कार्यमजं यदि ।

जायमानाद्धि वै कार्यात्कारणं ते कथं ध्रुवम् ॥ १२ ॥

यदि कारणसे कार्यकी अभिन्नता है तब तो तुम्हारे मतमें कार्य भी  
अजन्मा है, ओर यदि ऐसी बात है तो उत्पन्न होनेवाले कार्यसे अभिन्न होनेपर  
कारण भी किम प्रकार निश्चल रह सकता है ? ॥ १२ ॥

कारणादजात्कार्यस्य यद्यनन्य-

यदि तुम्हें अजन्मा कारणसे  
कार्यकी अनन्यता इष्ट है तो [ तुम्हारे  
मतमें ] यह बात सिद्ध होनी है कि  
कार्य भी अजन्मा है । किन्तु कार्य  
है और अजन्मा है यह तुम्हारे  
कथनमें एक दूसरा विरोध है ।  
इसके सिवा, कार्य ओर कारणकी  
अनन्यता होनेपर उत्पत्तिशील कार्यसे  
अभिन्न उसका कारण नित्य और  
निश्चल कैसे रह सकता है ? ऐसा  
कभी नहीं हो सकता कि मुर्गीका  
एक अंश तो पकाया जाय और  
दूसरा सन्तानोत्पत्तिके योग्य बनाये  
रखा जाय ॥ १२ ॥

त्वमिष्टं त्वया ततः

वायकारणयो  
अभिन्नत्वे  
विप्रतिषिद्धि

कार्यमजमिति प्राप्तम् ।

इदं चान्यद्विप्रतिषिद्धं

कार्यमजं चेति तव ।

किं चान्यत्कार्यकारणयोरनन्यत्वे  
जायमानाद्धि वै कार्यात्कारण-  
मनन्यन्नित्यं ध्रुवं च ते कथं  
भवेत् । न हि कुक्कुट्या एकदेशः  
पच्यत एकदेशः प्रसवाय  
कल्प्यते ॥ १२ ॥

किं चान्यत्— | इसके सिवा और भी—

अजाद्वै जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै ।

जाताच्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते ॥ १३ ॥

जिसके मतमें अजन्मा वस्तुसे ही किसी कार्यकी उत्पत्ति होती है उसके पास निश्चय ही इसका कोई दृष्टान्त नहीं है । और यदि जात पदार्थसे ही कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो अनवस्था उपस्थित हो जाती है ॥ १३ ॥

अजादनुत्पन्नाद्वस्तुनो जायते

जिस बादीके मतमें अज-अनु-  
त्पन्न वस्तुसे कार्यकी उत्पत्ति होती  
है उसके पास निश्चय ही कोई  
दृष्टान्त नहीं है । अतः तात्पर्य यह  
हुआ कि दृष्टान्तका अभाव होनेके  
कारण यह बात स्वयं सिद्ध हो  
जाती है कि अज वस्तुसे किसीकी  
उत्पत्ति नहीं होती । और जब  
किसी जात-उत्पन्न होनेवाली वस्तुसे  
कार्यवर्गकी उत्पत्ति मानी जाती है  
तो वह भी किसी अन्य जात वस्तुसे  
उत्पन्न होनी चाहिये और वह किसी  
औरहीसे उत्पन्न होना चाहिये-इस  
प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती;  
अर्थात् अनवस्था उपस्थित हो  
जाती है ॥ १३ ॥

जातजातयोः यस्य वादिनः कार्यं

उभयोरपि दृष्टान्तस्तस्य नास्ति

कारणत्वात्तुत्पत्तिः वै, दृष्टान्ताभावे-

ऽर्थादजाच्च किञ्चिज्जायत इति

सिद्धं भवतीत्यर्थः । यदा

पुनर्जाताज्जायमानस्य वस्तुनः

अभ्युपगमः तदप्यन्यस्मात्

जातात्तदप्यन्यस्मादिति न

व्यवस्था प्रसज्यते । अनवस्थानं

स्यादित्यर्थः ॥ १३ ॥

हेतु और फलके अन्योन्यकारणत्वमे दोष

“यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्”  
( वृ० उ० २।४।१४ ) इति

“जिस अवस्थामें इसकी दृष्टिमें  
सब आत्मा ही हो गया है” इस

परमार्थतो द्वैताभावः श्रुत्योक्त- | श्रुतिने जो परमार्थत द्वैतका अभाव  
स्तमाश्रित्याह— | बतलाया है, उसीको आश्रित करके  
कहते हैं—

हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फलस्य च ।

हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैरुपवर्ण्यते ॥ १४ ॥

जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु है वे हेतु और फलके अनादित्वका प्रतिपादन कैसे करते हैं ? ॥ १४ ॥

हेतोर्धर्मादिरादिः कारणं	जिन वादियोंके मतमें हेतु अर्थात्
देहादिमंघातः फलं येषां	धर्मादिका आदि-कारण देहादि
वादिनाम् । तथादिः कारणं	सवातरूप फल है तथा देहादि
हेतुर्धर्माधर्मादिः फलस्य च देहा-	सत्रातरूप फलका आदि-कारण
दिसंघातस्य । एवं हेतुफलयोरित-	धर्माधर्मादि हेतु है*—इस प्रकार
रेतरकार्यकारणत्वेनादिमचं	हेतु और फलका एक-दूसरेके
दुबद्धिरेवं हेतोः फलस्य चाना-	कार्य-कारणरूपसे सकारणत्व बतलाने-
दित्वं कथं तैरुपवर्ण्यते ?	वाले उन लोगोंद्वारा हेतु और फलका
विप्रतिषिद्धमित्यर्थः । न हि	अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन
नित्यस्य कूटस्थस्यात्मनो हेतु-	किया जाता है ? अर्थात् उनका यह
फलात्मता सम्भवति ॥ १४ ॥	कथन सर्वथा विरुद्ध है । नित्य कूटस्थ
	आत्माकी हेतुफलात्मकता तो किसी
	प्रकार भी सम्भव नहीं है ॥ १४ ॥

कथं तैर्विरुद्धमभ्युपगम्यत | वे किस प्रकार विरुद्ध मतको  
इत्युच्यते— | मानते हैं, सो बतलाया जाता है—

हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फलस्य च ।

तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राज्जन्म पितुर्यथा ॥ १५ ॥

\* अर्थात् जो धर्मादिको शरीरादिकी प्राप्तिका कारण और शरीरको धर्मादि-सम्पादनका कारण मानते हैं ।

जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु है उनकी [ मानी हुई ] उत्पत्ति ऐसी ही है जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होना ॥ १५ ॥

हेतुजन्यादेव जन्माभ्युपगच्छतां विरोध उक्तो भवति यथा पुत्राज्जन्म पितुः ॥ १५ ॥	फलाद्देतो- तेपामीदृशो भवति यथा ॥ १५ ॥	हेतुसे उत्पन्न होनेवाले फलसे ही हेतुका जन्म माननेवाले उन लोगोंके मतमें ऐसा ही विरोध कहा जाता है जैसे पुत्रसे पिताका जन्म बतलानेमें ॥ १५ ॥
--	--	---

यथोक्तो विरोधो न युक्तो-  
ऽभ्युपगन्तुमिति चेन्मन्यसे—

यदि तुम ऐसा मानते हो कि  
उपर्युक्त विरोध मानना उचित  
नहीं है तो—

संभवे हेतुफलयोरेषितव्यः क्रमस्त्वया ।

युगपत्संभवे यस्मादसंबन्धो विपाणवत् ॥ १६ ॥

तुम्हें हेतु और फलकी उत्पत्तिमें क्रम स्वीकार करना चाहिये,  
क्योंकि उनके साथ-साथ उत्पन्न होनेमें तो [ दायें-बायें ] सींगोंके समान  
परस्पर [ कार्य-कारणरूप ] सम्बन्ध ही नहीं हो सकता ॥ १६ ॥

संभवे हेतुफलयोरुत्पत्तौ क्रम एषितव्यस्त्वयान्वेष्यो हेतुः पूर्वं पश्चात्फलं चेति । इतश्च युगपत्संभवे यस्माद्देतुफलयोः कार्यकारणत्वेनासंबन्धः, यथा युगपत्संभवतोः सव्येतरगो- विपाणयोः ॥ १६ ॥	तुम्हें हेतु और फलकी उत्पत्तिमें क्रम अर्थात् पहले हेतु होता है और फिर फल—इस प्रकार दोनोंका पौर्वापर्य खोजना चाहिये; क्योंकि जिस प्रकार गीके साथ-साथ उत्पन्न होनेवाले दायें और बायें सींगोंका परस्पर सम्बन्ध नहीं होता उसी प्रकार साथ-साथ उत्पन्न होनेपर तो हेतु और फलका परस्पर कार्य-कारण- रूपसे सम्बन्ध ही नहीं होगा ॥ १६ ॥
--	--

कथमसंबन्धः ? इत्याह— | उनका किस प्रकार सम्बन्ध नहीं होगा ? सो बतलाते हैं—

फलादुत्पद्यमानः सन्न ते हेतुः प्रसिध्यति ।

अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलमुत्पादयिष्यति ॥ १७ ॥

तुम्हारे मतमें यदि हेतु फलसे उत्पन्न होता है तो वह [ हेतुरूपमें ] सिद्ध ही नहीं हो सकता, और असिद्ध हेतु फलको उत्पन्न कैसे करेगा ? ॥ १७ ॥

जन्यात्स्वतोऽलब्धात्मकात्  
फलादुत्पद्यमानः सञ्शश-  
विपाणादेरिवासतां न हेतुः  
प्रसिध्यति जन्म न लभते ।  
अलब्धात्मकोऽप्रसिद्धः सञ्शश-  
विपाणादिकल्पस्तव कथं फल-  
मुत्पादयिष्यति ? न हीतरेतरा-  
पेक्षसिद्धयोः शशविपाणकल्पयोः  
कार्यकारणभावेन संबन्धः  
कचिद् दृष्टः; अन्यथा वैत्य-  
मिप्रायः ॥ १७ ॥

जन्य अर्थात् जो स्वतः प्राप्त नहीं है उस शशशृङ्गके समान असत् फलसे उत्पन्न होनेवाला होनेपर तो हेतु ही सिद्ध नहीं होना अर्थात् उसीका जन्म नहीं हो सकता । इस प्रकार शशशृङ्गके समान जिसकी स्वतः उपलब्धि नहीं है वह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे मतमें किस प्रकार फल उत्पन्न कर देगा ? एक-दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध होनेवाले तथा शशशृङ्गके समान सर्वथा असत् पदार्थोंका कार्य-कारण-भावसे अथवा क्रिमी और प्रकार कभी सम्बन्ध नहीं देखा गया—यह इसका अभिप्राय है ॥ १७ ॥

यदि हेतोः फलात्सिद्धिः फलसिद्धिश्च हेतुतः ।

कतरत्पूर्वनिष्पन्नं यस्य सिद्धिरपेक्षया ॥ १८ ॥

[ तुम्हारे मतमें ] यदि फलसे हेतुकी सिद्धि होती है और हेतुसे फलकी सिद्धि होती है तो उनमें पहले कौन हुआ ? जिसकी अपेक्षासे कि दूसरेका आनिर्भाव माना जाय ? ॥ १८ ॥



असंबन्धतादोषेणापोदितेऽपि  
हेतुफलयोः कार्यकारणभावे यदि  
हेतुफलयोरन्योन्यसिद्धिरभ्युप-  
गम्यत एव त्वया कतरत्पूर्व-  
निष्पन्नं हेतुफलोर्यस्यपश्चाद्भा-  
विनः सिद्धिः स्यात्पूर्वसिद्धय-  
पेक्षया तद् ब्रूहीत्यर्थः ॥ १८ ॥

हेतु और फलके कार्यकारण-  
भावका असंबन्धतादोषसे निरा-  
करण कर दिया जानेपर भी यदि  
तुम हेतु और फलकी एक-दूसरेसे  
सिद्धि मानते ही हो तो इन हेतु  
और फलमेसे पहले कौन हुआ—सो  
बतलाओ; जिसकी पूर्वसिद्धिकी अपेक्षा-  
से पीछे होनेवालेकी सिद्धि मानी  
जाय?—यह इसका तात्पर्य है ॥ १८ ॥



अथैतन्न शक्यते वक्तुमिति  
मन्यसे—

और यदि तुम ऐसा मानते हो  
कि यह नहीं बतलाया जा सकता  
तो—

अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथ वा पुनः ।

एवं हि सर्वथा बुद्धैरजातिः परिदीपिता ॥ १९ ॥

यह अशक्ति ( असामर्थ्य ) अज्ञान है, अथवा फिर तो इससे उपर्युक्त  
क्रमका भी विपर्यय हो जाता है [ क्योंकि इनके पूर्वापरत्वका ज्ञान न होनेसे  
इनमें जो पूर्ववर्ती है वह कारण है और पीछे होनेवाला कार्य है ऐसा  
कोई नियम भी नहीं रह सकता ] । इस प्रकार उन बुद्धिमानोंने सर्वथा  
अजातिको ही प्रकाशित किया है ॥ १९ ॥

सेयमशक्तिरपरिज्ञानं तच्च-  
विवेको मूढतेत्यर्थः । अथ वा  
योऽयं त्वयोक्तः क्रमो हेतोः  
फलस्य सिद्धिः फलाच्च हेतोः  
सिद्धिरितीतरेतरानन्तर्यलक्षण-  
स्तस्य कोपो विपर्यासोऽन्यथाभावः

यह अशक्ति [ तुम्हारा ] अपरि-  
ज्ञान—तच्चका अविवेक अर्थात्  
मूढ़ता ही है । अथवा तुमने जो  
एक-दूसरेका पूर्वपर्ययरूप यह क्रम  
बतलाया है कि हेतुसे फलकी सिद्धि  
होती है और फलसे हेतुकी, उसका  
कोप—विपर्यास अर्थात् अन्यथाभाव

स्यादित्यभिप्रायः । एवं हेतु-  
 फलयोः कार्यकारणभावानुप-  
 पत्तेरजातिः सर्वस्यानुत्पत्तिः  
 परिदीपिता प्रकाशितान्योन्य-  
 पक्षदोष द्युरद्धिर्वादिमिर्बुद्धैः  
 पण्डितैरित्यर्थः ॥ १९ ॥

हो जायगा—ऐसा इसका अभिप्राय है।  
 इस प्रकार हेतु और फलका कार्य-  
 कारणभाव असम्भव होनेके कारण  
 एक-दूसरेके पक्षका दोष बताने-  
 वाले प्रतिपक्षी बुद्धिमानों अर्थात्  
 पण्डितोंने सबकी अजाति—अनुत्पत्ति  
 ही प्रकाशित की है ॥ १९ ॥

ननु हेतुफलयोः कार्यकारण-  
 भाव इत्यस्मामिरुक्तं शब्दमात्र-  
 माश्रित्यच्छलमिदं त्वयोक्तं  
 पुत्राज्जन्म पितुर्यथा, विषाण-  
 वच्चासंवन्य इत्यादि । न  
 तस्मामिरसिद्धाद्वेतोः फलसिद्धि-  
 रमिद्धाद्वा फलाद्वेतुसिद्धिरभ्युप-  
 गता । किं तर्हि ? बीजाङ्कुर-  
 वत्कार्यकारणभावोऽभ्युपगम्यत  
 इति ।

अत्रोच्यते—

बीजाङ्कुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि सः ।

न हि साध्यसमो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते ॥ २० ॥

बीजाङ्कुर नामका जो दृष्टान्त है वह तो सदा साध्यके ही समान  
 है । और जो हेतु साध्यके ही सदरा होता है वह साध्यकी सिद्धिमें  
 उपयोगी नहीं होता ॥ २० ॥

पूर्व०—हमने जो कहा कि हेतु  
 और फलका परस्पर कार्य-कारणभाव  
 है, सो तुमने हमारे शब्दमात्रको  
 पकड़कर छलपूर्वक ऐसा कह दिया  
 कि 'जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होना  
 है' [ दायें-बायें ] सींगोंके समान  
 [ उनका परस्पर ] सम्बन्ध ही नहीं  
 हो सकता' इत्यादि । हमने असिद्ध  
 हेतुसे फलकी सिद्धि कभी नहीं  
 मानी । तो फिर क्या माना है ?  
 हम तो बीज और अङ्कुरके समान  
 केवल उनका कार्य-कारणभाव  
 मानते हैं ।

सिद्धान्ती—इसपर हमें यह  
 कहना है कि—

बीजाङ्कुराख्यो दृष्टान्तो यः

बीजाङ्कुर दृष्टान्तस्य  
साध्यसमत्वम्

स साध्ये तुल्यो

ममेत्यभिप्रायः ।

ननु प्रत्यक्षः

कार्यकारणभावो बीजाङ्कुर-

योरनादिः ? न, पूर्वस्य पूर्वस्या-

परवदादिमत्त्वाभ्युपगमात् ।

यथेदानीमुत्पन्नोऽपरोऽङ्कुरो बीजा-

दादिमान्वीजं चापरमन्यस्माद-

ङ्कुरादिति क्रमेणोत्पन्नत्वा-

दादिमत् । एवं पूर्वः पूर्वोऽङ्कुरो

बीजं च पूर्वं पूर्वमादिमदेवेति

प्रत्येकं सर्वस्य बीजाङ्कुरजात-

स्यादिमत्त्वात्कस्यचिदप्यनादि-

त्वानुपपत्तिः । एवं हेतुफलानाम् ।

अथ बीजाङ्कुरसन्ततेरनादि-

मत्त्वमिति चेत् ? न,

बीजाङ्कुर-  
संगतिनिरासः

एकत्वानुपपत्तेः । न

हि बीजाङ्कुरव्यति-

रेकेण बीजाङ्कुरसन्ततिनिर्मिका-

भ्युपगम्यते हेतुफलसन्ततिर्वा

तदनादित्ववादिभिः तस्मात्सूक्तं

बीजाङ्कुर नामका जो दृष्टान्त है

वह तो साध्यके ही समान है—ऐसा

मेरा अभिप्राय है । यदि कहो कि

बीज और अङ्कुरका कार्य-कारणभाव

तो प्रत्यक्ष ही अनादि है, तो ऐसी

बात नहीं है क्योंकि उनमेंसे पूर्व-

पूर्व [ अङ्कुर और फल ] को परवर्तियों-

के समान आदिमान् माना गया

है । जिस प्रकार इस समय बीजसे

उत्पन्न हुआ दूसरा अङ्कुर आदिमान्

है उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अङ्कुरसे

उत्पन्न हुआ दूसरा बीज भी आदिमान्

है । इस प्रकार पूर्व-पूर्व अङ्कुर और

पूर्व-पूर्व बीज आदिमान् ही है ।

अतः सम्पूर्ण बीजाङ्कुरवर्गीका प्रत्येक

बीज और अङ्कुर आदिमान् होनेके

कारण किसीका भी अनादि होना

असम्भव है । यही न्याय हेतु और

फलके विषयमें भी समझना चाहिये ।

यदि कहो कि बीजाङ्कुरपरम्परा

तो अनादि हो ही सकती है; तो

ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि

उसका एकत्व नहीं माना गया ।

हेतु-फलका अनादित्व प्रतिपादन

करनेवालोंने बीज और अङ्कुरसे

भिन्न बीजाङ्कुरपरम्परा अथवा हेतु-

फलपरम्परा नामका कोई एक

स्वतन्त्र पदार्थ नहीं माना । अतः

हेतोः फलस्य चानादिः कथं  
 तैरुपवर्ण्यत इति । तथा चान्य-  
 दप्यनुपपत्तेर्नञ्छलमित्यभिप्रायः।  
 न च लोके साध्यसमो हेतुः  
 साध्यसिद्धौ मिद्धिनिमित्तं  
 प्रयुज्यते प्रमाणकुशलैरित्यर्थः ।  
 हेतुरिति दृष्टान्तोऽत्राभिप्रेतः,  
 गमकत्वात् । प्रकृतो हि दृष्टान्तो  
 न हेतुरिति ॥ २० ॥

वे लोग हेतु और फलका अनादित्व  
 किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं'  
 यह कथन बहुत ठीक है। इसकेसिवा  
 अनुपपत्ति होनेके कारण भी हमारा  
 कथन छल नहीं है—ऐसा इसका  
 तात्पर्य है। अभिप्राय यह है कि  
 लोकमें प्रमाणकुशल पुरुषोंद्वारा  
 साध्यकी सिद्धिके लिये साध्यके ही  
 सदृश हेतुका प्रयोग नहीं किया  
 जाता। यहाँ 'हेतु' शब्दका अभिप्राय  
 दृष्टान्त है, क्योंकि वह उसीका  
 ज्ञापक है, यहाँ दृष्टान्तका ही प्रकरण  
 भी है—हेतुका नहीं ॥ २० ॥

### अजातवाद निरूपण

कथं बुद्धैरजातिः परिदीपिते-  
 त्याह—

पण्डितोंने अजातिको ही किस  
 प्रकार प्रकाशित किया है? इसका  
 कहते हैं—

पूर्वापरापरिज्ञानमजाते

परिदीपकम् ।

जायमानाद्धि वै धर्मात्कथं पूर्वं न गृह्यते ॥ २१ ॥

[ हेतु और फलके ] पौर्वापर्यका जो अज्ञान है वह अनुत्पत्तिक  
 ही प्रकाशक है, क्योंकि यदि कार्य [ सचमुच ] उत्पन्न हुआ होता तो  
 उसका कारण क्यों न ग्रहण किया जाता ॥ २१ ॥

यदेतद्वेतुफलयोः पूर्वापरापरि-  
 ज्ञानं तच्चैतदजातेः परिदीपकम्-  
 वबोधकमित्यर्थः । जायमानो हि

यह जो हेतु और फलके पौर्वा-  
 पर्यका अज्ञान है वह अजातिका ही  
 परिदीपक अर्थात् ज्ञापक है। यदि  
 कार्य उत्पन्न होता ग्रहण किया

चेद्धर्मो गृह्यते, कथं तस्मात्पूर्व जाता है । तो उससे पूर्ववर्ती कारण  
 कारणं न गृह्यते । अवश्यं हि क्यो नहीं ग्रहण किया जाता ?  
 जायमानस्य ग्रहीत्रा तज्जनकं उत्पन्न होनेवाली वस्तुको ग्रहण  
 ग्रहीतव्यम् । जन्यजनकयोः करनेवाले पुरुषद्वारा उसकी उत्पत्ति-  
 संबन्धस्यानपेतत्वात् । तस्माद्- का कारण भी अवश्य ही ग्रहण  
 जातिपरिदीपकं तदित्यर्थः ॥२१॥ किया जाना चाहिये, क्योंकि जन्य  
 और जनक पदार्थोंका सम्बन्ध  
 अनिवार्य है । इसलिये तात्पर्य यह  
 है कि यह अजातिका ही प्रकाशक  
 है ॥ २१ ॥

सदसदादिवादोंकी अनुपपत्ति

इत्थं न जायते किञ्चित्, इसलिये भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं  
 यज्जायमानं वस्तु— होती क्योंकि उत्पन्न होनेवाली वस्तु—  
 स्वतो वा परतो वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते ।  
 सदसत्सदसद्वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते ॥२२॥

स्वतः अथवा परतः [ किसी भी प्रकार ] कोई वस्तु उत्पन्न नहीं  
 होती; क्योंकि सत्, असत् अथवा सदसत् ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न  
 नहीं होती ॥ २२ ॥

स्वतः परत उभयतो वा अपनेसे, दूसरेसे अथवा दोनोंहीसे  
 सदसत्सदसद्वा न जायते न सत्, असत् अथवा सदसद्रूपसे  
 तस्य केनचिदपि प्रकारेण जन्म उत्पन्न नहीं होती—किसी भी प्रकार  
 संभवति । न तावत्स्वयमेवापरि- उसका जन्म होना सम्भव नहीं है ।  
 निष्पन्नात्स्वतः स्वरूपात्स्वयमेव जिस प्रकार घड़ा उसी घड़ेसे उत्पन्न  
 जायते यथा घटस्तस्मादेव घटात् नहीं हो सकता उसी प्रकार कोई  
 नापि परतोऽन्यत्सादन्यो यथा भी वस्तु स्वयं अपने अतिनिष्पन्न  
 ( पूर्णतया तैयार न हुए ) स्वरूपसे  
 स्वतः ही उत्पन्न नहीं हो सकती ।  
 और न किसी अन्यसे ही अन्यकी

घटात्पटः पटात्पटान्तरम् । तथा  
नोमयतः, विरोधात्; यथा  
घटपटाभ्यां घटः पटो वा  
न जायते ।

ननु मृदो घटो जायते पितृश्च  
पुत्रः । सत्यम्, अस्ति जायत  
इति प्रत्ययः शब्दश्च मूढानाम् ।  
तावेव शब्दप्रत्ययौ विवेकिभिः  
परीक्ष्येते किं सत्यमेव तावुत  
मृपेति । यावत्ता परीक्ष्यमाणे  
शब्दप्रत्ययविषयं वस्तु घट-  
पुत्रादिलक्षणं शब्दमात्रमेव तत् ।  
“वाचारम्भणम्” ( छा० उ०  
६ । १ । ४ ) इति श्रुतेः ।

सच्चेन्न जायते सत्त्वान्मृत्पित्रा-

दिवत् । यद्यसत्तथापि न जायते-

ऽसत्त्वादेव शशविषाणादिवत् ।

उत्पत्ति हो सकती है, जैसे घटमे  
पटकी अथवा पटसे पटान्तरकी ।  
तथा इसी तरह विरोध होनेके कारण  
दोनोंसे भी किसीकी उत्पत्ति नहीं  
हो सकती, जिस प्रकार कि घट  
और पट दोनोंसे घट या पट कोई  
उत्पन्न नहीं हो सकता ।

यदि कहो कि मिट्टीसे घडा  
उत्पन्न होता है और पितासे पुत्रका  
जन्म होता है तो, ठीक है, परन्तु  
‘उत्पन्न होता है’ ऐसा शब्द और  
उसकी प्रतीति मूर्खोंको ही हुआ  
करती है । विवेकी लोग तो उन  
शब्द और प्रतीतिकी-वे सत्य हैं  
अथवा मिथ्या-इस प्रकार परीक्षा  
क्रिया करते हैं । किन्तु परीक्षा की  
जानेपर तो शब्द और उसकी  
प्रतीतिकी विषयभूत घट अथवा  
पुत्रादिरूप वस्तु केवल शब्दमात्र ही  
है, जैसा कि “वाचारम्भणम्”  
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है ।

यदि वस्तु सत् ( विद्यमान )  
है तो मृत्तिका और पिता आदिके  
समान सत् होनेके कारण ही उत्पन्न  
नहीं हो सकती । यदि असत् है,  
तो भी शशशृङ्गादिके समान असत्  
होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो  
सकती । और यदि सदसत् है तो

अथ सदसत्तथापि न जायते  
विरुद्धस्यैकस्यासंभवात् । अतो  
न किञ्चिद्वस्तु जायत इति सिद्धम् ।

येषां पुनर्जनिरेव जायत  
इति क्रियाकारकफलैकत्वम्  
अभ्युपगम्यते क्षणिकत्वं  
च वस्तुनः, ते दूरत एव  
न्यायापेताः । इदमित्थमित्यत्र-  
धारणक्षणान्तरानवस्थानादननु-  
भूतस्य स्मृत्यनुपपत्तेश्च ॥ २२ ॥

भी उत्पन्न नहीं हो सकती; क्योंकि  
एक ही वस्तु विरुद्ध स्वभाववाली  
होनी असम्भव है । अतः यही  
सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु उत्पन्न  
नहीं होती ।

इसके विपरीत जिन ( बौद्धों ) के  
मतमें जन्मक्रियाका ही जन्म होता  
है--इस प्रकार जो क्रिया, कारक और  
फलकी एकता तथा वस्तुका क्षणिकत्व  
स्वीकार करते हैं वे तो विल्कुल ही  
युक्तिशून्य हैं; क्योंकि 'यह ऐसा है'  
इस प्रकार निश्चय करनेके क्षणसे  
दूसरे ही क्षणमें स्थिति न रहनेके  
कारण [ पदार्थका अनुभव नहीं  
हो सकता ]; और बिना अनुभव  
हुए पदार्थकी स्मृति होना असम्भव  
है ॥ २२ ॥

हेतु-फलका अनादित्व उनकी अनुत्पत्तिका सूचक है

किं च हेतुफलयोरनादित्वम-  
भ्युपगच्छता त्वया बलाद्धेतुफल-  
योरजन्मैवाभ्युपगतं स्यात् ।  
तत्कथम् ?

यही नहीं, हेतु और फलका  
अनादित्व स्वीकार करनेवाले तुम्हारे  
द्वारा तो बलात्कारसे हेतु और फलकी  
अनुत्पत्ति ही स्वीकार कर ली गयी है ।  
तो किस प्रकार ?—

हेतुर्न जायतेऽनादेः फलं चापि स्वभावतः ।

आदिर्न विद्यते यस्य तस्य ह्यादिर्न विद्यते ॥ २३ ॥

अनादि फलसे कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी प्रकार  
स्वभावसे ही [ अनादि हेतुसे ] फलकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती,

क्योंकि जिस वस्तुका कोई आदि ( कारण ) नहीं होता उसका आदि ( जन्म ) भी नहीं होता ॥ २३ ॥

अनादेरादिरहितात्फलाद्धेतुर्न  
जायते । न ह्यनुत्पन्नादनादेः  
फलाद्धेतोर्जन्मेभ्यते त्वया । फलं  
चादिरहितादनादेर्हेतोरजात्स्व-  
भावत एव निर्निमित्तं जायत  
इति नाभ्युपगम्यते ।

तस्मादनादित्वमभ्युपगच्छता  
त्वया हेतुफलयोरजन्मैवाभ्युप-  
गम्यते । यस्मादादिः कारणं न  
निघते यस्य लोके तस्य ह्यादिः  
पूर्वोक्ता जातिर्न निघते । कारण-  
वत एव ह्यादिरभ्युपगम्यते  
नाकारणवतः ॥ २३ ॥

अनादि अर्थात् आदिरहित फल-  
से हेतु उत्पन्न नहीं होता । जिसकी  
कभी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि  
फलसे तो तुम हेतुका जन्म मानते  
ही नहीं हो, और न ऐसा ही  
मानते हो कि अनादि—आदिरहित  
अर्थात् अजन्मा हेतुसे बिना किसी  
निमित्तके स्वभावत ही फलकी  
उत्पत्ति हो जाती है ।

अत हेतु और फलका अनादित्व  
माननेवाले तुम्हारे द्वारा उनकी  
अनुत्पत्ति ही स्वीकार कर ली जाती  
है, क्योंकि लोकमें जिस वस्तुका  
आदि—कारण नहीं होता उसका  
आदि अर्थात् पूर्वोक्त जन्म भी नहीं  
होता । जिसका कोई कारण होता है  
उसीका जन्म भी माना जाता है,  
कारणरहित पदार्थका नहीं ॥ २३ ॥

### बाह्यार्थवाद निरूपण

उक्तस्यैवार्थस्य दृढीकरण- | पूर्वोक्त अर्थको ही पुष्ट करनेकी  
चिकीर्षया पुनराक्षिपति— | इच्छासे फिर दोष प्रदर्शित करते हैं—

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमन्यथा द्वयनाशतः ।

संक्लेशस्योपलब्धेश्च परतन्त्रास्तित्वा मता ॥ २४ ॥

प्रज्ञप्ति ( शब्दस्पर्शादि ज्ञान ) को सनिमित्त ( बाध्यविषययुक्त )  
मानना चाहिये, नहीं तो [ शब्दस्पर्शादि ] द्वैतका नाश हो जायगा ।



इसके सिवा [ अग्निदाह आदि ] क्लेशकी उपलब्धिसे भी अन्य मता-  
वलम्बियोंके शास्त्रद्वारा प्रतिपादित द्वैतकी सत्ता मानी गयी है ॥ २४ ॥

प्रज्ञानं प्रज्ञप्तिः शब्दादि-  
प्रतीतिस्तस्याः सनिमित्तत्वम्;  
निमित्तं कारणं विषय इत्ये-  
तत्सनिमित्तत्वं , सविषयत्वं  
स्वात्मव्यतिरिक्तविषयतेत्येतत्  
प्रतिजानीमहे । न हि निर्विषया  
प्रज्ञप्तिः शब्दादिप्रतीतिः स्यात्,  
तस्याः सनिमित्तत्वात् । अन्यथा  
निर्विषयत्वे शब्दस्पर्शनीलपीत-  
लोहितादिप्रत्ययवैचित्र्यस्य द्वयस्य  
नाशतो नाशोऽभावः प्रसज्येते-  
त्यर्थः । न च प्रत्ययवैचित्र्यस्य  
द्वयस्याभावोऽस्ति प्रत्यक्षत्वात् ।  
अतः प्रत्ययवैचित्र्यस्य द्वयस्य  
दर्शनात्, परेषां तन्त्रं परतन्त्र-  
मित्यन्यशास्त्रम्, तस्य परतन्त्रस्य  
परतन्त्राश्रयस्य वाच्यार्थस्य ज्ञान-  
व्यतिरिक्तस्थास्तिता मताभिप्रेता ।

न हि प्रज्ञप्तेः प्रकाशमात्रस्व-  
रूपाया नीलपीतादिवाह्यालम्बन-

प्रज्ञान अर्थात् शब्दादि-प्रतीति-  
का नाम प्रज्ञप्ति है । वह सनिमित्त  
है । निमित्त-कारण अर्थात् विषयको  
कहते हैं; अतः सनिमित्त—सविषय  
यानी अपनेसे अतिरिक्त विषयके  
सहित है—ऐसी हम [ उसके विषय-  
में ] प्रतिज्ञा करते हैं । [ अर्थात्  
हमारा कथन है कि ] प्रज्ञप्ति यानी  
शब्दादि-प्रतीति निर्विषया नहीं हो  
सकती, क्योंकि वह सनिमित्ता है ।  
अन्यथा उसे निर्विषय माननेपर तो  
शब्द, स्पर्श एवं नील, पीत और  
लोहित आदि प्रतीतिकी विचित्रता-  
रूप द्वैतका नाश हो जायगा  
अर्थात् उसके नाश यानी अभावका  
प्रसंग उपस्थित हो जायगा और  
प्रत्यक्ष-सिद्ध होनेके कारण प्रत्यय-  
वैचित्र्यरूप द्वैतका अभाव है नहीं ।  
अतः प्रत्ययवैचित्र्यरूप द्वैतकी  
उपलब्धिसे, परतन्त्र यानी दूसरोंके  
शास्त्र; उन परकीय तन्त्रोंका  
अर्थात् परकीय तन्त्रोंके आश्रित जो  
प्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य वाच्य पदार्थ  
हैं उनका अस्तित्व भी स्वीकार  
किया गया है ।

केवल प्रकाशमात्ररूपा प्रज्ञप्ति-  
की यह विचित्रता नील-पीतादि

वैचित्र्यमन्तरेण स्वभावभेदेनैव  
वैचित्र्यं संभवति । स्फटिकस्यैव  
नीलाद्युपाध्याश्रयैर्विना वैचित्र्यं  
न घटत इत्यभिप्रायः ।

इतश्च परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थ-  
स्य ज्ञानव्यतिरिक्तस्यास्तित्वा ।  
संकलेशन संक्षेपो दुःखमित्यर्थः ।  
उपलभ्यते द्यप्रिदाहादिनिमित्तं  
दुःखम् । यद्यन्यादिबाह्यां दाहादि-  
निमित्तं विज्ञानव्यतिरिक्तं न  
स्यात्ततो दाहादिदुःखं नोप-  
लभ्येत । उपलभ्यते तु । अतस्तेन  
मन्यामहेऽस्ति बाह्योऽर्थ इति ।  
न हि विज्ञानमात्रे संकलेशो युक्तः,  
अन्यत्रादर्शनादित्यभिप्रायः ॥२४॥

बाह्य आलम्बनोंकी विचित्रताके  
सिवा केवल स्वभावभेदसे ही होनी  
संभव नहीं है । तात्पर्य यह है  
कि स्फटिकके समान, नील-पीतादि  
उपाधियोंको आश्रय किये बिना,  
यह विचित्रता नहीं हो सकती ।

इसके सिवा इसलिये भी दुसरो-  
के शास्त्रोंके आश्रित ज्ञानव्यतिरिक्त  
बाह्य पदार्थोंका अस्तित्व स्वीकार  
किया गया है कि अग्निदाहादि-  
के कारणसे होनेवाला संकलेश यनों  
दुःख उपलब्ध होता है । संकलेशका  
अर्थ संकलेशन अर्थात् दुःख है । यदि  
विज्ञानमे अतिरिक्त दाहादिका  
निमित्तभूत अग्नि आदि कोई बाह्य  
पदार्थ न होता तो दाहादिजनित  
दुःख उपलब्ध नहीं होना चाहिये  
था । किन्तु उपलब्ध होता ही है,  
इसमे हम मानते हैं कि बाह्य पदार्थ  
अस्तित्व है । अभिप्राय यह है कि  
केवल विज्ञानमात्रमे कलेश होना  
संभव नहीं है, क्योंकि अन्यत्र  
देसा नहीं देखा गया ॥ २४ ॥

विज्ञानवादिकर्तृक बाह्यार्थबादानिषेध

अप्रोच्यते—

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमिष्यते

निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते

इस विषयमें हमारा कथन है कि—

युक्तिदर्शनात् ।

भूतदर्शनात् ॥ २५ ॥

पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार तुम प्रज्ञप्तिका सविषयत्व स्वीकार करते हो। परन्तु तत्त्वदृष्टिसे हम उस विषयका अविषयत्व मानते हैं ॥ २५ ॥

घाटमेवं प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं  
द्वयसंक्लेशोपलब्धियुक्तिदर्शना-  
दिष्यते त्वया । स्थिरीभव  
तावच्चं युक्तिदर्शनं वस्तुनस्तथा-  
त्वाभ्युपगमे कारणमित्यत्र ।

ब्रूहि किं तत्र इति ।

उच्यते । निमित्तस्य प्रज्ञ-  
प्त्यालम्बनाभिमतस्य घटादेर-  
निमित्तत्वमनालम्बनत्वं वैचित्र्या-  
हेतुत्वमिष्यतेऽस्माभिः । कथम् ?  
भूतदर्शनात्परमार्थदर्शनादित्ये-  
तत् । न हि घटो यथाभूतमृद्वूप-  
दर्शने सति तद्व्यतिरेकेणास्ति,  
यथाश्वान्महिषः घटो वा तन्तु-  
व्यतिरेकेण, तन्तवश्चांशुव्यति-  
रेकेणेत्येवमुत्तरोत्तरभूतदर्शन आ  
शब्दप्रत्ययनिरोधान्नैव निमित्त-  
मुपलभामह इत्यर्थः ।

ठीक है, इस प्रकार दुःखमय  
द्वैतकी उपलब्धिरूप युक्तिके अनुसार  
तुम प्रज्ञप्तिका सविषयत्व स्वीकार  
करते हो; परन्तु 'युक्तिदर्शन वस्तुकी  
यथार्थताके ज्ञानमें कारण है'—अपने  
इस सिद्धान्तमें तुम स्थिर हो जाओ ।

वाह्यार्थवादी—कहिये, उससे क्या  
आपत्ति होती है ?

विज्ञानवादी—हमारा कथन है  
कि प्रज्ञप्तिके आश्रयरूपसे स्वीकार  
किये हुए घटादि विषयका हम  
अविषयत्व—प्रतीतिका अनाश्रयत्व  
अर्थात् विचित्रताका अहेतुत्व मानते  
हैं । कैसे मानते हैं ? भूतदृष्टिसे  
अर्थात् परमार्थदृष्टिसे । जिस प्रकार  
अश्वसे महिष पृथक् है, उस प्रकार  
मृत्तिकाके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान  
होनेपर, घट उससे पृथक् सिद्ध नहीं  
होता । इसी प्रकार तन्तुसे पृथक्  
पट और अंशुसे पृथक् तन्तु भी  
सिद्ध नहीं होते । तात्पर्य यह है  
कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ  
तत्त्वको देखते-देखते शब्द-प्रतीतिका  
निरोध हो जानेपर हम कोई भी  
विषय नहीं देखते ।

अथ वाभूतदर्शनाद्वाह्यार्थ-  
स्यानिमित्तत्वमिष्यते, गज्जा-  
दादिव सर्पादेरित्यर्थः । भ्रान्ति-  
दर्शनविषयत्वाच्च निमित्तस्या-  
निमित्तत्वं भवेत् । तदभावे-  
ऽभावात् न हि सुषुप्तममाहित-  
मुक्तानां भ्रान्तिदर्शनाभाव  
आत्मव्यतिरिक्तो बाह्योऽर्थ  
उपलभ्यते । न ह्युन्मत्तावगतं  
वस्त्वनुन्मत्तरपि तथाभूतंगम्यते ।  
एतेन द्वयदर्शनं संकलेशोपलब्धिश्च  
प्रत्युक्ता ॥ २५ ॥

अथवा [ यों समझे कि ] जिस  
प्रकार रज्जु आदिमें आरोपित सर्पादि  
वस्तुतः प्रतीतिके आत्म्यन नहीं हैं  
उसी प्रकार अभूतदर्शनके कारण  
हम बाह्यार्थको प्रतीतिका आत्म्यन  
नहीं मानते । भ्रान्तिदृष्टिके विषय  
होनेके कारण इन निमित्तोंका  
अनिमित्तत्व है, क्योंकि उसका अभाव  
होनेपर इनकी भी उपलब्धि नहीं  
होती । सोये हुए, समाप्तिस्थ और  
मुक्त पुरुषोंको, उनकी भ्रान्तिदृष्टिका  
अभाव हो जानेपर, आत्मामे अनिर्गुण  
किसी बाह्य पदार्थकी उपलब्धि नहीं  
होती । उन्मत्त पुरुषको दिवायी  
देनेवाली वस्तु उन्मादशून्य मनुष्यको  
भी यथार्थ नहीं जान पड़ती । इस  
कथनसे द्वैतदर्शन और कलेशकी  
उपलब्धि दोनोंहीका निराकरण  
किया गया है ॥ २५ ॥

यस्मान्नास्ति बाह्यं निमित्तमतः—

क्योंकि बाह्य विषय है ही नहीं,  
इसलिये—


चित्तं न संस्पृशत्यर्थं नार्थाभासं तथैव च ।

अभूतो हि यतश्चार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक् ॥ २६ ॥

चित्त किसी पदार्थका स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी  
अर्थाभासका ही ग्रहण करता है । क्योंकि पदार्थ है ही नहीं इसलिये  
पदार्थाभास भी उस चित्तमे पृथक् नहीं है ॥ २६ ॥

चित्तं न स्पृशत्यर्थं बाह्या-  
लम्बनविषयम्, नाप्यर्थाभासं  
चित्तत्वात्स्वप्नचित्तवत् । अभूतो  
हि जागरितेऽपि स्वप्नार्थवदेव  
बाह्यः शब्दाद्यर्थो यत उक्तहेतु-  
त्वाच्च । नाप्यर्थाभासधि-  
त्तात्पृथक्चित्तमेव हि घटाद्यर्थ-  
वदवभासते यथा स्वप्ने ॥ २६ ॥

चित्त, चित्त होनेके कारण ही  
स्वप्नचित्तके समान, बाह्य आलम्बन-  
के विषयभूत किसी पदार्थको स्पर्श  
नहीं करता और न अर्थाभासको ही  
ग्रहण करता है, क्योंकि उपर्युक्त  
हेतुसे ही स्वप्नगत पदार्थके समान  
जागरित अवस्थामें भी शब्दादि बाह्य  
पदार्थ हैं नहीं, और न चित्तसे  
पृथक् अर्थाभास ही है । घटादि  
पदार्थके समान चित्त ही भासता  
है, जैसा कि वह स्वप्नमें भासा  
करता है ॥ २६ ॥



ननु विपर्यासस्तर्हसति  
घटादौ घटाद्याभासता चित्तस्य ।  
तथा च सत्यविपर्यासः क्वचि-  
द्वक्तव्य इति । अत्रोच्यते—

घटादिके न होनेपर भी चित्तको  
घटादिकी प्रतीति होना—यह तो  
विपरीत ज्ञान है । ऐसी अवस्थामें  
अविपरीत ( सम्यक् ) ज्ञान कब  
होगा ? यह बतलाना चाहिये ।  
इसपर कहते हैं—

निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु ।

अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७ ॥

[ भूत, भविष्यत् और वर्तमान ] तीनों अवस्थाओंमें चित्त कभी  
किसी विषयको स्पर्श नहीं करता । फिर उसे बिना निमित्तके ही विपरीत  
ज्ञान कैसे हो सकता है ? ॥ २७ ॥

निमित्तं विषयमतीतानागत-  
वर्तमानाध्वसु त्रिष्वपि सदा  
चित्तं न स्पृशेदेव हि । यदि हि

अतीत, अनागत और वर्तमान—  
इन तीनों ही अवस्थाओंमें चित्त कभी  
निमित्त यानी विषयको स्पर्श नहीं

कचित् संस्पृशेत् सोऽविपर्यासः  
परमार्थ इति । अतस्तदपेक्षया-  
सति घटे घटाद्याभासता विपर्यासः  
स्यान्न तु तदस्ति कदाचिदपि  
चित्तस्वार्थसंस्पर्शनम् । तस्माद्-  
निमित्तो विपर्यासः कथं तस्य  
चित्तस्य भविष्यति; न कथंचिद्वि-  
पर्यासोऽस्तीत्यभिप्रायः । अयमेव  
हि स्वभावश्चित्तस्य यदुत्तासति  
निमित्ते घटादीं तद्वदवभासनम् २७

करता । यदि वह कभी उमे स्पर्श  
करता तो 'वह अविपर्यास अर्थात्  
परमार्थ है' ऐसा माना जाता । अब  
उसकी अपेक्षासे ही घटके न होनेपर  
भी घटका प्रतीत होना विपर्यास  
कहलाता । किन्तु चित्तका पदार्थके  
साथ कभी स्पर्श है ही नहीं । अतः  
त्रिणा निमित्तके ही उस चित्तको  
विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है ?  
तात्पर्य यह है कि उसे किसी प्रकार  
विपरीत ज्ञान है ही नहीं । चित्तका  
यही स्वभाव है कि घटादि निमित्तके  
न होनेपर भी उनकी प्रतीति होती  
रहे ॥ २७ ॥

### विज्ञानवादका सण्डन

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमित्याद्ये-  
तदन्तं विज्ञानादिनो बौद्धस्य  
वचनं बाह्यार्थवादिपक्षप्रतिषेध-  
परमाचार्येणानुमोदितम् । तदेव  
हेतुं कृत्वा तत्पक्षप्रतिषेधाय  
तदिदमुच्यते—

'प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम्' इस  
( पक्षीसर्प ) श्लोकसे लेकर यहाँतक  
आचार्यने विज्ञानवादी बौद्धके/  
बाह्यार्थवादीके पक्षका प्रतिषेध करने-  
वाले वचनका अनुमोदन किया । अब  
उसीको हेतु बनाकर उसीके पक्षका  
प्रतिषेध करनेके लिये इस प्रकार  
कहा जाता है—

तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते ।

तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे वै पश्यन्ति ते पदम् ॥ २८ ॥

इसलिये चित्त भी उत्पन्न नहीं होता और न चित्तका दृश्य ही  
उत्पन्न होता है । जो लोग उसका जन्म देखते हैं वे निश्चय ही आकाशमें  
[ पक्षी आदिके ] चरण ( चरण-चिह्न ) देखते हैं ॥ २८ ॥

यस्मादसत्येव घटादौ घटाद्या-  
भासता चित्तस्य विज्ञानवादिना-  
भ्युपगता तदनुमोदि-  
तम् अस्माभिरपि भूतदर्शनात्,  
तस्मात्तस्यापि चित्तस्य जायेमाना-  
वभासतासत्येव जन्मनि युक्ता  
भवितुमित्यतो न जायते चित्तम्,  
यथा चित्तदृश्यं न जायते ।

अतस्तस्य चित्तस्य ये जातिं  
पश्यन्ति विज्ञानवादिनः क्षणि-  
कत्वदुःखित्वशून्यत्वानात्मत्वादि-  
च, तेनैव चित्तेन चित्तस्वरूपं  
द्रष्टुमशक्यं पश्यन्तः खे वै  
पश्यन्ति ते पदं पक्ष्यादीनाम् ।  
अत इतरेभ्योऽपि द्वैतिभ्यो-  
ऽत्यन्तसाहसिका इत्यर्थः येऽपि  
शून्यवादिनः पश्यन्त एव  
सर्वशून्यतां स्वदर्शनस्यापि  
शून्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि  
साहसिकतराः खं मुष्टिनापि  
जिघृक्षन्ति ॥ २८ ॥

क्योंकि विज्ञानवादीने घटादिके  
न होनेपर भी चित्तको घटादिकी  
प्रतीति होनी स्वीकार की है और  
यथार्थदृष्टि होनेके कारण उसका  
हमने भी अनुमोदन किया है,  
इसलिये उसकी मानी हुई चित्तकी  
उत्पत्तिकी प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति-  
के अभावमें ही होनी सम्भव है ।  
अतः जिस प्रकार चित्तके दृश्यका  
जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त-  
की भी उत्पत्ति नहीं होती ।

इसलिये जो विज्ञानवादी उस  
चित्तकी उत्पत्ति तथा उसके  
क्षणिकत्व, दुःखित्व, शून्यत्व एवं  
अनात्मत्व आदि देखते हैं—उस  
चित्तसे ही, जिसका देखना सर्वथा  
असम्भव है ऐसे चित्तके स्वरूपको  
देखनेवाले वे निश्चय ही आकाशमें  
पक्षी आदिके चरण देखते हैं । अतः  
तात्पर्य यह है कि वे अन्य द्वैत-  
वादियोंकी अपेक्षा भी अधिक साहसी  
हैं और जो शून्यवादी सबकी  
शून्यता देखते हुए अपने दर्शनकी  
भी शून्यताकी प्रतिज्ञा करते हैं वे  
तो उनसे भी बढ़कर साहसी हैं—वे  
आकाशको मुट्टीसे ही पकड़ना  
चाहते हैं ॥ २८ ॥

उपक्रमका उपसहार

उक्तहेतुभिरजमेकं	ब्रह्मेति	पूर्वोक्त हेतुओंसे यह सिद्ध हुआ कि एक अजन्मा ब्रह्म ही है। अतः, पहले जिसका प्रतिज्ञा की है उसके फलका उपसहार करनेके लिये यह
सिद्धं यत्पुनरादौ	प्रतिज्ञातं	फलका उपसहार करनेके लिये यह श्लोक है—
तत्फलोपसंहारार्थोऽयं श्लोकः—		

अजातं जायते यस्माद्जातिः प्रकृतिस्ततः ।

प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति ॥ २९ ॥

क्योंकि अजन्मा [ चित्त ] का ही जन्म होता है इसलिये अजानि ही उसका स्वभाव है, और स्वभावकी विपरीतता किसी प्रकार नहीं होगी ॥ २९ ॥

अजातं यच्चित्तं ब्रह्मैव जायते	अजात जो ब्रह्मरूप चित्त है वही उत्पन्न होता है—ऐसी वादियों-द्वारा कल्पना की जानी है, क्योंकि उस अजातका ही जन्म होना है इसलिये अजानि उसका स्वभाव है। तब, इसीलिये उस अजातरूप स्वभावका जन्मरूप विपरीतभाव किसी प्रकार नहीं होगा ॥ २९ ॥
इति वादिभिः परिकल्प्यते	
तदजातं जायते यस्माद्जातिः	
प्रकृतिस्तस्य । ततस्तस्माद्जात-	
रूपायाः प्रकृतेरन्यथाभावो जन्म	
न कथंचिद्भविष्यति ॥ २९ ॥	

अयं चापर आत्मनः संसार-	आत्माके संसार और मोक्ष-
मोक्षयोः परमार्थसद्भाववादिनां	दोनोंहीका पारमार्थिक अस्तित्व
दोष उच्यते—	स्वीकार करनेवाले वादियोंके पक्षमें यह एक दूसरा दोष बन गया जाता है—



अनादेरन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्स्यति ।

अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥ ३० ॥

अनादि संसारका नो कभी अन्तवत्त्व सिद्ध नहीं हो सकेगा और सादि मोक्षकी कभी अनन्तता नहीं हो सकेगी ॥ ३० ॥

अनादेरतीतकोटिरहितस्य

संसारस्यान्तवत्त्वं समाप्तिर्न

सेत्स्यति युक्तितः सिद्धिं नोप-

यास्यति । न ह्यनादिः सन्नन्त-

वान्कश्चित्पदार्थो दृष्टो लोके ।

वीजाङ्कुरसंबन्धनैरन्तर्यविच्छेदो

इष्ट इति चेत्, न; एकवस्त्व-

भावेनापोदितत्वात् ।

तथानन्ततापि विज्ञानप्राप्ति-

कालप्रभवस्य मोक्षस्यादिमतो न

भविष्यति; घटादिष्वदर्शनात् ।

घटादित्रिनाशवद्वस्तुत्वाददोष

इति चेत्, तथा च मोक्षस्य

परमार्थसद्भावप्रतिज्ञाहानिः ।

अनादि—अनातकोटिसे रहित

संसारका अन्तवत्त्व अर्थात् समाप्त होना युक्तिमे सिद्ध नहीं होगा । लोकमें कोई भी पदार्थ अनादि होकर अन्तवान् होता नहीं देखा गया है । यदि कहो कि वीजाङ्कुरसम्बन्धकी निरन्तरताका विच्छेद होना देखा गया है ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वीजाङ्कुरसन्तति कोई एक पदार्थ न होनेके कारण उसके अनादित्वका निराकरण तो पहले कर दिया गया है ।

इसी प्रकार विज्ञानप्राप्तिके समय होनेवाले सादि मोक्षकी अनन्तता भी नहीं होगी, क्योंकि घटादि [ जन्य पदार्थों ] में ऐसा देखा नहीं गया । यदि कहो कि घटादिनाशके समान अवस्तुरूप होनेसे [ मोक्षमें ] यह दोष नहीं आ सकता तो इससे मोक्षके पारमार्थिक सद्भावविषयक प्रतिज्ञाकी हानि होगी । इसके सिवा [ यदि मोक्षको असद्रूप ही माना जाय तो भी ] उदात्तज्ञके समान असत्

असत्त्वादेव शशविषाणस्येवादि- | होनेके कारण भी उसके आदिमत्व-  
मत्त्वाभावश्च ॥ ३० ॥ | का अभाव ही है ॥ ३० ॥

प्रपञ्चके असत्यत्वमें हेतु

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ।

वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ३१ ॥

जो आदि और अन्तमें नहीं है वह वर्तमानमें भी वैसा [ अर्थात् असद्रूप ] ही है । ये पदार्थसमूह असत्के समान होकर भी सत्-जैसे दिखायी देते हैं ॥ ३१ ॥

सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते ।

तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ॥ ३२ ॥

उन ( जाग्रत् पदार्थों ) की सप्रयोजनता स्वप्नावस्थामें असिद्ध हो जाती है । उन आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय ही मिथ्या माने गये हैं ॥ ३२ ॥

वैतथ्ये	कृतव्याख्यानाँ	वैतथ्यप्रकरणमें इन दोनों श्लोकोंकी व्याख्या की जा चुकी है । यहाँ सत्तार और मोक्षके अभावके प्रसङ्गमें उन्हें फिर पद दिया है ॥ ३१-३२ ॥
श्लोकाविह	संसारमोक्षभाव-	
प्रसङ्गेन पठितौ ॥ ३१-३२ ॥		

सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने कायस्यान्तर्निदर्शनात् ।

संवृतेऽस्मिन्प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः ॥ ३३ ॥

जब कि शरीरके भीतर देखे जानेके कारण स्वप्नावस्थामें सभी पदार्थ मिथ्या हैं तो इस संकुचित स्थानमें ( निरवकाश ब्रह्ममें ) ही मूर्तोंका दर्शन कैसे हो सकता है ? ॥ ३३ ॥

निमित्तस्थानिमित्तत्वमिष्यते

भूतदर्शनादित्ययमर्थः प्रपञ्च्यते

एतैः श्लोकैः ॥ ३३ ॥

इन श्लोकोंद्वारा “निमित्तस्थानि-  
मित्तत्वमिष्यते भूतदर्शनात्”

( ४ । २५ ) इस श्लोकके ही  
अर्थका विस्तार किया गया

है ॥ ३३ ॥

स्वप्नका मिथ्यात्वनिरूपण

न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्यानियमाद्रतौ ।

प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥३४॥

देशान्तरमें जानेमें जो समय लगता है, [ स्वप्नावस्थामें ] उसका नियम न होनेके कारण स्वप्नके पदार्थोंको उनके पास जाकर देखना तो सम्भव नहीं है । इसके सिवा जागनेपर भी कोई उस ( स्वप्नदृष्टि ) देशमें नहीं रहता ॥ ३४ ॥

जागरिते गत्यागमनकालो

नियतो देशः प्रमाणतो यस्तस्या

नियमान्नियमस्याभावात्स्वप्ने न

देशान्तरगमनमित्यर्थः ॥ ३४ ॥

जागृतिमें जो आने-जानेके समय

और प्रमाणसिद्ध देश नियत हैं

उनका नियम न होनेके कारण

स्वप्नावस्थामें देशान्तरमें जाना नहीं

होता—यह इसका अभिप्राय है ॥३४॥

मित्राद्यैः सह संमन्त्र्य संबुद्धो न प्रपद्यते ।

गृहीतं चापि यत्किञ्चित्प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥३५॥

[ स्वप्नावस्थामें ] मित्रादिके साथ मन्त्रणा कर [ वह स्वप्नदर्शी पुरुष ] जागनेपर उसे नहीं पाता; तथा उत्तने जो कुछ [ स्वप्नावस्थामें ] ग्रहण किया होता है उसे जागनेपर नहीं देखता ॥ ३५ ॥

मित्राद्यैः सह संमन्त्र्य तदेव

मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते ।

[ स्वप्नमें ] मित्रादिके साथ

मन्त्रणा करके जाग पड़नेपर फिर

उसी मन्त्रणाको नहीं पाता और

गृहीतं च यत्किंचिद्विरण्यादि  
न प्राप्नोति । अतश्च न देशान्तरं  
गच्छति स्वप्ने ॥ ३५ ॥

[ उस समय ] उसने जो कुछ  
स्वर्णादि ग्रहण किया होता है उसे  
भी प्राप्त नहीं करता । इसलिये भी  
स्वप्नावस्थामें वह किसी देशान्तरको  
नहीं जाता ॥ ३५ ॥

स्वप्ने चावस्तुकः कायः पृथगन्यस्य दर्शनात् ।

यथा कायस्तथा सर्वं चित्तदृश्यमवस्तुकम् ॥ ३६ ॥

स्वप्नमें जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योंकि उससे भिन्न  
एक दूसरा शरीर [ शय्यापर पडा हुआ ] देखा जाता है । जैसा वह  
शरीर है वैसा ही सम्पूर्ण चित्तदृश्य अवस्तुरूप है ॥ ३६ ॥

स्वप्ने चाटन्द्दृश्यते यः कायः

स्वप्नमें घूमता हुआ जो शरीर  
देखा जाता है वह अवस्तु है,  
क्योंकि उस स्वप्नप्रदेशस्थ शरीरमें  
भिन्न एक और शरीर [ शय्यापर  
पडा हुआ ] देखा जाता है । जिस  
प्रकार स्वप्नमें दिखायी देनेवाला  
शरीर असत् है उसी प्रकार जागरित  
अवस्थामें सारा चित्तदृश्य, केवल  
चित्तका ही दृश्य होनेके कारण,  
असत् है—यह इसका तात्पर्य है ।  
प्रकृत अर्थ यह हुआ कि स्वप्नके समान  
होनेके कारण जाग्रत्-अवस्था भी  
असत् ही है ॥ ३६ ॥

सोऽवस्तुकन्ततोऽन्यस्य स्वाप-  
देशस्थस्य पृथक्कायान्तरस्य  
दर्शनात् । यथा स्वप्नदृश्यः  
कायोऽसंस्तथा सर्वं चित्तदृश्यम-  
वस्तुकं जागरितेऽपि चित्तदृश्य-  
त्वादित्यर्थः । स्वप्नसमत्वाद्-  
सजागरितमपीति प्रकरणात् ॥ ३६ ॥

स्वप्न और जाग्रत्का कार्य-कारणत्व व्यावहारिक है

इतथासत्त्वं जाग्रद्वस्तुनः—

जाग्रत्प्रदायोंकी अस्तित्वा इसलिये  
भी है कि—

ग्रहणाज्जागरितवत्तद्देतुः स्वप्न इष्यते ।

यद्देतुत्वात्तु तस्यैव सज्जागरितमिष्यते ॥३७॥

जाग्रत्के समान ग्रहण किया जानेके कारण स्वप्न उसका कार्य माना जाता है । किन्तु जाग्रत्का कार्य होनेके कारण स्वप्नद्रष्टाके लिये ही जाग्रत्-अवस्था सत्य मानी जाती है ॥ ३७ ॥

जागरितवज्जागरितस्य इव  
ग्रहणाद्ग्राह्यग्राहकरूपेण स्वप्नस्य  
तज्जागरितं हेतुरस्य स्वप्नस्य स  
स्वप्नस्तद्देतुर्जागरितकार्यमिष्यते ।  
तद्देतुत्वाज्जागरितकार्यत्वात्तस्यैव  
स्वप्नद्रश्य एव सज्जागरितं न  
त्वन्वेयाम् । यथा स्वप्न इत्य-  
भिप्रायः ।

यथा स्वप्नः स्वप्नद्रश्य एव  
सन्साधारणविद्यमानवस्तुवदव-  
भासते तथा तत्कारणत्वा-  
त्साधारणविद्यमानवस्तुवदव-  
भासमानं न तु साधारणं  
विद्यमानवस्तु स्वप्नवदेत्य-  
भिप्रायः ॥ ३७ ॥

जागरितके समान ही ग्राह्य-  
ग्राहकरूपसे स्वप्नका भी ग्रहण होनेसे  
इस स्वप्नावस्थाका जाग्रत् कारण है,  
इसलिये वह स्वप्नावस्था तद्देतुक  
यानी जाग्रत्का कार्य मानी जाती है ।  
तद्देतुक अर्थात् जाग्रत्का कार्य  
होनेके कारण उस स्वप्नद्रष्टाके ही  
लिये जाग्रत् अवस्था सत्य है, औरोंके  
लिये नहीं; जैसा कि स्वप्न—यह  
इसका तात्पर्य है ।

जिस प्रकार स्वप्न स्वप्नद्रष्टाको  
ही सत् अर्थात् साधारण विद्यमान  
वस्तुके समान भासता है उसी  
प्रकार उसका कारण होनेसे जाग्रत्-  
की भी साधारण विद्यमान वस्तुके  
समान प्रतीति होती है । किन्तु  
वस्तुतः स्वप्नके समान ही वह  
साधारण विद्यमान वस्तु है नहीं—  
यह इसका अभिप्राय है ॥ ३७ ॥

ननु स्वप्नकारणत्वेऽपि शङ्का—स्वप्नके कारण होनेपर भी  
जागरितवस्तुनो न स्वप्नवद- जाग्रत्त्वदार्थोका स्वप्नके समान

वस्तुत्वम् । अत्यन्तचलो हि स्वप्नो जागरित तु स्थिरं लक्ष्यते ।

सत्यमेवमविवेकिनां स्यात् ।

विवेकिनां तु न कस्यचिद्वस्तुन

उत्पादः प्रसिद्धोऽनः—

उत्पादस्याप्रसिद्धत्वादजं

सर्वमुदाहृतम् ।

न च भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन ॥३८॥

उत्पत्तिके प्रसिद्ध न होनेके कारण सब कुछ अज ही कहा जाता है । इसके सिवा सत् वस्तुसे असत्की उत्पत्ति किसी प्रकार हो भी नहीं सकती ॥ ३८ ॥

अप्रसिद्धत्वादुत्पादस्यात्मैव सर्वमित्यज सर्वमुदाहृतं वेदान्तेषु “सवाह्याम्यन्तरो वजः”

(मु० उ० २।१।२) इति ।

यद्यपि मन्यसे जागरितात्सतोऽसत्स्वप्नो जायत इति तदसत् ।

न भूताद्विद्यमानादभूतस्यासतः

सम्भवोऽस्ति लोके । न ह्यसतः

शशविषाणादेः सम्भवो दृष्टः

कथञ्चिदपि ॥ ३८ ॥

उत्पत्तिके सिद्ध न होनेसे सब कुछ आरमा ही है, इसलिये वेदान्तमें “सवाह्याम्यन्तरो वजः” इत्यादि रूपसे सबको अज ही कहा है । और तुम जो मानते हो कि सत् जाग्रत्से असत् स्वप्नकी उत्पत्ति होती है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि लोकमें भूत विद्यमान वस्तुमें असत्का जन्म नहीं हुआ करता । शश-शृङ्गादि असत्पदार्थोंका जन्म किसी भी प्रकार देखनेमें नहीं आता ॥३८॥

ननुक्तं त्वर्यैव स्वप्नो जागरित-

शङ्का—यह तो तुम्हींने कहा था कि स्वप्न जागरितका कार्य है, फिर

कार्यमिति तत्कथमुत्पादोऽप्रसिद्ध  
इत्युच्यते ?

शृणु तत्र यथा कार्यकारण-

भावोऽस्माभिरभिप्रेत इति—

असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः ।

असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥३९॥

[ जीव ] जाग्रत्-अवस्थामें असत्पदार्थोंको देखकर उन्हींके संस्कारसे युक्त हो उन्हें स्वप्नमें देखता है, किन्तु स्वप्नावस्थामें भी असत्पदार्थोंको ही देखकर जागनेपर उन्हें नहीं देखता ॥ ३९ ॥

असदविद्यमानं रज्जुसर्प-

वद्विकल्पितं वस्तु जागरिते दृष्ट्वा

तद्भावभावितस्तन्मयः स्वप्नेऽपि

जागरितवद्ग्राह्यग्राहकरूपेण

विकल्पयन्पश्यति । तथासत्स्वप्ने-

ऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्य-

त्यद्विकल्पयन् । चशब्दात्तथा

जागरितेऽपि दृष्ट्वा स्वप्ने न

पश्यति कदाचिदित्यर्थः । तस्मा-

ज्जागरितं स्वप्नहेतुरुच्यते न तु

परमार्थसदिति कृत्वा ॥३९॥

ऐसा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं होती ?

समाधान—हम जिस प्रकार उनका कार्य-कारणभाव मानते हैं, सो सुनो—

जागरित अवस्थामें असत् अर्थात् रज्जुमें सर्पके समान कल्पना किये हुए अविद्यमान पदार्थोंको देखकर उनके भावसे भावित हो स्वप्नमें भी तन्मयभावसे जागरितके समान ग्राह्य-ग्राहकरूपसे विकल्प करता हुआ उन्हें देखता है । तथा स्वप्नमें भी असत्पदार्थोंको देखकर जागनेपर विकल्प न करनेके कारण उन्हें नहीं देखता । 'च' शब्दसे यह अभिप्राय है कि इसी प्रकार कभी जाग्रत्में देखकर भी उन पदार्थोंको स्वप्नमें नहीं देखता । इसीलिये यह कहा जाता है कि जाग्रत्-अवस्था स्वप्नका कारण है, उसे परमार्थसत् मानकर ऐसा नहीं कहा जाता ॥ ३९ ॥

परमार्थतस्तु न कस्यचित्केन-  
चिदपि प्रकारेण कार्यकारणभाव  
उपपद्यते । कथम् ?—

परमार्थन तो किमीका किमी  
भी प्रकार कार्य-कारणभाव होना  
सम्भव नहीं है । किस प्रकार ?  
[ सो बतयाते हैं— ]

नास्त्यसद्हेतुकमसत्सदसद्हेतुकं तथा ।

सच्च सद्हेतुकं नास्ति सद्हेतुकमसत्कृतः ॥ ४० ॥

न तो असत्पदार्थ ही असत् कारणवाला है और न सत् पदार्थ ही  
असत् कारणवाला है । इसी प्रकार सत् पदार्थ भी सत् कारणवाला नहीं  
है, फिर असत् पदार्थ ही सत् कारणवाला कैसे हो सकता है ? ॥ ४० ॥

नास्त्यसद्हेतुकमसच्छश-

विषाणादि हेतुः कारणं यस्यासत्  
एव खकुमुमादेस्तदसद्हेतुकमसन्न  
विद्यते । तथा सदापि घटादि-  
वस्तु असद्हेतुकं शशविषाणादि-  
कार्यं नास्ति । तथा सच्च  
विद्यमानं घटादि विद्यमान-  
घटादिवस्त्वन्तरकार्यं नास्ति ।  
सत्कार्यमसत्कृत एव सम्भवति ?  
न चान्यः कार्यकारणभावः  
सम्भवति शून्यो वा कल्पयितुम् ?  
अतो विवेकिनामसिद्ध एव कार्य-  
कारणभावः कस्यचिदित्य-  
मिप्रायः ॥ ४० ॥

असत् कारणवाला असत्पदार्थ  
भी नहीं है—जिस आकाशपुष्प  
आदि असत्पदार्थका कोई शश-  
शृङ्गादि असत् कारण हो ऐसा कोई  
असद्हेतुक असत् पदार्थ भी विद्यमान  
नहीं है । तथा घटादि सदस्तु भी  
असद्हेतुक अर्थात् शशविषाणादि  
[ असत्पदार्थ ] का कार्य नहीं है । इसी  
प्रकार सत् यानी विद्यमान घट  
आदि किसी अन्य सदस्तुका भी कार्य  
नहीं है । फिर सत्का कार्य असत् ही  
कैसे हो सकता है, इनके सिवा किसी  
अन्य कार्य-कारणभावकी न तो  
सम्भावना है और न कल्पना  
ही की जा सकती है । अब  
तात्पर्य यह है कि विवेकियोंके लिये  
तो किमी वस्तुका भी कार्य-कारण-  
भाव सिद्ध है ही नहीं ॥ ४० ॥



पुनरपि जाग्रत्स्वप्नयोरसतोरपि

जाग्रत् और स्वप्न असत् होनेपर भी उनके कार्य-कारणभावके सम्बन्धमें जो शङ्का है उसकी निवृत्ति करते हुए फिर भी कहते हैं—

कार्यकारणभावाशङ्कामपनयन्  
आह —

विपर्यासाद्यथा जाग्रदचिन्त्यान्भूतवत्पृथेत् ।

तथा स्वप्ने विपर्यासाद्धर्मास्तत्रैव पश्यति ॥४१॥

जिस प्रकार मनुष्य भ्रान्तिवश जाग्रत्कालीन अचिन्त्य पदार्थोंको यथार्थवत् ग्रहण करता है उसी प्रकार स्वप्नमें भी भ्रान्तिवश [ स्वप्नकालीन ] पदार्थोंको वही ( उसी अवस्थामें ) देखता है ॥ ४१ ॥

विपर्यासादविवेकतो यथा

जिस प्रकार कोई पुरुष विपर्यास अर्थात् अविवेकके कारण जाग्रत्-अवस्थामें रज्जु-सर्पादि अचिन्तनीय अर्थात् जिनका चिन्तन नहीं किया जा सकता ऐसे पदार्थोंको भूत—परमार्थवत् स्पर्श करते हुए-से कल्पना करता है। उसी प्रकार स्वप्नमें विपर्यासके कारण ही वह हार्थी आदिको देखता हुआ-सा कल्पना करता है; अर्थात् उन्हें वह उसी अवस्थामें देखता है, न कि जाग्रत्मे उत्पन्न होते हुए ॥ ४१ ॥

जाग्रज्जागरितेऽचिन्त्यान्भावान-  
शक्यचिन्तनीयान् रज्जुसर्पादीन्  
भूतवत्परमार्थवत्पृथग्वि-  
कल्पयेदित्यर्थः कश्चिद्यथा, तथा  
स्वप्ने विपर्यासाद्धर्मादीन्धर्मान्  
पश्यन्निय विकल्पयति; तत्रैव  
पश्यति न तु जागरितादुत्पद्य-  
मानानित्यर्थः ॥ ४१ ॥

जगदुत्पत्तिका उपदेश किके लिये है ?

उपलम्भात्समाचारादस्तिवस्तुत्ववादिनाम् ।

जातिस्तु देशिता बुद्धैरजातेस्त्रसतां सदा ॥४२॥

[ वस्तुओंकी ] उपलब्धि और [ वर्णाश्रमादि ] आचारके कारण जो पदार्थोंकी सत्ता स्वीकार करते हैं तथा अजातिसे भय मानते हैं, विद्वानोंने सर्वदा उन्हींके लिये जातिका उपदेश दिया है ॥ ४२ ॥

यापि बुद्धैरद्वैतवादिभिर्जा-  
तिर्देशितोपदिष्टा, उपलम्भनम्  
उपलम्भस्तस्मादुपलब्धेरित्यर्थः,  
समाचारावर्णाश्रमादिधर्मसमा-  
चरणात्, ताभ्यां हेतुभ्यामस्ति-  
वस्तुत्ववादिनाम् अस्ति वस्तु-  
मात्र इत्येवं वदनशीलानां  
दृढाग्रहवतां श्रद्धधानानां मन्द-  
विवेकिनामर्थोपायत्वेन सा  
देशिता जातिः । ता गृह्णन्तु  
तावत् । वेदान्ताभ्यासिनां तु  
स्वयमेवाजाद्वयात्मविषयो विवेको  
मविष्यतीति न तु परमार्थ-  
बुद्ध्या । ते हि श्रोत्रियाः स्थूल-  
बुद्धित्वाद्जातेः अजातिवस्तुनः  
सदा त्रस्यन्त्यात्मनाशं मन्यमाना  
अविवेकिन इत्यर्थः । उपायः  
मोऽवतारायेत्युक्तम् ॥ ४२ ॥

तथा बुद्धयानी अद्वैतवादी विद्वानों-  
ने जो जानि ( जगत्की उत्पत्ति ) का  
उपदेश दिया है [ उसका यह  
कारण है—] उपलम्भनका नाम  
उपलम्भ है उभ उपलम्भ अर्थात्  
उपलब्धिसे और समाचार-वर्णा-  
श्रमादि धर्मोंके सम्यक् आचरणमे-  
इन दोनों कारणोंसे वस्तुओंका  
अस्तित्व माननेवाले अर्थात् ' [ द्वैत-  
पदार्थोंका ] वस्तुत्व है' ऐसा कहने-  
वाले दृढ आग्रही, श्रद्धालु और मन्द  
विवेकीगण पुरुषोंको [ ब्रह्मात्मैक्य  
बोधकी प्राप्तिरूप ] अर्थके उपाय-  
रूपसे उस जानिका उपदेश दिया  
है । [ उसमें उनका यही तात्पर्य है  
कि ] 'अभी वे भठे ही उमें स्वीकार  
कर लें, परन्तु वेदान्तका अभ्यास करते  
करते उन्हें स्वयं ही अजन्मा ओर  
अद्वितीय आत्मा-सम्बन्धी विवेक हो  
जायगा' उन्होंने परमार्थबुद्धिमें  
उसका उपदेश नहीं दिया, क्योंकि  
वे केवल श्रुति-परायण अविवेकी  
लोग स्थूलबुद्धि होनेके कारण  
अपना नाश मानने हुए अजाति  
अर्थात् जन्मरहित वस्तुमें सदा भय  
मानते हैं—यह इसका तात्पर्य है ।  
यही बात हमने 'उपाय सोऽवता-  
राय' इत्यादि श्लोकमें ( अद्वैतप्रकरण  
श्लोक १५ में ) कही है ॥ ४२ ॥

सन्मार्गगामी द्वैतवादियोंकी गति

अजातेस्त्रसतां तेषामुपलम्भाद्वियन्ति ये ।

जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति ॥४३॥

द्वैतकी उपलब्धिके कारण जो विपरीत मार्गमें प्रवृत्त होते हैं अजातिसे भय माननेवाले उन लोगोंके लिये जातिसम्बन्धी दोष सिद्ध नहीं हो सकते [ क्योंकि द्वैतवादी होनेपर भी वे सन्मार्गमें प्रवृत्त तो हुए ही रहते हैं ] । [ और यदि होगा भी तो ] थोड़ा-सा ही दोष होगा ॥४३॥

ये चैवमुपलम्भात्समाचाराच्चा-  
जातेरजातिवस्तुनस्त्रसन्तोऽस्ति-  
वस्तिवत्यद्वयादात्मनो वियन्ति  
विरुद्धं यन्ति द्वैतं प्रतिपद्यन्त  
इत्यर्थः । तेषामजातेस्त्रसतां  
श्रद्धधानानां सन्मार्गावलम्बिनां  
जातिदोषा जात्युपलम्भकृता  
दोषा न सेत्स्यन्ति सिद्धिं  
दोषयास्यन्ति, त्रिवेकमार्गप्रवृत्त-  
त्वात् । यद्यपि कश्चिदोषः  
स्यात्सोऽप्यल्प एव भविष्यति ।  
सम्यग्दर्शनाप्रतिपत्तिहेतुकइत्यर्थः  
॥ ४३ ॥

जो लोग इस प्रकार [ पदार्थोंकी ]  
उपलब्धि और [ वर्णाश्रमादिके ]  
आचारोंके कारण अजन्मा वस्तुसे  
डरनेवाले हैं और 'द्वैत पदार्थ है'  
ऐसा समझकर अद्वय आत्मासे विरुद्ध  
चलते हैं, अर्थात् द्वैत स्वीकार करते  
हैं, उन अजातिसे भय माननेवाले  
श्रद्धालु और सन्मार्गावलम्बी पुरुषों-  
को जातिदोष-जातिकी उपलब्धिके  
कारण होनेवाले दोष सिद्ध नहीं  
होंगे, क्योंकि वे त्रिवेकमार्गमें प्रवृत्त  
हैं । और यदि कुछ दोष होगा भी  
तो वह भी अल्प ही होगा; अर्थात्  
केवल सम्यग्दर्शनकी अप्राप्तिके  
कारण होनेवाला दोष ही होगा ॥४३॥

उपलब्धि और आचरणकी अप्रमाणता

ननुपलम्भसमाचारयोःप्रमाण-

यदि कहे कि उपलब्धि और  
आचरण तो प्रमाण हैं, इसलिये

त्वादस्त्येव द्वैतं वस्त्विति, न; द्वैतवस्तु है ही, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उपलब्धि और आचरण-  
 उपलम्भसमाचारयोर्व्यभिचारात् । का तो व्यभिचार भी होता है ।  
 कथं व्यभिचार इत्युच्यते— किम प्रकार व्यभिचार होता है ?  
 सो बतलाया जाना है—

उपलम्भात्समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते ।

उपलम्भात्समाचारादस्ति वस्तु तथोच्यते ॥ ४४ ॥

उपलब्धि और आचरणके कारण जिस प्रकार मायाजनित हार्थको [ 'हार्थी है'—इस प्रकार ] कहा जाता है उसी प्रकार उपलब्धि और आचरणके कारण 'वस्तु है' ऐसा कहा जाता है ॥ ४४ ॥

उपलभ्यते हि मायाहस्ती हार्थीके समान ही मायाजनित  
 हस्तीत्र हस्तिनमिवात्र ममा- हार्थी भी देखनेमें आता है । हार्थी-  
 चरन्ति, बन्धनारोहणादिहस्ति- के समान ही यहाँ [ मायाहस्तीके  
 सम्यन्धिभिर्धर्मैर्हस्तीति चोच्यते- साथ ] भी बन्धन-आरोहण आदि हस्ति-  
 सन्नपि यथा तथैवोपलम्भात्समा- सम्बन्धी धर्मोंद्वारा व्यवहार करते  
 चाराद्द्वैतं भेदरूपमस्ति वस्त्व- हैं । जिस प्रकार असत् होने-  
 त्युच्यते । तस्मान्नोपलम्भसमा- पर भी वह 'हार्थी है' ऐसा कहा  
 चारौ द्वैतवस्तुसद्भावे हेतू भवत जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि  
 इत्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥ और आचरणके कारण भेदरूप द्वैत  
 वस्तु है—ऐसा कहा जाता है । अत  
 अभिप्राय यह है कि उपलब्धि  
 और आचरण द्वैत वस्तुके सद्भावे  
 कारण नहीं हैं ॥ ४४ ॥

परमार्थ वस्तु क्या है ?

किं पुनः परमार्थमद्वस्तु अच्छा तो जिसके आश्रयसे जानि  
 आदि असद्वृद्धियों होती हैं वह

यदास्पदा जात्याद्यसद्बुद्धयः परमार्थं वस्तु क्वा है ? इसपर  
इत्याह— कहते हैं—

जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च ।

अजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्वयम् ॥४५॥

जो कुछ जातिके समान भासनेवाले; चलके समान भासनेवाला और वस्तुके समान भासनेवाला है वह अज अचल और अवस्तुरूप शान्त एवं अद्वितीय विज्ञान ही है ॥ ४५ ॥

अजाति सजातिवदवभासत  
इति जात्याभासम् । तद्यथा  
देवदत्तो जायत इति । चलाभासं  
चलमिवाभासत इति । यथा स  
एव देवदत्तो गच्छतीति ।  
वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्यं धर्मि  
तद्वदवभासत इति वस्त्वाभासम् ।  
यथा स एव देवदत्तो गौरौ दीर्घ  
इति जायते देवदत्तः स्पन्दते  
दीर्घा गौर इत्येवमवभासते ।  
परमार्थतस्त्वजमचलमवस्तुत्वम-  
द्रव्यं च किं तदेवंप्रकारम् ?  
विज्ञानं विज्ञप्तिः । जात्यादि-  
रहितत्वाच्छान्तम् । अत एवाद्वयं  
च तदित्यर्थः ॥ ४५ ॥

जो अजाति होकर भी जातिवत्  
प्रतीत हो उसे जात्याभास कहते हैं;  
उसका उदाहरण, जैसे—देवदत्त  
उत्पन्न होता है । जो चलके समान  
प्रतीत हो उसे चलाभास कहते हैं;  
जैसे—वही देवदत्त जाता है ।  
‘वस्त्वाभासम्’—वस्तु धर्मा द्रव्यको  
कहते हैं, जो उसके समान प्रतीत  
हो वह वस्त्वाभास है । जैसे—वही  
देवदत्त गौर और दीर्घ है । देवदत्त  
उत्पन्न होता है, चलता है तथा  
वह गौर और दीर्घ है—इस प्रकार  
भासता है, किन्तु परमार्थतः तो अज,  
अचल, अवस्तुत्व और अद्रव्यत्व ही  
है । ऐसा वह कौन है ? [इसपर कहते  
हैं—] विज्ञान अर्थात् विज्ञप्ति तथा वह  
जाति आदिसे रहित होनेके कारण  
शान्त है और इसीसे अद्वय भी  
है—ऐसा इनका तात्पर्य है ॥ ४५ ॥

एवं न जायते चित्तमेवं धर्मा अजाः स्मृताः ।

एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ॥ ४६ ॥

इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता, इसीसे आत्मा अजन्मा माने गये हैं । ऐसा जाननेवाले लोग ही भ्रममें नहीं पड़ते ॥ ४६ ॥

एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न जायते चित्तमेवं धर्मा आत्मानो-  
ऽजाः स्मृता ब्रह्मविद्धिः । धर्मा इति बहुवचनं देहभेदानुविधा-  
यित्वाद्द्वयस्यैवोपचारतः ।

एवमेव यथोक्तं विज्ञानं जात्यादिरहितमद्वयमात्मतत्त्वं विजानन्तस्त्यक्तब्राह्मिणः पुनर्न पतन्त्यविद्याध्वान्तसागरे निपर्यये । “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” ( ई० उ० ७ ) इत्यादिमन्त्रवर्णात् ॥ ४६ ॥

इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओंसे ही चित्तका जन्म नहीं होता, और इसीसे ब्रह्मवेत्ताओंने धर्म यानी आत्माओंको अजन्मा माना है । भिन्न भिन्न देहोंका अनुवर्तन करनेवाला होनेसे एक अद्वितीय आत्माके लिये ही उपचारसे ‘धर्मा’ इस बहुवचनका प्रयोग किया गया है ।

इसी प्रकार—उपर्युक्त विज्ञानको अर्थात् जाति आदिरहित अद्वितीय आत्मनस्वरूपको जाननेवाले बाद एषणाओंसे मुक्त हुए लोग फिर विपर्यय अर्थात् अविद्यारूप अन्धकारके समुद्रमें नहीं गिरते । “उस अवस्थामें एकत्व देखनेवाले पुरुषको क्या मोह और क्या शोक हो सकता है ?” इत्यादि मन्त्रवर्णसे यही बात प्रमागित होती है ॥ ४६ ॥

विज्ञानाभासमें अज्ञानस्फुरणका दृष्टान्त

यथोक्तं परमार्थदर्शनं प्रपञ्च-  
विष्यन्नाह—

पूर्वोक्त परमार्थज्ञानका ही विस्तारसे निरूपण करेंगे, इसलिये कहते हैं—

ऋजुवक्रादिकाभासमलातस्पन्दितं यथा ।

ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥ ४७ ॥

जिस प्रकार अलात ( उल्का ) का घूमना ही सीधे-टेढ़े आदि रूपोंमें भासित होता है उसी प्रकार विज्ञानका स्फुरण ही ग्रहण और ग्राहक आदिरूपोंमें भास रहा है ॥ ४७ ॥

यथा हि लोके ऋजुवक्रादि-

प्रकाराभासमलातस्पन्दितमुल्का-

चलनं तथा ग्रहणग्राहकाभासं

विषयिविषयाभासमित्यर्थः । किं

तद्विज्ञानस्पन्दितम् । स्पन्दित-

मिव स्पन्दितमविद्यया । न

अचलस्य विज्ञानस्य स्पन्दनमस्ति ।

अजाचलमिति ह्यक्तम् ॥ ४७ ॥

जिस प्रकार लोकमें सीधे-टेढ़े आदि रूपोंमें भासमान होनेवाला अलातका स्पन्द अर्थात् उल्का ( जलती हुई बनैती ) का घूमना ही है, उसी प्रकार ग्रहण और ग्राहकरूपसे भासनेवाला अर्थात् इन्द्रिय और विषयरूपसे भासनेवाला भी है । वह कौन है ? विज्ञानका स्पन्द, जो अविद्याके कारण ही स्पन्दके समान स्पन्दसा प्रतीत होता है, वस्तुतः अविचल विज्ञानका स्पन्दन नहीं हो सकता, क्योंकि [ उपर्युक्त श्लोक ४५ में ही ] 'ग्रह अज और अचल है' ऐसा कहा जा चुका है ॥ ४७ ॥

अस्पन्दमानमलातमनाभासमजं यथा ।

अस्पन्दमानं विज्ञानमनाभासमजं तथा ॥ ४८ ॥

जिस प्रकार स्पन्दरहित अलात आभासशून्य और अज है उसी प्रकार स्पन्दरहित विज्ञान भी आभासशून्य और अज है ॥ ४८ ॥

अस्पन्दमानं स्पन्दनवर्जितं  
तदेवालातमृज्जाद्याकारेणाजाय-

जिस प्रकार वही अलात अस्पन्दमान—स्पन्दनसे रहित होनेपर ऋजु

मानमनाभासमजं यथा; तथा विद्यया आदि आकारोंमें भासित न होनेके कारण अनाभास और अज रहता है उसी प्रकार अविद्यासे स्पन्दित होनेवाला विज्ञान अविद्याकी निवृत्ति होनेपर जानि आदि रूपसे स्पन्दित न होकर अनाभास, अज और अचल हो जायगा—ऐसा इमका तात्पर्य भविष्यतीत्यर्थः ॥ ४८ ॥

किं च—

इसके सिवा—

अलाते स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः ।

न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्नालातं प्रविशन्ति ते ॥ ४९ ॥

अलातके स्पन्दित होनेपर भी वे आभास किसी अन्य कारणमें नहीं होते, तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर भी कहीं अन्य नहीं चले जाते और न वे अन्यमें ही प्रवेश करते हैं ॥ ४९ ॥

तस्मिन्नेवालाते स्पन्दमान ऋजुवक्राद्याभासा अलातादन्यतः कुतश्चिदागत्यालाते नैव भवन्ति इति नान्यतोभुवः । न च तस्मान्निस्पन्दादलातादन्यत्र निर्गताः । न च निस्पन्दमलातमेव प्रविशन्ति ते ॥ ४९ ॥

उस अलातके स्पन्दित होनेपर भी वे सीधे-टेंढे आदि आभास अलातसे भिन्न कहीं अन्यत्रसे आकर अलातमें उपस्थित नहीं हो जाते, अतः वे किसी-अन्यसे होनेवाले भी नहीं हैं । तथा निस्पन्द हुए उस अलातसे वे कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न उस निस्पन्द अलातमें ही प्रवेश कर जाते हैं ॥ ४९ ॥

किं च—

इसके अतिरिक्त—

न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः ।

विज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्याविशेषतः ॥ ५० ॥



उनमें द्रव्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वे अलातसे भी नहीं निकलते हैं। इसी प्रकार आभासत्वमें समानता होनेके कारण विज्ञानके विषयमें भी समझना चाहिये ॥ ५० ॥

न निर्गता अलातात् आभासा  
गृहादिवद्द्रव्यत्वाभावयोगतः—  
द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम्, तद-  
भावो द्रव्यत्वाभावः, द्रव्यत्वा-  
भावयोगतो द्रव्यत्वाभावयुक्तेर्व-  
स्तुत्वाभावादित्यर्थः, वस्तुनो हि  
प्रवेशादि सम्भवति नवस्तुनः ।  
विज्ञानेऽपि जात्याद्याभासास्तथैव  
स्युराभासस्याविशेषतस्तुल्य-  
त्वात् ॥ ५० ॥

द्रव्यत्वाभावयोगके कारण—द्रव्य  
के भावका नाम द्रव्यत्व है। उसके  
अभावको द्रव्यत्वाभाव कहते हैं, उस  
द्रव्यत्वाभावयोग अर्थात् द्रव्यत्वा-  
भावरूप युक्तिके कारण यानी वस्तुत्व-  
का अभाव होनेसे वे आभास घर आदि-  
से निकलनेके समान अलातसे भी नहीं  
निकले; क्योंकि प्रवेशादि होने तो  
वस्तुके ही सम्भव है; अवस्तुके नहीं।  
विज्ञानमें [ प्रतीत होनेवाले ] जात्यादि  
आभास भी ऐसे ही समझने चाहिये,  
क्योंकि आभासकी सामान्यता होनेसे  
उनकी तुल्यता है ॥ ५० ॥

कथं तुल्यत्वमित्याह—

उनकी तुल्यता किस प्रकार है ?  
सो बतलते हैं—

विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोऽभुवः ।

न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विशन्ति ते ॥ ५१ ॥

न निर्गतास्ते विज्ञानाद्द्रव्यत्वाभावयोगतः ।

कार्यकारणताभावाद्यतोऽचिन्त्याः सदैव ते ॥ ५२ ॥

विज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आभास किसी अन्य कारणमें  
नहीं होते तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते  
और न विज्ञानमें ही प्रवेश कर जाते हैं ॥ ५१ ॥ द्रव्यत्वके अभावका

योग होनेके कारण वे विज्ञानसे भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य-कारणताका अभाव होनेके कारण वे सदा ही अचिन्तनीय ( अनिर्वचनीय ) हैं ॥५२॥

अलातेन समानं सर्वं विज्ञानस्य । सदाचलत्वं तु विज्ञानस्य विशेषः । जात्याद्याभासा विज्ञानेऽचले किंकृता इत्याह । कार्य-कारणताभावाज्जन्यजनकत्वानुपपत्तेरभावरूपत्वादचिन्त्यास्ते वतः सदैव ।

यथासत्सृज्जाद्याभासेषु ऋज्वादिबुद्धिर्दृष्टालातमात्रे तथासत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्रे जात्यादिबुद्धिर्मृषैवेति समुदायार्थः ॥ ५१-५२ ॥

विज्ञानके विषयमें भी सब कुछ अलातके ही समान है । नित्य अचल रहना—यही विज्ञानकी विशेषता है । अचल विज्ञानमें जाति आदि आभास किस कारणसे होने हैं ? इसपर कहते हैं—क्योंकि कार्य-कारणताका अभाव अर्थात् अभावरूप होनेके कारण जन्य-जनकत्वकी अनुपपत्ति होनेसे वे सदा ही अचिन्तनीय हैं ।

[ इन दोनों श्लोकोंका ] सम्मिलित अर्थ यह है कि जिन प्रकार ऋजु ( सार ) आदि आभासोंके न होनेपर भी अलातमात्रमें ही ऋजु आदि बुद्धि होती देखी जाती है उसी प्रकार जाति आदिके न होनेपर भी केवल विज्ञान-मात्रमें जाति आदि बुद्धि होना मिथ्या ही है ॥ ५१-५२ ॥

जात्सामे कार्य-कारणमाय क्यो असम्भव हे ?

अजमेकमात्मतत्त्वमिति स्थितं तत्र यैरपि कार्यकारणभावः कल्प्यते तेषाम्—

यह निश्चय हुआ कि एक अजन्मा आत्मतत्त्व है । उसमें जो लोग कार्य-कारणभावकी कल्पना करते हैं उनके मतमें भी—

द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चैव हि ।

द्रव्यत्वमन्यभावा वा धर्माणां नोपपद्यते ॥ ५३ ॥

द्रव्यका कारण द्रव्य ही हो सकता है और वह भी अन्य द्रव्यका अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिये, किन्तु आत्माओंमें द्रव्यत्व और अन्यत्व दोनों ही सम्भव नहीं हैं ॥ ५३ ॥

द्रव्यं द्रव्यस्यान्यस्यान्यद्वेतुः  
कारणं स्यान्न तु तस्यैव तत् ।  
नाप्यद्रव्यं कस्यचित्कारणं स्वतन्त्रं  
दृष्टं लोके । न च द्रव्यत्वं धर्माणा-  
मात्मनामुपपद्यतेऽन्यत्वं वा कुत-  
श्चिद्येनान्यस्य कारणत्वं कार्यत्वं  
वा प्रतिपद्येत । अतोऽद्रव्यत्वा-  
दनन्यत्वाच्च न कस्यचित्कार्य  
कारणं वात्मेत्यर्थः ॥ ५३ ॥

अन्य द्रव्यका कारण अन्य द्रव्य  
ही हो सकता है, न कि उस द्रव्य-  
का वह। और जो वस्तु द्रव्य नहीं  
है उसे लोकमें किसीका स्वतन्त्र  
कारण होता नहीं देखा । तथा  
आत्माओंका द्रव्यत्व अथवा अन्यत्व  
किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है,  
जिससे कि वे, किसी अन्य द्रव्यके  
कारणत्व अथवा कार्यत्वको प्राप्त हो  
सकें । अतः तात्पर्य यह है कि  
अद्रव्यत्व और अनन्यत्वके कारण  
आत्मा किसीका भी कार्य अथवा  
कारण नहीं है ॥ ५३ ॥

एवं न चित्तजा धर्माश्चित्तं वापि न धर्मजम् ।

एवं हेतुफलाजातिं प्रविशन्ति मनीषिणः ॥ ५४ ॥

इस प्रकार न तो बाह्य पदार्थ ही चित्तसे हुए हैं और न चित्त ही  
बाह्य पदार्थोंसे उत्पन्न हुआ है । अतः मनीषी लोग कार्य-कारणकी अनुत्पत्ति  
ही निश्चित करते हैं ॥ ५४ ॥

एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य आत्म-  
विज्ञानस्वरूपमेव चित्तमिति न  
चित्तजा बाह्यधर्मा नापि बाह्य-  
धर्मजं चित्तम् । विज्ञानस्वरूपा-

इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओंसे चित्त  
आत्मविज्ञानस्वरूप ही है; न तो  
बाह्य पदार्थ ही चित्तसे उत्पन्न हुए  
हैं और न चित्त ही बाह्य पदार्थोंसे  
उत्पन्न हुआ है; क्योंकि सारे ही

मासमात्रत्वात्सर्वधर्माणाम् । एवं  
न हेतोः फलं जायते नापि फला-  
द्वेतुरिति हेतुफलयोरजातिं हेतु-  
फलाजातिं प्रविशन्त्यध्यवसन्ति  
आत्मनि हेतुफलयोरभावमेव  
प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद इत्यर्थः ॥ ५४ ॥

वर्म विज्ञानस्वरूपके आभासमात्र है ।  
इस प्रकार न तो हेतुसे फलकी  
उत्पत्ति होती है और न फलसे  
हेतुकी अतः मनीषी लोग हेतु और  
फलकी अनुत्पत्ति ही निश्चित करते  
हैं । तात्पर्य यह कि ब्रह्मवेत्ता  
लोग आत्मामें हेतु और फलका  
अभाव ही देखते हैं ॥ ५४ ॥

हेतु-फलभावके अभिनिवेशका फल

ये पुनर्हेतुफलयोरभिनिविष्टा-  
स्तेषां किं स्यादित्युच्यते—धर्मा-  
धर्माख्यस्य हेतोरहं कर्ता मम  
धर्माधर्मौ तत्फलं कालान्तरे  
क्वचित्प्राणिनिराये जातो भोक्ष्य  
इति—

किन्तु जिनका हेतु और फलमें  
अभिनिवेश है उनका क्या होगा ?  
इसपर कहा जाता है—धर्माधर्मसङ्घ  
हेतुका मैं कर्ता हूँ, धर्म और  
अधर्म मेरे हैं, कालान्तरमें किसी  
प्राणीके शरीरमें उत्पन्न होकर उनका  
फल भोगूँगा—इस प्रकार—

यावद्धेतुफलावेशस्तावद्धेतुफलोद्भवः ।

क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५५ ॥

जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक ही हेतु और फलकी  
उत्पत्ति भी है । हेतु और फलका आवेश क्षीण हो जानेपर फिर हेतु और  
फलरूप संसारकी उत्पत्ति भी नहीं होती ॥ ५५ ॥

यावद्धेतुफलयोरावेशो हेतु-  
फलाग्रह आत्मन्यध्यारोपणं  
तच्चित्ततेत्यर्थः, तावद्धेतुफल-  
योरुद्भवो धर्माधर्मयोस्तत्फलस्य

जबतक हेतु और फलका आवेश  
—हेतुफलाग्रह अर्थात् उन्हें आत्मामें  
आरोपित करना यानी तच्चित्तता है,  
तबतक हेतु और फलकी उत्पत्ति  
भी है अर्थात् तबतक धर्माधर्म और

चानुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्यर्थः ।  
यदा पुनर्मन्त्रौपधिवीर्येणैव  
ग्रहावेशो यथोक्ताद्वैतदर्शनेना-  
विद्योद्भूतहेतुफलावेशोऽपनीतो  
भवति तदा तस्मिन्क्षीणे नास्ति  
हेतुफलोद्भवः ॥ ५५ ॥

उनके फलकी अविच्छिन्न प्रवृत्ति भी है  
किन्तु जिस समय मन्त्र और ओपधि-  
की सामर्थ्यसे ग्रहके आवेशके समान  
उपर्युक्त अद्वैतबोधसे अविद्याजनित  
हेतु और फलका आवेश निवृत्त हो  
जाता है उस समय उसके क्षीण  
हो जानेपर हेतु और फलकी उत्पत्ति  
भी नहीं होती ॥ ५५ ॥

हेतु-फलके अमिनिवेशमें दोष

यदि हेतुफलोद्भवस्तदा को  
दोष इत्युच्यते —

यदि हेतु और फलकी उत्पत्ति  
रहे तो इनमें दोष क्या है ?  
सो बतलाते हैं—

यावद्धेतुफलावेशः

संसारस्तावदायतः ।

क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५६ ॥

जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक संसार बड़ा हुआ है ।  
हेतु और फलका आवेश नष्ट होनेपर विद्वान् संसारको प्राप्त नहीं  
होता ॥ ५६ ॥

यावत्सम्यग्दर्शनेन हेतुफला-  
वेशो न निवर्ततेऽक्षीणः संसार-  
स्तावदायतो दीर्घो भवतीत्यर्थः ।  
क्षीणे पुनर्हेतुफलावेशे संसारं न  
प्रपद्यते कारणाभावात् ॥ ५६ ॥

जबतक सम्यग्ज्ञानसे हेतु और  
फलका आग्रह निवृत्त नहीं होता  
तबतक संसार क्षीण न होकर  
विस्तृत होता जाता है । किन्तु  
हेतुफलावेशके क्षीण होनेपर, कोई  
कारण न रहनेसे, विद्वान् संसारको  
प्राप्त नहीं होता ॥ ५६ ॥

नन्वजादात्मनोऽन्यन्नास्त्येव  
तत्कथं हेतुफलयोः संसारस्य  
चोत्पत्तिविनाशाबुच्येते त्वया ?

शृणु—

संवृत्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै ।

सद्भावेन ह्यजं सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥ ५७ ॥

सारे पदार्थ व्याप्राहागिक दृष्टिमे उत्पन्न होते है, इसलिये वे नित्य नहीं हैं । परमार्थदृष्टिमे तो सब कुछ अज ही है, इसलिये किसीका विनाश भी नहीं ह ॥ ५७ ॥

संवृत्या संवरणं संवृति-  
रविद्यापिपयो लौकिको व्यव-  
हारस्तथा संवृत्या जायते सर्वम् ।  
तेनाविद्यापिपये शाश्वतं नित्यं  
नास्ति वै । अत उत्पत्तिविनाश-  
लक्षणः ससार आयत इत्युच्यते ।  
परमार्थसद्भावेन त्वजं सर्वमात्मैव  
यम्मात् । अतो जात्यभाना-  
दुच्छेदस्तेन नास्ति वै कस्य-  
चिद्वेतुफलादेरित्यर्थः ॥ ५७ ॥

शङ्का—अजन्मा आत्मासे भिन्न तो और कोई है ही नहीं, फिर हेतु और फल तथा ससारके उत्पत्ति-विनाशका तुम कैसे वर्णन कर रहे हो ?

समाधान—अच्छा, सुनो—

‘संवृत्या’—सवरण अर्थात् अविद्यापिपयक लौकिक व्यवहारका नाम संवृति है, उस संवृतिसे ही सवनी उत्पत्ति होती है । अत उस अविद्याके अधिकारमें कोई भी वस्तु शाश्वत-निय नहीं है । इसीलिये उत्पत्ति-विनाशशील ससार विस्तृत है—ऐसा कहा जाता है, क्योंकि परमार्थसत्तासे तो सब कुछ अजन्मा आत्मा ही है । अत जन्मका अभाव होनेके कारण किसी भी हेतु या फल आदिका उच्छेद नहीं होता—ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ ५७ ॥

जीवोका जन्म मायिक है

धर्मा य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः ।

जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥ ५८ ॥

धर्म ( जीव ) जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुतः उत्पन्न नहीं होते । उनका जन्म मायाके सदृश है और वह माया भी [ वस्तुतः ] है नहीं ॥ ५८ ॥

येऽप्यात्मानोऽन्ये च धर्मा  
जायन्त इति कल्प्यन्ते त इत्येवं-  
प्रकारा यथोक्ता संबृतिर्निर्दिश्यत  
इति संबृत्यैव धर्मा जायन्ते; न ते  
तत्त्वतः परमार्थतो जायन्ते ।  
यत्पुनस्तत्संबृत्या जन्म तेषां  
धर्माणां यथोक्तानां यथा मायया  
जन्म तथा तन्मायोपमं प्रत्ये-  
तव्यम् ।

माया नाम वस्तु तर्हि ? नैवम्;  
सा च माया न विद्यते, मायेत्य-  
विद्यमानस्याख्येत्यभिप्रायः ॥ ५८ ॥

जो भी आत्मा तथा दूसरे धर्म  
'उत्पन्न होते हैं'—इस प्रकार कल्पना  
किये जाते हैं वे इस प्रकारके  
सभी धर्म संबृतिसे ही उत्पन्न होते  
हैं । यहाँ 'इति' शब्दसे इससे  
पहले श्लोकमें कही हुई संबृतिका  
निर्देश किया गया है । वे तत्त्वतः—  
परमार्थतः उत्पन्न नहीं होते ।  
क्योंकि उन पूर्वोक्त धर्मोंका जो  
संबृतिसे होनेवाला जन्म है वह  
ऐसा है जैसे मायासे होनेवाला  
जन्म होता है, इसलिये उसे मायाके  
सदृश समझना चाहिये ।

तत्र तो माया एक सत्य वस्तु  
सिद्ध होती है ? नहीं, ऐसी बात नहीं  
है । वह माया भी है नहीं । तात्पर्य  
यह है कि 'माया' यह अविद्यमान  
वस्तुका ही नाम है ॥ ५८ ॥

कथं मायोपमं तेषां धर्माणां  
जन्मेत्याह—

उन धर्मोंका जन्म मायाके सदृश  
किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं—

यथा मायामयाद्बीजाज्जायते तन्मयोऽङ्कुरः ।

नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्ब्रह्मणो योजना ॥ ५९ ॥

जिस प्रकार मायामय बीजसे मायामय अङ्कुर उत्पन्न होता है और वह न तो नित्य ही होता है और न नाशवान् ही, उसी प्रकार धर्मोंके विषयमें भी युक्ति समझनी चाहिये ॥ ५९ ॥

यथा मायामयादाग्रादिबी-  
जाज्जायते तन्मयो मायामयोऽ-  
द्भुरो नासावद्भुरो नित्यो न  
चोच्छेदी विनाशी वाभृतत्वात्त-  
द्वदेव धर्मेषु जन्मनाशादियोजना  
युक्तिः । न तु परमार्थतो  
धर्माणां जन्म नाशो वा युज्यत  
इत्यर्थः ॥ ५९ ॥

जिस प्रकार मायामय आम  
आदिके बीजसे तन्मय अर्थात्  
मायामय अद्भुर उत्पन्न होता है और  
वह अद्भुर न तो नित्य ही होता है  
और न नाशग्रन् ही, उसी प्रकार  
असत्य होनेके कारण धर्मोंमें भी  
जन्म-नाशादिकी योजना-युक्ति है ।  
तात्पर्य यह है कि परमार्थन धर्मोंका  
जन्म अथवा नाश होना सम्भव  
नहीं है ॥ ५९ ॥

आत्माकी अनिर्वचनीयता

नाजेपु सर्वधर्मेषु शाश्वताशाश्वताभिधा ।  
यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ॥ ६० ॥

इन सम्पूर्ण अजन्मा धर्मोंमें नित्य-अनित्य नामोंकी प्रवृत्ति नहीं है ।  
जहाँ शब्द ही नहीं है उस आत्मतत्त्वमें [ नित्य-अनित्य ] विवेक भी नहीं  
कहा जा सकता ॥ ६० ॥

परमार्थतस्त्वात्मखजेपु नित्यै-  
करसविज्ञप्तिमात्रसत्ताकेपु शाश्व-  
तोऽशाश्वत इति वा नामिधा  
नाभिधानं प्रवर्तत इत्यर्थः । यत्र  
येषु वर्ण्यन्ते यैरर्थास्ते वर्णाः  
शब्दा न प्रवर्तन्तेऽभिधातुं प्रका-  
शयितुं न प्रवर्तन्त इत्यर्थः ।

वास्तवमें तो नित्य एकरस  
पिज्ञानमात्र सत्तास्वरूप अजन्मा  
आत्माओंमें नित्य-अनित्य—ऐसे  
अभिधान अर्थात् नामकी भी प्रवृत्ति  
नहीं है । जहाँ—जिन महात्माओंमें  
—जिनसे पदार्थोंका वर्णन किया  
जाता है वे वर्ण यानी शब्द भी  
नहीं हैं अर्थात् उसका वर्णन करनेके  
लिये प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसमें



इदमेवमिति विवेको विविक्तता  
तत्र नित्योऽनित्य इति नोच्यते ।  
“यतो वाचो निवर्तन्ते” (तै०  
उ० २।४।१) इति श्रुतेः ॥६०॥

‘यह ऐसा है अर्थात् नित्य है अथवा  
अनित्य है’ इस प्रकारका विवेक भी  
नहीं कहा जाता; जैसा कि “जहाँ-  
से वाणी लौट आती है” इस श्रुति-  
से सिद्ध होता है ॥ ६० ॥

यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया ।

तथा जाग्रद्द्वयाभासं चित्तं चलति मायया ॥६१॥

जिस प्रकार स्वप्नमें चित्त मायासे द्वैताभासरूपसे स्फुरित होता है  
उसी प्रकार जाग्रत्कालीन द्वैताभासरूपसे भी चित्त मायासे ही स्फुरित  
होता है ॥ ६१ ॥

अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्ने न संशयः ।

अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥६२॥

इसमें सन्देह नहीं, स्वप्नावस्थामें अद्वय चित्त ही द्वैतरूपसे भासनेवाला  
है; इसी प्रकार जाग्रत्कालमें भी अद्वय मन ही द्वैतरूपसे भासनेवाला  
है—इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥

यत्पुनर्वागोचरत्वं परमार्थ-  
तोऽद्वयस्य विज्ञानमात्रस्य तन्म-  
नसः स्पन्दनमात्रं न परमार्थत  
इति । उक्तार्थो श्लोकौ ॥६१-६२॥

परमार्थतः अद्वय विज्ञानमात्रका  
जो वाणीका विषय होना है वह मनका  
स्फुरणमात्र ही है, वह परमार्थतः  
है नहीं—इस प्रकार इन श्लोकोंकी  
व्याख्या पहले ( अद्वैत० २९-३०  
में ) की जा चुकी है ॥६१-६२॥

द्वैताभावमे स्वप्नका दृष्टान्त

इतश्च वागोचरस्याभावो  
द्वैतस्य—

वाणीके विषयभूत द्वैतका  
इसलिये भी अभाव है—

स्वप्नदृक्प्रचरन्स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान् ।

अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा ॥६३॥

स्वप्नद्रष्टा स्वप्नमें घूमते-घूमते दशों दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखा करता है [ वे वस्तुतः उससे पृथक् नहीं होते ] ॥ ६३ ॥

स्वप्नान्पश्यतीति स्वप्नदृक्प्र-  
चरन्पर्यटन्स्वप्ने स्वप्नस्थाने दिक्षु  
वै दशसु स्थितान्चर्तमानाञ्जीवा-  
न्प्राणिनोऽण्डजान्स्वेदजान्वा या-  
न्सदा पश्यति ॥ ६३ ॥

जो स्वप्नोंको देखता है उसे स्वप्नद्रष्टा कहते हैं, यह स्वप्न अर्थात् स्वप्नस्थानोंमें घूमता हुआ दशों दिशाओंमें स्थित जिन स्वेदज अथवा अण्डज प्राणियोंको सर्वदा देखता है [ वे वस्तुतः उससे भिन्न नहीं होते ] ॥६३॥

यद्येवं ततः किम् ? उच्यते—

यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध  
क्या हुआ ? सो बतलाते हैं—

स्वप्नदृक्चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् ।

तथा तद्दृश्यमेवेदं स्वप्नदृक्चित्तमिष्यते ॥६४॥

वे सब स्वप्नद्रष्टाके चित्तके दृश्य उससे पृथक् नहीं होते । इसी प्रकार उस स्वप्नद्रष्टाका यह चित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है ॥६४॥

स्वप्नदृग्चित्तं स्वप्नदृक्चित्तम् ।

स्वप्नद्रष्टाका चित्त 'स्वप्नदृक्चित्त'

तेन दृश्यास्ते जीवास्ततस्तस्मा-  
त्स्वप्नदृक्चित्तात्पृथङ् न विद्यन्ते  
न सन्तीत्यर्थः । चित्तमेव ह्यनेक-  
जीवादिभेदाकारेण विकल्प्यते ।  
तथा तदपि स्वप्नदृक्चित्तमिदं

कहलाता है, उससे देखे जानेवाले वे जीव उस स्वप्नद्रष्टाके चित्तसे पृथक् नहीं हैं—यह इसका तात्पर्य है । अनेक जीवादिभेदरूपसे चित्त ही कल्पना किया जाता है । इसी प्रकार उस स्वप्नद्रष्टाका यह चित्त भी उसका दृश्य ही है ।

तद्दृश्यमेव, तेन स्वप्नद्रशा दृश्यं  
तद्दृश्यम् । अतः स्वप्नद्रव्यति-  
रेकेण चित्तं नामनास्तीत्यर्थः ॥ ६४ ॥

उस स्वप्नद्रष्टासे देखा जाता है,  
इसलिये उसका दृश्य है । अतः तात्पर्य  
यह है कि स्वप्नद्रष्टासे भिन्न चित्त  
भी कुछ है नहीं ॥ ६४ ॥

चरञ्जागरिते जाग्रद्विभु वै दशसु स्थितान् ।

अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा ॥ ६५ ॥

जाग्रच्चित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् ।

तथा तद्दृश्यमेवेदं जाग्रतश्चित्तमिष्यते ॥ ६६ ॥

जाग्रत्-अवस्थामें घूमते-घूमते जाग्रत्-अवस्थाका साक्षी दशां  
दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखता  
है ॥ ६५ ॥ वे जाग्रच्चित्तके दृश्य उससे पृथक् नहीं हैं । इसी प्रकार  
वह जाग्रच्चित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है ॥ ६६ ॥

जाग्रतो दृश्या जीवास्तच्चित्ता-  
व्यतिरिक्ताश्चित्तेक्षणीयत्वात्स्वप्न-  
दृक्चित्तेक्षणीयजीववत् । तच्च  
जीवेक्षणात्मकं चित्तं द्रष्टुरव्यति-  
रिक्तं द्रष्टृदृश्यत्वात्स्वप्नचित्तवत् ।  
उक्तार्थमन्यत् ॥ ६५-६६ ॥

जाग्रत् पुरुषको दिखलायी देने-  
वाले जीव उसके चित्तसे अपृथक्  
हैं, क्योंकि स्वप्नद्रष्टाके चित्तसे देखे  
जानेवाले जीवोंके समान वे उसके  
चित्तसे ही देखे जाते हैं । तथा  
जीवोंको देखनेवाला वह चित्त भी  
द्रष्टासे अभिन्न है, क्योंकि स्वप्नचित्त-  
के समान वह भी जाग्रद्द्रष्टाका  
दृश्य है । शेष अर्थ पहले कहा जा  
चुका है ॥ ६५-६६ ॥

उभे ह्यन्योन्यदृश्ये ते किं तदस्तीति नोच्यते ।

लक्षणाशून्यसुभयं तन्मतेनैव गृह्यते ॥ ६७ ॥

वे [ जीव और चित्त ] दोनों एक-दूसरेके दृश्य हैं, वे हैं क्या वस्तु—सो कहा नहीं जा सकता। ये दोनों ही प्रमाणशून्य हैं और केवल तच्चित्तनाके कारण ही ग्रहण किये जाते हैं ॥ ६७ ॥

जीवचित्ते उमे चित्तचैत्ये ते ।  
अन्योन्यदृश्ये इतरेतरगम्ये ।

जीवादिविषयापेक्षं हि चित्तं नाम  
भवति । चित्तापेक्षं हि जीवादि  
दृश्यम् । अतस्ते अन्योन्यदृश्ये ।  
तस्मान्न किञ्चिदस्तीति चोच्यते  
चित्तं वा चित्तेक्षणाय वा किं  
तदस्तीति विवेकिनोच्यते । न  
हि स्वप्ने हस्ती हस्तिचित्तं वा  
विद्यते तथेहापि विवेकिनामित्य-  
भिप्रायः ।

कथम् ? लक्षणाशून्यं लक्ष्य-  
त्तेऽनयेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाण-  
शून्यमुपमय चित्तं चैत्यं उच्यं  
यतस्तन्मतेनैव तच्चित्ततयैव तद्  
गृह्यते । न हि घटमतिं प्रत्या-  
ख्याय घटो गृह्यते नापि घटं  
प्रत्याख्याय घटमतिः । न हि

जीव और चित्त अर्थात् चित्त  
और चित्तके विषय—ये दोनों ही  
अन्योन्यदृश्य अर्थात् एक-दूसरेके  
विषय हैं। जीवादि विषयकी अपेक्षा-  
से चित्त है और चित्तकी अपेक्षामें  
जीवादि दृश्य। अतः वे एक-दूसरेके  
दृश्य हैं। इसलिये ऐसा प्रश्न होनेपर  
कि वे हैं क्या ? विवेकी लोग यही  
कहते हैं कि चित्त अथवा चित्तका  
दृश्य—इनमेंसे कोई भी वस्तु है नहीं।  
इससे उन विवेकी पुरुषोंका यही अभि-  
प्राय है कि जिस प्रकार स्वप्नमें हाथी  
और हाथीको ग्रहण करनेवाला चित्त  
नहीं होता उसी प्रकार यहाँ  
( जागृत-अवस्थामें ) भी उनका  
अभाव है ।

जिस प्रकार नहीं है ? क्योंकि  
वे चित्त और चैत्य दोनों ही लक्षणा-  
शून्य—प्रमाणरहित हैं। जिससे कोई  
पदार्थ लक्षित होता है उसे 'लक्षणा'  
यानी 'प्रमाण' कहते हैं। और वे  
तन्मत—तच्चित्तनासे ही ग्रहण किये  
जाते हैं, क्योंकि न तो घटबुद्धिको  
त्यागकर घटका ही ग्रहण किया  
जाता है और न घटको त्यागकर  
घटबुद्धिका ही। तात्पर्य यह कि

तत्र प्रमाणप्रमेयभेदः शक्यते । उनमें प्रमाण और प्रमेयके भेदकी कल्पयितुमित्यभिप्रायः ॥ ६७ ॥ कल्पना नहीं की जा सकती ॥ ६७ ॥

यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।

तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६८ ॥

जिस प्रकार स्वप्नका जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥ ६८ ॥

यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।

तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६९ ॥

जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥ ६९ ॥

यथा निर्मितको जीवो जायते म्रियतेऽपि वा ।

तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ७० ॥

जिस प्रकार मन्त्रादिसे रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥ ७० ॥

मायामयो मायाविना यः कृतो निर्मितको मन्त्रौषध्यादिभिर्निष्पादितः । स्वप्नमायानिर्मितका अण्डजादयो जीवा यथा जायन्ते म्रियन्ते च तथा मनुष्यादिलक्षणा अविद्यमाना एव चित्तविकल्पनामात्रा इत्यर्थः ॥ ६८—७० ॥

मायामय—जिसे मायावीने रचा हो, निर्मितक—मन्त्र और ओषधि आदिसे सम्पादन किया हुआ । स्वप्न, माया और मन्त्रादिसे निष्पन्न हुए अण्डज आदि जीव जिस प्रकार उत्पन्न होते और मरते भी हैं उसी प्रकार मनुष्यादिरूप जीव वर्तमान होते हुए भी चित्तके विकल्पमात्र ही हैं—यह इसका अभिप्राय है ॥ ६८—७० ॥

अजाति ही उत्तम सत्य है

न कश्चिज्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते ।

एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ॥ ७१ ॥

[ वस्तुतः ] कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना ही नहीं है । उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तुकी उत्पत्ति ही नहीं होती ॥ ७१ ॥

व्याहारसत्यविषये जीवानां  
जन्ममरणादिः स्वप्नादिजीववदि-  
त्युक्तम् । उत्तमं तु परमार्थसत्यं  
न कश्चिज्जायते जीव इति ।  
उक्तार्थमन्यत् ॥ ७१ ॥

व्याहारिक सत्तामें भी जीवोंके जो जन्म-मरणादि हैं वे स्वप्नादिके जीवोंके ही समान हैं—ऐसा पहले कहा जा चुका है, किन्तु उत्तम सत्य तो यही है कि कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता । शेष अशकी व्याख्या पहलेकी जा चुकी है ॥७१॥

चित्तकी असगता

चित्तस्पन्दितमेवेदं ग्राह्यग्राहकवद्द्वयम् ।

चित्तं निर्विषयं नित्यमसङ्गं तेन कीर्तितम् ॥ ७२ ॥

विषय और इन्द्रियोंके सहित यह सम्पूर्ण द्वैत चित्तका ही स्फुरण है, किन्तु चित्त निर्विषय है; इसीसे उसे नित्य असङ्ग कहा गया है ॥७२॥

सर्वं ग्राह्यग्राहकवच्चित्तस्प-  
न्दितमेव । द्वयं चित्तं परमार्थत  
आत्मैवेति निर्विषयं तेन निर्विष-  
यत्वेन नित्यमसङ्गं कीर्तितम् ।  
“असङ्गो ह्ययं पुरुषः” ( वृ० उ०

विषय और इन्द्रियोंसे युक्त सम्पूर्ण द्वैत चित्तका ही स्फुरण है । किन्तु चित्त परमार्थत आत्मा ही है, इसलिये वह निर्विषय है । उस निर्विषयताके कारण उसे सर्वदा असङ्ग कहा गया है, जैसा कि “यह पुरुष

४।३।१५, १६) इति श्रुतेः ।  
सविषयस्य हि विषये सङ्गः ।  
निर्विषयत्वाच्चित्तमसङ्गमित्यर्थः  
॥ ७२ ॥

असङ्ग ही है” इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है । जो सविषय होता है उसी-का अपने विषयसे सङ्ग हो सकता है । अतः तात्पर्य यह है कि निर्विषय होनेके कारण चित्त असङ्ग है ॥ ७२ ॥

ननु निर्विषयत्वेन चेदसङ्गत्वं  
चित्तस्य न निःसङ्गता भवति  
यस्माच्छास्ता शास्त्रं शिष्यश्चेत्येव-  
मादेर्विषयस्य विद्यमानत्वात् ।  
नैष दोषः; कस्मात्—

शङ्का—यदि निर्विषयताके कारण ही असङ्गता होती है तो चित्तकी असङ्गता तो हो नहीं सकती, क्योंकि शास्ता ( गुरु ), शास्त्र और शिष्य इत्यादि उसके विषय विद्यमान हैं ।

समाधान—यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि—

व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती

योऽस्ति कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नास्त्यसौ ।

परतन्त्राभिसंवृत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः ॥ ७३ ॥

जो पदार्थ कल्पित व्यवहारके कारण होता है वह परमार्थतः नहीं होता; और यदि अन्य मतावलम्बियोंके शास्त्रोंकी परिभाषाके अनुसार हो तो भी वह परमार्थतः नहीं हो सकता ॥ ७३ ॥

यः पदार्थः शास्त्रादिविद्यते स  
कल्पितसंवृत्या; कल्पिता च सा  
परमार्थप्रतिपत्त्युपायत्वेन संबृ-  
त्तिश्च सा, तथा योऽस्ति परमार्थेन

जो भी शास्त्रादि पदार्थ हैं वे कल्पित व्यवहारसे ही हैं; अर्थात् जिस व्यवहारकी परमार्थतत्वकी उपलब्धिके उपायरूपसे कल्पना की गयी है उसके कारण जिस पदार्थकी सत्ता है वह परमार्थसे नहीं है । “ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता”

नास्त्यसौ न विद्यते । ज्ञाते द्वैतं  
न विद्यत इत्युक्तम् ।

यश्च परतन्त्राभिसंवृत्या पर-  
शास्त्रव्यवहारेण सात्पदार्थः स  
परमार्थतो निरूप्यमाणो ना-  
स्त्येव । तेन युक्तमुक्तमसङ्गं तेन  
कीर्तितमिति ॥ ७३ ॥

( आगम० श्लो० १८ ) ऐसा हम  
पहले कह ही चुके हैं ।

इसके सिवा जो पदार्थ परतन्त्रा-  
दिसंवृतिसे—अन्य मतावलम्बियोंके  
शास्त्रव्यवहारसे सिद्ध है वह  
परमार्थत निरूपण किये जानेपर  
नहीं है । अत 'इसीसे उसे असङ्ग  
कहा गया है'—यह कयन ठीक ही  
है ॥ ७३ ॥

आत्मा अज है—यह कल्पना भी व्यावहारिक है

ननु शास्त्रादीनां संवृतित्वेऽज  
इतीयमपि कल्पना संवृतिः  
स्यात् ?

सत्यमेवम् ।

अजः कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नाप्यजः ।

परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संवृत्या जायते तु सः ॥ ७४ ॥

आत्मा 'अज' भी कल्पित व्यवहारके कारण ही कहा जाता है  
परमार्थत, तो 'अज' भी नहीं है । अन्य मतावलम्बियोंके शास्त्रोंसे सिद्ध  
जो संवृति ( अमजनित व्यवहार ) है उसके अनुसार उसका जन्म  
होना है । [ अत ] उसका निषेध करनेके लिये ही उसे 'अज' कहा  
गया है ॥ ७४ ॥

शास्त्रादिकल्पितसंवृत्यैवाज  
इत्युच्यते । परमार्थेन नाप्यजः ।

शङ्का—शास्त्रादिको व्यावहारिक  
माननेपर तो 'अज है' ऐसी  
कल्पना भी व्यावहारिक ही सिद्ध  
होगी ?

समाधान—हाँ, वात तो ऐसी ही है ।

शास्त्रादिकल्पित व्यवहारके  
कारण ही उसे 'अज' ऐसा कहा  
जाता है । परमार्थत तो वह अज



यस्मात्परतन्त्राभिनिष्पत्त्या पर-  
शास्त्रसिद्धिमपेक्ष्य योऽज इत्युक्तः  
स संबृत्या जायते । अतोऽज  
इतीयमपि कल्पना परमार्थविषये  
नैव क्रमत् इत्यर्थः ॥ ७४ ॥

भी नहीं हैं । क्योंकि यहाँ जिसे अन्य  
शास्त्रोंकी सिद्धि अपेक्षासे 'अज'  
ऐसा कहा है, वह संबृतिसे ही  
जन्म भी लेता है । अतः 'वह अज  
है' ऐसी कल्पनाका भी परमार्थ-  
राज्यमें प्रवेश नहीं हो सकता ॥७४॥

द्वैताभावसे जन्माभाव

यस्मादसद्विषयस्तस्मात् — | क्योंकि विषय असत् है, इसलिये—

अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते ।

द्वयाभावं स बुद्ध्यैव निर्निमित्तो न जायते ॥ ७५ ॥

लोगोंका असत्य [ द्वैत ] के विषयमें केवल आग्रह है । वहाँ  
[ परमार्थतत्त्वमें ] द्वैत है ही नहीं । जीव द्वैताभावका बोध प्राप्त करके  
ही, फिर कोई कारण न रहनेसे जन्म नहीं लेता ॥ ७५ ॥

असत्यभूते द्वैतेऽभिनिवेशोऽस्ति

असत्यभूत द्वैतमें लोगोंका केवल  
अभिनिवेश है । आग्रहमात्रका नाम  
अभिनिवेश है । वहाँ [ परमार्थतत्त्वमें ]  
द्वैत है ही नहीं । क्योंकि मिथ्या  
अभिनिवेशमात्र ही जीवके जन्मका  
कारण है । अतः द्वैताभावको जानकर  
जो निर्निमित्त हो गया है अर्थात्  
जिसका मिथ्या द्वैतविषयक आग्रह  
निवृत्त हो गया है उस [ अधिकारी  
जीव ] का फिर जन्म नहीं  
होता ॥ ७५ ॥

केवलम् । अभिनिवेश

मिथ्याभिनिवेश-

आग्रहमात्रम् । द्वयं

निरूप्या

तत्र न विद्यते ।

जन्माभावः

मिथ्याभिनिवेश-

मात्रं च जन्मनः कारणं यस्मात्त-

स्माद्द्वयाभाव बुद्ध्या निर्निमित्तो

निवृत्तमिथ्याद्वयाभिनिवेशो यः

स न जायते ॥ ७५ ॥

यदा न लभते हेतूनुत्तमाद्यममध्यमान् ।

तदा न जायते चित्तं हेत्वभावे फलं कुतः ॥ ७६ ॥

जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम हेतुओंको प्राप्त नहीं करता, उस समय उसका जन्म भी नहीं होता, क्योंकि हेतुका अभाव होनेपर फिर फल कहाँ हो सकता है ? ॥ ७६ ॥

जात्याश्रमविहिता आशीर्वा-  
 हेतुत्रयामावा-  
 जन्मभाव  
 र्जितैरनुष्ठीयमाना  
 धर्मा देवत्वादि-  
 प्राप्तिहेतव उत्तमाः  
 केवलाश्च धर्माः । अधर्मव्यामिश्रा  
 मनुष्यत्वादिप्राप्त्यर्था मध्यमाः ।  
 तिर्यगादिप्राप्तिनिमित्ता अधर्म-  
 लक्षणाः प्रवृत्तिविशेषाश्चाधमाः ।  
 तानुत्तममध्यमाधमानविद्यापरि-  
 कल्पितान्यदैकमेवाद्वितीयमात्म-  
 तत्त्वं सर्वकल्पनावर्जितं जानन्न  
 लभते न पश्यति यथा चालैर्दृश्य-  
 मानं गगने मलं विवेकी न पश्यति  
 वद्वत्तदा न जायते नोत्पद्यते  
 चित्तं देवाद्याकारैरुत्तमाधम-  
 मध्यमफलरूपेण न व्यसति  
 हेतौ फलमुत्पद्यते बीजाद्यभाव  
 इव सस्यादि ॥ ७६ ॥

निष्काम मनुष्योंद्वारा अनुष्ठान  
 किये जाते हुए देवत्वादिकी प्राप्तिके  
 हेतुभूत वर्णाश्रमविहित धर्म, जो  
 केवल धर्म ही हैं, उत्तम हेतु है और  
 मनुष्यत्वादिकी प्राप्तिके हेतुभूत जो  
 अधर्ममिश्रित धर्म हैं वे मध्यम हेतु हैं  
 तथा तिर्यगादि योनियोंकी प्राप्तिकी  
 हेतुभूत अर्धमयी विशेष प्रवृत्तियों  
 अधम हेतु हैं । जिस समय सम्पूर्ण  
 कल्पनासे रहित एकमात्र अद्वितीय  
 आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेपर उन उत्तम,  
 मध्यम और अधम हेतुओंको मनुष्य  
 इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता,  
 जैसे कि विवेकी पुरुष आकाशमें  
 बालकोंको दिखायी देनेवाली  
 मलिनताको नहीं देखता, उस समय  
 चित्त उत्तम, मध्यम और अधम फल-  
 रूपसे देवादि शरीरोंमें उत्पन्न नहीं  
 होता । बीजादिके अभावमें जैसे  
 अन्नादि उत्पन्न नहीं होते उसी  
 प्रकार हेतुके न होनेपर फलकी भी  
 उत्पत्ति नहीं होती ॥ ७६ ॥

हेत्वभावे चित्तं नोत्पद्यत इति

हेतुका अभाव हो जानेपर चित्त  
 उत्पन्न नहीं होता—ऐसा पहले कहा

हुक्तम् । सा पुनरनुत्पत्तिश्चित्तस्य । किन्तु वह चित्तकी अनुत्पत्ति  
कीदृशीत्युच्यते-- । कैसी होती है ? इसपर कहा जाता है--

अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्भया ।

अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः ॥ ७७ ॥

[ इस प्रकार ] निमित्तशून्य चित्तकी जो अनुत्पत्ति है वह सर्वथा  
निर्विशेष और अद्वितीय है । [ क्योंकि पहले भी ] वह सर्वदा अजात  
[ अर्थात् अद्वितीय ] चित्तकी ही होती है, क्योंकि यह जो कुछ  
[ प्रतीयमान द्वैतवर्ग ] है, सब चित्तका ही दृश्य है ॥ ७७ ॥

परमार्थदर्शनेन निरस्तधर्मा-  
धर्माख्योत्पत्तिनिमित्तस्यानिमित्त-  
स्य चित्तस्येति या मोक्षाख्यानु-  
त्पत्तिः सा सर्वदा सर्वावस्थासु समा-  
निर्विशेषाद्भया च । पूर्वमप्यजा-  
तस्यैवानुत्पन्नस्य चित्तस्य सर्वस्या-  
द्वयस्येत्यर्थः । यस्मात्प्रागपि  
विज्ञानाच्चित्तदृश्यं तदद्वयं जन्म  
च तस्मादजातस्य सर्वस्य सर्वदा  
चित्तस्य समाद्वयैवानुत्पत्तिर्न पुनः  
कदाचिद्भवति कदाचिद्वा न  
भवति । सर्वदैकरूपैवेत्यर्थः ॥ ७७ ॥

परमार्थज्ञानके द्वारा जिसका  
धर्माधर्मरूप उत्पत्तिका कारण निवृत्त  
हो गया है उस निमित्तशून्य चित्तकी  
जो मोक्षसंज्ञक अनुत्पत्ति है वह  
सर्वदा सब अवस्थाओंमें समान अर्थात्  
निर्विशेष और अद्वितीय है । वह  
पहलेसे ही अजात—अनुत्पन्न और  
सर्व अर्थात् अद्वय चित्तकी ही होती  
है । क्योंकि बोध होनेके पूर्व भी  
वह द्वैत और जन्म चित्तका ही दृश्य  
या अतः सम्पूर्ण अजात चित्तका  
अनुत्पत्ति सर्वदा समान और अद्वय  
ही होती है । ऐसी नहीं है कि  
कभी होती है और कभी नहीं होती ।  
तात्पर्य यह है कि वह सर्वदा  
एकरूपा ही है ॥ ७७ ॥

विद्वान्की अमयपदप्राप्ति

यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमि-  
त्तस्य द्वयस्याभावात्—

उपर्युक्त न्यायसे जन्मके हेतुभूत  
द्वैतका अभाव होनेके कारण—

बुद्ध्वानिमित्तां सत्यां हेतुं पृथगनाप्नुवन् ।

वीतशोकं तथाकाममभयं पदमश्नुते ॥ ७८ ॥

अनिमित्तताको ही सत्य जानकर और [ देवादि योनिकी प्राप्तिके ] किसी अन्य हेतुको न पाकर विद्वान् शोक और कामसे रहित अभयपद प्राप्त कर लेता है ॥ ७८ ॥

अनिमित्तां च सत्यां पर-  
मार्थरूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादि-  
कारणं देवादियोगिप्राप्तये पृथ-  
गनाप्नुवन्ननुपाददानस्त्यक्तवा-  
ह्यैषणः सन्कामशोकादिवर्जित-  
मविद्यादिरहितमभयं पदमश्नुते  
पुनर्न जायत इत्यर्थः ॥ ७८ ॥

अनिमित्तताको ही सत्य यानी परमार्थरूप जानकर तथा देवादि योनियोंकी प्राप्तिके लिये किसी अन्य धर्मादि कारणको न पाकर [ विद्वान् ] बाह्य प्रपणाओंसे मुक्त हो कामना एव शोकादिसे रहित अविद्याशून्य अभय-पदको प्राप्त कर लेता है, अर्थात् फिर जन्म नहीं लेता ॥ ७८ ॥

अमृताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते ।

वस्त्वभावं स बुद्ध्वैव निःसङ्गं विनिवर्तते ॥ ७९ ॥

चित्त असत्य [ द्वैत ] के अभिनिवेशसे ही तदनुरूप विषयोंमें प्रवृत्त होता है । तथा द्वैत वस्तुके अभावका बोध होनेपर ही वह उससे निःसङ्ग होकर लौट आता है ॥ ७९ ॥

यस्मादमृताभिनिवेशादसति  
द्वये द्रव्यास्तित्वनिश्चयोऽमृताभि-  
निवेशन्तस्मादविद्याव्यामोहरूपा-  
द्धि सदृशे तदनुरूपे तच्चित्तं  
प्रवर्तते । तस्य 'द्वयस्य वस्तुनो-

क्योंकि अमृताभिनिवेशसे जो द्वैत वस्तुत असत् है उसके अस्तित्वका निश्चय करना 'अमृताभिनिवेश' है—उस अविद्याजनित मोहरूप असत्याभिनिवेशके कारण ही चित्त तदनुरूप विषयोंमें प्रवृत्त होता है । जिस समय वह उस द्वैत वस्तुमें

ऽभावं यदा बुद्ध्वांस्तदा तस्मान्निः- अभाव जान लेता है उस समय उस  
सङ्गं निरपेक्षं सद्विनिवर्ततेऽभूता- मिथ्या अभिनिवेशजनित विषयसे  
भिनिवेशविषयात् ॥ ७९ ॥ निःसङ्ग-निरपेक्ष होकर लौट आता  
है ॥ ७९ ॥

मनोवृत्तियोंकी सन्धिमें ब्रह्मसाक्षात्कार

निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः ।

विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम् ॥ ८० ॥

इस प्रकार [ द्वैतसे ] निवृत्त और [ विषयान्तरमें ] प्रवृत्त न हुए चित्तकी उस समय निश्चल स्थिति रहती है । वह परमार्थदर्शी पुरुषोंका ही विषय है और वही परम साम्य, अज और अद्वय है ॥ ८० ॥

निवृत्तस्य द्वैतविषयाद्विषया-  
न्तरे चाप्रवृत्तस्याभावदर्शनेन  
चित्तस्य निश्चला चलनवर्जिता  
ब्रह्मस्वरूपैव तदा स्थितिः । यैषा  
ब्रह्मस्वरूपा स्थितिश्चित्तस्याद्वय-  
विज्ञानैकरसघनलक्षणा, स हि  
यस्माद्विषयो गोचरः परमार्थ-  
दर्शिनानां बुद्धानां तस्मात्तत्साम्यं  
परं निर्विशेषमजमद्वयं च ॥ ८० ॥

उस समय द्वैतविषयसे निवृत्त  
और विषयान्तरमें अप्रवृत्त चित्तकी  
अभावदर्शनके कारण निश्चल-चलन-  
वर्जिता अर्थात् ब्रह्मस्वरूपा स्थिति  
रहती है । चित्तकी जो यह  
अद्वयविज्ञानैकरसघनस्वरूपा ब्रह्म-  
मयी स्थिति है वह, क्योंकि  
परमार्थदर्शी ज्ञानियोंका विषय-गोचर  
है इसलिये, परमसाम्य-निर्विशेष  
अज और अद्वय है ॥ ८० ॥

पुनरपि कीदृशश्चासौ बुद्धानां  
विषय इत्याह—

वह ज्ञानियोंका विषय किस प्रकार-  
का है ? सो फिर भी बतलाते हैं—

अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयम् ।

सकृद्विभातो ह्येवैष धर्मो धातुस्वभावतः ॥ ८१ ॥

वह अज, अनिद्र, अस्वप्न और स्वयंप्रकाश है । यह [ आत्मानामक ] धर्म अपने वस्तु-स्वभावमे ही नित्यप्रकाशमान है ॥ ८१ ॥

स्वयमेव तत्प्रमातं भवति, वह स्वयं ही प्रकाशित होता  
नादित्याद्यपेक्षम्; स्वयंज्योतिःस्व- है—आदित्य आदिकी अपेक्षासे नहीं  
भावमित्यर्थः । सकृद्विमातः अर्थात् वह स्वयं प्रकाशस्वभाव है ।  
सदैव विमात इत्येतदेव एवंलक्षण यह ऐसे लक्षणोंवाला आत्मानामक  
आत्माख्यो धर्मो धातुस्वभावतो धर्म धातुस्वभाव—वस्तुस्वभावसे ही  
वस्तुस्वभावत इत्यर्थः ॥ ८१ ॥ सकृद्विमान सदा भासमान है ॥ ८१ ॥

आत्माकी दुर्दर्शिताका हेतु

एवमुच्यमानमपि परमार्थतत्त्वं इस प्रकार कहे जानेपर भी  
कस्माल्लौकिकैर्न गृह्यत इत्युच्यते— लौकिक पुरुषोंको इस परमार्थतत्त्वका  
बोध क्यों नहीं होता ? इसपर  
कहते हैं—

सुखमात्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा ।

यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ ॥ ८२ ॥

वे भगवान् जिस-किसी द्वैत वस्तुके आप्रहसे अनायास ही आच्छादित हो जाते हैं और सदा कठिनतामे प्रकट होते हैं ॥ ८२ ॥

यस्माद्यस्य कस्यचिद्द्वयवस्तुनो क्योंकि जिस किसी धर्म—द्वैत  
धर्मस्य ग्रहेण ग्रहणावेशेन मिथ्या- वस्तुके ग्रहण—आप्रहसे मिथ्या-  
मिनिविष्टतया सुखमात्रियते- मिनिवेशके कारण वे भगवान् अर्थात्  
अद्वय आत्मदेव सहज ही आवृत  
अनायासेनाच्छाद्यत इत्यर्थः । द्वयो- हो जाते हैं अर्थात् बिना आयासके  
ही आच्छादित हो जाते हैं—क्योंकि  
पलब्धिनिमित्तं हि तत्रावरणं न द्वैतोपलब्धिके निमित्तसे होनेवाला  
यत्नान्तरमपेक्षते । दुःखं च आवरण किसी अन्य यत्नकी अपेक्षा

विप्रियते प्रकटीक्रियते, परमार्थ-  
ज्ञानस्य दुर्लभत्वात् । भगवान-  
सावात्माद्वयो देव इत्यर्थः,  
अतो वेदान्तराचार्यैश्च बहुश  
उच्यमानोऽपि नैव ज्ञातुं शक्य  
इत्यर्थः । “आथयो वक्ता कुश-  
लोऽस्य लब्धा” (क० उ० १ ।  
२ । ७ ) इति श्रुतेः ॥ ८२ ॥

नहीं करता—और परमार्थज्ञान दुर्लभ  
होनेके कारण दुःखसे प्रकट किये  
जाते हैं; इसलिये वेदान्तराचार्यके  
अनेक प्रकार निरूपण करनेपर भी  
जाननेमें नहीं आ सकते—यह  
इसका तात्पर्य है । “इसका वर्णन  
करनेवाला आश्चर्यरूप है तथा इसे  
ग्रहण करनेवाला भी कोई निपुण  
पुरुष ही होता है” इस श्रुतिसे भी  
यही सिद्ध होता है ॥ ८२ ॥



परमार्थका आवरण करनेवाले असदभिनिवेश

अस्ति नास्तीत्यादिसूक्ष्मविषया  
अपि पण्डितानां ग्रहा भगवतः  
परमात्मन आवरणा एव किमुत  
मूढजनानां बुद्धिलक्षणा इत्येव-  
मर्थं प्रदर्शयन्नाह—

अस्ति-नास्ति इत्यादि सूक्ष्मविषय  
भी, जो पण्डितोंके आग्रह हैं,  
भगवान् परमात्माके आवरण ही हैं,  
फिर मूर्ख लोगोंके बुद्धिरूप आग्रहों-  
की तो बात ही क्या है ? इसी  
बातको दिखलते हुए कहते हैं—

अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः ।

चलस्थिरोभयाभावैरावृणोत्येव चालिशः ॥ ८३ ॥

कहता है, नहीं है, है भी और नहीं भी है तथा नहीं है—नहीं है—  
इस प्रकार क्रमशः चल, स्थिर, उभयरूप और अभावरूप कोटियोंसे  
मूर्खलोग परमात्माको आवरित ही करते हैं ॥ ८३ ॥

अस्त्यत्मेति वादी कश्चित्प्र-  
तिपद्यते । नास्तीत्यपरो वैना-  
शिकः । अस्ति नास्तीत्यपरोऽर्ध-

कोई वादी कहता है—‘आत्मा  
है’ । दूसरा वैनाशिक कहता है—  
‘नहीं है’ । तीसरा अर्धवैनाशिक  
सदसदादी दिग्भ्रर कहता है—‘है’

वैनाशिकः सदसद्वादी दिग्वा-  
साः । नास्ति नास्तीत्यत्यन्तशून्य-  
वादी । तत्रास्तिभावश्चलः, घटा-  
घनित्यविलक्षणत्वात् । नास्ति-  
भावः स्थिरः सदाविशेषत्वात् ।  
उभयं चलस्थिरविषयत्वात्सद-  
सद्भावोऽभावोऽत्यन्ताभावः ।

प्रकारचतुष्टयस्यापि तैरेतै-  
श्चलस्थिरोभयाभावैः सदसदादि-  
वादी सर्वोऽपि भगवन्तमावृणो-  
त्येव वालिशोऽविवेकी । यद्यपि  
पण्डितो वालिश एव परमार्थ-  
तत्त्वानवबोधात्किमु स्वभावमूढो  
जन इत्यभिप्रायः ॥८३॥

भी और नहीं भी है' । तथा अत्यन्त  
शून्यवादीका कथन है कि 'नहीं  
है-नहीं है' । इनमें अस्तिभाव  
'चल' है, क्योंकि वह घट आदि  
अनित्य पदार्थोंसे भिन्न है । [तात्पर्य  
यह है कि घटादिका प्रमाता सुखादि  
विशेष धर्मोंसे युक्त होनेके कारण  
परिणामी-चल है ] । सदा विशेष  
रूप होनेसे नास्तिभाव 'स्थिर'  
है । चल और स्थिरविषयक होनेसे  
सदसद्भाव उभयरूप है तथा अभाव  
अत्यन्ताभारूप है ।

इन चल, स्थिर, चलस्थिर और  
अभारूप चार प्रकारके भावोंसे सभी  
मूर्ख अर्थात् विवेकहीन सदसदादि  
वादीगण भगवान्को आच्छादित  
ही करते हैं । वे यद्यपि पण्डित हैं,  
तो भी परमार्थतत्त्वका ज्ञान न होनेके  
कारण मूर्ख ही हैं । अतः तात्पर्य यह  
है कि फिर स्वभावसे ही मूर्खलोगोंकी  
तो बात ही क्या है ? ॥८३॥

कीटकपुनः परमार्थतत्त्वं यदव-  
बोधादवालिशः पण्डितो भवती-  
त्याह-

तो फिर यह परमार्थतत्त्व कैसा  
है जिसका ज्ञान होनेपर मनुष्य  
अवालिश अर्थात् पण्डित हो जाना  
है ? इसपर कहते हैं—

कोट्यश्चतस्र एतास्तु ग्रहैर्यासां सदावृतः ।

भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्वदृक् ॥८४॥



जिनके अभिनिवेशसे आत्मा सदा ही आवृत रहता है वे ये चार ही कोटियाँ हैं। इनसे असंस्पृष्ट (अच्छूते) भगवान्को जिसने देखा है वही सर्वज्ञ है ॥ ८४ ॥

कोट्यः प्रावादुकशास्त्रनिर्ण-  
यान्ता एता उक्ता  
अस्ति नास्तीत्या-  
द्याश्चतस्रो यासां  
कोटीनां ग्रहैर्ग्रहणै-  
रुपलब्धिनिश्चयैः सदा सर्वदावृत-  
आच्छादितस्तेषामेव प्रावादुका-  
नां यः स भगवानाभिरस्तिना-  
स्तीत्यादिकोटिभिश्चतसृभिरप्य-  
स्पृष्टोऽस्त्यादिविकल्पनावर्जित  
इत्येतद्येन मुनिना दृष्टो ज्ञातो  
वेदान्तेष्वौपनिषदः पुरुषः स  
सर्वदृक्सर्वज्ञः परमार्थपण्डित  
इत्यर्थः ॥ ८४ ॥

उन प्रवाद करनेवाले वादियोंके शालोंद्वारा निर्णय की हुई ये अस्ति-नास्ति आदि चार ही कोटियाँ हैं। जिन कोटियोंके ग्रह—ग्रहणसे ही, अर्थात् उन प्रावादुकोंके इस उपलब्धि-जनित निश्चयमे ही जो भगवान् सदा आवृत है उसे जिस मुनिने इन अस्ति-नास्ति आदि चारों ही कोटियोंसे असंस्पृष्ट अर्थात् अस्ति-नास्ति आदि विकल्पसे सर्वदा रहित देखा है, यानी उसे वेदान्तोंमें [प्रतिपादित] औपनिषद पुरुपरूपसे जाना है वही सर्वदृक्—सर्वज्ञ अर्थात् परमार्थको जाननेवाला है ॥ ८४ ॥

ज्ञानीका नैष्कर्म्यं

प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नां ब्राह्मण्यं पदमद्वयम् ।

अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते ॥ ८५ ॥

इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय ब्राह्मण्य पदको पाकर भी क्या [वह विवेकी पुरुष] फिर कोई चेष्टा करना है ? ॥ ८५ ॥

प्राप्यैतां यथोक्तां कृत्स्नां  
समस्तां सर्वज्ञतां ब्राह्मण्यं पदं  
“स ब्राह्मणः” ( वृ० उ०

इस उपर्युक्त सम्पूर्ण सर्वज्ञता और “[ जो इस अक्षरको जानकर इस लोकसे जाना है ] वह ब्राह्मण

३।८।१०) “एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य” (बृ० उ० ४।४।२३) इति श्रुतेः; आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थितिलया अनापन्ना अप्राप्ता यस्याद्वयस्य पदस्य न विद्यन्ते तदनापन्नादिमध्यान्तं ब्राह्मण्यं पदम्, तदेव प्राप्य लब्ध्वा किमत्रः परमसादात्मलाभादूर्ध्वमीहते चेष्टते निष्प्रयोजनमित्यर्थः। “नैव तस्य कृतेनार्थः” (गीता ३।१८) इत्यादिस्मृतेः ॥ ८५ ॥

हैं” “यह ब्राह्मणकी शाश्वती महिमा है” इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार ब्राह्मण्यपदको प्राप्तकर—जिस अद्वयपदके आदि, मध्य और अन्त अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति और लय अनापन्न—अप्राप्त है, अर्थात् नहीं हैं वह अनापन्नादिमध्यान्त ब्राह्मण्यपद है, उसीको पाकर इसमें पीछे—इस आत्मलाभके अनन्तर कोई प्रयोजन न रहनेपर भी क्या [ यह विद्वान् ] कोई चेष्टा करता है ? [ अर्थात् नहीं करता ] जैसा कि “उसका किसी कार्यसे प्रयोजन नहीं रहता” इस स्मृतिसे प्रमाणित होना है ॥ ८५ ॥

विप्राणां विनयो ह्येष शमः प्राकृत उच्यते ।

दमः प्रकृतिदान्तत्वादेवं विद्वान्शमं व्रजेत् ॥ ८६ ॥

[ आत्मस्वरूपमें स्थित रहना ] यह उन ब्राह्मणोंका प्रिय है, यही उनका स्वाभाविक शम कहा जाता है तथा स्वभासे ही दान्त (जितेन्द्रिय) होनेके कारण यही उनका दम भी है। इस प्रकार विद्वान् शान्तिमें प्राप्त हो जाता है ॥ ८६ ॥

विप्राणां ब्राह्मणानां विनयो विनीतत्वं स्वाभाविकं यदेतदात्मस्वरूपेणाविस्थानम् । एष विनयः शमोऽप्येष एव प्राकृतः स्वाभाविकोऽकृतक उच्यते । दमोऽप्येष

ब्राह्मणोंका जो यह आत्मस्वरूपसे स्थित होना रूप प्रिय—विनीतत्व है वह स्वाभाविक है। उनका यह प्रिय और यही प्राकृत—स्वाभाविक अर्थात् अकृतक शम भी कहा जाता है। ब्रह्मस्वभावमें ही उपशान्तरूप

एव प्रकृतिदान्तत्वात्स्वभावत एव  
चोपशान्तरूपत्वाद्ब्रह्मणः । एवं  
यथोक्तं स्वभावोपशान्तं ब्रह्म  
विद्वाञ्छममुपशान्तिं स्वाभाविकीं  
ब्रह्मस्वरूपां ब्रजेद्ब्रह्मस्वरूपेणाव-  
तिष्ठत इत्यर्थः ॥ ८६ ॥

है, अतः प्रकृतितः दान्त होनेके  
कारण यही उनका दम भी है ।  
इस प्रकार उपर्युक्त स्वभावतः शान्त  
ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष शम-ब्रह्म-  
स्वरूपा स्वाभाविकी उपशान्तिको  
प्राप्त हो जाता है, अर्थात् ब्रह्मरूपसे  
स्थित हो जाता है ॥ ८६ ॥

### त्रिविध ज्ञेय

एवमन्योन्यविरुद्धत्वात्संसार-  
कारणानि रागद्वेषदोषास्पदानि  
प्रायादुक्तानां दर्शनानि । अतो  
मिथ्यादर्शनानि तानीति तद्यु-  
क्तिभिरेव दर्शयित्वा चतुष्कोटि-  
वर्जितत्वाद्वागादिदोषानास्पदं  
स्वभावशान्तमद्वैतदर्शनमेव स-  
म्यदर्शनमित्युपसंहृतम् । अथे-  
दानीं स्वप्रक्रियाप्रदर्शनार्थं  
आरम्भः—

इस प्रकार एक-दूसरेसे विरुद्ध  
होनेके कारण प्रायादुक्तों ( वादियों )  
के दर्शन संसारके कारणस्वरूप  
राग-द्वेषादि दोषोंके आश्रय हैं । अतः  
वे मिथ्या दर्शन हैं—यह बात  
उन्हींकी युक्तियोंसे दिखलाकर चारों  
कोटियोंसे रहित होनेके कारण  
रागादि दोषोंका अनाश्रयभूत  
स्वभावतः शान्त अद्वैतदर्शन ही  
सम्यग्दर्शन है—इस प्रकार उपसंहार  
किया गया । अब यहाँसे अपनी  
प्रक्रिया दिखलानेके लिये आरम्भ  
किया जाता है—

सवस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकमिष्यते ।

अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकमिष्यते ॥ ८७ ॥

वस्तु और उपलब्धि दोनोंके सहित जो द्वैत है उसे लौकिक  
( जाग्रत् ) कहते हैं तथा जो द्वैत वस्तुके बिना केवल उपलब्धिके  
सहित है उसे शुद्ध लौकिक ( स्वप्न ) कहते हैं ॥ ८७ ॥

सवस्तु संवृत्तिसता वस्तुना  
 लौकिकम् सह वर्तत इति  
 सवस्तु, तथा चो-  
 पलब्धिरुपलम्भस्तेन सह वर्तत  
 इति सोपलम्भं च शास्त्रादिसर्व-  
 व्यवहारास्पदं प्राद्यग्राहकलक्षणं  
 द्वयं लौकिकं लोकादनपेतं लौकिकं  
 जागरितमित्येतत् । एवलक्षणं  
 जागरितमिष्यते वेदान्तेषु ।

अवस्तु संवृतेरप्यभावात् ।  
 शुद्धलौकिकम् सोपलम्भं वस्तुवदु-  
 पलम्भमनुपलम्भो-  
 ऽसत्यपि वस्तुनि तेन सह वर्तत  
 इति सोपलम्भं च । शुद्धं केवलं  
 प्रविभक्तं जागरितात्स्थूलाल्लौ-  
 किकं सर्वप्राणिमाधारणत्वादि-  
 ष्यते स्वप्न इत्यर्थः ॥ ८७ ॥

सवस्तु—व्यावहारिक सत् वस्तुके  
 सहित रहता है, इसलिये जो  
 सवस्तु है तथा उपलम्भ यानी उप-  
 लब्धि के सहित है, इसलिये जो  
 'सोपलम्भ' है ऐसा शास्त्रादि  
 सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रयभूत प्राह्य-  
 ग्रहणरूप जो द्वैत है वह 'लौकिक'—  
 लोकमे दूर न रहनेवाला अर्थात्  
 जाग्रत कहलाता है । वेदान्तोंमें  
 जागरितको ऐसे लक्षणोंवाला माना है ।

सवृत्तिका भी अभाव होनेके  
 कारण जो 'अवस्तु' है—किन्तु  
 'सोपलम्भ' है—वस्तुके न होने-  
 पर भी वस्तुके समान उपलब्ध  
 होना 'उपलम्भ' कहलाता है ।  
 उसके सहित होनेके कारण जो  
 'सोपलम्भ' है वह सम्पूर्ण प्राणियों-  
 के लिये साधारण होनेके कारण शुद्ध-  
 केवल अर्थात् जागरितरूप स्थूल  
 लौकिकमे भिन्न लौकिक माना जाता  
 है, अर्थात् वह स्वप्नावस्था है ॥ ८७ ॥

अवस्त्वनुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतम् ।

ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम् ॥ ८८ ॥

जो वस्तु और उपलब्धि दोनोंसे रहित है वह अस्था लोकोत्तर  
 (सुषुप्ति) मानी गयी है । इस प्रकार विद्वानोंने सर्वदा ही [ अस्था-  
 त्रयत्प ] ज्ञान और ज्ञेय तथा [ तुरीयरूप ] विज्ञेयका निरूपण  
 किया है ॥ ८८ ॥

अवस्त्वनुपलम्भं च ग्राह्य-  
लोकोत्तरम् ग्रहणवर्जितमित्ये-

तत्, लोकोत्तरम्  
अतएव लोकातीतम् । ग्राह्यग्रहण-  
विषयो हि लोकस्तदभावात्सर्व-  
प्रवृत्तिबीजं सुषुप्तमित्येतदेवं  
स्मृतम् ।

सोपायं परमार्थतत्त्वं लौकिकं  
शुद्धलौकिकं लोकोत्तरं च क्रमेण  
येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम् ।  
ज्ञेयमेतान्येव त्रीणि । एतद्व्यति-  
रेकेण ज्ञेयानुपपत्तेः सर्वप्रावादुक-  
कल्पितवस्तुनोऽत्रैवान्तर्भावात् ।  
विज्ञेयं परमार्थसत्यं तुर्याख्यमद्व-  
यमजमात्मतत्त्वमित्यर्थः । सदा  
सर्वदा एतल्लौकिकादिविज्ञेयान्तं  
बुद्धैः परमार्थदर्शिभिर्ब्रह्मविद्भिः  
प्रकीर्तितम् ॥ ८८ ॥

अवस्तु और अनुपलम्भ अर्थात्  
ग्राह्य और ग्रहणसे रहित जो अवस्था  
है वह 'लोकोत्तर' अतएव 'लोका-  
तीत' कहलाती है, क्योंकि ग्राह्य  
और ग्रहणका विषय ही लोक है ।  
उसका अभाव होनेके कारण वह  
सुषुप्त-अवस्था सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंकी  
बीजभूता है—ऐसा माना गया है ।

उपायके सहित परमार्थतत्त्व तथा  
लौकिक, शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर  
अवस्थाओंका जिस ज्ञानके द्वारा  
क्रमशः बोध होता है उसे 'ज्ञान'  
कहते हैं तथा ये तीनों अवस्थाएँ  
ही 'ज्ञेय' हैं, क्योंकि समस्त  
वादियोंकी कल्पना की हुई वस्तुओं-  
का इन्हींमें अन्तर्भाव होनेके कारण  
इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेयका  
होना सम्भव नहीं है । जो परमार्थ  
सत्य तुरीयसंज्ञक अद्वय अजन्मा  
आत्मतत्त्व है वही 'विज्ञेय' है ।  
ऐसा इसका अभिप्राय है ।  
उन लौकिकसे लेकर विज्ञेयपर्यन्त  
सम्पूर्ण वस्तुओंका परमार्थदर्शी  
विद्वानोंने सदा—सर्वदा ही निरूपण  
किया है ॥ ८८ ॥

त्रिविध ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है

ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयम् ।

सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः ॥ ८९ ॥

ज्ञान और तीन प्रकारके ज्ञेयको क्रमशः जान लेनेपर इस लोकमें उस महाबुद्धिमान्को स्वयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है ॥ ८९ ॥

ज्ञाने च लौकिकादिविषये,  
ज्ञेये च लौकिकादीं त्रिविधे—  
पूर्वं लौकिकं स्थूलम्, तदभावेन  
पञ्चाच्छुद्धं लौकिकम्, तदभावेन  
लोकोत्तरमित्येवं क्रमेण स्थान-  
त्रयामावेन परमार्थसत्ये तुर्ये-  
ऽद्वयेऽजेऽभये विदिते स्वयमेवात्म-  
स्वरूपमेव सर्वज्ञता सर्वत्रासी  
ज्ञश्च सर्वज्ञस्तद्भाषः सर्वज्ञता,  
इहास्मिँल्लोके भवति महाधियो  
महाबुद्धेः । सर्वलोकान्तिशय-  
वस्तुविषयबुद्धित्वादेवंविदः सर्वत्र  
सर्वदा भवति । सकृद्विदिते स्व-  
रूपे व्यभिचारामानादित्यर्थः ।  
न हि परमार्थविदो ज्ञानोद्भवा-  
मिभर्वा स्तो यथान्येषा प्रावादु-  
कानाम् ॥ ८९ ॥

लौकिकादिविषयक ज्ञान और  
लौकिकादि तीन प्रकारके ज्ञेयको  
जान लेनेपर, अर्थात् पहले स्थूल  
लौकिकको, फिर उसके अभावमें  
शुद्ध लौकिकको तथा उसके भी  
अभावमें लोकोत्तरको—इस प्रकार  
क्रमशः तीनों अस्थाओंके अभाव-  
द्वारा परमार्थसत्य अद्वय, अजन्मा  
और अमयरूप तुरीयको जान  
लेनेपर, इस लोकमें उस महाबुद्धिको  
सर्वत्र यानी सर्वदा स्वयं आत्मस्वरूप  
ही सर्वज्ञता—जो सर्वरूप ज्ञ (ज्ञानी)  
हो उसे 'सर्वज्ञ' कहते हैं उसीकी  
भावरूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती है,  
क्योंकि ऐसा जाननेवालेकी बुद्धि  
सम्पूर्ण लोकसे बढी हुई वस्तुको  
विषय करनेवाली होती है । तात्पर्य  
यह है कि स्वरूपका एक बार ज्ञान  
हो जानेपर उसका कभी व्यभिचार  
न होनेके कारण [ उसकी सर्वज्ञता  
सर्वदा रहती है ], क्योंकि जिस  
प्रकार अन्य वादियोंके ज्ञानके उदय  
और अस्त होते रहते हैं उस प्रकार  
परमार्थवेत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उदय  
और अस्त नहीं होने ॥ ८९ ॥

लौकिकादीनां क्रमेण ज्ञेयत्वेन  
निर्देशादस्तित्वाशङ्का परमार्थतो  
मा भूदित्याह—

[ उपर्युक्त श्लोकमें ] लौकिकादि-  
को क्रमशः ज्ञेयरूपसे बतलाये जानेके  
कारण उनके परमार्थतः अस्तित्वकी  
आशङ्का न हो जाय—इसलिये  
कहते हैं—

हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणतः ।

तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भस्त्रिपु स्मृतः ॥ ९० ॥

[ जाग्रदादि ] हेय, [ सत्यब्रह्मस्वरूप ] ज्ञेय, [ पाण्डित्यादि ]  
प्राप्तव्य साधन और [ राग-द्वेषादि ] प्रशमनीय दोष—ये सबसे पहले  
जानने योग्य हैं । इनमेंसे ज्ञेय ( ब्रह्म ) को छोड़कर शेष तीनोंमें तो केवल  
उपलम्भ ( अविद्याकल्पितत्व ) ही माना गया है ॥ ९० ॥

हेयानि च लौकिकादीनि  
त्रीणि जागरितस्वप्नसुषुप्तान्यात्म-  
न्यसत्त्वेन रज्ज्वां सर्पवद्भातव्या-  
नीत्यर्थः । ज्ञेयमिह चतुष्कोटि-  
वर्जितं परमार्थतत्त्वम् । आप्या-  
न्याप्तव्यानि त्यक्तवाह्यैपणात्रयेण  
भिक्षुणा पाण्डित्यघ्नात्यमौना-  
ख्यानि साधनानि । पाक्यानि  
रागद्वेषमोहादयो दोषाः कपाया-  
ख्यानि पक्तव्यानि । सर्वाण्ये-  
तानि हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञे-

लौकिकादि तीन हेय हैं ।  
तात्पर्य यह है कि जागरित, स्वप्न  
और सुषुप्ति—ये तीनों अवस्थाएँ  
रज्जुमें सर्पके समान आत्मामें असत्  
होनेके कारण त्यागने योग्य हैं ।  
चारों कोटियोंसे रहित परमार्थतत्त्व  
ही यहाँ ज्ञेय माना गया है । वाह्य  
तीनों एषणाओंको त्याग देनेवाले  
मुमुक्षुके लिये पाण्डित्य बाल्य और  
मौन नामक तीन साधन ही आप्य  
—प्राप्तव्य हैं; तथा राग, द्वेष और  
मोह आदि कपायसंज्ञक दोष ही  
[ उसके लिये ] पाक्य—पाक ( जीर्ण )  
करने योग्य हैं । तात्पर्य यह है कि  
मुमुक्षुको हेय, ज्ञेय, आप्य और  
पाक्य इन सबको ही अग्रयाणतः—

यानि भिक्षुणोपायत्वेनेत्यर्थः, अग्रयाणतः प्रथमतः ।

तेषां हेयादीनामन्यत्र विज्ञेयात्परमार्थसत्यं विज्ञेयं ब्रह्मैकं वर्जयित्वा, उपलम्भनमुपलम्भोऽविद्याकल्पनाभात्रम् । हेयाप्यपाक्येषु त्रिष्वपि स्मृतो ब्रह्मविद्धिर्न परमार्थसत्यता त्रयाणामित्यर्थः ॥ ९० ॥

सबसे पहले अपने साधनरूपसे जानना चाहिये ।

उन हेय आदिमेंसे केवल एक परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्मको छोड़कर शेष हेय, आप्य और पाक्य—इन तीनोंमें ब्रह्मवेत्ताओंने केवल उपलम्भ—उपलम्भन यानी अविद्यामय कल्पनामात्र ही माना है, अर्थात् इन तीनोंकी परमार्थसत्यता स्वीकार नहीं की है ॥ ९० ॥

जीव आकाशके समान अनादि और अभिन्न है

परमार्थतस्तु—

| वास्तवमें तो—

प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयाः सर्वे धर्मा अनादयः ।

विद्यते न हि नानात्वं तेषां कचन किञ्चन ॥ ९१ ॥

सम्पूर्ण जीवोंको स्वभावसे ही आकाशके समान और अनादि जानना चाहिये । उनका नानात्व कहीं कुछ भी नहीं है ॥ ९१ ॥

प्रकृत्या स्वभावात् आकाशवदाकाशतुल्याः सूक्ष्मनिरञ्जनसर्वगतत्वैः सर्वे धर्मा आत्मानो ज्ञेया मुमुक्षुभिरनादयो नित्याः । बहुवचनकृतभेदाशङ्कां निराकुर्वाद्वाह—कचन किञ्चन किञ्चि-

मुमुक्षुओंको सूक्ष्मत्व, निरञ्जनत्व और सर्वगतत्व आदिके कारण सभी धर्मों—जीवोंको प्रकृतिसे अर्थात् स्वभावात् आकाशवत्—आकाशके समान और अनादि यानी नित्य जानना चाहिये । यहाँ बहुवचनके कारण होनेवाले जीवात्माओंके भेदकी आशङ्काका निराकरण करने हुए कहते हैं—‘उनका कचन—कहीं,



दणुमात्रमपि तेषां न विद्यते | किञ्चन—कुछ भी अर्थात् अणुमात्र  
नानात्वमिति ॥ ९१ ॥ | भी नानात्व नहीं है' ॥ ९१ ॥

### आत्मतत्त्वनिरूपण

ज्ञेयतापि धर्माणां संबृत्यैव न | आत्माओंका जो ज्ञेयता है वह भी  
परमार्थत इत्याह— | व्यावहारिक ही है परमार्थतः नहीं—  
इसी अभिप्रायसे कहते हैं—

आदिवुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः ।

यस्यैवं भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ ९२ ॥

सम्पूर्ण आत्मा स्वभावसे ही नित्य बोधस्वरूप और सुनिश्चित हैं—  
जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमरत्व ( मोक्ष ) प्राप्तिमें समर्थ  
होता है ॥ ९२ ॥

यस्मादादौ बुद्धा आदिवुद्धाः | क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य  
प्रकृत्यैव स्वभावत एव यथा प्रकाशस्वरूप है उसी प्रकार सम्पूर्ण  
नित्यप्रकाशस्वरूपः सवितैवं धर्म यानी आत्मा प्रकृति—स्वभावसे ही  
नित्यबोधस्वरूपा इत्यर्थः सर्वे आदिवुद्ध—आरम्भमें ही जाने हुए  
धर्माः सर्व आत्मानः । न च अर्थात् नित्यबोधस्वरूप हैं । उनका  
तेषां निश्चयः कर्तव्यो नित्य- निश्चय भी नहीं करना है; अर्थात्  
निश्चितस्वरूपा इत्यर्थः । न संदि- वे नित्यनिश्चितस्वरूप हैं—'ऐसे  
ह्यमानस्वरूपा एवं नैवं चेति । हैं अथवा नहीं हैं' इस प्रकार  
सन्दिग्धस्वरूप नहीं हैं ।

यस्य मुमुक्षोरेवं यथोक्तप्रका- | जिस मुमुक्षुको इस तरह—  
रेण सर्वदा बोधनिश्चयनिरपेक्षता- उपर्युक्त प्रकारसे अपने अथवा पराये-  
त्सार्थ परार्थ वा यथा सविता लिये सर्वदा बोधनिश्चय-सम्बन्धिनी  
नित्यं प्रकाशान्तरनिरपेक्षः स्वार्थ निरपेक्षता है; जिस प्रकार सूर्य  
अपने अथवा परायेलिये सदा ही

परमार्थं चेत्येव भवति क्षान्ति-  
बोधकर्तव्यतानिरपेक्षता भवदा  
स्वात्मनि सोऽमृतत्वायामृत-  
भावाय कल्पते मोक्षाय समर्थो  
भवतीत्यर्थः ॥ ९२ ॥

प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं करता  
उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने  
आत्मामें क्षान्ति-बोधकर्तव्यताकी  
निरपेक्षता रहती है वह अमृतत्व-  
अमृतभाव अर्थात् मोक्षके त्रिये  
समर्थ होता है ॥ ९२ ॥

तथा नापि शान्तिकर्तव्यता-  
त्मनीत्याह—

इसी प्रकार आत्मामें शान्ति-  
कर्तव्यता भी नहीं है—इसी आशयसे  
कहते हैं—

आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः ।

सर्वे धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम् ॥ ९३ ॥

सम्पूर्ण आत्मा नित्यशान्त, अजन्मा, स्वभावमे ही अत्यन्त उपरत  
तथा सम और अभिन्न हैं । [ इस प्रकार क्योंकि ] आत्मतत्त्व अज,  
समतारूप और विशुद्ध है [ इसलिये उसकी शान्ति अथवा मोक्ष  
कर्तव्य नहीं है ] ॥ ९३ ॥

यस्मादादिशान्ता नित्यमेव  
शान्ता अनुत्पन्ना अजाश्च प्रकृ-  
त्यैव सुनिर्वृताः सुष्ठुपरतस्वभावा  
इत्यर्थः, सर्वे धर्माः समाभिन्ना-  
श्च समाभिन्नाः, अजं साम्यं  
विशारदं विशुद्धमात्मतत्त्वं यस्मा-  
त्तस्माच्छान्तिर्मोक्षो वा नास्ति  
कर्तव्य इत्यर्थः, न हि नित्यैक-

क्योंकि सम्पूर्ण धर्म आदि-  
शान्त-सर्वदा ही शान्तस्वरूप,  
अनुत्पन्न-अजन्मा, स्वभावसे ही  
सुनिर्वृत अर्थात् अत्यन्त उपरत  
स्वभाववाले हैं, तथा सम और  
अभिन्न हैं, इस प्रकार, क्योंकि  
आत्मतत्त्व अजन्मा, समतारूप और  
विशुद्ध है, इसलिये उसकी शान्ति  
अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है—  
यह इसका अभिप्राय है, क्योंकि  
उस नित्य एकस्वभावके लिये

स्वभावस्य कृतं किञ्चिदर्थवत्स्यात् | कुछ भी करना सार्थक नहीं  
॥ ९३ ॥ हो सकता ॥ ९३ ॥

आत्मज्ञ ही अकृपण है

ये यथोक्तं परमार्थतत्त्वं प्रति-  
पन्नास्ते एवाकृपणा लोके कृपणा  
एवान्य इत्याह—

जो लोग उपर्युक्त परमार्थतत्त्वको  
समझते हैं लोकमें वे ही अकृपण हैं,  
उनके सिवा और सब तो कृपण  
ही हैं—इसी भावको लेकर कहते हैं—

वैशारद्यं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा ।

भेदनिम्नाः पृथग्वादास्तस्मात्ते कृपणाः स्मृताः ॥ ९४ ॥

जो लोग सर्वदा भेदमें ही विचरते रहते हैं, निश्चय ही उनकी  
विशुद्धि नहीं होती । द्वैतवादी लोग भेदकी ही ओर प्रवृत्त होनेवाले हैं  
इसलिये वे कृपण (दीन) माने गये हैं ॥९४॥

यस्माद्भेदनिम्ना भेदानुया-  
यिनः संसारानुगा इत्यर्थः; के ?  
पृथग्वादाः पृथङ्नाना वस्त्व-  
त्येवं वदनं येषां ते पृथग्वादा  
द्वैतिन इत्यर्थः, तस्मात्ते कृपणाः  
क्षुद्राः स्मृताः; यस्माद्वैशारद्यं वि-  
शुद्धिर्नास्ति तेषां भेदे विचरतां  
द्वैतमार्गेऽविद्याकल्पिते सर्वदा  
वर्तमानानामित्यर्थः । अत्र  
युक्तमेव तेषां कार्पण्यमित्य-  
भिप्रायः ॥ ९४ ॥

क्योंकि वे भेदनिम्न—भेदानुयायी  
अर्थात् संसारके अनुगामी हैं,  
कौन लोग ? पृथक्वादी—‘पृथक्  
अर्थात् नाना वस्तु हैं’—ऐसा जिन-  
का कथन है वे पृथक्वादी अर्थात्  
द्वैतिलोग, इसलिये वे कृपण—क्षुद्र  
माने गये हैं; क्योंकि भेद अर्थात्  
अविद्यापरिकल्पित द्वैतमार्गमें सर्वदा  
विचरनेवाले उन लोगोंका वैशारद्य  
अर्थात् विशुद्धि नहीं होनी । अतः  
उनका कृपण होना ठीक ही है—  
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥९४॥

## आत्मज्ञका महाज्ञानित्य

यदिदं परमार्थतत्त्वमहात्म-  
मिरपण्डितैर्वेदान्तवहिःष्ठैः क्षुद्रैर-  
ल्पप्रज्ञैरनवगाद्यमित्याह—

यह जो परमार्थतत्त्व है वह  
क्षुद्रचित्त अशिवेजी तथा वेदान्तके  
अनधिकारी क्षुद्र और मन्दबुद्धि  
पुरुषोंकी समझमें नहीं आ सकता—  
इस आशयमें कहते हैं—

अजे साम्ये तु ये केचिद्विप्यन्ति सुनिश्चिताः ।

ते हि लोके महाज्ञानास्तच्च लोको न गाहते ॥९५॥

जो कोई उस अज और साम्यरूप परमार्थतत्त्वमें अत्यन्त निश्चित  
होंगे वे ही लोकमें परम ज्ञानी है । उस तत्त्वका सामान्य लोक अवगाहन  
नहीं कर सकता ॥ ९५ ॥

अजे साम्ये परमार्थतत्त्व एव-  
मेवेति ये केचित्स्त्र्याढयोऽपि  
सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत्त एव  
हि लोके महाज्ञाना निरतिशय-  
तत्त्वविषयज्ञाना उत्तर्यः ।

उस अज और साम्यरूप परमार्थ-  
तत्त्वमें जो कोई—स्त्री आदि भी  
‘यह ऐसा ही है’ इस प्रकार  
पूर्णतया निश्चित होंगे वे ही लोकमें  
महाज्ञानी अर्थात् निरतिशय तत्त्व-  
विषयक ज्ञानवाले हैं ।

तच्च तेषां वर्त्म तेषां विदितं  
परमार्थतत्त्व मामान्यबुद्धिरन्यो  
लोको न गाहते नातरति न  
विषयीकरोतीत्यर्थः । “सर्व-  
भूतात्मभूतस्य सर्वभूतहितस्य च ।  
देवा अपि मार्गे मुह्यन्त्यपदस्य  
पदैपिणः । शकुनीनामिवाकाशे

उस—उनके मार्ग अर्थात् उन्हें  
विदित हुए परमार्थतत्त्वमें अन्य  
साधारण बुद्धिवाला मनुष्य अवगाहन  
—अवतरण नहीं करता अर्थात् उसे  
विषय नहीं कर सकता । “जो  
सम्पूर्ण भूतोंका आत्मभूत और  
सब प्राणियोंका हितकारी है उस  
पदरहित ( प्राप्य पुरुषार्थहीन )  
महात्माके पदको जाननेकी इच्छा-  
वाले देवता भी उसके मार्गमें मोहको  
प्राप्त हो जाते हैं तथा आकाशमें

गतिनैवोपलभ्यते” ( महा० शा० २३९ । २३, २४ ) इत्यादि-  
सरणात् ॥ ९५ ॥

जैसे पक्षियोंका मार्ग नहीं मिलता  
उसी प्रकार उसकी गतिका पता  
नहीं चलता” इत्यादि स्मृतिसे  
भी यही प्रमाणित होता है ॥९५॥

कथं महाज्ञानत्वमित्याह—

उनका महाज्ञानित्व किस प्रकार  
है ? सो बतलाते हैं—

अजेष्वजमसंक्रान्तं धर्मेषु ज्ञानमिष्यते ।

यतो न क्रमते ज्ञानमसङ्गं तेन कीर्तितम् ॥ ९६ ॥

अजन्मा आत्माओंमें स्थित अज ( नित्य ) ज्ञान असंक्रान्त ( अन्य  
विषयोंसे न मिलनेवाला ) माना जाता है । क्योंकि वह ज्ञान अन्य विषयोंमें  
संक्रमित नहीं होता इसलिये उसे असंग बतलाया गया है ॥ ९६ ॥

अजेष्वनुत्पन्नेष्वचलेषु धर्मेषु  
प्रात्मस्वजमचलं च ज्ञानमिष्यते  
सवितरीवौष्ण्यं प्रकाशश्च यतस्त-  
सादसंक्रान्तमर्थान्तरे ज्ञानमज-  
मिष्यते । यस्मान्न क्रमतेऽर्थान्तरे  
ज्ञानं तेन कारणेनासङ्गं तत्कीर्ति-  
तमाकाशकल्पमित्युक्तम् ॥९६॥

क्योंकि अज—अनुत्पन्न यानी  
अचल धर्मों—आत्माओंमें सूर्यमें  
उष्णता और प्रकाशके समान अज  
अर्थात् अचल ज्ञान माना जाता है  
अतः अर्थान्तरमें असंक्रान्त ( अन-  
नुत्पन्न ) ज्ञानको अजन्मा ( नित्य )  
स्वीकार किया जाता है । क्योंकि  
वह ज्ञान दूसरे विषयोंमें संक्रमित  
नहीं होता इसलिये उसे असंग कहा  
गया है; अर्थात् वह आकाशके  
समान है—ऐसा कहा है ॥ ९६ ॥

जातवादमें दोषप्रदर्शन

अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये जायमानेऽविपश्चितः ।

असङ्गता सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः ॥९७॥

[ अन्य वादियोंके मतानुसार ] किसी अणुमात्र भी विवर्मा वस्तुकी, उत्पत्ति माननेपर तो अविद्येकी पुरुषकी असंगता भी कभी नहीं हो सकती, फिर उसके आवरणनाशके विषयमें तो कहना ही क्या है ? ॥९७॥

<p>इतोऽन्येषां वादिनामणुमात्रे- ऽपि वैधर्म्ये वस्तुनि बहिरन्तर्वा- जायमान उत्पाद्यमानेऽपिपश्चि- तोऽविद्येकिनोऽसङ्गता असङ्गत्वं सदा नास्ति किमुत वक्तव्यमावर- णच्युतिर्वन्धनाशो नास्तीति । ९७ ।</p>	<p>इससे भिन्न जो अन्य वादी हैं उनके मतानुसार अणुमात्र अर्थात् थोड़ी-सी भी विवर्मा वस्तुके बाहर या भीतर उत्पन्न होनेपर तो अपिपश्चित—अविद्येकी पुरुषकी कभी असङ्गता भी नहीं हो सकती फिर उसकी आवरणच्युति अर्थात् बन्धनाश नहीं होता—इसके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है ? ॥९७॥</p>
--	--

### आत्माका स्वामादिक स्वरूप

<p>तेषामावरणच्युतिर्नास्तीति ब्रु- वता स्वसिद्धान्तेऽभ्युपगतं तर्हि धर्माणामावरणम् । नेत्युच्यते ।</p>	<p>उनकी आवरणच्युति नहीं होती— ऐसा कहकर तो तुमने अपने सिद्धान्तमें भी आत्माओंका आवरण स्वीकार कर लिया [—ऐसा यदि कोई कहे तो ] इसपर हमारा कहना है—नहीं,</p>
--	---

अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः ।

आदां बुद्धास्तथा मुक्ता ब्रुध्यन्त इति नायकाः ॥९८॥

ममस्त आत्मा आवरणशून्य, स्वभावे ही निर्मल तथा नित्य बुद्ध ओर मुक्त हैं । तथापि स्वामीयोग ( वेदान्ताचार्ययोग ) ज्ञे जाने जाते हैं' ऐसा [ उनके विषयमें कहते हैं ] ॥ ९८ ॥

अलब्धावरणाः—अलब्धम्— 'अलब्धावरणाः'—जिन्हें आवरण प्राप्तमावरणमविद्यादिवन्धनं येषां अर्थात् अविद्यादिरूप बन्धन लाभ

ते धर्मा अलञ्चावरणा बन्धन-  
रहिता इत्यर्थः, प्रकृतिनिर्मलाः  
स्वभावशुद्धा आदौ बुद्धास्तथा  
मुक्ता यस्मान्नित्यशुद्धबुद्धमुक्त-  
स्वभावाः ।

यद्येवं कथं तर्हि बुध्यन्ते  
इत्युच्यते ?

नायकाः स्वामिनः समर्था  
बोद्धुं बोधशक्तिमत्स्वभावा  
इत्यर्थः, यथा नित्यप्रकाश-  
स्वरूपोऽपि सविता प्रकाशत  
इत्युच्यते यथा वा नित्यनिवृत्त-  
गतयोऽपि नित्यमेव शैलास्तिष्ठ-  
न्तीत्युच्यते तद्वत् ॥ ९८ ॥

अर्थात् प्राप्त नहीं हुआ है वे धर्म  
अलञ्चावरण अर्थात् बन्धनरहित,  
प्रकृति, निर्मल—स्वभावसे ही शुद्ध  
और आरम्भमें ही बोधको प्राप्त हुए  
तथा मुक्तस्वरूप हैं, क्योंकि वे नित्य-  
शुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव हैं ।

शङ्का—यदि ऐसी बात है तो  
उनके विषयमें 'वे जाने जाते हैं'  
ऐसा क्यों कहा जाता है ?

समाधान—नायक—स्वामी लोग  
—जाननेमें समर्थ अर्थात् बोधशक्ति-  
युक्त स्वभाववाले लोग उनके विषयमें  
उसी प्रकार ऐसा कहते हैं जैसे कि  
नित्य प्रकाशस्वरूप होनेपर भी  
सूर्यके विषयमें 'सूर्य प्रकाशमान  
है' ऐसा कहा जाना है तथा सर्वदा  
गतिशून्य होनेपर भी 'पर्वत खड़े  
हैं' ऐसा कहा जाता है ॥ ९८ ॥

अज्ञातवाद बौद्धदर्शन नहीं है

क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः ।

सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम् ॥ ९९ ॥

अखण्ड प्रज्ञानवान् परमार्थदर्शिका ज्ञान धर्मों ( विषयों ) में संकमित  
नहीं होता और न [ उसके मतमें ] सम्पूर्ण धर्म ( आत्मा ) ही कही  
जाते हैं । परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्धदेवने नहीं कहा [ अर्थात् यह बौद्ध  
सिद्धान्त नहीं है, बल्कि औपनिषद् दर्शन है ] ॥ ९९ ॥

यस्मान्न हि क्रमते बुद्धस्य  
परमार्थदर्शिनो ज्ञानं विषयान्त-  
रेषु धर्मेषु धमसस्थं सवितरीव  
प्रभा, तायिनः तायोऽस्यास्तीति  
तायी, संतानवतो निरन्तरस्या-  
काशकल्पस्येत्यर्थः, पूजावतो  
वा प्रज्ञावतो वा, सर्वे धर्मा  
आत्मानोऽपि तथा ज्ञानवदेवा-  
काशकल्पत्वान्न क्रमन्ते क्वचिद-  
प्यर्थान्तर इत्यर्थः ।

यदादाबुपन्यस्तं ज्ञानेनाका-  
शकल्पेनेत्यादि तदिदमाकाश-  
कल्पस्य तायिनो बुद्धस्य तदनन्य-  
त्वादाकाशकल्पं ज्ञान न क्रमते  
क्वचिदप्यर्थान्तरे । तथा धर्मा  
इति । आकाशमिवाचलमविक्रियं  
निरवयवं नित्यमद्वितीयमसङ्ग-  
मदृश्यमग्राह्यमशनायाघतीतं ब्र-  
ह्मात्मतत्त्वम् । “न हि द्रष्टुं दृष्टे-  
र्विपरिलोपो विद्यते” ( बृ० उ०  
४।३।२३ ) इति श्रुतेः ।

ज्ञानज्ञेयज्ञातृभेदरहितं पर-

तायी—जिसका नाय यानी  
( विन्मात्र ) हो उसे तायी कहने है ।  
क्योंकि तायी—मन्वानवान्—निरन्तर  
अर्थात् आकाशसदृश पूजावान्  
अथवा प्रज्ञावान् बुद्ध—परमार्थदर्शिका  
ज्ञान धर्मोंमें—विषयान्तरोंमें सक्रमित  
नहीं होता अपितु सूर्यमें प्रकाशकी  
भाँति आत्मनिष्ठ रहता है, उसी प्रकार  
सम्पूर्ण धर्म अर्थात् आत्मा भी  
ज्ञानके समान ही आकाशसदृश  
होनेके कारण कभी अर्थान्तरमें  
सक्रमित नहीं होते अर्थात् नहीं जाते ।

इस प्रकरणके आरम्भमें जिसका  
'ज्ञानेनाकाशकल्पेन' इत्यादि  
श्लोकद्वारा उपन्यास किया गया है,  
आकाशसदृश निरन्तर बोधशक्त-  
उत्तम अभिन्न होनेके कारण—यहाँ  
यह आकाशसदृश ज्ञान कभी  
अर्थान्तरमें सक्रमित नहीं होता,  
और ऐसे ही धर्म भी हैं अर्थात् वे  
भी आकाशके समान अचल,  
अविक्रिय, निरवयव, नित्य,  
अद्वितीय, असङ्ग, अदृश्य, अघ्राह्य  
और क्षुधा—पिपासादिसे रहित ब्रह्मा-  
त्मतत्त्व ही हैं, जैसा कि “दृष्टाकी  
दृष्टिका लोप नहीं होता” इस श्रुति-  
से सिद्ध होता है ।

ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे



मार्थतत्त्वमद्वयम् एतन्न बुद्धेन  
भाषितम् । यद्यपि बाह्यार्थनिरा-  
करणं ज्ञानमात्रकल्पना चाद्वय-  
वस्तुसामीप्यमुक्तम् । इदं तु  
परमार्थतत्त्वमद्वैतं वेदान्तेष्वेव  
विज्ञेयमित्यर्थः ॥ ९९ ॥

रहित इस अद्वय परमार्थतत्त्वका  
बुद्धने निरूपण नहीं किया; यद्यपि  
उसने बाह्यवस्तुका निराकरण और  
केवल ज्ञानकी ही कल्पना—ये अद्वय  
वस्तुके समीपवर्ती ही विषय कहे हैं;  
तात्पर्य यह है कि इस अद्वैत  
परमार्थतत्त्वको तो वेदान्तका ही  
विषय जानना चाहिये ॥ ९९ ॥

परमार्थपद-वन्दना

शास्त्रसमाप्तौ परमार्थतत्त्व-  
स्तुत्यर्थं नमस्कार उच्यते—

अब शास्त्रकी समाप्ति होनेपर  
परमार्थतत्त्वकी स्तुतिके लिये नमस्कार  
कहा जाता है—

दुर्दर्शमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम् ।

बुद्ध्या पदसनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम् ॥ १०० ॥

दुर्दर्श, अत्यन्त गम्भीर, अज, निर्विशेष और विशुद्ध पदको  
भेदरहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं ॥ १०० ॥

दुर्दर्शं दुःखेन दर्शनमस्येति  
दुर्दर्शम्, अस्ति नास्तीति चतु-  
ष्कोटिवर्जितत्वाद्दुर्विज्ञेयमित्य-  
र्थः । अत एवातिगम्भीरं दुष्प्रवेशं  
महासमुद्रवदकृतप्रज्ञैः, अजं  
साम्यं विशारदम्, इदृक्पदम-  
नानात्वं नानात्ववर्जितं बुद्ध्या-  
वगम्य तद्भूताः सन्तो नमस्कुर्म-  
न्ममै पदाय, अव्यवहार्यमपि  
व्यवहारगोचरमापाद्यं यथाबलं  
यथाशक्तीत्यर्थः ॥ १०० ॥

जिसका कठिन्तामे दर्शन हो  
सकता है ऐसे दुर्दर्श अर्थात् अस्ति-  
नास्ति आदि चारों कोटियोंसे रहित  
होनेके कारण दुर्विज्ञेय, अतएव अनि-  
गम्भीर... मन्दबुद्धियोंके लिये महा-  
समुद्रके समान दुष्प्रवेश्य तथा  
अजन्मा, साम्यरूप ( निर्विशेष ) और  
विशुद्ध—ऐसे पदको भेदरहित जान-  
कर तद्रूप हो और उस अव्यवहार्य-  
पदको भी व्यवहारका विषय बना-  
कर हम उसको यथाबल—यथाशक्ति  
नमस्कार करते हैं ॥ १०० ॥

भाष्यकारकर्तृक वन्दना

अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगा-  
दगतिं च गतिमक्षां प्रापदेकं ह्यनेकम् ।  
विविधविषयधर्मग्राहिमुग्धेक्षणानां

प्रणतभयविहन्तु ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥ १ ॥

जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीय शक्तिके योगमे जन्म ग्रहण किया, गतिशून्य होनेपर भी गति स्वीकार की तथा जो नाना प्रकारके विषयरूप धर्मोंको ग्रहण करनेवाले मूढदृष्टि लोगोंके विचारसे एक होकर भी अनेक हुआ है और जो शरणागतभयहारी है उस ब्रह्मको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

प्रज्ञावैशाखवेधश्रुभितजलनिधेर्वेदनाम्नोऽन्तरस्थं  
भूतान्यालोस्य मग्नान्यविरतजननग्राहघोरे समुद्रे ।  
कारुण्यादुहधाराभृतमिद्रममरैर्दुर्लभं भूतहेतो-  
र्यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुमभुं पादपातैर्नतोऽस्मि ॥ २ ॥

जो निरन्तर जन्म-जन्मान्तररूप ग्राहोंके कारण अत्यन्त भयानक है ऐसे ससारसागरमें जीवोंको डूबे हुए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी विशुद्ध बुद्धिरूप मन्यनदण्डके आघातसे क्षुभित हुए वेद नामक महासमुद्रके भीतर स्थित इस देवदुर्लभ अपृतको प्राणियोंके कल्याणके लिये निकाला है, उन पूजनीयोंके भी पूजनीय परम गुरु ( श्रीगौडपादाचार्य ) को मैं उनके चरणोंमें गिरकर प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥

यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहृतिमगमत्त्वान्तमोहान्धकारो  
मज्जोन्मज्जच्च घोरे ह्यसकृदुपजनोदन्वति प्रासने मे ।  
यत्पादावाश्रिताना श्रुतिशमविनयप्राप्तिरग्रथा ह्यमोघा  
नत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुद्यौ सर्वभावैर्नमस्ये ॥ ३ ॥

जिनके ज्ञानालोककी प्रभासे मेरे अन्तःकरणका मोहरूप अन्धकार नाशको प्राप्त हुआ तथा इस भयङ्कर ससारसागरमें बारंबार डूबना-उठलनारूप मेरी व्यथाएँ शान्त हो गयीं और जिनके चरणोंका आश्रय लेनेवालोंके लिये श्रुतिज्ञान, उपशम और विनयकी प्राप्ति अमोघ एवं पहले ही होनेवाली है उन [ श्रीगुरुदेवके ] भवभयहारी परम पवित्र चरण-युगलोंको मैं सर्वतोभावेसे नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य  
शङ्करभगवत कृतौ गौडपादीयागमशास्त्रविरणोऽजानशान्त्याख्य  
चतुर्थं प्रकरणम् ॥ ४ ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

ॐ

## शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा

भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा ५ सस्तनूभि-

र्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः

स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

॥ हरिः ॐ नमः ॥

# गौडपादीयकारिकानुक्रमणिका



कारिकाप्रतीकानि	प्रतरणाङ्क	शरिकाङ्क	पृष्ठम्
अकल्पकमज शानम्	३	२३	१६९
अकारो नयते विश्वम्	१	२३	७५
अज* कल्पितसङ्ख्या	४	७४	२५०
अजमनिद्रमम्बन्धम्	३	३६	१७३
अजमनिद्रमस्वप्नम्	४	१	२५५
अजात जायते यस्मात्	४	२९	२१८
अजातस्यैव धर्मस्य	४	६	१९३
अजातस्यैव भागस्य	३	२०	१५३
अजातेऽस्यैव तेषाम्	४	४३	२२९
अजादौ जायते यन्म	४	१३	१९९
अजे* अजमसकान्तम्	४	९६	२७१
अजे साम्ये तु ये केचित्	४	९५	२७०
अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये	४	९७	२७१
अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यम्	३	२	१२३
अदीर्घन्वाच्च कालस्य	२	२	८४
अद्वय च द्वयाभासम्	३	३०	१६६
अद्वय च द्वयाभासम्	४	६२	२४३
अद्वैत परमार्थो हि	३	१८	१५०
अनादिमायया सुप्त	१	१६	६५
अनादेरन्तवत्त्वं च	४	३०	२१९
अनिमित्तस्य चित्तस्य	४	७७	२५३
अनिश्चिता यथा रज्जु	२	१७	९८
अन्त स्थानात्तु भेदानाम्	२	४	८५
अन्यथा गृह्यते स्वप्न	१	१५	६४
अपूर्वे म्यानिर्गमो हि	२	८	००
अभावश्च रथादीनाम्	२	३	८५
अभूताभिनिवेशादि	४	७९	२५४
अभूताभिनिवेशोऽस्मिन्	४	७५	२५१
अमात्रोऽनन्तमात्रश्च	१	२९	८१
अलम्बावरणा सर्वे	४	९८	२७२
अलते स्पन्दमाने वै	४	४९	२३४

कारिकाप्रयोगानि	प्रकरणाङ्कः	कारिकाङ्कः	श्लोकः
अवस्त्यनुपलम्भं च	*** ४	८८	२६२
अव्यक्ता एवं वेऽन्तस्तु	*** २	१५	१६
अशक्तिरपरिज्ञानम्	*** ४	१९	२०३
असत्तज्जागरिते दृष्ट्वा	*** ४	३९	२२५
असतो मायया जन्म	*** ३	२८	१६४
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति	*** ४	८३	२५७
अत्यन्दमानमलातम्	*** ४	४८	२३३
अत्यर्शयोगो वै नाम	*** ३	३९	१७७
अत्यर्शयोगो वै नाम	*** ४	२	१८९
आत्मसत्यानुबोधेन	*** ३	३२	१६८
आत्मा ह्याकाशवज्जीवैः	*** ३	३	१२५
आदावन्ते च यत्रास्ति	*** ४	३१	२२०
आदावन्ते च यत्रास्ति	*** २	६	८७
आदिवृद्धाः प्रकृत्यैव	*** ४	९२	२६७
आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः	*** ४	९३	२६८
आश्रमास्त्रिविधा हीन०	*** ३	१६	१४७
इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिः	*** १	८	४८
उत्पादस्याप्रतिद्वत्वात्	*** ४	३८	२२४
उत्प्रेक उदधेर्यद्दत्	*** ३	४१	१८०
उपलम्भात्समाचारात्	*** ४	४२	२२७
उपलम्भात्समाचारात्	*** ४	४४	२३०
उपायेन निगृहणीयात्	*** ३	५२	१८०
उपासनाश्रितो धर्मः	*** ३	१	१२२
उभयोरपि वैतथ्यम्	*** २	११	९२
उभे ह्यन्योन्यदृष्टेः	*** ४	६७	२४१
ऋजुवकादिकाभासम्	*** ४	४७	२३३
एतैरेषोऽपृथग्भावैः	*** २	३०	१०५
एवं न चित्तज्ञा धर्माः	*** ४	५४	२३७
एवं न जायते चित्तम्	*** ४	४६	२३२
ओद्धारं पादशो विद्यात्	*** १	२४	७८
कलयत्यात्मनात्मनम्	*** २	१२	९३
कारणं यस्य वै कार्यम्	*** ४	११	१९७
कारणाद्यनन्यत्वम्	*** ४	१२	१९८
कार्यकारणद्वौ तौ	*** १	११	६०
काल इति कालविदः	*** २	२४	१०२

कारिकाप्रतीशानि	प्रकरणङ्क	कारिकाङ्क	पृष्ठम्
कोऽयश्चतस एताम्तु	• ४	८४	२५८
क्रमते न हि युद्धस्य	••• ४	९९	२७३
ख्याप्यमानामजातिं तै	••• ४	५	१९२
ग्रहणाजागरितवन्	••• ४	३७	२२३
ग्रहो न तत्र नोल्गर्ग	•• ३	३८	१७६
घटादिषु प्रलीनेषु	३	४	१२६
चरञ्जागरिते जाग्रत्	४	६५	२४५
चित्त न मस्पृशत्यर्थम्	४	२६	२१४
चित्तमाला हि येऽन्तस्तु	•• २	१४	९५
चित्तस्पन्दितमोदम्	४	७२	२४८
जरामरणनिर्मुक्ता	• ४	१०	१९६
जाग्रच्चित्तेक्षणीयास्ते	४	६६	२४५
जाग्रद्बृत्तावपि त्वन्त	२	१०	९२
जात्याभास चलाभासम्	• ४	४५	२३१
जीव कल्पयते पूर्वम्	२	१६	९७
जीवात्मनो पृथक्त्व यत्	३	१४	१४१
जीवात्मनोरनन्यत्वम्	• ३	१३	१४०
ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये	४	८९	२६३
ज्ञानेनाज्ञादाकल्पेन	४	१	१८८
तत्त्वमाध्यात्मिक दृष्ट्वा	२	३८	११९
तस्मादेव विदित्वैनम्	२	३६	११७
तस्मान्न जायते चित्तम्	• ४	२८	२१६
तेजसस्योत्वविशने	१	२०	७४
त्रिषु धामसु यस्तुल्यम्	१	२२	७५
त्रिषु धामसु यद्भोज्यम्	१	५	४४
दक्षिणाक्षिमुखे विश्व	• १	२	३७
दु ख मर्षमनुसृत्य	•• ३	४३	१८१
दुर्दर्शमतिगम्भीरम्	•• ४	१००	२७५
द्रव्य द्रव्यस्य हेतु स्यात्	४	५३	२३६
द्रयोर्द्रयोर्मधुज्ञाने	३	१२	१३९
द्वैतस्याग्रहण तुल्यम्	• १	१३	६२
धर्मा य इति जायन्ते	• ४	५८	२४०
न कश्चिजायते जीव	• ३	४८	१८६
न कश्चिजायते जीव,	••• ४	७१	२४८

कारिकाप्रतीकानि	प्रकरणाङ्कः	कारिकाङ्कः	पृष्ठम्
न निरोधो न चोत्पत्तिः	२	३२	१०८
न निर्गता अलातात्ते	४	५०	२३४
न निर्गतास्ते विज्ञानात्	४	५२	२३५
न भवत्यमृतं मर्त्यम्	३	२१	१५३
न भवत्यमृतं मर्त्यम्	४	७	१५३
न युक्तं दर्शनं गत्वा	४	३४	२२१
नाकाशस्य घटाकाशः	३	७	१३४
नाजेपु सर्वधर्मेषु	४	६०	२४२
नात्मभावे नानेदम्	२	३४	११५
नात्मानं न परांश्चैव	१	१२	६१
नास्त्यसद्धेतुकमसत्	४	४०	२२६
नास्वादयेत्सुखं तत्र	३	४५	१८३
निःस्तुतिर्निर्नमस्कारः	२	३७	११८
निगृहीतस्य मनसः	३	३४	१७०
निमित्तं न सदा चित्तम्	४	२७	२१५
निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य	४	८०	२५५
निवृत्ते सर्वदुःखानाम्	१	१०	५९
निश्चितायां यथा रज्ज्वाम्	२	१८	९९
नेह नानेति चाग्नायात्	३	२४	१५७
पञ्चविंशक इत्येके	२	२६	१०३
पादा इति पादविदः	२	२१	१०१
पूर्वापरापरिज्ञानम्	४	२१	२०६
प्रकृत्याकाशवज्जेयाः	४	९१	२६६
प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्	४	२४	२१०
प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्	४	२५	२१२
प्रणवं हीभ्वरं विद्यात्	१	२८	८०
प्रणवो ह्यवरं ब्रह्म	१	२६	७९
प्रपञ्चो यदि विद्येन	१	१७	६६
प्रभवः सर्वमावानाम्	१	६	४५
प्राण इति प्राणविदः	२	२०	१०१
प्राणादिभिरनन्तैश्च	२	१९	१००
प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्वाम्	४	८५	२५९
फलादुत्पद्यमानः सन्	४	१७	२०२
वह्निप्रज्ञे विभुर्बिम्बः	१	१	३६
बीजाङ्कुरालयो दृष्टान्तः	४	२०	२०४

कारिकाप्रतीकानि	प्रकरणाङ्क-	कारिकाङ्क	पृष्ठम्
बुद्ध्यानिमित्तता मत्याम्	.. ४	७८	२५४
भावे रमद्भिरेवायम्	.. २	३३	१९३
भूत न जायते किञ्चिन्	.. ४	४	१९७
भूततोऽभूततो वापि	.. ३	२३	१५९
भूतस्य जातिमिच्छन्ति	.. ४	३	१९१
भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये	.. १	९	६९
मकारभावे प्राज्ञस्य	.. १	२१	७४
मन इति मनोविद	.. २	२७	१०८
मनसो निग्रहापत्तम्	.. ३	४०	१७९
मनोहृदयमिद द्वैतम्	.. ३	३१	१६७
मरणे सम्भवे चैव	.. ३	९	१३६
मायया भिद्यते ह्येतत्	.. ३	१९	१५२
मिनायै सह समन्वय	.. ४	३५	२२१
मृत्लेहविस्फुलिङ्गाद्यै	.. ३	१५	१४४
य भाव दर्शयेत्यस्य	.. ७	२९	१०४
यथा निर्मितको जीव	.. ६	७०	२४७
यथा भवति बालानाम्	... ३	८	१३५
यथा मायामयाद्बीजात्	.. ४	५९	२४१
यथा मायामयो जीव	.. ४	६९	२४७
यथा स्वप्नमयो जीव	.. ४	६८	२४७
यथा स्वप्ने द्वयाभासम्	.. ३	२९	१६५
यथा स्वप्ने द्वयाभासम्	.. ४	६१	२४३
यथैकस्मिन्पटाकाशे	.. ३	८	१२७
यदा न लभते हेतून्	.. ४	७६	२५१
यदा न लीयते चित्तम्	.. ३	४६	१८६
यदि हेतो फलात्सिद्धि	.. ४	१८	२०२
यावद्धेतुफलवेदा	.. ४	५६	२३९
यावद्धेतुफलवेदा	.. ४	८८	२३८
मुञ्जीत प्रणवे चेत	.. १	२७	७८
योऽस्ति कल्पितसबृत्त्या	.. ४	७३	२४९
रसादयो हि ये कोशा	... ३	११	१३८
रूपकार्यसमाख्याश्च	.. ३	६	१३३
लये सम्बोधयेच्चित्तम्	.. ३	४४	१८२
लीयते हि सुषुप्ते तत्	.. ३	२५	१७१



कारिकाप्रतीकानि	प्रकरणाङ्कः	कारिकाङ्कः	पृष्ठन्
लोकैल्लोकविदः प्राहुः	२	२७	१०३
विकरोत्यपरान्भावान्	२	१३	९४
विकरत्यो विनिवर्तते	१	१८	६७
विशने स्पन्दमाने वै	४	५१	२३५
विपर्यानाद्यथा-जाग्रत्	४	४१	२२७
विप्राणां विनयो ह्येषः	८	८६	२६०
विभृतिं प्रसवं त्वन्ये	१	७	४७
विक्षस्यात्वविक्षायाम्	१	१९	७३
विश्वो हि स्थूलमुह्नित्वम्	१	३	४३
वीतरागभयक्रोधैः	२	३५	१३६
वेदा इति वेदविदः	२	२२	१०२
वैतथ्यं सर्वभावानाम्	२	१	८२
वैशारद्यं तु वै नास्ति	४	९४	२६९
न एष नेति नेतीति	३	२६	१६१
संघाताः स्वप्रवत्सर्वे	३	१०	१३७
सम्भवे हेतुफलयोः	४	१६	२०१
सम्भूतेरपवादस्त्व	३	२५	१५८
संवृत्त्या जायते सर्वम्	४	५७	२४०
मनो हि मायया जन्म	३	२७	१६३
सप्रयोजनता तेषाम्	२	७	८८
सप्रयोजनता तेषाम्	४	३२	२२०
सर्वस्य प्रणवो ह्यादिः	१	२७	८०
सर्वाभित्तापविगतः	३	३७	१७४
सर्वे धर्मा मृदा स्वप्ने	४	३३	२२०
सवस्तु सोपलम्भं च	८	८७	२६१
सांगिद्विक्री स्वाभाविकी	८	९	१९४
सुखमामियते नित्यम्	४	८२	२५६
सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः	२	२३	१०२
सृष्टिरिति सृष्टिविदः	२	२८	१०३
स्थूलं तर्पयते विश्वम्	१	४	४३
न्यतो वा परतो वापि	४	८७	२०७
न्यप्रजागरितस्थाने	२	५	८६
न्यप्रशब्दचतुष्टयास्ते	४	६४	२४४
न्यप्रद्वन्द्वप्रचरन्व्यने	४	३३	२४४

कारिवाप्रतीकानि	प्रवरणाङ्क	कारिकाङ्क	पृष्ठम्
स्वप्ननिद्रायुतावायौ	१	१४	६३
स्वप्नमाये यथा दृष्टे	२	३१	१०६
स्वप्नवृत्तावपि त्वन्त.	२	९	९१
स्वप्ने चावस्तुक' काय	४	३६	२२२
स्वभावेनामृतो यस्य	३	२२	१५४
स्वभावेनामृतो यस्य	४	८	१९४
स्वमिद्धान्तव्यवस्थामु	३	१७	१४९
स्वस्य शान्त सनिर्वाणम्	३	४७	१८५
हेतोरादि फल येराम्	४	१४	२००
हेतोरादि फल येराम्	४	१५	२००
हेतुर्न जायतेऽनादे	४	२३	२०९
हेयजेयाप्यपाक्यानि	८	९०	२६५

## मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

मन्त्रप्रतीकानि	मन्त्राङ्क'	पृष्ठम्
अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्य	..	१२
एय सर्वेश्वर	..	६
ओमि येनदक्षरमिदं सर्गम्	.	१
जागरितस्थानो बहिष्प्रज	.	३
जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकार	..	९
नान्त.प्रश्नम्	..	७
यत्र सुप्त'	..	५
सर्वं ह्येतद्	..	२
मुपुत्तस्थान	.	११
मोऽयमात्मा	..	८
स्वप्नस्थानस्तैजस	..	१०
स्वप्नस्थानोऽन्त'प्रश्न	...	४

ॐ

# ऐतरेयोपनिषद्

सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित



गीताप्रैस, गोरखपुर

मुद्रक तथा प्रकाशक  
घनश्यामदास जालान  
गीताप्रेस, गोरखपुर

स० १९९३ से २००४ तक	१२,२५०
स० २००९ पञ्चम संस्करण	१०,०००
स० २०१३ षष्ठ संस्करण	५,०००
	<hr/>
	कुल २७,२५०

मूल्य ।=) छ. आना

।,

पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )

श्रीहरिः

## प्रस्तावना

ऋग्वेदीय ऐतरेयारण्यकान्तर्गत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ४, ५ और ६ का नाम ऐतरेयोपनिषद् है । यह उपनिषद् ब्रह्मविद्याप्रधान है । भगवान् शंकराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । इसके उपोद्वात-भाष्यमें उन्होंने मोक्षके हेतुका निर्णय करते हुए कर्म और कर्मसमुच्चित ज्ञानका निराकरण कर केवल ज्ञानको ही उसका एकमात्र साधन बतलाया है । फिर ज्ञानके अधिकारीका निर्णय किया है और बड़े समारोहके साथ कर्मकाण्डीके अधिकारका निराकरण करते हुए संन्यासीको ही उसका अधिकारी ठहराया है । वहाँ वे कहते हैं कि 'गृहस्थाश्रम' अपने गृहविशेषके परिग्रहका नाम है और यह कामनाओंके रहते हुए ही हो सकता है तथा ज्ञानीमें कामनाओंका सर्वथा अभाव होता है । इसलिये यदि किसी प्रकार चित्तशुद्धि हो जानेसे किसीको गृहस्थाश्रममें ही ज्ञान हो जाय तो भी कामनाशून्य हो जानेसे अपने गृहविशेषके परिग्रहका अभाव हो जानेके कारण उसे स्वतः ही भिक्षुकत्वकी प्राप्ति हो जायगी । आचार्यका मत है कि 'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति' आदि श्रुतियाँ केवल अज्ञानियोंके लिये हैं, बोधवान्के लिये इस प्रकारकी कोई विधि नहीं की जा सकती ।

इस प्रकार विद्वान्के लिये पारिव्राज्यकी अनिवार्यता दिखलाकर वे जिज्ञासुके लिये भी उसकी अवश्यकर्तव्यताका विधान करते हैं । इसके लिये उन्होंने 'शान्तो दान्त उपरतस्तिष्ठुः' 'अथाश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगृपिसंवजुष्टम्' 'न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः' आदि श्रुति और 'ज्ञात्वा नैःकर्ममाचरेत्' 'ब्रह्माश्रमपदे वसेत्' आदि स्मृतियोंको उद्धृत किया है । ब्रह्मजिज्ञासु ब्रह्मचारीके लिये भी चतुर्याश्रमका विधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि उसके विषयमें

यह शक्या नहीं की जा सकती कि उसे ऋणत्रयकी निवृत्ति किये बिना संन्यासका अधिकार नहीं है, क्योंकि गृहस्थाश्रमको स्वीकार करनेसे पूर्व तो उसका ऋणी होना ही सम्भव नहीं है । अतः आचार्यका सिद्धान्त है कि जिसे आत्मतत्त्वकी जिज्ञासा है और जो साध्य-साधनरूप अनित्य ससारसे मुक्त होना चाहता है, वह किसी भी आश्रममें हो, उसे संन्यास ग्रहण करना ही चाहिये ।

इस सिद्धान्तके मुख्य आधार दो ही हैं—( १ ) जिज्ञासुको तो इसलिये गृहत्याग करना चाहिये कि उसके लिये गृहस्थाश्रममें रहते हुए ज्ञानोपयोगिनी साधनसम्पत्तिको उपार्जन करना कठिन है और ( २ ) बोधवान्में कामनाओंका सर्वा अभाव हो जाता है, इसलिये उसका गृहस्थाश्रममें रहना सम्भव नहीं है । अतः ज्ञानोपयोगिनी साधन-सम्पत्तिको उपार्जन करना तथा कामनाओंका अभाव—ये ही गृहत्यागके मुख्य हेतु हैं । जो लोग घरमें रहते हुए ही शम-दमादि साधनसम्पन्न हो सकते हैं और जिन बोधवानोंकी निष्कामतामें अपने गृहप्रशेषमें रहना बाधक नहीं होता वे घरमें रहते हुए भी ज्ञानोपार्जन और ज्ञानरक्षा कर ही सकते हैं । वे स्वरूपसे संन्यासी न होनेपर भी वस्तुतः संन्यासधर्मसम्पन्न होनेके कारण आचार्यके मतका ही अनुसरण करनेवाले हैं । अस्तु ।

इस उपनिषद्में तीन अध्याय हैं । उनमेंसे पहले अध्यायमें तीन खण्ड हैं तथा दूसरे और तीसरे अध्यायोंमें केवल एक-एक खण्ड है । प्रथम अध्यायमें यह बतलाया गया है कि सृष्टिके आरम्भमें केवल एक आत्मा ही था, उसके अनिरिक्त और कुछ भी नहीं था । उसने लोक रचनाके लिये ईक्षण ( विचार ) किया और केवल सङ्कल्पसे ही अग्नि, मरीचि और मरु—इन तीन लोकोंकी रचना की । इन्हें रचकर उस परमात्माने उनके लिये लोकपालोंकी रचना करनेका विचार किया और जलसे ही एक पुरुषकी रचनाकर उसे अवयवयुक्त किया । परमात्माने सङ्कल्पसे ही उस पिराट् पुरुषके इन्द्रिय, इन्द्रियगोलक और इन्द्रियाधिष्ठाता

देव उत्पन्न हो गये । जब वे इन्द्रियाधिष्ठाता देवता इस महासमुद्रमें आये तो परमात्माने उन्हें भूख-प्याससे युक्त कर दिया । तब उन्होंने प्रार्थना की कि हमें कोई ऐसा आयतन प्रदान किया जाय जिसमें स्थित होकर हम अन्न-भक्षण कर सकें । परमात्माने उनके लिये एक गौका शरीर प्रस्तुत किया, किन्तु उन्होंने 'यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है' ऐसा कहकर उसे अस्वीकार कर दिया । तत्पश्चात् घोड़ेका शरीर लाया गया किन्तु वह भी अस्वीकृत हुआ । अन्तमें परमात्मा उनके लिये मनुष्यका शरीर लाया । उसे देखकर सभी देवताओंने एकस्वरसे उनका अनुमोदन किया और वे सब परमात्माकी आज्ञासे उसके भिन्न-भिन्न अवयवोंमें वाक्, प्राण, चक्षु आदि रूपसे स्थित हो गये । फिर उनके लिये अन्नकी रचना की गयी । अन्न उन्हें देखकर भागने लगा । देवताओंने उसे वाणी, प्राण, चक्षु एवं श्रोत्रादि भिन्न-भिन्न करणोंसे ग्रहण करना चाहा, परन्तु वे इसमें सफल न हुए । अन्तमें उन्होंने उसे अपानद्वारा ग्रहण कर लिया । इस प्रकार यह सारी सृष्टि हो जानेपर परमात्माने विचार किया कि अब मुझे भी इसमें प्रवेश करना चाहिये; क्योंकि मेरे बिना यह सारा प्रपञ्च अकिञ्चित्कर ही है । अतः वह उस पुरुषकी मूर्द्धसीमाको विदीर्णकर उसके द्वारा उसमें प्रवेश कर गया । इस प्रकार जीवभावको प्राप्त होनेपर उसका भूतोंके साथ तादात्म्य हो जाता है । पीछे जब गुरुकृपासे बोध होनेपर उसे अपने सर्वव्यापक शुद्ध स्वरूपका साक्षात्कार होता है तो उसे 'इदम्'—इस तरह अपरोक्षरूपसे देखनेके कारण उसकी 'इन्द्र' संज्ञा हो जाती है ।

इस प्रकार ईक्षणसे लेकर परमात्माके प्रवेशपर्यन्त जो तृष्टिक्रम चतलाया गया है, इसे ही विद्यारण्यस्वामीने ईश्वरसृष्टि कहा है । 'ईक्षणादिप्रवेशान्तः संसार ईशकल्पितः' । इस आख्यायिकामें बहुत-सी विचित्र बातें देखी जाती हैं । यों तो मायामें कोई भी बात कुतूहलजनक नहीं हुआ करती; तथापि आचार्यका तो कथन है कि यह केवल अर्थवाद है । इसका अभिप्राय आत्मबोध करानेमें है । यह केवल आत्मार्थ अद्वितीयत्व-

का बोध करानेके लिये ही कही गयी है, क्योंकि समस्त ससार आत्माका ही सङ्कल्प होनेके कारण आत्मस्वरूप ही है । द्वितीय अध्यायके आरम्भमें इसी प्रकार उपक्रम कर भगवान् नाप्यकाग्ने आत्मतत्त्वका बड़ा सुन्दर और युक्तियुक्त विवेचन किया है ।

इस अध्यायमें आत्मज्ञानके हेतुभूत वैराग्यकी सिद्धिके लिये जीवकी तीन अवस्थाओंका— जिन्हें प्रथम अध्यायमें 'आसथ' नामसे कहा है— वर्णन किया गया है । जीवके तीन जन्म माने गये हैं—( १ ) वीर्यरूपसे माताकी कुक्षिमें प्रवेश करना, ( २ ) बालकरूपसे उत्पन्न होना और ( ३ ) पिताका मृत्युको प्राप्त होकर पुन जन्म ग्रहण करना । 'आत्मा वै पुत्रनामासि' ( कौपी० २ । ११ ) इस श्रुतिके अनुसार पिता और पुत्रका अभेद है, इसीलिये पिताके पुनर्जन्मको भी पुत्रका तृतीय जन्म बतलाया गया है । वामदेव ऋषिने गर्भमें रहते हुए ही अपने बहुतसे जन्मोंका अनुभव बतलाया था और यह कहा था कि मैं लोहमय दुर्गोंके समान सैरुर्जों शरीरमें बदी रह चुका हूँ, किन्तु अब आत्मज्ञान हो जानेसे मैं श्येन पक्षीके समान उनका भेदन कर बाहर निकल आया हूँ । ऐसा ज्ञान होनेके कारण ही वामदेव ऋषि देहपातके अनन्तर अमरपदको प्राप्त हो गये थे । अत आत्माको भूत एवं इन्द्रिय आदि अनात्मप्रपञ्चसे सर्वथा असङ्ग अनुभव करना ही अमरत्व-प्राप्तिका एकमात्र साधन है ।

इस प्रकार द्वितीय अध्यायमें आत्मज्ञानको परमपद-प्राप्तिका एकमात्र साधन बतलाकर तीसरे अध्यायमें उसीका प्रतिपादन किया गया है । वहाँ बतलाया है कि हृदय, मन, संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूति, स्मृति, सङ्कल्प, क्रतु, असु, काम एवं वश—ये सब प्रज्ञानके ही नाम हैं । यह प्रज्ञान ही ब्रह्मा, इन्द्र, प्रजापति, समस्त देवगण, पञ्चमहामूत तथा उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज आदि सब प्रकारके जीव-जन्तु हैं । यही हाथी, घोड़े, मनुष्य तथा सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत् है । इस प्रकार यह सारा ससार प्रज्ञानमें



स्थित है, प्रज्ञानसे ही प्रेरित होनेवाला है और स्वयं भी प्रज्ञानस्वरूप ही है, तथा प्रज्ञान ही ब्रह्म है। जो इस प्रकार जानता है वह इस लोकसे उत्क्रमण कर उस परमधाममें पहुँच समस्त कामनाओंको प्राप्तकर अमर हो जाता है।

यही इस उपनिषद्का सारांश है। इसका प्रधान उद्देश्य ब्रह्मका सार्वाम्य-प्रतिपादन ही है। आदिसे अन्ततक इसका यही उद्देश्य रहा है। प्रथम अध्यायमें देवताओंके आयतन याचना करनेपर उन्हें क्रमशः गौ और अश्वके शरीर दिखलाये गये; परन्तु उन्हें वे अपने अनुरूप प्रतीत न हुए। उसके पश्चात् मनुष्य-शरीर दिखलाया गया। उसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे ही अपने आयतनरूपसे स्वीकार भी किया। देवताओंकी उत्पत्ति विराट् शरीरके अवयवोंसे हुई थी; अतः विराट्के अनुरूप होनेके कारण उन्हें मानव-शरीर ही आयतनरूपसे ग्राह्य हुआ। इससे यही सिद्ध होता है कि मानव-शरीर ही जीवके परमकल्याणका आश्रय है; उसमें स्थित होनेपर ही वह परमपद प्राप्त कर सकता है। अकारणकरुणामय श्रीभगवान्की कृपासे हमें वह परमलभ प्राप्त करनेका सौभाग्य हुआ है, अतः हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि यह अत्यन्त दुर्लभ सुअवसर निष्फल न हो जाय।

अनुवादक



## विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
१ शान्तिपाठ	९	१४ अन्नका पलायन और उसके ग्रहणका उद्योग	५१
<b>प्रथम अध्याय</b>		१५ अपानद्वारा अन्नग्रहण	५४
<b>प्रथम खण्ड</b>		१६. परमात्माका शरीरप्रवेश- सम्बन्धी विचार	५५
२ सम्बन्धभाष्य	१०	१७. परमात्माका मूर्द्धाद्वारासे शरीरप्रवेश	५८
३ आत्माके ईक्षणपूर्वक सृष्टि	३२	१८. जीवका मोह और उसकी निवृत्ति	६१
४ सृष्टिक्रम	३५	१९. 'इन्द्र' शब्दकी व्युत्पत्ति	६२
५. पुरुषरूप लोकापालकी रचना	३८	<b>द्वितीय अध्याय</b>	
६ इन्द्रियगोलक, इन्द्रिय और इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओंकी उत्पत्ति	३९	<b>प्रथम खण्ड</b>	
<b>द्वितीय खण्ड</b>		२०. प्रस्तायना	६४
७. देवताओंकी अन्न एव आयतनयाचना	४२	२१ पुरुषका पहला जन्म	७९
८. गो और अश्वशरीरकी उत्पत्ति तथा देवताओंद्वारा उनकी अस्वीकृति	४४	२२. पुरुषका दूसरा जन्म	८२
९ मनुष्यशरीरकी उत्पत्ति और देवताओंद्वारा उसकी स्वीकृति	४५	२३ पुरुषका तीसरा जन्म	८५
१० देवताओंका अपने-अपने आयतनोंमें प्रवेश	४६	२४ वामदेवकी उक्ति	८७
११ क्षुधा और पिपासाका विभाग	४७	२५ वामदेवकी गति	८८
<b>तृतीय खण्ड</b>		<b>तृतीय अध्याय</b>	
१२ अन्नरचनाका विचार	५०	<b>प्रथम खण्ड</b>	
१३. अन्नकी रचना	५१	२६. आत्मसम्बन्धी प्रश्न	९०
		२७ प्रज्ञानसंज्ञक मनके अनेक नाम	९३
		२८ प्रज्ञानकी सर्वरूपता	९७
		२९. आत्मैक्यवेत्ताकी अमृतत्व- प्राप्ति	१०१
		३० शान्तिपाठ	१०२

ऐतरेयोपनिषद्



श्रीश्रीशंकराचार्य

ॐ

तत्सद्ब्रह्मणे नमः

# ऐतरेयोपनिषद्

मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य और भाष्यार्थसहित

मनस्तापतमःशान्त्यै यस्य पादनखच्छटा ।  
शरच्चन्द्रनिभा भाति तं घन्दे नीलचिन्मणिम् ॥

शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाधिरा-  
वीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्यः श्रुतं मे मा ग्रहासीः । अनेनाधीते-  
नाहोरात्रान्सन्दधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।  
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्ति !! शान्ति: !!!

मेरी वाग्निन्द्रिय मनमें स्थित हो और मन वाणीमें स्थित हो  
[ अर्थात् मेरी वाग्निन्द्रिय और मन एक-दूसरेके अनुकूल रहें ] । हे  
स्रप्रकाश परमात्मन् ! तुम मेरे समक्ष आविर्भूत होओ । [ हे वाक् और  
मन ! ] तुम मेरे प्रति वेदको लाओ । मेरा श्रवण किया हुआ मेरा  
परित्याग न करे । अपने इस अव्ययनके द्वारा मैं रात और दिनको एक  
कर दूँ [ अर्थात् मेरा अध्ययन अहर्निश चलता रहे ] । मैं ऋत ( वाचिक  
सत्य ) का भाषण करूँ और सत्य ( मनमें निश्चय किया हुआ सत्य )  
बोळूँ । वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे; वह वक्ताकी रक्षा करे । वह मेरी रक्षा  
करे और वक्ताकी रक्षा करे—वक्ताकी रक्षा करे । त्रिविध तापकी  
शान्ति हो ।

# प्रथम अध्याय

## प्रथम स्कण्ड

सम्यन्वभाष्य

परिसमाप्तं कर्म सहापरब्रह्म-  
 विषयविज्ञानेन । सैषा  
 कर्मणो ज्ञानसहितस्य  
 परा गतिरुक्तविज्ञान-  
 द्वारेणोपसंहृता । “एतत्सत्यं ब्रह्म  
 प्राणारूपम्” “एष एको देवः”  
 “एतस्यैव प्राणस्य सर्वे देवा  
 विभूतयः” “एतस्य प्राणसा-  
 त्ममावं गच्छन्देवता अप्येति”  
 इत्युक्तम् । सोऽयं देवताप्यय-  
 लक्षणः परः पुरुषार्थः, एष  
 मोक्षः । स चायं यथोक्तेन

यहाँतक अपरब्रह्म ( हिरण्यगर्भ )  
 नियमक विज्ञान ( उपासना ) के  
 सहित कर्मका निरूपण समाप्त  
 हुआ\* । उस ज्ञानसहित कर्मकी  
 परा गतिका उक्तविज्ञानके † द्वारा  
 उपसहार किया गया है । [ उस  
 उपसहारका मूलके वाक्योंद्वारा  
 प्रदर्शन करते हैं—] “ यह प्राण-  
 संज्ञक सत्यब्रह्म है” “यह एक देव  
 है” “सम्पूर्ण देव इस प्राणकी ही  
 विभूतियाँ हैं ।” “इस प्राणके  
 तादात्म्यको प्राप्त होकर उपासक  
 देवतामें लीन हो जाता है”—ऐसा  
 कहा गया । यह देवतामें लय होना  
 ही परम पुरुषार्थ है, यही मोक्ष है  
 और वह यह ( देवतालयरूप मोक्ष )

\* ऐतरेय ब्राह्मणान्तर्गत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ४, ५ और ६ कानाम  
 ऐतरेयोपनिषद् है । इसमें केवल ब्रह्मविद्याका ही निरूपण किया गया है । इससे  
 पूर्ववर्ती अध्यायोंमें अपर ब्रह्मकी उपासनाके सहित कर्मका वर्णन है । अतः इस  
 वाक्यसे यहाँ उसका परामर्श किया है ।

† उक्त प्राणको कहते हैं । अतः ‘वह उक्त यानी प्राण में हूँ’ ऐसी  
 दृढ भावनाके द्वारा उसीमें लय हो जाना ‘उक्तविज्ञान’ है ।

ज्ञानकर्मसमुच्चयसाधनेन प्राप्तव्यो  
नातः परमस्तीत्येके प्रतिपन्नाः ।  
तान्निराचिकीर्णुत्तरं केवलात्म-  
ज्ञानविधानार्थम् 'आत्मा वा  
इदम्' इत्याद्याह ।

कथं पुनरकर्मसंबन्धिकेवला-  
प्रतिपाद्य- त्मविज्ञानविधानार्थ  
विचारः उत्तरो ग्रन्थ इति  
गम्यते ?

अन्यार्थानवगमात् । तथा च  
पूर्वोक्तानां देवतानामग्न्यादीनां  
संसारित्वं दर्शयिष्यत्यशनाया-  
दिदोषवच्चेन "तमशनापिपा-  
साभ्यामन्ववार्जत्" (१ । २ । १)  
इत्यादिना । अशनायादिमत्सर्वं  
संसार एव; परस्य तु ब्रह्मणो-  
ऽशनायाद्यत्ययश्रुतेः ।

भवत्वैवं केवलात्मज्ञानं मोक्ष-

समुच्चयवादिन साधनं न त्वन्ना-  
भासेपः कर्म्येवाधिक्रियते,

इस ज्ञानकर्मसमुच्चयरूप यथोक्त साधन-  
से ही प्राप्त होने योग्य है; इससे परे  
और कुछ नहीं है—ऐसा कुछ  
लोग समझते हैं । उन [ समुच्चय-  
वादियोंके मत ] का निराकरण करने-  
की इच्छासे श्रुति केवल आत्म-  
विज्ञानका विधान करनेके लिये  
'आत्मा वा इदम्' इत्यादि ग्रन्थका  
उल्लेख करती है ।

पूर्व०—परन्तु यह कैसे ज्ञात होता  
है कि आगेका ग्रन्थ कर्मके सम्बन्ध-  
से रहित केवल आत्मज्ञानका ही  
विधान करनेके लिये है ?

सिद्धान्ती—क्योंकि इससे [ ब्रह्म-  
ज्ञानके सिद्धा ] किसी और अर्थका  
ज्ञान नहीं होता । इसके सिद्धा श्रुति  
"उसे भूख और पिपासासे युक्त कर  
दिया" इत्यादि वाक्योंसे उन अग्नि  
आदि पूर्वोक्त देवताओंको क्षुधा आदि  
दोषोंसे युक्त दिखलाते हुए उनका  
संसारित्व भी प्रदर्शित करेगी । पर-  
ब्रह्म भूख-प्यास आदिसे अतीत है—  
ऐसी श्रुति होनेके कारण क्षुधा  
आदिसे युक्त तो सब-का-सब संसार  
ही है ।

पूर्व०—इस प्रकार केवल आत्मज्ञान  
ही मोक्षका साधन भले ही हो; परन्तु  
उसमें केवल कर्मत्यागी पुरुषका ही  
अधिकार नहीं है, क्योंकि इस

विशेषाश्रवणात् । अकर्मिण आश्र-  
म्यन्तरस्येहाश्रवणात् । कर्म च  
बृहतीसहस्रलक्षणं प्रस्तुत्यानन्तर-  
मेवात्मज्ञानं प्रारभ्यते । तस्मात्  
कर्म्येनाधिक्रियते ।

न च कर्मासंबन्ध्यात्मविज्ञानं  
पूर्ववदन्त उपसंहारात् । यथा  
कर्मसंबन्धिनः पुरुषस्य सूर्यात्मनः  
स्थावरजङ्गमादिसर्वप्राण्यात्मत्व-  
मुक्तं ब्राह्मणेन मन्त्रेण च “सूर्य  
आत्मा” (ऋ० सं० १।११५।१)  
इत्यादिना, तथैव ‘एष ब्रह्मैष  
इन्द्रः’ ( ३ । १ । ३ ) इत्या-  
द्युपक्रम्य सर्वप्राण्यात्मत्वम्  
‘यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम्’  
( ३ । १ । ३ ) इत्युपसंहरिष्यति ।

विषयमें कोई विशेष श्रुति नहीं है,  
अर्थात् किसी कर्मत्यागी आश्रमान्तर-  
का यहाँ उल्लेख नहीं है ।  
और बृहतीसहस्र नामक कर्मकी  
अवतारणाकर उसके अनन्तर ही  
आत्मज्ञानका प्रारम्भ कर दिया है ।  
अतः इसमें कर्मठ पुरुषका ही  
अधिकार है ।

इसके सिवा आत्मज्ञान कर्मसे  
सर्वथा असम्बद्ध भी नहीं है, क्योंकि  
यहाँ भी अन्तमें उसका पहले-  
हीके समान उपसंहार किया गया  
है । जिस प्रकार ब्राह्मणमन्त्रने  
“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषर्च” इस  
वाक्यद्वारा सूर्यके आत्मभावको प्राप्त  
हुए [ सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती ] कर्म-  
सम्बन्धी पुरुषको स्थावरजङ्गमादि  
सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा बतलाया है  
उसी प्रकार श्रुति ‘एष ब्रह्मैष इन्द्रः’  
इत्यादि मन्त्रसे समस्त प्राणियोंके  
आत्मस्वरूपत्वका उपक्रम कर उसका  
‘यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम्’  
इत्यादि वाक्यद्वारा उपसंहार करेगी ।\*

१ सूर्य जङ्गम और स्थावरका आत्मा है । २ यह ब्रह्मा है, यह इन्द्र है ।

३ जो कुछ स्थावर-जङ्गम है वह सब प्रज्ञा ( चेतन ) द्वारा प्रवृत्त होनेवाला है ।

\* इस प्रकार जैसे पूर्व अध्यायमें कर्मसम्बन्धी उपासनाका विषय होनेसे

तथा च संहितोपनिषदि  
 “एतं ह्येव ब्रह्मैवा महत्युक्थे  
 मीमांसन्ते” ( ऐ० आ० ३ । २ ।  
 ३ । १२ ) इत्यादिना कर्मसंबन्धित्व-  
 त्वमुक्त्वा “सर्वेषु भूतेष्वेतमेव  
 ब्रह्मेत्याचक्षते” इत्युपसंहरति ।  
 तथा तस्यैव “योऽयमशरीरः  
 प्रज्ञात्मा” इत्युक्तस्य “यथासा-  
 वादित्य एकमेव तदिति विद्यात्”  
 इत्येकत्वमुक्तम् । इहापि “क्रोऽय-  
 मात्मा” ( ३ । १ । १ ) इत्युपक्रम्य  
 प्रज्ञात्मत्वमेव “प्रज्ञानं ब्रह्म” ( ३ ।  
 १ । ३ ) इति दर्शयिष्यति । तस्मा-  
 द्वाकर्मसंबन्ध्यात्मज्ञानम् ।

पुनरुक्त्यानर्थक्यमिति चेत् ।

कथम् ? “प्राणो वा अहमस्म्यपे”

इत्यादिब्राह्मणेन “सूर्य आत्मा”

इसी प्रकार संहितोपनिषद्में भी  
 “इसीको ब्रह्मैव ( ऋग्वेदी ) बृहती-  
 सहस्र नामक सत्रमें विचारते हैं”  
 इत्यादि श्रुतिसे उसका कर्मसंबन्धित्व  
 प्रतिपादन कर “सम्पूर्ण भूतोंमें  
 इसीको ‘ब्रह्म’ ऐसा कहते हैं” इस  
 प्रकार उपसंहार किया है । तथा  
 “जो यह अशरीरी चेतन आत्मा  
 है” इस प्रकार बतलाये हुए उस  
 आत्माका ही “जो यह सूर्यके  
 अन्तर्गत है वह एक ही है—ऐसा  
 जाने” इस वाक्यद्वारा एकत्व प्रति-  
 पादन किया है । तथा यहाँ ( इस  
 उपनिषद्में ) भी “यह आत्मा कौन  
 है” इस प्रकार उपक्रम कर “प्रज्ञान  
 ब्रह्म है” इस वाक्यसे इसका प्रज्ञा-  
 स्वरूपत्व ही प्रदर्शित करेंगे । अतः  
 आत्मज्ञान कर्मत्यागसे संबन्ध नहीं  
 रखता ।

यदि कहो कि पुनरुक्ति होनेके  
 कारण तो यह प्रकरण व्यर्थ ही है; \*  
 किस प्रकार [व्यर्थ है सो बतलाते हैं—]  
 “हे ऋषे ! मैं निश्चय प्राण ही हूँ”  
 इत्यादि ब्राह्मणसे तथा “सूर्य आत्मा है”

अन्तमें उपास्यका सर्वान्धत्व प्रतिपादन किया है उसी प्रकार इस अन्वयमें ‘एव  
 ब्रह्मा’ इत्यादि वाक्योंसे बतलाया गया है । अतः जिन प्रकार यह देवताशन  
 कर्मसंबन्धी था उसी प्रकार यह आत्मज्ञान भी कर्मसंबन्धी ही है—ऐसा अनुमान  
 होता है ।

\* क्योंकि कर्मका तो पहले ही निरूपण किया जा चुका है ।



इति मन्त्रेण च निर्धारितस्यात्मनः

“आत्मा वा इदम्” इत्यादि-

ब्राह्मणेन “कोऽयमात्मा” (३।१।

१) इति प्रश्नपूर्वकं पुनर्निर्धारणं

पुनरुक्तमनर्थकमिति चेत्, न;

तस्यैव धर्मान्तरविशेषनिर्धार-

णार्थत्वान्न पुनरुक्ततादोषः ।

कथम्' तस्यैव कर्मसंश्लिखनो

जगत्सृष्टिस्थितिसंहारादिधर्मवि-

शेषनिर्धारणार्थत्वात् केवलोपा-

स्त्यर्थत्वाद्वा । अथवा आत्मे-

त्यादिपरो ग्रन्थसन्दर्भ आत्मनः

कर्मिणः कर्मणोऽन्यत्रोपासना-

प्राप्तौ कर्मग्रस्तावेऽविहितत्वात्के-

वलोऽप्यात्मोपास्य इत्येवमर्थः ।

भेदाभेदोपास्यत्वाद्द्वैक एवात्मा

इत्यादि मन्त्रद्वारा निश्चित किये

आत्माका “यह आत्मा कौन है”

इस प्रकार प्रश्न करके “[ पहले ]

यह सब आत्मा ही [ था ]”

इस प्रकार निश्चय करना पुनरुक्ति

और निरर्थक ही है—यदि कोई ऐसा

कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं,

क्योंकि उसीके किसी अन्य विशेष

धर्मका निश्चय करनेके लिये होनेसे

इसमें पुनरुक्तिका दोष नहीं है ।

वह किम प्रकार दोषयुक्त नहीं है

[ सो बतलाते हैं—] उस कर्मसम्बन्धी

आत्माके ही जगत्की रचना, पालन

और संहार आदि विशेष धर्मोंका

निर्धारण करनेके लिये किवा केवल

उसकी उपासनाके [ निरूपणके ] लिये

[ इस प्रकारकी पुनरुक्ति सदोष

नहीं है ] अथवा यों समझो कि

कर्मका निरूपण करते समय विधान

न करनेके कारण कर्ता आत्माकी

उपासना कर्मकी छोड़कर प्राप्त

नहीं होती थी, अतः “आत्मा वा

इदमग्रे” आदि ग्रन्थसमूह यह

बतलानेके लिये ही है कि केवल

आत्मा भी उपासनीय है । भेद और

अभेदरूपसे उपास्य होनेके कारण

एक ही आत्मा कर्मके विषयमें

कर्मविषये भेददृष्टिभाक्, स एवा-  
कर्मकालेऽभेदेनाप्युपास्य इत्येव-  
मपुनरुक्तता ।

“विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो-  
भयं सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा  
विद्यया मृतमश्नुते” (ई० उ० ११)  
इति, “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी-  
विषेच्छतः समाः” (ई० उ० २)  
इति च वाजिनाम् । न च वर्ष-  
शतात्परमायुर्मर्त्यानाम् । येन  
कर्मपरित्यागेनात्मानमुपासीत ।  
दर्शितं च “तावन्ति पुरुषा-  
युषोऽह्वां सहस्राणि भवन्ति”  
इति । वर्षशतं चायुः कर्मणैव  
व्याप्तम् । दर्शितश्च मन्त्रः “कुर्व-  
न्नेवेह कर्माणि” इत्यादिः ।

भेददृष्टिसे युक्त है और वही कर्म-  
दृष्टिको छोड़ देनेके समय अभेद-  
रूपसे भी उपासनीय है—इस प्रकार  
यह अपुनरुक्ति ही है ।

“जो पुरुष विद्या ( उपासना )  
और अविद्या ( कर्म ) इन दोनोंको  
साथ-साथ जानता है वह अविद्यासे  
मृत्युको पार करके विद्यासे अमरत्व  
प्राप्त कर लेता है” तथा “इस  
लोकमें कर्म करता हुआ ही सौ  
वर्षतक जीवित रहनेकी इच्छा करे”  
—ऐसा [ ईशोपनिषद्में ] वाजसनेयी  
शाखावालोंका कथन है । मनुष्योंकी  
परमायु भी सौ वर्षसे अधिक नहीं  
है, जिससे कि वह कर्मपरित्याग-  
द्वारा आत्माकी उपासना कर सके ।  
“पुरुषकी आयुके इतने ( छत्तीस )  
ही\* सहस्र दिन होते हैं” ऐसा  
[ इस ऐतरेयारण्यकमें ही ] दिख-  
लाया भी गया है । और वह सौ  
वर्षकी आयु कर्मसे ही व्याप्त है;  
इसके लिये “कुर्वन्नेवेह कर्माणि”  
इत्यादि मन्त्र पहले दिखलाया ही है।†

\* ऐतरेय अरण्यकमें छत्तीस-छत्तीस अक्षरके एक सहस्र बृहतीछन्द हैं ।  
अतः उसमें कुल छत्तीस सहस्र अक्षर हुए । इतने ही दिन मनुष्यकी परमायुमें  
होते हैं ।

† इससे यह नहीं समझना चाहिये कि दशरथादिके समान जो सौ वर्षसे  
भी अधिक जीवित रहनेवाले पुरुष हैं वे तो सौ वर्षसे ऊपर जानेपर कर्मत्याग  
कर ही सकते हैं । उनके लिये भी आगेकी भुक्तियों जीवनपर्यन्त कर्मानुष्ठानकी  
आवश्यकता बतलती है ।

तथा “यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति”

“यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां

यजेत” इत्याद्याश्च । “तं

यज्ञपात्रैर्दहन्ति” इति च ।

ऋणत्रयश्रुतेश्च । तत्र पारिव्रा-

ज्यादि शास्त्रं “व्युत्थायाथ

भिक्षाचर्यं चरन्ति” ( वृ० उ०

३।५।१, ४।४।२२) इति

आत्मज्ञानस्तुतिपरोऽर्थवादः ।

अनधिकृतार्थो वा ।

न; परमार्थविज्ञाने फलादर्शने

क्रियानुपपत्तेः । य-

व्याश्लेषनिरास

दुक्तं कर्मिण आत्म-

ज्ञानं कर्मसंबन्धि च

इत्यादि तत्र । परं ह्याप्तकामं

सर्वसंसारदोषवर्जितं ब्रह्माहम-

मीत्यात्मत्वेन विज्ञाने, कृतेन

कर्तव्येन वा प्रयोजनमात्मनां-

ऐसा ही “यावज्जीवन अग्निहोत्र

करता है” “जीवनपर्यन्त दर्श-

पूर्णमाससे यजन करे” इत्यादि

तथा [ वृद्धावस्थामें भी कर्मत्यागका

निषेध सूचित करनेवाली ] “उस-

को [ मरनेके अनन्तर ] यज्ञपात्रोंके

सहित जलाते हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे

और ऋणत्रयकी सूचना देनेवाली

श्रुतियोंमें सिद्ध होता है । श्रुतिमें

जो “[ यतिजन ] सर्वसग परित्याग

करके भिक्षाटन क्रिया करते हैं”

इत्यादि सन्धाससम्बन्धी शास्त्र है

वह आत्मज्ञानकी स्तुति करनेवाला

अर्थवाद है । अथवा जिसे कर्मका

अधिकार नहीं है उसके लिये है ।

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक

नहीं, क्योंकि उस परमार्थ—आत्म-

तत्त्वका ज्ञान हो जानेपर क्रियाका

कोई फल नहीं देखा जाता, इसलिये

क्रिया नहीं हो सकती । तुमने

जो कहा कि आत्मज्ञान कर्मको ही

होता है और वह कर्मसे सम्बन्ध

रखनेवाला है, सो ठीक नहीं ।

‘सम्पूर्ण सासारिक दोषोंसे रहित

पूर्णकाम ब्रह्म मैं हूँ’ इस प्रकार ब्रह्मका

आत्मभावसे ज्ञान हो जानेपर कर्म-

फलमें न देखनेके कारण कृत्

अथवा कर्तव्यसे अपना कोई प्रयोजन

ऽपश्यतः फलादर्शने क्रिया नोप-  
पद्यते ।

फलादर्शनेऽपि नियुक्तत्वा-

त्करोतीति चेन्न

आत्मदर्शिनो

नियोगाविषयत्वम् नियोगाविषयात्म-

दर्शनात् । इष्टयोग-

मनिष्टवियोगं चात्मनः प्रयोजनं

पश्यंस्तदुपायार्थो यो भवति स

नियोगस्य विषयो दृष्टो लोके ।

न तु तद्विपरीतनियोगाविषय-

ब्रह्मात्मत्वदर्शी ।

ब्रह्मात्मत्वदर्श्यापि संश्लेच्छि-

युज्येत नियोगाविषयोऽपि सन्न

कश्चिन्न नियुक्त इति सर्वं कर्म

सर्वेण सर्वदा कर्तव्यं प्राप्नोति ।

तच्चानिष्टम् । न च स नियोक्तुं

शक्यते केनचित्; आम्ना-

यस्यापि तत्प्रभवत्वात् । न हि

न देखनेवाले पुरुषसे कोई क्रिया  
नहीं हो सकती ।

यदि कहो कि फल दिखायी न  
देनेपर भी शास्त्रज्ञ होनेके कारण  
वह कर्म करता ही है तो ऐसा  
कहना उचित नहीं; क्योंकि वह  
शास्त्रज्ञाके अविषयभूत आत्माका  
दर्शन कर लेता है । जो पुरुष अपना  
इष्टप्राप्ति और अनिष्टपरिहाररूप  
प्रयोजन देखकर उसके उपायका  
अर्थी होता है, लोकमें वही [ विधि-  
निपेधरूप ] नियोगका विषय होता  
देखा गया है; उसके विपरीत  
नियोगके अविषयभूत ब्रह्ममें आत्मत्व-  
का दर्शन करनेवाला पुरुष नियोग-  
का विषय होता नहीं देखा जाता ।

यदि ब्रह्मात्मत्व-दर्शन करनेवाला  
पुरुष नियोगका अविषय होनेपर  
भी शास्त्रसे नियुक्त हो तो कोई  
नियुक्त न होनेवाला तो रहा ही  
नहीं । इससे यही प्राप्त होता है कि  
सबको सर्वदा सम्पूर्ण कर्म करते  
रहना चाहिये । किन्तु यह अभीष्ट  
नहीं है । वह ( आत्मदर्शी ) तो  
किसीसे भी नियोजित नहीं हो  
सकता, क्योंकि शास्त्र भी उसीसे  
उत्पन्न हुआ है । अपने विज्ञानसे

स्वविज्ञानोत्थेन वचसा स्वयं  
नियुज्यते । नापि बहुवित्स्वा-  
म्यविवेकिना भृत्येन ।

आम्नायस्य नित्यत्वे सति  
स्वातन्त्र्यात्सर्वान्प्रति नियोक्तृत्व-  
सामर्थ्यमिति चेन्न उक्तदोषात् ।  
तथापि सर्वेण सर्वदा सर्वमविशिष्टं  
कर्म कर्तव्यमित्युक्तो दोषोऽप्य-  
परिहार्य एव ।

तदपि शास्त्रेणैव विधीयत

इति चेद् यथा कर्म-  
शास्त्रस्य विरुद्धार्थ-

बोधकत्वानुपपत्ति कर्तव्यता शास्त्रेण  
कृता तथा तदप्या-

त्मज्ञानं तस्यैव कर्मिणः शास्त्रेण

विधीयत इति चेद्, न; विरुद्धा-

र्थबोधकत्वानुपपत्तेः । न ह्येक-

स्मिन्कृताकृतसंबन्धित्वं तद्विपरी-

तत्वं च बोधयितुं शक्यम्,

शीतोष्णतामिवाग्नेः ।

उत्पन्न हुए बचनसे ही कोई स्वयं  
नियुक्त नहीं हो सकता और न  
बहुज्ञ स्वामी ही अपने अल्पज्ञ सेरू-  
से नियुक्त हो सकता है ।

यदि कहो कि नित्य होनेके  
कारण वेदका नियोक्तृत्व-सामर्थ्य  
स्वतन्त्रतापूर्वक सबके प्रति है, तो  
उपर्युक्त दोषके कारण ऐसा कहना  
ठीक नहीं । ऐसी अवस्थामें भी  
'सबको सब कर्म समानरूपसे  
करने चाहिये'—यह ऊपर बतलाया  
हुआ दोष अपरिहार्य ही रहता है ।

यदि कहो कि उसका विधान  
भी शास्त्रने ही किया है अर्थात्  
जिस प्रकार शास्त्रने कर्मकी  
कर्तव्यता बतलायी है उसी प्रकार  
उस कर्मके लिये ही उस आत्मज्ञान-  
का भी शास्त्रने ही विधान किया है  
तो ऐसा कहना भी उचित नहीं,  
क्योंकि उसका विरुद्ध-अर्थ-बोधकत्व  
सम्भव नहीं है । अग्निकी शीतलता  
और उष्णताके समान एक ही  
शास्त्रमें पाप-पुण्यके सम्बन्धित्व और  
उसके विपरीतत्वका बोध कराना—  
[ ये दोनों विरुद्धधर्म ] सम्भव  
नहीं हैं ।

न चेष्टयोगचिकीर्षा आत्म-

नोऽनिष्टवियोगचिकी-

सिद्धवरतुनः  
शास्त्राबोधत्वम्  
र्षा च शास्त्रकृता,

सर्वप्राणिनां तद्दर्श-

नात् । शास्त्रकृतं चैतदुभयं गोपा-

लादीनां न दृश्येत, अशास्त्रज्ञत्वा-

त्तेषाम् । यद्वि स्वतोऽप्राप्तं

तच्छास्त्रेण बोधयितव्यम् । तच्चे-

त्कृतकर्तव्यताविरोध्यात्मज्ञानं

शास्त्रेण कृतम्, कथं तद्विरुद्धां

कर्तव्यतां पुनरुत्पादयेच्छीतता-

मिवाप्तौ तम इव च भानौ ।

न बोधयत्येवेति चेन्न, “स

म आत्मेति विद्यात्” ( कौ० उ०

३ । ९ ) “प्रज्ञानं ब्रह्म” ( ३।१।३ )

इति चोपसंहारात् । “तदात्मा-

नमेवावेत्” ( वृ० उ० १ । ४ ।

९ ) “तच्चमसि” ( छा० उ०

६ । ८-१६ ) इत्येवमादिवा-

क्यानां तत्परत्वात् । उत्पन्नस्य

इसके सिवा अपनी इष्टवस्तुके

संयोगकी इच्छा तथा अनिष्ट पदार्थके

परित्यागकी अभिलाषा भी शास्त्र-

जनित नहीं है; क्योंकि यह सभी

प्राणियोंमें [ स्वभावसे ही ] देखी

जाती है । यदि शास्त्रजनित होती

तो ये दोनों इच्छाएँ ग्वाले आदिमें

दिखायी न देती; क्योंकि वे अशास्त्रज्ञ

होते हैं । जो वस्तु स्वतः प्राप्त नहीं

होती वही शास्त्रद्वारा बोधव्य होती

है । इस प्रकार यदि शास्त्रने कृत

और कर्तव्यताके विरोधी आत्मज्ञान-

का उपदेश किया है तो फिर वह

अग्निमें शीतलताके समान तथा

सूर्यमें अन्धकारके समान उसकी

विरुद्ध कर्तव्यताको किस प्रकार

उत्पन्न करेगा ?

यदि कहो कि वह ऐसा बोध

कराता ही नहीं है तो ऐसा कथन

भी ठीक नहीं, क्योंकि “वह मेरा

आत्मा है—ऐसा जाने” तथा “प्रज्ञान

ही ब्रह्म है” इस प्रकार उपसंहार

किया गया है, तथा “उस ( जीव-

रूपसे अवस्थित ब्रह्म ) ने अपनेको

ही जाना” “वह तू ही है”

इत्यादि वाक्य भी आत्मज्ञानपरक

च ब्रह्मात्मविज्ञानस्यावाध्यमान-  
त्वान्नानुत्पन्नं भ्रान्तं वेति शक्यं  
वक्तुम् ।

त्यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य

तुल्यत्वमिति चेत्

प्रयोजनाभावे

सम्यासस्य “नाकृतेनेह कश्चन”

स्वतः सिद्धत्वम्

( गीता ३ । १८ )

इति स्मृतेः, य आहुर्विदित्वा

ब्रह्म व्युत्थानमेव कुर्यादिति

तेषामप्येव समानो दोषः प्रयो-

जनाभाव इति चेन्न; अक्रिया-

मात्रत्वाद् व्युत्थानस्य । अविद्या-

निमित्तो हि प्रयोजनस्य भावो न

षस्तुधर्मः सर्वप्राणिनां तद्दर्शनात् ।

प्रयोजनतृष्णया च प्रेर्यमाणस्य

वाङ्मनःकायैः प्रवृत्तिदर्शनात् ।

“सोऽकामयत जाया मे स्यात्”

( वृ० उ० ११ । ४ । १७ )

इत्यादिना पुत्रवित्तादि पाङ्क-

लक्षणं काम्यमेवेति “उभे ह्येते

भी बाधित होने योग्य न होनेके  
कारण अनुत्पन्न या भ्रान्तिजनित  
नहीं कहा जा सकता ।

यदि कहो कि “उसे इस लोकमें  
अकृत ( कर्मत्याग ) से भी कोई  
प्रयोजन नहीं है” इस स्मृतिके  
अनुसार बोधशून्यको त्याग करनेमें  
भी प्रयोजनाभावकी समानता ही  
है, अर्थात् जो लोग कहते हैं कि  
ब्रह्मको जानकर व्युत्थान ( कर्म-  
त्याग ) ही करना चाहिये उनके  
लिये भी यह प्रयोजनाभावरूप दोष  
समान ही है, तो उनका यह कथन  
ठीक नहीं, क्योंकि व्युत्थान तो  
अक्रिया ही है \* । प्रयोजनका  
भाव तो अविद्याके कारण रहता है ।  
वह वस्तुका धर्म नहीं है, क्योंकि  
यह बात सभी प्राणियोंमें देखी  
जाती है, अर्थात् प्रयोजनकी तृष्णा-  
से प्रेरित होते हुए प्राणियोंकी वाणी  
मन और शरीरद्वारा प्रवृत्ति होती देखी  
गयी है तथा वाजसनेयी ब्राह्मणमें  
भी “उस ( आदिपुरुष ) ने इच्छा  
की कि मेरे पत्नी हो” इत्यादि कथनके  
द्वारा “ये दोनों ( साध्य-साधनरूप )

\* प्रयोजन तो क्रियाके लिये अपेक्षित होता है, इसलिये अक्रियारूप व्युत्थानके लिये किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है ।

एषणे एव" (बृ० उ० ३।५।१; ४।४।२२) इति वाजसनेयि-  
ब्राह्मणेऽवधारणात् ।

अविद्याकामदोषनिमित्ताया

वाङ्मनःकायप्रवृत्तेः पाङ्कलक्ष-  
णाया विदुषोऽविद्यादिदोषाभा-  
वादनुपपत्तेः क्रियाभावमात्रं  
व्युत्थानम्, न तु यागादिवदनु-  
ष्ठेयरूपं भावात्मकम् । तच्च  
विद्यावत्पुरुषधर्म इति न प्रयो-  
जनमन्वेष्टव्यम् । न हि तमसि  
प्रवृत्तस्योदित आलोके यद्गर्त-  
पङ्ककण्टकाद्यपतनं तत्किंप्रयो-  
जनमिति प्रश्नार्हम् ।

व्युत्थानं तर्ज्यर्थप्राप्तत्वान्न

कामाभावे चोदनाहमिति गा-  
आत्मशस्यापि हस्थे चेत्यरं ब्रह्म-  
गाहस्थ्यानुपपत्तिः विज्ञानं जातं तत्रै-

एषणाएँ ही हैं" इस निश्चयके अनुसार  
यही ज्ञात होता है कि पुत्र-वितादि  
पाङ्कलक्षण\* कर्म काम्य ही है ।

अतः विद्वान्के अविद्या आदि  
दोषोंका अभाव हो जानेके कारण  
अविद्या एवं कामनारूप दोषसे  
होनेवाली मन, वाणी और शरीरकी  
पाङ्करूपा प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं  
है; इसलिये व्युत्थान क्रियाका  
अभावमात्र है, वह यागादिके  
समान अनुष्ठेयरूप और भावात्मक  
नहीं है । वह तो विद्यावान् पुरुषका  
धर्म ही है; अतः उसके लिये  
किसी प्रयोजनका अन्वेषण करनेकी  
आवश्यकता नहीं है । अन्वेषणमें  
प्रवृत्त होनेवाला पुरुष यदि प्रकाशके  
उदित होनेपर गड्ढे, कीचड़ और  
काँटे आदिमें नहीं गिरता तो  
'इस ( उसके न गिरने ) का क्या  
प्रयोजन है ?' ऐसा प्रश्न नहीं किया  
जा सकता ।

तत्र तो स्वभावतः प्राप्त होनेके  
कारण व्युत्थान चोदना ( विधिवाक्य )  
का विषय नहीं हैं । इसपर यदि  
कहो कि यदि किसीको गृहस्थाश्रममें  
ही परब्रह्मका ज्ञान हो जाय तो उसे

\* पंक्ति छन्द पाँच अक्षरका होता है । उससे सहगतता होनेके कारण जित  
कर्ममें पत्नी, पुत्र, दैववित्त, मानुषवित्त और कर्म इन पाँच साधनोंका योग होता  
है वह पाङ्क कर्म कहलाता है ।



वास्त्वकुर्वत आसनं न ततोऽन्यत्र  
 गमनमिति चेन्न, कामप्रपुक्तत्वा-  
 द्गार्हस्थ्यस्य; "एतावान्यै कामः"  
 (बृ० उ० १।४।१७) इति "उभे  
 द्वेते एषणे एव" (बृ० उ० ३।५।  
 १; ४।४।२२) इत्यवधार-  
 णात् । कामनिमित्तपुत्रविचादि-  
 संबन्धनियमाभावमात्रं न हि  
 ततोऽन्यत्र गमनं व्युत्थान-  
 मुच्यते । अतो न गार्हस्थ्य एवा-  
 कुर्वत आसनमुत्पन्नविद्यस्य ।  
 एतेन गुरुशुश्रूषातपसोरप्यप्रति-  
 पत्तिर्विदुषः सिद्धा ।

अत्र केचिद् गृहस्था भिक्षा-  
 ट्णादिभयात्परिम-  
 वाच्च त्रस्यमानाः  
 दृक्ष्मदंष्टितां दर्शयन्त उत्तरमाहुः  
 'मिसोरपि' भिक्षाट्नादिनियम-  
 दर्शनाद्देहधारणमात्रार्थिनो गृह-

उस आश्रममें ही कुछ न करते हुए  
 बैठा रहना चाहिये, वहाँसे कहीं  
 अन्यत्र नहीं जाना चाहिये, तो  
 ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि  
 "इतनी ही कामना है" "ये दोनों  
 एषणाएँ ही हैं" इत्यादि वाक्योंसे  
 निश्चित किया जानेके कारण  
 गृहस्थाश्रम तो कामनासे ही प्रयुक्त  
 है । कामनाके निमित्तभूत पुत्र-  
 पितादिके सम्बन्धके नियमका  
 अभावमात्र ही 'व्युत्थान' है,  
 उनके पाससे कहीं अन्यत्र चला  
 जाना 'व्युत्थान' नहीं कहा जाता ।  
 अतः जिसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है  
 उसके लिये कुछ न करते हुए  
 गृहस्थाश्रममें ही स्थित रहना सम्भव  
 नहीं है । इससे विद्वान्के लिये  
 गुरुशुश्रूषा और तपस्याकी भी  
 अनुपपत्ति सिद्ध होती है ।

इस विषयमें कोई-कोई गृहस्थ  
 पुरुष भिक्षाट्नादिके मय और  
 तिरस्कारसे डरनेके कारण अपनी  
 सूक्ष्मदर्शिता प्रकट करते हुए उबर  
 देते हैं—केवल देहधारणमात्रके  
 इच्छुक भिक्षुके लिये भी भिक्षाट्नादि-  
 का नियम देखा जाता है, अतः

स्यस्यापि साध्यसाधनैषणोभयवि-  
निर्मुक्तस्य देहमात्रधारणार्थमश-  
नाच्छादनमात्रमुपजीवतो गृह  
एवास्त्वासनमिति ।

न, स्वगृहविशेषपरिग्रहनियमस्य

कामप्रयुक्तत्वादि-  
तस्य निरासः त्युक्तोत्तरमेतत् । स्व-

गृहविशेषपरिग्रहाभावे च शरीर-  
धारणमात्रप्रयुक्ताशनाच्छादना-  
र्थिनः स्वपरिग्रहविशेषाभावेऽर्था-  
द्भिक्षुकत्वमेव ।

शरीरधारणार्थायां भिक्षाट-

विद्वन्मास- नादिप्रवृत्तौ यथा  
विचारः नियमो भिक्षोः शौ-

चादौ च, तथा गृहिणोऽपि  
विदुषोऽकामिनोऽस्तु नित्यकर्मसु  
नियमेन प्रवृत्तिर्यावज्जीवादिश्रुति-  
नियुक्तत्वात् प्रत्यवायपरिहारा-  
येति । एतन्नियोगाविषयत्वेन

[ पुत्र-वित्तादि ] साध्य और [ कर्म-  
उपासना आदि ] साधन दोनोंकी  
एयणाओंसे मुक्त हुए केवल देह-  
धारणके लिये भोजनाच्छादनमात्रसे  
निर्वाह करनेवाले गृहस्थको भी  
घरहीमें रहना चाहिये ।

परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक  
नहीं । क्योंकि अपने गृहविशेषके  
परिग्रहका नियम कामनाप्रयुक्त ही  
है—इस प्रकार इसका उत्तर पहले दिया  
ही जा चुका है । और अपने गृह-  
विशेषके परिग्रहका अभाव होनेपर  
तो केवल शरीरधारणमात्रके लिये  
भोजनाच्छादनकी इच्छा करनेवाले  
पुरुषको अपने परिग्रह-विशेषका  
अभाव होनेके कारण स्वतः भिक्षुत्व  
ही प्राप्त हो जाता है ।

जिस प्रकार भिक्षुके लिये शरीर-  
रक्षामें उपयोगी भिक्षाटनादिकी  
प्रवृत्ति एवं शौचादिका नियम है  
उसी प्रकार विद्वान् और निष्काम  
गृहस्थको भी 'यावज्जीवादि' श्रुतिसे  
नियुक्त होनेके कारण प्रत्यवायकी  
निवृत्तिके लिये नित्यकर्ममें नियमसे  
प्रवृत्ति हो सकती है [ ऐसा  
यदि कोई कहे तो ] इस कथनका  
तो पहले ही प्रतिवाद किया जा  
चुका है; क्योंकि नियोगका

विदुषः प्रत्युक्तमशक्यनियोज्य-  
त्वाच्चेति ।

यावज्जीवादिनित्यचोदनानर्थ-  
क्यमिति चेत् ?

न, अविद्वद्विषयत्वेनार्थव-  
च्चात् । यत्तु भिक्षोः शरीरधार-  
णमात्रप्रवृत्तस्य प्रवृत्तेर्नियतत्वं  
तत्प्रवृत्तेर्न प्रयोजकम् । आचमन-  
प्रवृत्तस्य पिपासापगमवन्नान्यप्र-  
योजनार्थत्वमवगम्यते । न चा-  
ग्निहोत्रादीनां तद्वदर्थप्राप्तप्रवृत्ति-  
नियतत्वोपपत्तिः ।

अर्थप्राप्तप्रवृत्तिनियमोऽपि प्र-  
योजनाभावेऽनुपपन्न एवेति चेत् ?

न, तन्नियमस्य पूर्वप्रवृत्ति-  
सिद्धत्वात्तदतिक्रमे यत्तगौरवात् ।

अविषय होनेके कारण विद्वान्  
नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

पूर्व०—तव तो 'यावज्जीवन  
अग्निहोत्र करे' इत्यादि नित्य विधिकी  
व्यर्थता ही सिद्ध होती है ।

सिद्धान्ती—नहीं, अविद्वान्-  
विषयक होनेके कारण वह सार्थक  
है । केवल शरीरधारणमात्रके लिये  
भिक्षाटनादिमें प्रवृत्त हुए यतिकी  
प्रवृत्तिका जो नियतत्व है वह  
प्रवृत्तिका प्रयोजक नहीं है ।  
आचमनमें प्रवृत्त हुए पुरुषकी  
पिपासानिवृत्तिके समान उसके  
भिक्षाटनादिका [ क्षुधानिवृत्ति आदि-  
के सिवा ] कोई अन्य प्रयोजन नहीं  
समझा जाता । परन्तु इसके समान  
अग्निहोत्रादि कर्मोंका स्वत प्राप्त  
प्रवृत्तिको नियत करना नहीं माना  
जा सकता ।\*

पूर्व०—परन्तु प्रयोजनका अभाव  
हो जानेपर तो स्वत प्राप्त प्रवृत्तिका  
नियम भी व्यर्थ ही है ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि यह  
[ भिक्षाटनादिका ] नियम पूर्वप्रवृत्तिसे  
सिद्ध होनेके कारण उसके उल्लङ्घनमें  
अधिक प्रयत्नकी आवश्यकता है ।

● क्योंकि वे तो स्वर्गादिकी कामनासे ही किये जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति  
स्वभाविक नहीं है।

अर्थप्राप्तस्य व्युत्थानस्य पुनर्व-  
चनाद्विदुषः कर्तव्यत्वोपपत्तिः ।  
अविदुषापि मुमुक्षुणा पारि-  
विविदिशा- ब्राह्म्यं कर्तव्यमेव ।  
संन्यासविधानस्तथा च “शान्तो  
दान्तः” ( वृ० उ० ४ । ४ ।  
२३ ) इत्यादिवचनं प्रमाणम् ।  
शमदमादीनां चात्मदर्शनसाध-  
नानामन्याश्रमेष्वनुपपत्तेः । “अ-  
त्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच  
सम्यगृपिसंघजुष्टम्” ( ६ । २१ )  
इति च श्वेताश्वतरे विज्ञायते । “न  
कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके  
अमृतत्वमानशुः” ( कैवल्य २ )  
इति च कैवल्यश्रुतिः । “ज्ञात्वा  
नैष्कर्म्यमाचरेत्” इति च स्मृतेः ।  
“ब्रह्माश्रमपदे वसेत्” इति च

और खंभावतः प्राप्त व्युत्थानका  
[ “व्युत्थायाथ मिक्षाचर्यं चरन्ति”  
आदि वाक्योंसे ] पुनः विधान किया  
गया है, इसलिये विद्वान् मुमुक्षुके लिये  
उसकी कर्तव्यता उचित ही है । जिस  
मुमुक्षुको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है  
उसे भी संन्यास करना ही चाहिये ।  
इस विषयमें “शान्तो दान्त उपरत-  
स्तितिक्षुः” आदि वचन प्रमाण हैं ।  
तथा आत्मदर्शनके साधन शम-  
दमादिका अन्य आश्रमोंमें होना  
सम्भव भी नहीं है, जैसा कि “मन्त्रद्रष्टा  
ऋषियोंद्वारा भलीप्रकार सेवित उस  
परम पवित्र तत्वका परमहंसोंको  
उपदेश किया” इत्यादि मन्त्रोंसे  
श्वेताश्वतरोपनिषद्में बतलाया गया  
है, तथा “कर्मसे, प्रजासे अथवा  
धनसे नहीं बल्कि त्यागसे ही किन्हीं-  
किन्हींने अमरत्व प्राप्त किया है”  
ऐसी कैवल्योपनिषद्की श्रुति भी  
है । और “ज्ञान प्राप्तकर नैष्कर्म्यका  
आचरण करे” इस स्मृतिसे भी यही  
सिद्ध होता है । “ब्रह्माश्रमपदे वसेत्”  
इस स्मृतिके अनुसार ज्ञानप्राप्तिके

ब्रह्मचर्यादिविद्यासाधनानां च साकल्येनात्याश्रमिपूपपत्तेर्गार्हस्थ्येऽसंभवात् । न चासंपन्नं साधनं कस्यचिदर्थस्य साधनायालम् । यद्विज्ञानोपयोगीनि च गार्हस्थ्याश्रमकर्माणि तेषां परमफलमुपसंहृतं देवताप्ययलक्षणं संसारविषयमेव । यदि कर्मिण एव परमात्मविज्ञानमभिव्ययत् संसारविषयस्यैव फलस्योपसंहारो नोपापत्स्यत् ।

अङ्गफलं तदिति चेन्न तद्वि-

देवताप्ययस्य रोध्यात्मवस्तुविषय-

ज्ञानाङ्गत्वनिपत्त त्वादात्मविद्यायाः ।

निराकृतसर्वनामरूपकर्मपरमार्था-

त्मवस्तुविषयं ज्ञानममृतत्वसा-

धनम् । गुणफलसंबन्धे हि नि-

राकृतसर्वविशेषात्मवस्तुविषयत्वं

ज्ञानस्य न प्राप्नोति । तच्चानिष्टम्,

साधन ब्रह्मचर्यादिनी सिद्धि भी सम्पत् रीतिसे संन्यासियोंमें ही हो सकती है, क्योंकि गृहस्थाश्रममें उन साधनोंका होना असम्भव है, और अपूर्ण साधन किसी अर्थको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं है । गृहस्थाश्रमके कर्म जिस विज्ञानमें उपयोगी हैं उसके देवतामें लय होनारूप संसारविषयक परम फलका उपसंहार किया जा चुका है । यदि कर्मको ही परमात्माका साक्षात् ज्ञान हुआ करता तो संसारविषयक फलका उपसंहार ( अन्त ) होना कभी सम्भव ही न था ।

यदि कहो कि वह तो अङ्गफलमात्र है\* तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मविद्या तो उसके विरोधी आत्मतत्त्वसे सम्बन्ध रखनेवाली है । सब प्रकारके नाम, रूप और कर्मसे रहित परमार्थ आत्मतत्त्वसे सम्बन्ध रखनेवाला आत्मज्ञान तो अमरत्वका साधन है । उससे गौण फलका सम्बन्ध माननेपर तो ज्ञानका सर्वविशेषरूप आत्मवस्तुसे सम्बन्धित होना ही सिद्ध नहीं होता । और यह इष्ट नहीं है,

\* अर्थात् देवतालयरूप जो संसारविषयक फल है वह कर्मका अङ्ग—गौण फल है, मुख्य फल तो परमात्माका साक्षात्कार ही है ।

“यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्”  
 (बृ० उ० २।४।१४) इत्य-  
 धिकृत्य क्रियाकारकफलादि-  
 सर्वव्यवहारनिराकरणाद्विदुषः ।  
 तद्विपरीतस्याविदुषो “यत्र हि  
 द्वैतमिव” ( बृ० उ० २।४।  
 १४ ) इत्युक्त्वा क्रियाकारक-  
 फलरूपस्यैव संसारस्य दर्शित-  
 त्वाच्च वाजसनेयिब्राह्मणे । तथे-  
 हापि देवताप्ययं संसारविषयं  
 यत्फलमशनायादिमद्वस्त्वात्मकं  
 तत्फलमुपसंहृत्य केवलं सर्वात्म-  
 कवस्तुविषयं ज्ञानममृतत्वाय  
 वक्ष्यामीति प्रवर्तते ।

ऋणप्रतिबन्धस्याविदुष एव  
 ऋणप्रतिबन्ध- मनुष्यपितृदेवलोक-  
 विचारः प्राप्तिं प्रति, न  
 विदुषः । “सोऽयं मनुष्यलोकः  
 पुत्रेणैव” ( बृ० उ० १।५।  
 १६ ) इत्यादिलोकत्रयसाधन-  
 नियमश्रुतेः । विदुषश्च ऋणप्रति-

क्योंकि “जहाँ इसके लिये सब कुछ  
 आत्मा ही हो गया है” इस प्रकार  
 आरम्भ करके विद्वान्के लिये क्रिया,  
 कारक और फल आदि सम्पूर्ण  
 व्यवहारका निराकरण किया है ।  
 तथा उसके विपरीत अविद्वान्के  
 लिये वाजसनेयिब्राह्मणमें “जहाँ कि  
 द्वैतके समान होता है” ऐसा कहकर  
 क्रिया, कारक और फलरूप संसार-  
 विषयको प्रदर्शित किया है । इसी  
 प्रकार यहाँ ( ऐतरेयोपनिषद्में )  
 भी जो क्षुधा-विपासादियुक्त वस्तुरूप  
 संसारविषयक देवतालयसंज्ञक फल  
 है उसका उपसंहार कर अब केवल  
 सर्वात्मक वस्तुविषयक ज्ञानका ही  
 अमरत्व-प्राप्तिके लिये वर्णन करेंगी  
 —ऐसे अभिप्रायसे श्रुति प्रवृत्त  
 होती है ।

तथा देवलोक, पितृलोक और  
 मनुष्यलोककी प्राप्तिमें ऋणोंका प्रति-  
 बन्ध तो अज्ञानीके ही लिये है, ज्ञानीके  
 लिये नहीं, जैसा कि “उस इस मनुष्य-  
 लोकको पुत्रके द्वारा ही [ जीता  
 जा सकता है ]” इत्यादि लोकत्रयकी  
 प्राप्तिके साधनका नियम करनेवाली  
 श्रुतिसे सिद्ध होता है । तथा आत्म-  
 लोकके इच्छुक विद्वान्के लिये

बन्धामात्रो दर्शित आत्मलोका-  
थिनः “किं प्रजया करिष्यामः”  
( घृ० उ० ४ । ४ । २२ )  
इत्यादिना । तथा “एतद् स  
वै तद्विद्वांस आहुर्ऋषयः काव-  
पेयाः” इत्यादि । “एतद् स वै  
तत्पूर्वे विद्वांसोऽग्निहोत्रं न जुह-  
वाञ्चक्रुः” ( कौपी० २ । ५ )  
इति च कौपीतकिनाम् ।

अविदुपस्तर्हि ऋणानपाकरणे

पारित्राज्यानुपपत्तिरिति चेत् ?

न; प्राग्गार्हस्थ्यप्रतिपत्तेर्ऋणि-

त्वासंभवात् । अधिकाराना-

रूढोऽप्यृणी चेत्स्यात् सर्वस्य

ऋणित्वमित्यनिष्टं प्रसज्येताप्रति-

पन्नगार्हस्थ्यस्यापि “गृहाद्वनी

भूत्वा प्रव्रजेद्यदि वेतरथा ब्रह्म-

चर्यादिव प्रव्रजेद्गृहाद्वा वनाद्वा”

( जा० उ० ४ ) इत्यात्मदर्शनो-

पायसाधनत्वेनेष्यत एव पारित्रा-

“हम प्रजासे क्या करेंगे ?” इत्यादि  
वाक्योंद्वारा ऋणोंके प्रतिबन्धका  
अभाव दिखलाया है, इसी प्रकार  
“वे प्रसिद्ध आत्मवेत्ता कावपेय  
ऋषि बोले—[ मैं अध्ययन कैसे  
करूँ ? होम कैसे करूँ, ? ]”  
इत्यादि श्रुति है तथा ऐसी ही  
“उस इस आत्मतत्त्वको जाननेवाले  
पूर्ववर्ती विद्वान् अग्निहोत्र नहीं करते  
थे” यह कौपीतकी शाखाकी श्रुति है ।

पूर्व०—तत्र अविद्वान्के लिये तो  
ऋणोंका परिशोध बिना किये संन्यास  
करना वन नहीं सकता ?

सिद्धान्ती—यह बात नहीं है,  
क्योंकि गृहस्थाश्रमकी प्राप्तिसे पूर्व  
तो ऋणित्व ही असंभव है । यदि  
अधिकारारूढ न हुआ पुरुष भी ऋणी  
हो सकता है तो सभीका ऋणी होना  
सिद्ध होगा और इस प्रकार बड़ा  
अनिष्ट प्राप्त होगा । जो गृहस्थाश्रम-  
को प्राप्त हो गया है उस पुरुषके  
लिये भी “गृहस्थाश्रमसे वानप्रस्थ  
होकर संन्यास करे अथवा [ इस  
क्रमको छोड़कर ] अन्य प्रकारसे  
यानी ब्रह्मचर्यसे, गृहस्थाश्रमसे  
अथवा वानप्रस्थाश्रमसे ही संन्यास  
कर दे” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा आत्म-  
दर्शनके साधनके उपायरूपसे

ज्यम् । यावज्जीवादिश्रुतीनाम-  
 यावज्जीवादि- विद्वदमुमुक्षुविषये  
 श्रुतीनाम्- कृतार्थता । छान्दोग्ये  
 विद्वद्विषयत्वम् च केपांचिद् द्वादश-  
 रात्रमग्निहोत्रं हुत्वा तत ऊर्ध्वं  
 परित्यागः श्रूयते ।

संन्यास प्राप्त हो ही जाता है ।  
 अविद्वान् और अमुमुक्षु पुरुषोंके  
 विषयमें “यावज्जीवन अग्निहोत्र करे”  
 इत्यादि श्रुतियोंकी भी कृतार्थता है ।  
 छान्दोग्यमें तो किन्हीं-किन्हींके लिये  
 बारह रात्रि अग्निहोत्र करके तदनन्तर  
 उसका परित्याग करना सुना  
 जाता है ।

यच्चनधिकृतानां पारिव्राज्य-  
 मिति, तन्न, तेषां  
 संन्यासस्य कर्मानधिकारि- पृथगेव, “उत्सन्ना-  
 विषयत्वनिरासः ग्निरनग्निको वा”  
 इत्यादिश्रवणात् । सर्वस्मृतिषु  
 चाविशेषेणाश्रमविकल्पः प्रसिद्धः  
 समुच्चयश्च ।

और तुमने जो कहा कि जिन्हें  
 कर्मका अधिकार नहीं है उन्हींके  
 लिये संन्यासका विधान है, सो  
 ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके  
 विषयमें “उत्सन्नाग्निरनग्निको वा”\*  
 इत्यादि अलग ही श्रुति है । तथा  
 समस्त स्मृतियोंमें भी आश्रमोंका  
 विकल्प और समुच्चय सामान्यरूपसे  
 प्रसिद्ध ही है ।

यत्तु विदुषोऽर्थप्राप्तं व्युत्थान-  
 व्युत्थानविधि- मित्यशास्त्रार्थत्वे,  
 विचारः गृहे वने वा  
 तिष्ठतो न विशेष इति,

तथा वह जो कहा कि विद्वान्-  
 को जो कर्मत्यागकी स्वतः प्राप्ति  
 बतलायी है, सो शास्त्रका विषय न  
 होनेके कारण उसके घर या वनमें  
 रहनेमें कोई विशेषता नहीं है;

\* जिसके अग्निहोत्रकी अग्नि प्रमादवश शान्त हो गयी है अथवा जिसने  
 अग्निका परिग्रह नहीं किया है ।

१. क्रमकी अपेक्षा न करके जिस आश्रममें संन्यास लेनेकी इच्छा हो  
 उसीमें ले लेना ।

२. एक आश्रममें दूसरे आश्रममें कर्मानुसार जाना ।



तदसत्; व्युत्थानस्यैवार्थ-

प्राप्तत्वान्नान्यत्रावस्थानं स्यात् ।

अन्यत्रावस्थानस्य कामकर्म-

प्रयुक्तत्वं ह्यवोचाम, तदभाव-

मात्रं व्युत्थानमिति च ।

यथाकामित्वं तु विदुषोऽत्यन्त-

विदुषो यथा- मप्राप्तं अत्यन्तमूढ-

कामित्वनिषेध विषयत्वेनावगमात् ।

तथा शास्त्रचोदितमपि कर्म

आत्मविदोऽप्राप्तं गुरुभारतयाव-

गम्यते । किमुतात्यन्ताविवेक-

निमित्तं यथाकामित्वम् । न हि

उन्मादतिमिरदृष्ट्युपलब्धं वस्तु

तदपगमेऽपि तथैव स्यात् ।

उन्मादतिमिरदृष्टिनिमित्तत्वादेन

तस्य । तस्मादात्मविदो व्यु-

त्थानव्यतिरेकेण न यथाकामित्वं

न चान्यत्कर्तव्यमित्येतत्सिद्धम् ।

ऐसा कहना ठीक नहीं ।

व्युत्थानके खतः प्राप्त होनेके

कारण ही उसकी अन्यत्र [ यानी

गृहस्थाश्रममें ] स्थिति नहीं हो

सकती । अन्यत्र स्थितिको तो हमने

कामना और कर्मसे प्रेरित ही

बतलाया है, और उसके अभावको

ही व्युत्थान कहा है ।

स्वेच्छाचार तो अत्यन्त मूढका

विषय समझा गया है, इसलिये विद्वान्-

के लिये वह अत्यन्त अप्राप्त है । तथा

विद्वान्के लिये तो अत्यन्त भाररूप

होनेके कारण शास्त्रोक्त कर्मकी भी

अप्राप्ति समझी जाती है । फिर

अत्यन्त अविवेकके कारण होनेवाले

स्वेच्छाचारकी तो बात ही क्या है ?

उन्माद अथवा निमिरोगसे दूषित

दृष्टिद्वारा उपलब्ध हुई वस्तु उसके

निवृत्त हो जानेपर भी वैसी ही

नहीं रहती, क्योंकि वह तो उन्माद

अथवा निमिरदृष्टिके कारण ही

वैसी प्रतीत होती है । अतः यह

सिद्ध हुआ कि आत्मवेत्ताके लिये

व्युत्थानको छोड़कर न तो स्वेच्छा-

चार ही है और न कोई अन्य

कर्तव्य ही शेष रहता है ।

यत्तु—“विद्यां चाविद्यां च  
विदुषो ज्ञान- यस्तद्वेदोभयं सह”  
कर्मसमुच्चया- ( ई० उ० ११ ) इति  
उपपत्तिः न विद्यावतो विद्यया  
सहाविद्यापि वर्तते इत्ययमर्थः;  
कस्तर्हि एकस्मिन्पुरुषे एते एक-  
दैव न सह संबन्धेयातामित्यर्थः ।  
यथा शुक्तिकायां रजतशुक्तिका-  
ज्ञाने एकस्य पुरुषस्य । “दूरमेते  
विपरीते विपूची अविद्या या च  
विद्येति ज्ञाता” ( क० उ० १ ।  
२ । ४ ) इति हि काठके ।  
तस्मान्न विद्यायां सत्यामविद्या-  
संभवोऽस्ति ।

“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व”  
( तै० उ० ३ । २ ) इत्यादि-  
श्रुतेः, तपआदि विद्योत्पत्ति-  
साधनं गुरुपासनादि च कर्म  
अविद्यात्मकत्वादविद्योच्यते तेन  
विद्यामृत्पाद्य मृत्युं काममतितर-  
ति । ततो निष्कामस्त्यक्तैपणो  
ब्रह्मविद्यया अमृतत्वमश्नुत इत्ये-

तथा ऐसा जो कहा है कि “जो  
पुरुष विद्या और अविद्या दोनोंको  
साथ-साथ जानता है” वह इसलिये  
नहीं है कि विद्वान्में विद्याके साथ  
अविद्या भी रहती है । तो फिर उसका  
क्या प्रयोजन है ? उसका तात्पर्य  
तो यही है कि एक ही पुरुषमें  
ये दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते;  
जिस प्रकार कि सीपीमें एक पुरुषको  
[ एक ही समय ] चौंदा और सीपी  
दोनोंका ज्ञान नहीं हो सकता ।  
कठोपनिषद्में भी कहा है—“जो  
विद्या और अविद्या नामसे जानी  
जाती हैं वे परस्पर अत्यन्त विपरीत  
( विरुद्ध स्वभाववाली ) हैं ।” अतः  
विद्याके रहते हुए अविद्याका रहना  
किसी प्रकार सम्भव नहीं है ।

“तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा  
कर” इत्यादि श्रुतिके अनुसार तप  
आदि विद्योत्पत्तिके साधन और  
गुरुकी उपासना आदि कर्म अविद्या-  
मय होनेके कारण ‘अविद्या’ कहे  
जाते हैं । उस अविद्यारूप कर्मसे  
विद्याको उत्पन्न करके वह मृत्यु यानी  
कामनाको पार कर जाता है । तत्र वह  
निष्काम और एवमामुक्त पुरुष ब्रह्म-  
विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर लेता है—

तमर्थं दर्शयन्नाह—“अविद्यया  
मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते”  
( ई० उ० ११ ) इति ।

यत्तु पुरुषायुः सर्वं कर्मणैव

व्याप्तं 'कुर्वन्नेवेह  
कर्मणि जिजीवि-

पेच्छत्समाः” ( ई० उ० २ )

इति तदविद्वद्विषयत्वेन परिहृत-

मितरथासंभवात् । यत्तु वक्ष्य-

माणमपि पूर्वोक्ततुल्यत्वात्कर्म-

णाविरुद्धमात्मज्ञानमिति, तत्स-

विशेषनिर्विशेषात्मतया प्रत्युक्तम्,

उत्तरत्र व्याख्याने च दर्शयि-

ष्यामः । अतः केवलनिक्रिय-

ब्रह्मात्मकत्वविद्यादर्शनार्थमुत्तरो

ग्रन्थ आरम्भते—

इसी अर्थको प्रदर्शित करते हुए कहते  
हैं कि “अविद्यासे मृत्युको पारकर  
विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर लेना है ।”

“कर्म करते हुए ही सौ वर्तक  
जीति रहनेकी इच्छा करे” इस  
मन्त्रद्वारा जो यह कहा गया था कि  
पुरुषकी सारी आयु कर्मसे ही व्याप्त है  
उसका वह अविद्वान्से सम्बन्ध रखने-  
वाला है—ऐसा बतलाकर खण्डन कर  
दिया गया, क्योंकि अन्य प्रकार वैसा  
होना असंभव है तथा तुमने जो  
कहा था कि आगे कहा जानेवाला  
आत्मज्ञान भी पूर्वोक्त [ श्रुतिक्रियित ]  
ज्ञानके तुल्य होनेके कारण कर्मसे  
अविरुद्ध ही है उस कथनको भी  
सविशेष और निर्विशेष आत्मविषयक  
बतलाकर खण्डन कर चुके हैं और  
आगेकी व्याख्यामें इसका दिग्दर्शन भी  
करायेंगे । अब यहाँसे केवलनिक्रिय  
ब्रह्म और आत्माकी एकताका ज्ञान  
प्रदर्शित करनेके लिये आगेका ग्रन्थ  
आरम्भ किया जाता है—

आत्माके ईक्षणपूर्वक सृष्टि

ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् । नान्य-  
त्किञ्चन मीपत् । स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति ॥ १ ॥

पहले यह [ जगत् ] एकमात्र आत्मा ही था; उसके सिवा और कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी। उसने यह सोचा कि 'लोकोंकी रचना करूँ' ॥ १ ॥

आत्मा आप्तोत्तेरत्तेरततेर्वा  
परः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरशनाया-  
दिसर्वसंसारधर्मवर्जितो नित्य-  
शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावोऽजोऽजरो-  
ऽमरोऽमृतोऽभयोऽद्वयो वै; इदं  
यदुक्तं नामरूपकर्मभेदभिन्नं जग-  
दात्मैवैकोऽग्रे जगतः सृष्टेः  
प्रागासीत् ।

किं नेदानीं स एवैकः ?

न ।

कथं तर्ह्यासीदित्युच्यते ?

यद्यपीदानीं स एवैकस्तथा-  
प्यस्ति विशेषः । प्रागुत्पत्तेरव्या-  
कृतनामरूपभेदमात्मभूतमात्मैक-  
शब्दप्रत्ययगोचरं जगदिदानीं

[व्याप्तिबोधक] 'आप्', [ भक्षणा-  
र्थक ] 'अद्' अथवा [ सतत गमन-  
बोधक ] 'अत्' धातुसे 'आत्मा'  
शब्द निष्पन्न हुआ है। यह जो  
नाम, रूप और कर्मके भेदने विविध-  
रूप प्रतीत होनेवाला जगत् कहा गया  
है वह पहले यानीं संसारकी सृष्टिसे  
पूर्व सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्,  
शुद्धा-पिपासा आदि सम्पूर्ण सांसारिक  
धर्मोंसे रहित, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-  
मुक्तस्वभाव, अजन्मा, अजर, अमर,  
अमृत, अभय और अद्वयरूप आत्मा  
ही था ।

पूर्व०—क्या इस समय भी एक-  
मात्र वही नहीं है ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है ।

पूर्व०—तो फिर 'आसीत् ( था )'  
ऐसा क्यों कहा है ?

सिद्धान्ती—यद्यपि इस समय भी  
अकेला वही है तो भी कुछ विशेषता  
अवश्य है। [ वह विशेषता यही  
है कि ] उत्पत्तिसे पूर्व यह  
जगत् नाम-रूपादि भेदके व्यक्त न  
होनेके कारण आत्मभूत और एक  
'आत्मा' शब्दकी प्रतीतिका ही

व्याकृतनामरूपभेदत्वादनेकश-  
ब्दप्रत्ययगोचरमात्मैकशब्दप्रत्य-  
यगोचरं चेति विशेषः ।

यथा सलिलात्पृथक्फेननाम-  
रूपव्याकरणात्प्राक्सलिलैकशब्द-  
प्रत्ययगोचरमेव फेनम्, यदा  
सलिलात्पृथङ्नामरूपभेदेन व्या-  
कृतं भवति तदा सलिलं फेनं  
चेत्यनेकशब्दप्रत्ययभाक्सलिल-  
मेवेति चैकशब्दप्रत्ययभाक्च  
फेनं भवति तद्वत् ।

नान्यत्किञ्चन न किञ्चिदपि  
मिषन्निमिषद्ब्यापारवदितरद्वा ।  
यथा सांख्यानामनात्मपक्षपाति  
स्वतन्त्रं प्रधानं यथा च काणा-  
दानामणवो न तद्वदिहान्य-  
दात्मनः किञ्चिदपि वस्तु विद्यते  
किं तर्हि ? आत्मैकैक आसीदित्य-  
भिप्रायः ।


विषय था और इस समय नाम-  
रूपादि भेदके व्यक्त हो जानेसे वह  
अनेक शब्दोंकी प्रतीतिका विषय  
तथा एकमात्र 'आत्मा' शब्दकी  
प्रतीतिका विषय भी हो रहा है;

जिस प्रकार जलसे पृथक् फेनके  
नाम और रूपकी अभिव्यक्ति होनेसे  
पूर्व फेन एकमात्र 'जल' शब्दकी  
प्रतीतिका ही विषय था, किन्तु जिस  
समय वह जलसे अलग नाम और रूप-  
के भेदसे व्यक्त हो जाता है उस समय  
वह फेन 'जल' और 'फेन' इस प्रकार  
अनेक शब्दोंकी प्रतीतिका विषय  
तथा केवल 'जल' इस एक शब्दकी  
प्रतीतिका विषय भी हो जाता है,  
उसी प्रकार [ उपर्युक्त भेद भी  
समझना चाहिये ] ।

उसके सिवा अन्य कोई व्यापार-  
युक्त अथवा निष्क्रिय वस्तु नहीं थी ।  
जिस प्रकार साक्ष्यवादियोंके मतमें  
आत्माकी कोटिमें न आनेवाला उससे  
स्वतन्त्र प्रधान था, तथा कणादमताव-  
लम्बियोंके विचारमें परमाणु थे उस-  
प्रकार इस ( औपनिषद् सिद्धान्त ) में  
आत्मामे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं  
थी । तो फिर क्या था ? एकमात्र आत्मा  
ही था—यह इसका अभिप्राय है ।

स सर्वज्ञस्वामाव्याद् आत्मा  
 एक एव सन्नीक्षत । ननु प्रागु-  
 त्पत्तेरकार्यकरणत्वात्कथमीक्षित-  
 वान् । नायं दोषः, सर्वज्ञस्वामा-  
 व्यात् तथा च मन्त्रवर्णः—  
 “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता”  
 ( श्वै० उ० ३।१९ ) इत्यादिः ।  
 केनाभिप्रायेणेत्याह—लोकान्  
 अम्मःप्रभृतीन् प्राणिकर्मफलोप-  
 भोगस्थानभूतान्नु सृजै सृजेऽह-  
 मिति ॥ १ ॥

सर्वज्ञत्वभाव होनेके कारण  
 उस आत्माने अकेले होते हुए ही  
 ईक्षण ( चिन्तन ) किया । यदि  
 कहो कि जगत्की उत्पत्तिसे पूर्व  
 कार्य और करणका अभाव रहते  
 हुए भी उसने किस प्रकार ईक्षण  
 किया ? तो यह कोई दोषकी बात  
 नहीं है; क्योंकि वह आत्मा स्वभावसे  
 ही सर्वज्ञ है । इस विषयमें “हाथ-  
 पाँत्रवाला न होकर भी वेगवान् और  
 ग्रहण करनेवाला है” इत्यादि मन्त्र-  
 वर्ण भी है । उसने किस अभिप्रायसे  
 ईक्षण किया ? इसपर श्रुति कहती  
 है—‘मैं प्राणियोंके कर्मफलोपभोगके  
 आश्रयभूत अम्म आदि लोकोंकी  
 रचना करूँ’ इस प्रकार ईक्षण  
 किया ॥ १ ॥



### सृष्टिक्रम

एवमीक्षित्वा आलोच्य—

इस प्रकार ईक्षण यानी आलोचना  
 करके—

स इमाँल्लोकानसृजत । अम्भो मरीचीर्मरमापोदोऽम्भः  
 परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरो या  
 अधस्तात्ता आपः ॥ २ ॥

उसने अम्म, मरीचि, मर और आप—इन लोकोंकी रचना की । जो दुलोकसे परे है और स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह 'अम्म' है, अन्तरिक्ष ( भुवर्लोक ) 'मरीचि' है, पृथिवी 'मर-लोक' है और जो [ पृथिवी ] नीचे है वह 'आप' है ॥ २ ॥

स आत्मेमाँल्लोकानसृजत  
सृष्टवान् । यथेह बुद्धिमाँस्तक्षादि-  
रेवंप्रकारान्प्रासादादीन्सृज इति  
ईक्षित्वेक्षानन्तरं प्रासादादीन्सृज-  
ति तद्वत् ।

ननु सोपादानस्तक्षादिः प्रा-  
सादादीन्सृजतीति युक्तं निरुपा-  
दानस्त्वात्मा कथं लोकान्  
सृजति ।

नैप दोषः; सलिलफेनस्या-  
निरुपादानस्य नीये आत्मभूते  
आत्मन सृष्टि- नामरूपे अव्याकृते  
कर्तृत्वम् आत्मैकशब्दवाच्ये -  
व्याकृतफेनस्थानीयस्य जगतः  
उपादानभूते संभवतः । तस्माद्

उस आत्माने इन लोकोंकी रचना की । जिस प्रकार इस लोकमें बुद्धिमान् शिल्पकार आदि 'मैं इस प्रकारके महल आदि बनाऊँ' ऐसा विचार करके उस विचारके अन्तर ही महल आदिकी रचना करते हैं उसी प्रकार [ उसने ईक्षण करके इन लोकोंकी रचना की ] ।

शङ्का—शिल्पकारादि तो उन महल आदिकी उपादान सामग्रीसे युक्त होते हैं इसलिये वे महल आदिकी रचना करते हैं—ऐसा कहना ठीक ही है, किन्तु उपादान ( सामग्री ) से रहित आत्मा किस प्रकार लोकोंकी रचना करता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जलमें [ व्यक्त न हुए ] फेनस्थानीय अव्याकृत नाम और रूप, जो आत्मस्वरूप और एकमात्र 'आत्मा' शब्दके ही वाच्य हैं, व्याकृत फेनस्वरूप जगत्के उपादान हो सकते हैं । अन वह सर्वत्र

आत्मभूतनामरूपोपादानभूतः  
सन्सर्वज्ञो जगन्निर्मिमीत इत्य-  
विरुद्धम् ।

अथवा, यथा विज्ञानवान्मा-  
यावी निरुपादान आत्मानमेव  
आत्मान्तरत्वेनाकाशेन गच्छन्त-  
मिव निर्मिमीते, तथा सर्वज्ञो  
देवः सर्वशक्तिर्महामाय आत्मान-  
मेवात्मान्तरत्वेन जगद्रूपेण नि-  
र्मिमीत इति युक्ततरम् । एवं च  
सति कार्यकारणोभयासद्वाद्यादि-  
पक्षाश्च न प्रसज्यन्ते सुनिरा-  
कृताश्च भवन्ति ।

काँल्लोकानसृजतेत्याह—

अम्मो मरीचीर्मरमाप  
आत्मनृष्ट-  
लोकान्यामन् इति । आकाशादि-  
क्रमेण अण्डमुत्पाद्याम्भः प्रभृतीन्  
लोकानसृजत । तत्राम्भःप्रभृतीन्  
स्वयमेव व्याचष्टे श्रुतिः ।

अदस्तदम्मः शब्दवाच्यो लोकः  
परेण दिवं ह्युलोकात्परेण पर-  
स्तात्;सोऽम्मःशब्दवाच्यः;अम्भो-

आत्मा अपने आत्ममूत नाम और  
रूपका उपादानस्वरूप होकर जगत्-  
की रचना करता है—इसमें कोई  
विरोध नहीं है ।

अथवा जिस प्रकार बुद्धियुक्त  
मायावी कोई उपादान न होनेपर  
भी स्वयं अपनेहीको अपने अन्यरूपसे  
आकाशमें चलता हुआ-सा बना लेता  
है, उसी प्रकार वह सर्वशक्तिमान्,  
महामायावी, सर्वज्ञ देव अपनेहीको  
जगत्रूप अपने अन्य स्वरूपसे रच  
लेता है—यह बहुत युक्तियुक्त ही  
है । ऐसा होनेपर कार्य और कारण—  
इन दोनोंको असत् बतलानेवालोंके  
[ असद्वाद आदि ] पक्षोंकी प्राप्ति नहीं  
होती और उनका पूर्णतया निरा-  
करण हो जाता है ।

उसने किन लोकोंकी रचना  
की ? इसपर कहते हैं—अम्भ,  
मरीची, मर और आप आदिकी ।  
उसने आकाशादि क्रमसे अण्डको  
उत्पन्न कर अम्भ आदि लोकोंकी  
रचना की । उन अम्भ आदि लोकों-  
की श्रुति स्वयं ही व्याख्या करती है ।

अदः—यह 'अम्भ' शब्दसे कहा  
जानेवाला लोक है, जो सुलोकसे  
परे है; यह जग ( मेव ) की धारण



मरणात् । द्यौः प्रतिष्ठाश्रयस्तस्या-  
 म्मसो लोकस्य । द्युलोकादधस्ता-  
 दन्तरिक्षं यत्तन्मरीचयः । ए-  
 कोऽप्यनेकस्थानभेदत्वाद्बहुवच-  
 नभाक्—मरीचय इति; मरीचि-  
 मिर्वा रश्मिभिःसम्बन्धात् । पृथिवी  
 मरो त्रियन्तेऽसिन् भूतानीति ।  
 या अधस्तात् पृथिव्यास्ता आप  
 उच्यन्ते; आप्नोतेः, लोकाः । यद्यपि  
 पञ्चभूतात्मकत्वं लोकानां तथा-  
 प्यन्वाहुल्यादन्नामिरेवाग्मो  
 मरीचीर्मरमाप इत्युच्यन्ते ॥२॥

करनेवाज होनेसे 'अग्म' शब्दसे  
 कहा जाता है । उस अग्मलोकका  
 ध्रुलोक प्रतिष्ठा यानी आश्रय है ।  
 ध्रुलोकसे नीचे जो अन्तरिक्ष है वह  
 मरीचि लोक है । वह एक होनेपर भी  
 अनेकों स्थानभेदोंके कारण 'मरीचयः'  
 इस प्रकार बहुवचनरूपसे प्रयुक्त  
 हुआ है । अपना किरणोंसे सम्बन्धित  
 होनेके कारण वह 'मरीचि' कह-  
 लाता है । पृथिवी 'मर' है, क्योंकि  
 उसमें प्राणी मरते हैं । जो लोक  
 पृथिवीसे नीचेकी ओर हैं वे 'आप'  
 कहलाते हैं, क्योंकि 'अप्' शब्द  
 [ नीचेके लोकोंमें रहनेवाले प्राणियों-  
 द्वारा प्राप्य होनेके कारण प्राप्तिरूप  
 अर्थवाले ] 'आप्' धातुसे बना हुआ  
 है यद्यपि सभी लोक पञ्चभूतमय  
 हैं तथापि आप ( जल ) की  
 अधिकता होनेके कारण ये अग्म, मरीचि,  
 मर और आप इन आप ( जल ) वाची  
 नामोंसे कहे जाते हैं ॥ २ ॥

पुरुपरूप लोकपालकी रचना

सर्वप्राणिकर्मफलोपादानाधि-  
 ष्टानभूतांश्चतुरो लोकान् सृष्ट्वा—

सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मफलरूप  
 उपादानके अधिष्ठानभूत चारों  
 लोकोंकी रचना कर—

स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति सोऽद्भ्य

एव पुरुषं समुद्घृत्यामूर्च्छयत् ॥ ३ ॥

उसने ईक्षण ( विचार ) किया कि—'ये लोक तो तैयार हो गये अब लोकपालोंकी रचना करूँ'—ऐसा सोचकर उसने जलमेंसे ही एक पुरुष निकालकर अवयवयुक्त किया ॥ ३ ॥

स ईश्वरः पुनरेवेक्षत । इमे तु  
अम्मःप्रभृतयो मया सृष्टा लोकाः  
परिपालयित्त्वर्जिता विनश्येयुः  
तस्मादेयां रक्षणार्थं लोकपालाँ-  
ल्लोकानां पालयित्नु सृजे  
सृजेऽहमिति ।

एवमीक्षित्वा सोऽद्भ्य एव  
अप्रधानेभ्य एव पञ्चभूतेभ्यो  
येभ्योऽम्मःप्रभृतीन्सृष्ट्वास्तेभ्य  
एवेत्यर्थः । पुरुषं पुरुषाकारं  
शिरःपाण्यादिमन्तं समुद्भृत्य  
अद्भ्यः समुपादाय मृत्पिण्डमिव  
कुलालः पृथिव्याः, अमूर्च्छयत्  
मूर्छितवान् संपिण्डितवान् स्वाव-  
यवसंयोजनेनेत्यर्थः ॥ ३ ॥

उस ईश्वरने फिर भी ईक्षण  
( विचार ) किया । मेरे रचे हुए ये  
अम्म आदि लोक बिना किसी  
रक्षकके नष्ट हो जायँगे । अतः इनकी  
रक्षाके लिये मैं लोकपालोंकी—  
लोकोंकी रक्षा करनेवालोंकी रचना  
करूँ ।

ऐसा सोचकर उसने जलसे—  
जलप्रधान पञ्चभूतोंसे अर्थात् जिनसे  
उसने अम्म आदि लोकोंकी रचना  
की थी उन्हींसे पुरुष यानी शिर और  
हाथ आदिवाले पुरुषाकारको, जिस  
प्रकार कुम्हार पृथिवीसे मिट्टीका पिण्ड  
निकालता है, उसी प्रकार निकाल-  
कर मूर्छित किया अर्थात् अवयवोंकी  
योजना कर उसको बढाया ॥ ३ ॥

इन्द्रियगोलक, इन्द्रिय और इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओंकी उत्पत्ति

तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डं  
मुखाद्वाग्वाचोऽग्निर्नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः  
प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिद्येतामक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः

कर्णौ निरभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्राद्दिशस्त्वङ्निर-  
भिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओपधिवनरपतयो हृदयं  
निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत  
नाभ्या अपानोऽपानान्मृत्युः शिश्नं निरभिद्यत शिश्नाद्रेतो  
रेतस आपः ॥ ४ ॥

उस विराट् पुरुषके उद्देश्यसे ईश्वरने सकल्प किया । उस सकल्प  
किये पिण्डमे अण्डेके समान मुख उत्पन्न हुआ । मुखसे वाक्  
और वाग्निन्द्रियसे अग्नि उत्पन्न हुआ । [ फिर ] नासिकारन्ध्र प्रकट हुए,  
नासिकारन्ध्रोंसे प्राण हुआ और प्राणसे वायु । [ इसी प्रकार ] नेत्र प्रकट  
हुए तथा नेत्रोंसे चक्षु-इन्द्रिय और चक्षुमे आदित्य उत्पन्न हुआ । [ फिर ]  
कान उत्पन्न हुए तथा कानोंसे श्रोत्रेन्द्रिय और श्रोत्रसे दिशाएँ प्रकट हुईं  
[ तदनन्तर ] त्वचा प्रकट हुई तथा त्वचामे लोम और लोमोंसे ओपधि  
एवं वनस्पतियाँ उत्पन्न हुईं । [ इसी प्रकार ] हृदय उत्पन्न हुआ तथा  
हृदयसे मन और मनमे चन्द्रमा प्रकट हुआ । [ फिर ] नाभि उत्पन्न हुई  
तथा नाभिसे अपान और अपानसे मृत्युकी अभिव्यक्ति हुई । [ तदनन्तर ]  
शिश्न प्रकट हुआ तथा शिश्नसे रेतस् और रेतस्से आप उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥

तं पिण्डं पुरुषविधमुद्दिश्याभ्य-  
तपत् । तदभिध्यानं संकल्पं कृतवा-  
नित्यर्थः, “यस्य ज्ञानमयं तपः”  
(सृ० उ० १।१।९) इत्यादिश्रुतेः ।  
तस्याभितप्तस्येश्वरसंकल्पेन तप-  
सामितप्तस्य पिण्डस्य मुखं निर-  
भिद्यत मुखकारं सुपिरमजायत  
यथा पक्षिणोऽण्डं निर्मिद्यत

उस पुरुषाकारपिण्डके उद्देश्य  
मे ईश्वरने तप किया । अर्थात्  
उसका अभिध्यान यानी सकल्प  
किया, जैसा कि “जिसका तप  
ज्ञानमय है” इस श्रुतिमे सिद्ध होता  
है । उस अमित-ईश्वरके संकल्परूप  
तपमे तपे हुए पिण्डका मुख प्रकट  
हुआ अर्थात् उसमें मुखाकार उद्भि-  
द्भ प्रकार उत्पन्न हो गया जैसे कि  
पक्षीको अण्डा फट जाता है उस

एवम् । तस्मान्निर्भिन्ना-  
 न्मुखाद्वाकरणमिन्द्रियं निरवर्तत;  
 तदधिष्ठाताभिस्ततो वाचो लोक-  
 पालः । तथा नासिके निरभिद्ये-  
 ताम् । नासिकाभ्यां प्राणः,  
 प्राणाद्वायुः, इति सर्वत्राधिष्ठानं  
 करणं देवता च त्रयं क्रमेण  
 निर्भिन्नमिति । अक्षिणी कर्णौ  
 त्वग् हृदयमन्तःकरणाधिष्ठानम्,  
 मनोऽन्तःकरणम् । नाभिः सर्व-  
 प्राणवन्धनस्थानम् । अपानसंयुक्त-  
 त्वादपान इति पाण्डिन्द्रियमुच्यते ।  
 तस्माद् तस्याधिष्ठात्री देवता  
 मृत्युः । यथान्यत्र, तथा शिशुं  
 निरभिद्यत प्रजननेन्द्रियस्थानम् ।  
 इन्द्रियं रेतो रेतोविसर्गार्थत्वा-  
 त्सह रेतसोच्यते । रेतस आप  
 इति ॥ ४ ॥

छिद्ररूप मुखसे वाक्-इन्द्रिय उत्पन्न  
 हुई और उस वाक्से वाणीका अधिष्ठाता  
 लोकपाल अग्नि हुआ । इसी प्रकार  
 नासिकारन्ध्र उत्पन्न हुए, उन  
 नासिकारन्ध्रोंसे प्राण और प्राणसे वायु  
 हुआ । इस प्रकार सभी जगह इन्द्रिय-  
 गोलक, इन्द्रिय और उसके अधिष्ठाता  
 देव-ये तीनों ही क्रमशः उत्पन्न हुए ।  
 दो नेत्र, दो कान और त्वचा [-ये  
 इन्द्रियस्थान हैं ], हृदय अन्तःकरणका  
 अधिष्ठान हैं और मन अन्तःकरण है ।  
 नाभि सम्पूर्ण प्राणोंके बन्धनका स्थान  
 है । अपान वायुयुक्त होनेके कारण  
 पायु इन्द्रिय अपान कहलाती है; उससे  
 उसकी अधिष्ठात्री देवता मृत्यु उत्पन्न  
 हुई । जैसे कि अन्यत्र [ इन्द्रिय,  
 इन्द्रियस्थान और देवता ] बतलाये  
 गये हैं, उसी प्रकार प्रजननेन्द्रियका  
 आश्रयस्थान शिशु उत्पन्न हुआ ।  
 उसमें रेतः इन्द्रिय है, जो रेतोविसर्ग  
 ( शीर्यत्याग ) की हेतुभूत होनेसे रेतः  
 ( शीर्य ) के सम्बन्धमें 'रेतस्' कही  
 जाती है और रेतःसे आप ( शीर्यके  
 अधिष्ठाता जल)का प्रादुर्भाव हुआ ॥ ४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पृथ्वयादशिष्य-

श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतादितरेषोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये

प्रथमः खण्डः समाप्तः ॥ १ ॥

## द्वितीय खण्ड

देवताओंकी अब एव आपतनयाचना

ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतंस्त-  
मशनायापिपासाभ्यामन्ववार्जत् ता एनमब्रुवन्नायतनं नः  
प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १ ॥

वे ये [ इस प्रकार ] रचे हुए [ इन्द्रियामिनी ] देवगण इस महासमुद्रमें पतित हो गये। उस ( गिण्ड ) को [ परमात्माने ] क्षुधापिपासासे संयुक्त कर दिया। तब उन इन्द्रियामिनी देवताओंने उससे कहा— हमारे लिये कोई आश्रयस्थान बतलाइये, जिसमें स्थित होकर हम अन्न भक्षण कर सकें ॥ १ ॥

ता एता अग्न्यादयो देवता  
लोकपालत्वेन संकल्प्य सृष्टा  
ईश्वरेणासिन्संसारार्णवे संसार-  
समुद्रे महत्यविद्याकामकर्मप्रभव-  
दुःखोदके तीव्ररोगजरामृत्यु-  
महाप्राहेऽनादावनन्तेऽपारे निरा-  
लम्बे विषयेन्द्रियजनितसुखलक्ष-  
णविश्रामे पञ्चेन्द्रियार्थवृष्णमास्त-

ईश्वरद्वारा लोकपालरूपसे संकल्प  
करके रचे हुए वे ये अग्नि आदि  
देवगण इस अति महान् संसारार्णव  
—संसारसमुद्रमें [ गिरे ], जो ( संसार-  
समुद्र ) अविद्या, धमना और कर्मसे  
उत्पन्न हुए दुःखरूप जल तथा तीव्र  
रोग, जरा और मृत्युरूप महाप्राहोंसे  
पूर्ण है, अनादि, अनन्त, अपार एव  
निरालम्ब है, विषय और इन्द्रियोंके  
सयोगसे होनेवाला अणुमात्र सुख ही  
जिसकी क्षणिक विश्रान्तिकार स्वरूप  
है, जिसमें पाँचों इन्द्रियोंके विषय-

विश्वोभोत्थितानर्थशतमहोमौ म-  
 हारौरवाद्यनेकनिरयगतहाहेत्या-  
 दिक्कृजिताक्रोशनोद्भूतमहारवे  
 सत्यार्जवदानदयार्हिसाशमदम-  
 धृत्याद्यात्मगुणपाथेयपूर्णज्ञानोद्भुपे  
 सत्सङ्गसर्वत्यागमार्गे मोक्षतीरे  
 एतस्मिन्महत्त्यर्णवे प्रापत्तन्पतित-  
 वत्यः ।

तस्मादन्यादिदेवताप्यय-

लक्षणापि या गतिर्व्याख्याता  
 ज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्ठानफलभूता  
 सापि नालं संसारदुःखोपशमाय,  
 इत्ययं विवक्षितोऽर्थोऽत्र । यत्र  
 एवं तस्मादेवं विदित्वा परं ब्रह्म  
 आत्मात्मनः सर्वभूतानां च यो  
 वक्ष्यमाणविशेषणः प्रकृतश्च जग-  
 दुत्पत्तिस्थितिसंहारहेतुत्वेन स

तृष्णारूप पवनके विश्वोभसे उठी हुई  
 अनर्थरूप सैकड़ों उचाल तरङ्गें हैं;  
 जहाँ महारौरव आदि अनेकों नरकोंके  
 'हा हा' आदि क्रन्दन और चिल्लाहट-  
 से बड़ा कोलाहल मचा हुआ है,  
 जिसमें सत्य, सरलता, दान, दया,  
 अहिंसा, शम, दम और धैर्य आदि  
 आत्माके गुणरूप पाथेयसे भरी हुई  
 ज्ञानरूप नौका है, सत्सङ्ग और सर्वत्याग  
 ही जिसमें [ नौकाओंके आने-जानेका ]  
 मार्ग है तथा मोक्ष ही जिसका तीर  
 है—ऐसे [ संसाररूप ] महासागरमें  
 पतित हुए— गिरे ।

अतः यहाँ यही अर्थ कहना इष्ट  
 है कि ज्ञान और कर्मके समुच्चयानु-  
 ष्ठानकी फलस्वरूपा जिस अग्नि  
 आदि देवतामें लीन होनारूप गतिकी  
 [ पूर्व अध्यायोंमें ] व्याख्या की गयी  
 है वह भी सांसारिक दुःखकी  
 शान्तिके लिये पर्याप्त नहीं है ।  
 क्योंकि ऐसी बात है इसलिये  
 [ देवतालयरूप गति संसारदुःखकी  
 शान्तिका उपाय नहीं है ] ऐसा  
 जानकर जो परब्रह्म अपना और  
 सब प्राणियोंका आत्मा है, जिसके  
 विशेषण आने वतलाये जानेवाले हैं  
 और संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और  
 संहारके कारणरूपसे जिसका यहाँ  
 प्रकरण है उसे संसारके सम्पूर्ण

सर्वसंसारदुःखोपशमनाय वैदि-  
तव्यः । तस्मात् “एष पन्था  
एतत्कर्मैतद् ब्रह्मैतत् सत्यम्” (ऐ०  
उ० २ । १ । १ ) यदेतत्पर-  
ब्रह्मात्मज्ञानम् “नान्यः पन्था  
विद्यतेऽयनाय” ( श्वे० उ० ३ ।  
८, ६ । १५ ) इति मन्त्रवर्णात् ।

तं स्थानरुणदेवतोत्पत्ति-  
बीजभूतं पुरुषं प्रथमोत्पादितं  
पिण्डमात्मानमशनायापिपासाभ्या-  
मन्ववार्जदनुगमितवान्संयोजित-  
वानित्यर्थः । तस्य कारणभूतस्या-  
शनायादिदोषवन्वात्तत्कार्यभूता-  
नामपि देवतानामशनायादि-  
मत्त्वम् । तास्ततोऽशनायापि-  
पासाभ्यां पीड्यमाना एनं पिता-  
महं स्रष्टारमब्रुवन्नुक्तवत्यः—  
आयतनमधिष्ठानं नोऽस्मभ्यं प्र-  
जानीहि निघत्स्व । यस्मिन्नायतने  
प्रतिष्ठिताः समर्थाः मत्स्योऽन्न-  
मदाम भक्षयाम इति ॥ १ ॥

दु खोंकी शान्तिके ठिये जानना  
चाहिये । अत “मोक्षप्राप्तिका और  
कोई मार्ग नहीं है” इस श्रुतिके  
अनुसार यह जो परब्रह्मका आत्म-  
स्वरूपसे ज्ञान है “यही मार्ग है, यही  
कर्म है, यही ब्रह्म है और यही  
सत्य है ।”

स्थान ( इन्द्रियगोलक ), इन्द्रिय<sup>३</sup>  
और इन्द्रियाभिमानी . देवताओंकी  
उत्पत्तिके बीजभूत पुरुषरूपसे प्रथम  
उत्पन्न किये हुए उस पिण्ड अर्थात्  
आत्माको उसने क्षुधा और पिपासामे  
अन्ववार्जित—अनुगमित । अर्थात्  
सयुक्त किया । उस कारणभूत  
पिण्डके क्षुधा आदि दोषोंसे युक्त  
होनेके कारण उसके - कार्यभूत  
देवता आदि भी क्षुधा आदिसे युक्त  
हुए । तब क्षुधा-पिपासासे पीडित  
होकर उन्होंने उस जगद्रचयिता  
पितामहसे कहा—‘हमारे लिये  
आयतन—आश्रयस्थानकी व्यवस्था  
करो, जिस आयतनमें प्रतिष्ठित होकर  
हम सामर्थ्यवान् हो अन्न भक्षण कर  
सके’ ॥ १ ॥

गो और अश्वशरीरकी उत्पत्ति तथा देवताओंद्वारा  
उनकी अस्वीकृति

एषमुक्त ईश्वरः—

ऐसा कहे जानेपर ईश्वर—

ताभ्यो गामानयत्ता अश्रुवन्न वै नोऽयमलमिति ।  
ताभ्योऽश्वमानयत्ता अश्रुवन्न वै नोऽयमलमिति ॥ २ ॥

उन देवताओंके लिये गौ ले आया । वे बोले—‘यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है ।’ [ फिर वह ] उनके लिये घोड़ा ले आया । वे बोले—‘यह भी हमारे लिये पर्याप्त नहीं है’ ॥ २ ॥

ताभ्यो देवताभ्यो गां गवा-  
कृतिविशिष्टं पिण्डं ताभ्य एवा-  
द्भयः पूर्ववत्पिण्डं समुद्धृत्य मूर्च्छ-  
यित्त्वानयदर्शितवान् । ताः पुन-  
र्गवाकृतिं दृष्ट्वाश्रुवन्—न वै नो-  
ऽसदर्थमधिष्ठानायान्नमक्षुमयं पि-  
ण्डोऽलं न वै । अलं पर्याप्तः, अक्षु-  
न योग्य इत्यर्थः । गवि प्रत्या-  
ख्याते ताभ्योऽश्वमानयत्ता अश्रु-  
वन्न वै नोऽयमलमिति पूर्ववत् ॥२॥

उन देवताओंके लिये गौ-गौके  
आकारवाला पिण्ड पूर्ववत् उस  
जलसे निकालकर—अवयवोंकी  
योजनाद्वारा रचकर लाया अर्थात्  
उसे उन देवताओंको दिखलाया ।  
उस गौके समान आकारवाले प्राणीको  
देखकर वे पुनः बोले यह पिण्ड हमारे  
लिये अन्न भक्षण करनेके निमित्त  
आश्रय बनानेके लिये पर्याप्त नहीं है ।  
‘अलम्’ का अर्थ पर्याप्त है । अर्थात्  
[ यह आश्रय ] भोजन करनेके योग्य  
नहीं है । गौका परित्याग कर देनेपर  
वह उनके लिये घोड़ा लाया । तब वे  
‘हमारे लिये यह भी पर्याप्त नहीं है’  
इस प्रकार पूर्ववत् कहने लगे ॥२॥

मनुष्यशरीरकी उत्पत्ति और देवताओंद्वारा

उसकी स्वीकृति

सर्वप्रत्याख्याने—

इस प्रकार सबका त्याग कर  
दिया जानेपर—

ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अश्रुवन् सुकृतं व्रतेति ।  
पुरुषो वाव सुकृतम् । ता अन्नवीचथायतनं प्रविशतेति ॥३॥



वह उनके लिये पुरुष ले आया । वे बोले—‘यह सुन्दर बना है, निश्चय पुरुष ही सुन्दर रचना है ।’ उन ( देवताओं ) से ईश्वरने कहा—‘अपने अपने आयतन ( आश्रयस्थानों ) में प्रवेश कर जाओ’ ॥ ३ ॥

ताभ्यः पुरुषमानयत्स्वयोनि-  
भूतम् । ताः स्वयोनिं पुरुषं  
दृष्ट्वा अखिन्नाः सत्यः सुकृतं  
शोभनं कृतमिदमधिष्ठानं वतेत्य-  
ब्रुवन् । तस्मात्पुरुषो वाव पुरुष  
एव सुकृतं सर्वपुण्यकर्महेतुत्वात् ।  
स्वयं वा स्वैनैवात्मना स्वमायाभिः  
कृतत्वात्सुकृतमित्युच्यते ।

ता देवता ईश्वरोऽब्रवीदिष्ट-  
मासामिदमधिष्ठानमिति मत्वा,  
सर्वे हि स्वयोनिषु रमन्ते, अतो  
यथायतनं यस्य यद्वदनादिक्रिया-  
योग्यमायतनं तत्प्रविशतेति ॥३॥

[ वह ] उनके लिये उनका  
योनिस्वरूप पुरुष ले आया । अपने  
योनिभूत उस पुरुषको देखकर वे  
खेदरहित हो इस प्रकार बोले—‘यह  
अधिष्ठान सुन्दर बना है । अतः  
सम्पूर्ण पुण्यकर्मोंका कारण होनेसे  
निश्चय पुरुष ही सुकृत है । अपना  
स्वयं अपने-आप अपनी ही मायासे  
रचा होनेके कारण ‘सुकृत’ ऐसा  
कहा जाता है ।’

ईश्वरने यह समझकर कि इन्हें  
यह आश्रयस्थान प्रिय है, क्योंकि  
सभी अपनी योनिमें सन्तुष्ट रहा  
करते हैं, उन देवताओंसे कहा—  
‘जिसका जो आयतन है उस अपनी  
सम्भाषणादि क्रियाके योग्य आयतन-  
में तुम सब प्रविष्ट हो जाओ’ ॥३॥

देवताओंका अपने-अपने आयतनोंमें प्रवेश

तथास्त्वित्यनुज्ञां प्रतिलभ्ये-  
श्वरस्य नगर्यामिव बलाधिकृता-  
दयः—

‘ऐसा ही हो’ इस प्रकार  
राजाकी आज्ञा पाकर जिस प्रकार  
नगरीमें सेनाध्यक्षादि [ प्रवेश कर  
जाते हैं उसी प्रकार ]—

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्चक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशद्दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशंश्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिशनं प्राविशन् ॥ ४ ॥

अग्निने वाग्निन्द्रिय होकर मुखमें प्रवेश किया, वायुने प्राण होकर नासिका-रन्ध्रोंमें प्रवेश किया, सूर्यने चक्षु-इन्द्रिय होकर नेत्रोंमें प्रवेश किया, दिशाओंने श्रवणेन्द्रिय होकर कानोंमें प्रवेश किया, ओषधि और वनस्पतियोंने लोम होकर त्वचामें प्रवेश किया, चन्द्रमाने मन होकर हृदयमें प्रवेश किया, मृत्युने अपान होकर नाभिमें प्रवेश किया तथा जलने वीर्य होकर लिङ्गमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥

अग्निर्वाग्भिमानी वागेव  
भूत्वा स्वां योनिं मुखं प्राविश-  
त्तथोक्तार्थमन्यत् । वायुर्नासिके  
आदित्योऽक्षिणी दिशः कर्णौ  
ओषधिवनस्पतयस्त्वचं चन्द्रमा  
हृदयं मृत्युर्नाभिमापः शिशनं  
प्राविशन् ॥ ४ ॥

वाग्निन्द्रियके अभिमानी अग्निने वाक् होकर अपने कारणस्वरूप मुखमें प्रवेश किया । इसी प्रकार औरोंका भी अर्थ समझना चाहिये । [ इस प्रकार ] वायुने नासिकामें, सूर्यने नेत्रोंमें, दिशाओंने कानोंमें, ओषधि और वनस्पतियोंने त्वचामें, चन्द्रमाने हृदयमें, मृत्युने नाभिमें और जलने शिश्र ( लिङ्ग ) में प्रवेश किया ॥ ४ ॥

धुघा और पिपासाका विभाग

एवं लब्धाधिष्ठानासु देवतासु—

इस प्रकार देवताओंके आश्रय पा लेनेपर—

तमशनायापिपासे अब्रूतामावाभ्यामभिप्रजानीहीति ।  
ते अब्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यौ  
करोमीति । तस्माद्यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते  
भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ॥ ५ ॥

उस ( ईश्वर ) ने क्षुधा-पिपासाने कहा—‘हमारे लिये आश्रयकी  
योजना कीजिये ।’ तब [उसने] उनसे कहा—‘तुम दोनोंको मैं इन देवताओंमें  
ही भाग दूँगा अर्थात् मैं तुम्हें इन्हींमें भागीदार करूँगा ।’ अतः जिस  
किसी देवताके लिये हवि दी जाती है उस देवताकी हरिमें ये भूख-प्यास  
भी भागीदार होती ही हैं ॥ ५ ॥

निरधिष्ठाने सत्यौ अशनाया-  
पिपासे तमीश्वरमब्रूतामुक्तवत्यौ ।  
आवाभ्यामधिष्ठानमभिप्रजानीहि  
चिन्तय विधत्स्वेत्यर्थः । स  
ईश्वर एवमुक्तस्ते अशनायापिपासे  
अब्रवीत् । न हि युवयोर्भाविरूप-  
त्वाच्चेतनावद्वस्त्वनाश्रित्यान्नाचृ-  
त्वं संभवति । तस्मादेतास्वेवा-  
ग्न्याद्यासु वां युवां देवतास्वध्या-  
त्माधिदेवतास्वाभजामि वृत्ति-  
संविभागेनानुगृह्णामि । एतासु

क्षुधा और पिपासाने आश्रयहीन  
होनेके कारण उस ईश्वरसे कहा—  
‘हमारे लिये अधिष्ठानका अभिप्रज्ञान-  
चिन्तन अर्थात् विधान करो ।’ ऐसा  
कहे जानेपर उस ईश्वरने उन ‘क्षुधा-  
पिपासाओंसे कहा—‘भावरूप होनेके  
कारण तुम दोनोंका किसी चेतन  
वस्तुको आश्रय किये बिना अन्न  
भक्षण करना सम्भव नहीं है । अतः मैं  
इन अध्यात्म और अधिदैव अग्नि आदि  
देवताओंमें ही तुम दोनोंको आभा-  
जित करता हूँ अर्थात् तुम्हारी वृत्ति  
का विभाग करके अनुगृहीत करता

भागिन्यौ यद्देवत्यो यो भागो  
हविरादिलक्षणः स्यात्तस्यास्ते-  
नैव भागेन भागिन्यौ भागवत्यौ  
वां करोमीति । सृष्ट्यादावीश्वर  
एवं व्यदघाद्यस्यात्तस्मादिदानी-  
मपि यस्यै कस्यै च देवतायै  
अर्थाय हविर्गृह्यते चरुपुरोडाशा-  
दिलक्षणं भागिन्यावेव भागव-  
त्यावेवास्यां देवतायामश्नाया-  
पिपासे भवतः ॥ ५ ॥

हूँ । मैं तुम्हें इन देवताओंमें ही भागी  
करता हूँ—अर्थात् जिस देवताका  
जो हवि आदि भाग है उसके उसी  
भागसे मैं तुम्हें उनकी भागिनी—भाग  
ग्रहण करनेवाली बनाता हूँ ।  
क्योंकि सृष्टिके आदिमें ईश्वरने ऐसी  
व्यवस्था कर दी थी इसलिये इस  
समय भी जिस किसी देवताके लिये  
चरु-पुरोडाशादि हवि ग्रहण की  
जाती है ये क्षुधा-पिपासा भी उस  
देवतामें भागिनी होती ही हैं ॥ ५ ॥



इति श्रीमत्परमहंसपत्रिजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-  
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृनावैतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये  
द्वितीयः खण्डः समाप्तः ॥ २ ॥



## तृतीय खण्ड

अन्नरचनाका विचार

स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाश्चान्नमेभ्यः  
सृजा इति ॥ १ ॥

उस ( ईश्वर ) ने विचारा ये लोक और लोकपाल तो हो गये,  
अन्न इनके लिये अन्न रचूँ ॥ १ ॥

स एवमीश्वर ईक्षत, कथम् ?  
इमे नु लोकाश्च लोकपालाश्च  
मया सृष्टा अशनायापिपासाभ्यां  
च संयोजिताः, अतो नैषां  
स्थितिरन्नमन्तरेण । तस्मादन्नमेभ्यो  
लोकपालेभ्यः सृजे सृज इति ।

उस ईश्वरने इस प्रकार ईक्षण  
क्रिया—किस प्रकार ? [ सो  
बतलाते हैं—] मैंने इन लोक और  
लोकपालोंकी रचना तो कर दी  
और इन्हें क्षुधा-पिपासासे संयुक्त  
भी कर दिया । अत अन्नके बिना  
इनकी स्थिति नहीं हो सकती,  
इसलिये इन लोकपालोंके लिये मैं  
अन्न रचूँ ।

एवं हि लोके ईश्वराणामनुग्रहे  
निग्रहे च स्वातन्त्र्यं दृष्टं स्वेषु ।  
तद्वन्महेश्वरस्यापि सर्वेश्वरत्वा-  
त्सर्वान्प्रति निग्रहानुग्रहेऽपि  
स्वातन्त्र्यमेव ॥ १ ॥

इस प्रकार लोकमें ईश्वरों  
( समयों ) की अपने लोगोंके ऊपर  
अनुग्रह एवं निग्रह करनेकी  
स्वतन्त्रता देखी जाती है । इसी  
प्रकार सर्वेश्वर होनेके कारण महेश्वर  
( परमेश्वर ) की भी सबके प्रति निग्रह  
एव अनुग्रहमें स्वतन्त्रता ही है ॥ १ ॥

## अन्नकी रचना

सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत । या  
वै सा मूर्तिरजायतान्नं वै तत् ॥ २ ॥

उसने आपों ( जलों ) को लक्ष्य करके तप किया । उन अभितप्त  
आपोंसे एक मूर्ति उत्पन्न हुई, यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है ॥ २ ॥

<p>स ईश्वरोऽन्नं सिसृक्षुस्ता एव पूर्वोक्ता अप उद्दिश्याभ्यतपत् । ताभ्योऽभितप्ताभ्य उपादान- भूताभ्यो मूर्तिर्धनरूपं धारण- समर्थ चराचरलक्षणमजायतोत्प- न्नम् । अन्नं वै तन्मूर्तिरूपं या वै सा मूर्तिरजायत ॥ २ ॥</p>	<p>अन्न रचनेकी इच्छावाले उस ईश्वरने उन पूर्वोक्त जलोंको ही उद्देश्य करके तप किया । उन उपादानभूत अभितप्त जलोंसे ही धारण करनेमें समर्थ चराचरभूत धनरूप मूर्ति उत्पन्न हुई । यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वह मूर्तिरूप अन्न ही है ॥ २ ॥</p>
--	---

अन्नका पलायन और उसके ग्रहणका उद्योग

तदेनत्सृष्टं पराङ्मत्यजिघांसत्तद्वाचाजिघृक्षत्तन्ना-  
शक्नोद्वाचा ग्रहीतुम् । यद्धैनद्वाचाग्रहैष्यदभिव्याहृत्य  
हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ३ ॥

[ लोकपालोंके आहारार्थ ] रचे गये उस इस अन्नने उनकी ओरसे  
मुँह फेरकर भागना चाहा । तब उस ( आदिपुरुष ) ने उसे वागिन्द्रिय-  
द्वारा ग्रहण करना चाहा, किन्तु वह उसे वाणीसे ग्रहण न कर सका ।  
यदि वह इसे वाणीसे ग्रहण कर लेता तो [ उससे परवर्ती पुरुष भी ]  
अन्नको खोलकर ही तृप्त हो जाता करते ॥ ३ ॥

तदेनदन्नं लोकलोकपालाना-  
मर्थेऽमिमृखे सृष्टं तद्यथा मूप-  
कादिर्माज्जारादिगोचरे सन्मम  
मृत्युरन्नाद इति मत्वा परागञ्च-  
तीति पराद् सदत्तनतीत्याजि-  
घांसदत्तिगन्तुमैच्छत् पलायितुं  
प्रारभतेत्यर्थः ।

तदन्नाभिप्रायं मत्वा स लो-  
कपालसंघातः कार्यकरण-  
लक्षणः पिण्डः प्रथमजत्वाद्  
अन्यांश्चान्नादानपर्यस्तदन्नं  
वाचा घदनव्यापारेणाजिघृक्षद्  
ग्रहीतुमैच्छत् । तदन्नं नाशक्रान्त  
समर्थोऽभवद्वाचा घदन-  
क्रियया ग्रहीतुमुपादातुम् ।  
स प्रथमजः शरीरी यद्यदि  
हैनद्वाचाग्रहैष्यद्गृहीतवान्स्याद-  
न्नं सर्वोऽपि लोकस्तत्कार्यभूतत्वा-  
दभिव्याहृत्य हैवान्नमत्रप्स्यत्-  
तोऽभविष्यत्, न चैतदस्ति,

लोक और लोकपालोंके निमित्त  
उनके सम्मुख निर्मित हुआ अन्न यह  
मानकर कि अन्न भक्षण करनेवाला तो  
मेरी मृत्यु है, उसकी ओरसे मुख  
भोजकर, जिस प्रकार विद्या आदिके  
सामनेसे [ उसे अपनी मृत्यु समझकर ]  
चूहे आदि भागना चाहते हैं उसी  
प्रकार उन अन्न भक्षण करनेवालोंका  
अतिक्रमण करने जानेकी इच्छा  
करने लगा, अर्थात् उसने उनको  
सामनेसे दौड़ना आरम्भ कर दिया ।

अन्नके उस अभिप्रायको जान-  
कर लोक और लोकपालोंके देह-  
इन्द्रियरूप सगत उस पिण्डने  
प्रपमोत्पन्न होनेके कारण अन्य  
अन्नभोक्ताओंको न देखकर उस  
अन्नको वाणी अर्थात् बोलनेकी  
क्रियासे ग्रहण करना चाहा । किन्तु  
वह घदनक्रियासे उस अन्नको ग्रहण  
करनेमें शक्त—समर्थ न हुआ ।  
वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ देह-  
धारी यदि इस अन्नको वाणीसे  
ग्रहण कर लेना तो उसका कार्यभूत  
होनेके कारण सम्पूर्ण लोक अन्नको  
बोलकर ही, तृप्त हो जाया  
करता । परन्तु बात यह है नहीं,

अतो नाशक्रोधाचा ग्रहीतुमि-

त्यवगच्छामः पूर्वजोऽपि ॥ ३ ॥

अतः हमें जान पड़ता है कि वह पूर्वोत्पन्न विराट् पुरुष भी उसे वाणीसे ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं हुआ था ॥ ३ ॥



समानमुत्तरम्—

आगेका प्रसंग भी इसीके समान है—

तत्प्राणेनाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोत्प्राणेन ग्रहीतुं स यच्चैनत्प्राणेनाग्रहैष्यदभिप्राप्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ४ ॥

फिर उसने इसे प्राणसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु इसे प्राणसे ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ। यदि वह इसे प्राणसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी पुरुष ] अन्नके उद्देश्यसे प्राणक्रिया करके तृप्त हो जाता ॥ ४ ॥

तच्चक्षुषाजिघृक्षत्तन्नाशक्रोच्चक्षुषा ग्रहीतुं स यच्चैन-  
चक्षुषाग्रहैष्यद् दृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ५ ॥

उसने इसे नेत्रसे ग्रहण करना चाहा; परन्तु नेत्रसे ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ। यदि वह इसे नेत्रसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी पुरुष ] अन्नको देखकर ही तृप्त हो जाया करता ॥ ५ ॥

तच्छ्रोत्रेणाजिघृक्षत्तन्नाशक्रोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुं स यच्चैनच्छ्रोत्रेणाग्रहैष्यच्छ्रुत्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ६ ॥

उसने इसे श्रोत्रसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह श्रोत्रसे ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे श्रोत्रसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी पुरुष ] अन्नको सुनकर ही तृप्त हो जाता ॥ ६ ॥



तत्त्वचाजिघृक्षत्तन्नाशक्रोत्त्वचा ग्रहीतुं स यद्वै-  
नत्त्वचाग्रहैप्यत्स्पृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ७ ॥

उसने इसे त्वचासे ग्रहण करना चाहा, किन्तु वह त्वचासे ग्रहण न कर सका । यदि वह इसे त्वचासे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी पुरुष ] अन्नको स्पर्श करके तृप्त हो जाया करता ॥ ७ ॥

तन्मनसाजिघृक्षत्तन्नाशक्रोन्मनसा ग्रहीतुं म यद्वै-  
नन्मनसाग्रहैप्यद्ध्यात्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ८ ॥

उसने इसे मनसे ग्रहण करना चाहा, किन्तु वह मनसे ग्रहण न कर सका । यदि वह इसे मनसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी पुरुष ] अन्नका ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता ॥ ८ ॥

तच्छिश्नेनाजिघृक्षत्तन्नाशक्रोच्छिश्नेन ग्रहीतुं स  
यद्वैनच्छिश्नेनाग्रहैप्यद्विसृज्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ९ ॥

उसने इसे शिश्न ( लिङ्ग ) से ग्रहण करना चाहा, परन्तु वह शिश्नसे ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ । यदि वह इसे शिश्नसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी पुरुष ] अन्नका विसर्जन करके ही तृप्त हो जाता ॥ ९ ॥

अपानद्वारा अन्नग्रहण

तदपानेनाजिघृक्षत्तदावयत् सैपोऽन्नस्य ग्रहो यद्वा-  
युरन्नायुर्वा एष यद्वायुः ॥ १० ॥

फिर उसने इसे अपानसे ग्रहण करना चाहा और इसे ग्रहण कर लिया । वह यह [ अपान ] ही अन्नका ग्रह ( ग्रहण करनेवाला ) है । जो वायु अन्नायु ( अन्नद्वारा जीवन धारण करनेवाला ) प्रसिद्ध है वह यह [ अपान ] वायु ही है ॥ १० ॥

तत्प्राणेन तच्चक्षुषा तच्छ्रोत्रेण  
 तत्त्वचा तन्मनसा तच्छिश्नेन  
 तेन तेन करणव्यापारेणान्नं  
 ग्रहीतुमशक्नुवन्पश्चादपानेन  
 वायुना मुखच्छिद्रेण तदन्नमजि-  
 वृक्षद् । तदावयत्तदन्नमेवं जग्राह  
 आशितवान् । तेन स एषोऽपान-  
 वायुरन्नस्य ग्रहोऽन्नग्राहक इत्ये-  
 तत् । यद्वायुर्यो वायुरन्वायुः  
 अन्नबन्धनोऽन्नजीवनो वै प्रसिद्धः  
 स एष यो वायुः ॥ ४-१० ॥

[ इसी प्रकार उसने ] उस अन्न-  
 को प्राणसे, नेत्रसे, श्रोत्रसे, त्वचासे,  
 मनसे, शिश्नसे एवं भिन्न-भिन्न  
 इन्द्रियोंके व्यापारसे ग्रहण करनेमें  
 असमर्थ होकर अन्तमें उसे मुखके  
 छिद्रद्वारा अपानवायुसे ग्रहण करनेकी  
 इच्छा की । तब उसे ग्रहण कर  
 लिया; अर्थात् इस प्रकार इस अन्नको  
 मक्षण कर लिया । उसी कारणसे  
 वह यह अपानवायु अन्नका ग्रह  
 अर्थात् अन्न ग्रहण करनेवाला है ।  
 जो वायु अन्नायु—अन्नरूप बन्धन-  
 वाला अर्थात् अन्नरूप जीवनवाला  
 प्रसिद्ध है वह यह [ अपान ] वायु  
 ही है ॥ ४-१० ॥

परमात्माका शरीरप्रवेशसम्बन्धी विचार

स ईक्षत कथं न्विदं मद्दते स्यादिति स ईक्षत  
 क्तरेण प्रपद्या इति । स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृतं यदि  
 प्राणेनाभिप्राणितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि  
 त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि  
 शिश्नेन विसृष्टमथ कोऽहमिति ॥ ११ ॥

उस परमेश्वरने विचार किया 'यह ( पिण्ड ) मेरे बिना कैसे रहेगा ?'  
 वह सोचने लगा 'मैं किस मार्गसे [ इसमें ] प्रवेश करूँ ?' उसने विचार,  
 'यदि [ मेरे बिना ] वाणीसे बोल लिया जाय, यदि प्राणसे प्राणन किया  
 कर ली जाय, यदि नेत्रेन्द्रियसे देख लिया जाय, यदि कानसे सुना जा

सके, यदि त्वचासे स्पर्श कर लिया जाय, यदि मनसे चिन्तन कर लिया जाय, यदि अपानसे भक्षण कर लिया जाय और यदि शिश्नसे विसर्जन किया जा सके तो मैं कौन रहा ? [ अर्थात् यदि मेरे बिना ये सब इन्द्रियोंके व्यापार हो जाते तो मेरा तो कोई प्रयोजन ही न था, तात्पर्य यह कि राजाकी प्रेरणाके बिना नगरके कार्योंके समान मेरी प्रेरणाके बिना इनका होना असम्भव है ]' ॥ ११ ॥

स एवं लोऽलोकपालसंघात-  
स्थितिमन्ननिमिचां कृत्वा पुर-  
पौरतत्पालयितृस्थितिसमां स्वा-  
मीव ईक्षत—कथं नु केन प्रका-  
रेणेति वितर्कयन्निदं मटते माम-  
न्तरेण पुरस्वामिनम्, यदिदं  
कार्यरूपसंघातकार्यं वक्ष्यमाणं  
कथं नु खलु मामन्तरेण स्वात्प-  
रार्थं सत् । यदि वाचामिव्या-  
हृतमित्यादि केवलमेव वाग्व्य-  
वहरणादि तन्निरर्थकं न कथंचन  
मवेद्बलिस्तुत्यादिवत्; पौर-  
वन्द्यादिभिः प्रयुज्यमानं स्वाम्यर्थं  
सत्तत्स्वामिनमन्तरेणासत्येव स्वा-  
मिनि तद्वत् ।

उस परमात्माने नगर, नगरनिवासी और उनके रक्षक [ राजकर्मचारी आदि ] की नियुक्तिके समान अन्नरूप निमित्तवाली लोक और लोकपालोंके सघातकी स्थिति पर नगरके स्वामीके समान निचार किया—‘कथं नु’ यानी किस प्रकारसे—इस प्रकार वितर्क करते हुए [ उसने सोचा ] यह जो आगे बतलाया जानेवाला कार्य (भूत) और करणों (इन्द्रियों) के सघातका कार्य (व्यापार) है वह परार्थ (दूसरेके लिये) होनेके कारण मेरे सिवा अर्थात् पुरके स्वामीरूप मेरे बिना कैसे होगा ? जिस प्रकार अपने स्वामीके लिये प्रयुक्त पुरवासी और बन्दीजन आदिकी वडि (कर) एव स्तुति आदि स्वामीके बिना अर्थात् स्वामीके अभावमें निरर्थक ही है उसी प्रकार [ मेरे बिना भी ] यह जो वाणीसे बोलना आदि है अर्थात् केवल वाग्व्यापारादि है वह निरर्थक ही होगा यानी किसी प्रकार न हो सकेगा ।

तस्मान्मया परेण स्वामिना-  
धिष्ठात्रा कृताकृतफलसाक्षिभूतेन  
भोक्त्रा भवितव्यं पुरस्येव  
राज्ञा । यदि नामैतत्संहतकार्यस्य  
परार्थत्वं परार्थिनं मां चेतनमन्त-  
रेण भवेत्पुरपौरकार्यमिव तत्स्वा-  
मिनम्, अथ कोऽहं किंस्वरूपः  
कस्य वा स्वामी ?

यद्यहं कार्यकरणसंघातमनु-  
प्रविश्य वागाद्यभिव्याहृतादिफलं  
नोपलभेय राजेव पुरमाविश्या-  
धिकृतपुरुषकृताकृतावेक्षणम्; न  
कश्चिन्मामयं सन्नेवंरूपश्चेत्यधि-  
गच्छेद्विचारयेत् । विपर्यये तु  
योऽयं वागाद्यभिव्याहृतादीद-  
मिति वेद, स सन्वेदनरूपश्चे-  
त्यधिगन्तव्योऽहं स्याम्; यदर्थ-

अतः नगरके (अधिष्ठाता) राजाके  
समान इस देहरूप संघातके परम प्रभु  
और अधिष्ठाता मुझे भी इसके पाप-  
पुण्यके फलके साक्षी और भोक्ता-  
रूपसे स्थित होना चाहिये । यदि  
इस देहेन्द्रियसंघातका कार्य परार्थ  
(दूसरेके लिये) है और वह पुरस्वामी-  
के विना पुर और पुरवासियोंके कार्य-  
के समान मुझ परार्थी अपने चेतन  
रक्षकके विना हो सकता है तो मैं  
क्या रहा ? अर्थात् किस स्वरूपवाला  
अथवा किसका स्वामी रहा ?

जिस प्रकार राजा नगरमें प्रवेश-  
कर वहाँके अधिकारी पुरुषोंके कार्य-  
अकार्यदिका निरीक्षण करता है  
उसी प्रकार यदि मैं भी इस भूत  
और इन्द्रियोंके संघातमें प्रवेश करके  
वाणी आदिके उच्चारणादि फलको  
ग्रहण न करूँगा तो कोई भी मुझे  
'यह सत् है और ऐसे स्वरूपवाला है'  
ऐसा अधिगम—विचार नहीं कर  
सकेगा । इसके विपरीत अवस्थामें ही  
मैं इस प्रकार जाना जा सकता हूँ  
कि जिस प्रकार स्तम्भ और भित्ति  
आदिसे मिलकर बने हुए मन्दिर  
आदि संघात अपने अवयवोंके सहित  
किसी अन्य असंघत वस्तुके लिये

मिदं संहतानां वागादीनामभि-  
व्याहृतादि, यथा स्तम्भकुड्या-  
दीनां प्रासादादिसंहतानां स्वाय-  
यवैरसंहतपरार्थत्वं तद्वदिति ।

एवमीक्षित्वातः कतरेण  
प्रपद्या इति । प्रपर्द च मूर्धा चास्य  
संघातस्य प्रवेशमार्गो । अनयोः  
कतरेण मार्गेणोदं कार्यकरण-  
संघातलक्षणं पुरं प्रपद्ये प्रपद्ये-  
येति ॥ ११ ॥

होते हैं उसी प्रकार जिसके लिये  
इन संघातरूप वाणी आदिके  
उच्चारणादि व्यापार हैं और जो इन  
वाणी आदिके उच्चारणादिको 'इदम्'  
इस प्रकार जानता है वह मैं सदा  
और चेतनस्वरूप हूँ ।

इस प्रकार विचारकर [ उसने  
सोचा ] अत मैं किस द्वारासे प्रवेश  
करूँ ? इस सवातमें प्रवेश करनेके  
दो मार्ग हैं—पदाग्र और मूर्धा ।  
इनमेंसे मैं किस मार्गसे इस कार्य-  
करणके संघातरूप पुरमें प्रवेश  
करूँ ? ॥ ११ ॥

परमात्माका मूर्धद्वारासे शरीरप्रवेश

एवमीक्षित्वा न तावन्मदु-  
मृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थाधि-  
कृतस्य प्रवेशमार्गेण प्रपदाभ्या-  
मधः प्रपद्ये । किं तर्हि पारि-  
शेष्यादस्य मूर्धानं विदार्य प्रपद्ये-  
यमिति लोक इवेक्षितकारी—

इस प्रकार विचारकर परमेश्वरने  
निश्चय किया—मैं सम्पूर्ण कार्यके  
अधिकारी अपने सेनाक प्राणके प्रवेश-  
मार्ग निम्नदेशीय चरणोंसे तो  
प्रवेश करूँगा नहीं । तो फिर  
किससे करूँगा ? अतः पदाग्रकी  
रूप्य कर बचे हुए मूर्धाके ही विदीर्ण  
करके प्रवेश करूँगा । इस प्रकार  
सोच-समझकर काम करनेवाले लोगों-  
के समान—

स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत ।  
सैषा विद्वतिर्नाम द्वास्तद्वेतन्नान्दनम् । तस्य त्रय आवसथा-

स्वयः स्वप्नाः, अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ  
इति ॥ १२ ॥

वह इस सीमा ( मूर्धा ) को ही विदीर्णकर इसीके द्वारा प्रवेश कर गया । वह यह द्वार 'विदिति' नामवाला है; यह नान्दन ( आनन्दप्रद ) है । यह आवसथ [ नेत्र ], यह आवसथ [ कण्ठ ], यह आवसथ [ हृदय ] इस प्रकार इसके तीन आवसथ ( वासस्थान ) और तीन स्वप्न हैं ॥ १२ ॥

स स्रष्टेश्वर एतमेव मूर्धसी-  
मानं केशविभागावसानं विदार्य-  
च्छिद्रीकृत्वैतया द्वारा मार्गेणेमं  
लोकं कार्यकरणसंघातं प्रापद्यत  
प्रविवेश । सेयं हि प्रसिद्धा द्वाः  
मूर्ध्नि तैलादिधारणकाले अन्त-  
स्तद्रसादिसंवेदनात् । सैषा  
विदितिविदारितत्वाद्विदितिर्नाम्  
प्रसिद्धा द्वाः ।

इतराणि तु श्रोत्रादिद्वाराणि  
भृत्यादिस्थानीयसाधारणमार्ग-  
त्वान्न समृद्धीनि नानन्दहेतूनि ।  
इदं तु द्वारं परमेश्वरस्यैव केवल-  
स्येति तदेतन्नानन्दनं नन्दनमेव

वह सृष्टिकर्ता ईश्वर इस मूर्ध-  
सीमाको ही, जिसका क्लेशोंका विभाग  
ही अवसान है, विदीर्ण कर अर्थात्  
उसमें छिद्र कर उसीके द्वारा—उस  
मार्गसे ही इस लोक अर्थात् भूत  
और इन्द्रियोंके संघातमें प्रवेश कर  
गया । वही प्रसिद्ध द्वार है; क्योंकि  
शिरमें तैल आदि धारण करते समय  
भीतर उसके रसादिका अनुभव होता  
है । विदीर्ण किया जानेके कारण  
वह द्वार 'विदिति' अर्थात् विदिति नाम-  
से प्रसिद्ध है ।

इससे भिन्न जो श्रोत्रादि द्वार है  
वे भृत्यादिरूप साधारण मार्ग होनेके  
कारण समृद्ध अर्थात् आनन्दके हेतु  
नहीं हैं । किन्तु यह मार्ग तो केवल  
परमेश्वरका ही है । अतः यह  
नान्दन ( आनन्दप्रद ) है । नन्दनको  
ही यहाँ नान्दन कहा है ।

नान्दनमिति दैर्घ्यं छान्दसम् ।

नन्दत्यनेन द्वारेण गत्वा पर-

सिन्त्रहणीति ।

तस्यैवं सृष्ट्वा प्रविष्टस्य जीवे-  
नात्मना राज्ञ इव पुरं त्रय  
आवसथाः । जागरितकाल  
इन्द्रियस्थानं दक्षिणं चक्षुः, स्वप्न-  
कालेऽन्तर्मनः, सुषुप्तिकाले  
हृदयाकाश इत्येतत् । वक्ष्यमाणा  
वा त्रय आवसथाः; पितृशरीरं  
मातृगर्भाशयः स्वं च शरीरमिति ।

त्रयः स्वप्ना जाग्रत्स्वप्नसुषु-  
प्त्याख्याः । ननु जागरितं  
प्रबोधरूपत्वान्न स्वप्नः; नैवम्,  
स्वप्न एव । कथम् ; परमार्थ-  
स्वात्मप्रबोधाभावात्स्वप्नवदसद्व-  
स्तुदर्शनाच्च । अयमेवावसथश्चक्षु-  
र्दक्षिणं प्रथमः, मनोऽन्तरं  
द्वितीयः, हृदयाकाशस्तृतीयः ।

‘नान्दनम्’ इस पद [ के नकार ] में  
दीर्घता वैदिक प्रक्रियाके अनुसार है।  
तात्पर्य यह है कि इस मार्गसे जाकर  
पुरुष परब्रह्ममें आनन्द प्राप्त करने  
लाता है ।

पुरमें प्रविष्ट हुए राजाके समान  
इस प्रकार रचना करके उसमें  
जीवरूपसे प्रवेश करनेवाले उस  
ईश्वरके तीन आक्सय हैं—( १ )  
जाग्रत् कालमें इन्द्रियोंका स्थान  
दक्षिण नेत्र, ( २ ) स्वप्नकालमें  
मनके भीतर और ( ३ ) सुषुप्तिमें  
हृदयाकाशके अंदर । अयना आगे  
बतलाये जानेवाले पितृदेह, मातृ-  
गर्भाशय और अपना ही शरीर—ये  
ही तीन आवसथ हैं ।

तथा जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति  
नामक तीन स्वप्न हैं । यदि कही  
कि प्रबोधरूप होनेके कारण जाग्रत्  
स्वप्न नहीं है, तो ऐसी बात नहीं  
है, वह भी स्वप्न ही है । किस  
प्रकार ? क्योंकि उस समय परमार्थ  
आत्मस्वरूपके बोधका अभाव होता  
है और स्वप्नके समान असत् वस्तुएँ  
दिखलाई दिया करती हैं । [ उन  
आवसथोंमें ] यह दक्षिण नेत्र ही  
प्रथम है, मनका अन्तर्भाग द्वितीय  
है और हृदयाकाश तृतीय है ।

अयमावसथ इत्युक्तानुकीर्त-  
नमेव । तेषु ह्ययमावसथेषु पर्याये-  
णात्मभावेन वर्तमानोऽविद्यया  
दीर्घकालं गाढप्रसुप्तः स्वाभावि-  
क्या न प्रबुध्यतेऽनेकशतसहस्रा-  
नर्थसंनिपातजदुःखमुद्गराभिधा-  
तानुभवैरपि ॥ १२ ॥

अयमावसथः [ ऐसा जो तीन  
वार कहा गया है ] यह पूर्वकथित-  
का ही अनुकीर्तन है । उन  
आवसथोंमें क्रमशः आत्मभावसे  
रहनेवाला यह जीव दीर्घकालतक  
स्वाभाविक अविद्यासे गाढ़ निद्रामें  
सोता रहता है और अनेकों शत-  
सहस्र अनर्थोंकी प्राप्तिसे होनेवाले  
दुःखरूप मुद्गरोंके आघातके अनुभव-  
से भी नहीं जगता ॥ १२ ॥

जीवका मोह और उसकी निवृत्ति

स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत् किमिहान्यं वावदिष-  
दिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत् । इदम-  
दर्शमिती ३ ॥ १३ ॥

[ इस प्रकार शरीरमें प्रवेश करके जीवरूपसे ] उत्पन्न हुए उस  
परमेश्वरने भूतोंको [ तादात्म्यभावसे ] ग्रहण किया । और [ गुरुरूपसे  
बोध होनेपर ] 'यहाँ [ मेरे सिवा ] अन्य कौन हैं' ऐसा कहा । और  
मैंने इसे ( अपने आत्मस्वरूपको ) देख लिया है इस प्रकार उसने इस  
पुरुषको ही पूर्णतम ब्रह्मरूपसे देखा ॥ १३ ॥

स जातः शरीरे प्रविष्टो जी-  
वात्मना भूतान्यभिव्यैख्यद्व्या-  
करोत् । स कदाचित्परमकारु-  
णिकेनाचार्येणात्मज्ञानप्रबोधक-

उसने उत्पन्न होकर—जीवभावसे  
शरीरमें प्रविष्ट होकर भूतोंको  
व्याकृत किया [ अर्थात् उन्हें  
तादात्म्यरूपसे ग्रहण किया ] । फिर  
किसी समय परम कारुणिक आचार्य-  
के द्वारा अपने कर्णमूलमें—जिसका  
शब्द आत्मज्ञानका दृढ़ बोध कराने-



च्छब्दिकार्या वेदान्तमहावाक्य-  
 भेयां तत्कर्णमूले ताड्यमानाया-  
 भेतमेव सृष्ट्यादिकर्तृत्वेन प्रकृतं  
 पुरुषं पुरि शयानमात्मानं ब्रह्म  
 बृहत्तमं तकारेणैकेन लुप्तेन  
 तततमं व्याप्ततमं परिपूर्णमाका-  
 शवत्प्रत्यबुध्यतापश्यत् । कथम् ?  
 इदं ब्रह्म ममात्मनः स्वरूपमदर्शं  
 दृष्टवानस्मि, अहो इति, विचार-  
 णार्था प्लुतिः पूर्वम् ॥ १३ ॥

वाला है ऐसी—वेदान्तवाक्यरूप महा-  
 भेरीके बजाये जानेपर उसने, जिस-  
 का सृष्टि आदिके कर्तृत्वरूपसे प्रकरण  
 चला हुआ है उस पुरुष—[ शरीर-  
 रूप ] पुरमें शयन करनेवाले आत्मा-  
 को ततम—इसमें एक तकारका लोप  
 हुआ है । अतः तततम—व्याप्ततम  
 अर्थात् आकाशके समान परिपूर्ण  
 महान् ब्रह्मरूपसे जाना—साक्षात्कार  
 किया । किस प्रकार साक्षात्कार  
 किया [ सो बतलाते हैं—] ‘अहो !  
 मैंने अपने आत्माके स्वरूपकोही इस  
 ब्रह्मरूपसे देखा है’ इस प्रकार ।  
 यहाँ ‘इति’ पदमें जो प्लुत उच्चारण  
 है वह विचार प्रदर्शित करनेके लिये  
 है ॥ १३ ॥

### ‘इन्द्र’ शब्दकी व्युत्पत्ति

यस्मादिदमित्येव यत्साक्षाद-  
 परोक्षाद्ब्रह्म सर्वान्तरमपश्यत्  
 परोक्षेण—

क्योंकि जो [ जीवरूपसे ] सबके  
 भीतर रहनेवाला ब्रह्म ‘इदम् (यह)’  
 इस प्रकार साक्षात् अपरोक्षरूपसे  
 स्थित है उसे परोक्षरूपसे देखा था—

तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम । तमिदन्द्रं  
 सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः  
 परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ १४ ॥

इसलिये उसका नाम 'इन्द्र' हुआ, वह 'इन्द्र' नामसे प्रसिद्ध है। 'इन्द्र' होनेपर ही [ ब्रह्मवेत्ता लोग ] उसे परोक्षरूपसे 'इन्द्र' कहकर पुकारते हैं; क्योंकि देवगण परोक्षप्रिय ही होते हैं, देवता परोक्ष प्रिय ही होते हैं ॥ १४ ॥

तस्मादिदं पश्यतीतीन्द्रो  
नाम परमात्मा । इन्द्रो ह वै  
नाम प्रसिद्धो लोक ईश्वरः ।  
तमेवमिन्द्रं सन्तमिन्द्र इति  
परोक्षेण परोक्षाभिधानेनाचक्षते  
ब्रह्मविदः संब्यवहारार्थम्; पूज्य-  
तमत्वात्प्रत्यक्षनामग्रहणभयात् ।  
तथा हि परोक्षप्रियाः परोक्षनाम-  
ग्रहणप्रिया इव एव हि यस्मा-  
द्देवाः; किमुत सर्वदेवानामपि  
देवो महेश्वरः । द्विर्वचनं प्रकृता-  
ध्यायपरिसमाप्त्यर्थम् ॥ १४ ॥

इसलिये जो इसे देखता है वह परमात्मा 'इन्द्र' नामवाला है। लोकमें ईश्वर 'इन्द्र' नामसे प्रसिद्ध है। इस प्रकार 'इन्द्र' होनेपर भी ब्रह्मवेत्ता व्यवहारके लिये उसे 'इन्द्र' इस परोक्ष नामसे पुकारते हैं; क्योंकि पूज्यतम होनेके कारण उसका प्रत्यक्ष नाम लेनेमें उन्हें भय है। जब कि देवता लोग भी परोक्षप्रिय अर्थात् अपना परोक्ष नाम ग्रहण किया जाना ही प्रिय माननेवाले हैं तब सम्पूर्ण देवताओंके भी देव महेश्वरका तो कहना ही क्या है? प्रकृत अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये यहाँ दो बार कहा गया है ॥ १४ ॥

इति श्रीमत्परहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-  
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावैतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये  
तृतीयः खण्डः समाप्तः ॥ ३ ॥

उपनिषत्क्रमेण प्रथमः, आरण्यकक्रमेण  
चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ।

# द्वितीय अध्याय

## प्रथम खण्ड

प्रस्तावना

अस्मिन्शतुर्थेऽध्याय एव वा-  
 अतीताध्याय-  
 विषयावलोकनम्  
 क्यार्थः—जगदुत्प-  
 त्तिस्थितिप्रलयकृद-  
 संसारी सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्व-  
 वित्सर्वमिदं जगत्स्वतोऽन्यदस्त्व-  
 न्तरमनुपादायैव आकाशादि-  
 क्रमेण सृष्ट्वा स्वात्मप्रबोधनार्थं  
 सर्वाणि च प्राणादिमच्छरीराणि  
 स्वयं प्रविवेश । प्रविश्य च स्व-  
 मात्मानं यथाभूतमिदं ब्रह्मास्मीति  
 साक्षात्प्रत्यबुध्यत । तस्मात्स एव  
 सर्वशरीरेष्वेक एवात्मा नान्य  
 इति । अन्योऽपि “सम आत्मा  
 ब्रह्मास्मीत्येवं विद्यात्” इति ।

इस ( पूर्वोक्त ) चौथे\* अध्यायमें  
 यह वाक्यार्थ विरक्षित है—†  
 जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय  
 करनेवाले असंसारी सर्वशक्तिमान्  
 सर्वज्ञने अपनेसे भिन्न किसी अन्य  
 वस्तुको ग्रहण किये बिना ही इस  
 सम्पूर्ण जगत्की आकाशादिक्रमसे  
 रचना कर अपनेको स्वयं ही  
 जाननेके लिये सम्पूर्ण प्राणादियुक्त  
 शरीरमें स्वयं ही प्रवेश किया । और  
 प्रवेश करके ‘मैं यह ब्रह्म हूँ’  
 इस प्रकार अपने यथार्थ स्वरूपका  
 साक्षात् बोध प्राप्त किया । अतः  
 समस्त शरीरमें एकमात्र वही आत्मा  
 है, उससे भिन्न नहीं । इसके  
 सिवा “[ सम्पूर्ण भूतोंमें ] जो सम  
 आत्मा ब्रह्म है वह मैं हूँ—ऐसा जाने”

\* आरण्यकके क्रमसे यहाँ चौथी खरूया कही गयी है ।

† पूर्व अध्यायमें आत्माकी एकता, लोक तथा लोकपालोंकी सृष्टि और  
 भुक्ता-पिपासासे संयोग आदि अनेक विषयोंका वर्णन है । उनमें विरक्षित  
 अभिप्रायका प्रतिपादन किया जाता है ।

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र  
आसीत्” (१।१।१) इति “ब्रह्म  
ततमम्” (१।३।१३) इति  
चोक्तम् । अन्यत्र च ।

सर्वगतस्य सर्वात्मनो बालाग्र-  
प्रवेशशुक्ति- मात्रमप्यग्रविष्टं  
विचारः नास्तीति कथं सी-  
मानं विदार्य प्रापद्यत पिपीलि-  
केव सुपिरम् ।

नन्वत्यल्पमिदं चोद्यं बहु  
चात्र चोदयितव्यम् । अकरणाः  
सन्नीक्षत । अनुपादाय किञ्चि-  
ल्लोकानसृजत । अद्भ्यः पुरुषं  
समुद्भृत्यामूर्च्छयत् । तस्याभिध्या-  
नान्मुखादि निर्भिन्नं मुखादि-  
भ्यश्चाग्न्यादयो लोकपालास्तेषां  
चाशनायापिपासादिसंयोजनं त-  
दायतनप्रार्थनं तदर्थं गवादि-

“निश्चय पहले एक आत्मा ही था”  
तया “[ उसने ] ब्रह्मको [ आकाशके  
समान ] अतिशय व्याप्त [ जाना ]”  
ऐसा भी कहा है । और [ ऐसा  
ही ] अन्य उपनिषदोंमें भी  
कहा है ।

पूर्व०—उस सर्वगत सर्वात्माके  
लिये तो बालका अग्रभाग भी अप्रविष्ट  
नहीं है; फिर वह चींटीके विलप्रवेश-  
के समान मूर्धसीमाको विदीर्णकर  
किस प्रकार मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट  
हुआ ?

सिद्धान्ती—तुम्हारा यह ग्रन्थ तो  
अल्प है । अभी तो उपर्युक्त कथनमें  
बहुत कुछ पूछनेयोग्य बातें हैं ।  
उसने इन्द्रियहीन होकर भी ईक्षण  
किया । किसी उपादानके बिना ही  
लोकोंकी रचना की । जलमेंसे पुरुष  
निकालकर उसे अवयवयोजनाद्वारा  
पुष्ट किया । अभिध्यानके द्वारा उसका  
मुख प्रकट हुआ तथा मुख्यादिसे  
अग्नि आदि लोकपाल प्रकट हुए ।  
उनका क्षुधा-पिपासादिसे संयोग  
कराना, उनका आप्तनके लिये  
प्रार्थना करना, उसके लिये गौ आदि

प्रदर्शनं तेषां यथायतनप्रवेशनं  
सृष्ट्यान्नस्य पलायनं वागादि-  
मिस्तज्जिघृक्षा; एतत्सर्वं सीमा-  
विदारणप्रवेशसममेव ।

अस्तु तर्हि सर्वमेवैदमनुप-  
पन्नम् ।

न; अत्रात्मावबोधमात्रस्य  
विवक्षितत्वात्सर्वोऽयमर्थवाद इत्य-  
दोषः । मायाविवक्षा महामायावी  
देवः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वमे-  
तच्चकार । सुखावबोधनप्रति-  
पत्त्यर्थं लोकावदाख्यायिकादि-  
प्रपञ्च इति युक्ततरः पक्षः । न  
हि सृष्ट्याख्यायिकादिपरिज्ञा-  
नात्किञ्चित्फलमिष्यते । एका-  
त्म्यस्वरूपपरिज्ञानात् अमृतत्वं  
फलं सर्वोपनिषत्प्रसिद्धम् ।

दिखलाना, उन देवताओंका अपने-  
अपने अनुकूल आयतनोंमें प्रवेश  
करना, उत्पन्न हुए अन्नका भागना  
और उसे वाक् आदि इन्द्रियों-  
द्वारा ग्रहण करनेकी इच्छा करना-  
ये सब बातें भी सीमा विदीर्ण करने  
और शरीरमें प्रवेश करनेके समान  
ही [ आश्चर्यजनक ] हैं ।

पूर्व०—अच्छा तो, इन सभी  
बातोंको अनुपपन्न ( असम्भव )  
मान लो ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि श्रुतिको यहाँ केवल आत्मा-  
वबोधमात्र कहना अभीष्ट होनेमें  
यह सब अर्थवाद है, अतः इसमें  
कोई दोष नहीं है । अथवा मायावीके  
समान महामायावी सर्वज्ञ सर्व  
शक्तिमान् प्रभुने इस सम्पूर्ण जगत्  
की रचना की है, और इस रहस्यका  
सरलतासे ज्ञान प्राप्त करनेके लिये  
ही लौकिक रीतिसे यह आख्यायिका  
आदिकी रचना की गयी है—इस  
प्रकार भी यह पक्ष युक्तियुक्त जान  
पड़ता है, क्योंकि केवल व्यक्त-  
रचनाकी आख्यायिका आदिके  
परिज्ञानसे कुछ भी फल नहीं  
मिळता । परन्तु आत्माके एकत्व और  
यथार्थ स्वरूपके ज्ञानसे अमरत्वरूप  
फल [ प्राप्त होता है—यह ]  
सभी उपनिषदोंमें प्रसिद्ध है ।

स्मृतिषु च गीताद्यासु “समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्” (गीता १३ । २७) इत्यादिना ।

ननु त्रय आत्मानः । भोक्ता  
आत्मैकत्वे कर्ता संसारी जीव  
विचारः एकः सर्वलोक-  
शास्त्रप्रसिद्धः । अनेकप्राणिकर्म-  
फलोपभोगयोग्यानेकाधिष्ठानव-  
ल्लोकदेहनिर्माणेन लिङ्गेन यथा-  
शास्त्रप्रदर्शितेन पुरप्रासादादि-  
निर्माणलिङ्गेन तद्विषयकौशलज्ञान-  
वांस्तत्कर्ता तक्षादिरिवेश्वरः सर्वज्ञो  
जगतः कर्ता द्वितीयञ्चेतन आ-  
त्मा अवगम्यते । “यतो वाचो  
निवर्तन्ते” (तै० उ० २ । ४ ।  
१) “नेति नेति” (चू० उ०  
३ । ९ । २६) इत्यादिशास्त्र-  
प्रसिद्ध औपनिषदः पुरुषस्मृ-  
तीयः । एवमेते त्रय आत्मानो-  
ऽन्योन्यविलक्षणाः । तत्र कथमेक  
एव आत्मा अद्वितीयः असंसा-  
रीति ज्ञातुं शक्यते ?

तथा “सम्पूर्णं भूतोंमें समान भावसे स्थित परमेश्वरको” इत्यादि वाक्यों-  
द्वारा गीता आदि स्मृतियोंमें भी  
[ यही बात कही गयी है ] ।

पूर्व०—आत्मा तो तीन हैं;  
उनमें एक तो सम्पूर्ण लोक और  
शास्त्रमें प्रसिद्ध कर्ता भोक्ता संसारी  
जीव है । नगर और प्रासादादिके  
निर्माणके लिङ्गसे जिस प्रकार  
तत्सम्बन्धी कौशलके ज्ञानवाले उनके  
रचयिता तक्षा ( कारीगर ) आदिका  
ज्ञान होता है उसी प्रकार अनेक  
प्राणियोंके कर्मफलके उपभोगयोग्य  
अनेकों अधिष्ठानोंवाले लोक और  
देहकी रचनाके शास्त्रप्रदर्शित  
लिङ्गसे दूसरे चेतन आत्मा—जगत-  
कर्ता सर्वज्ञ ईश्वरका ज्ञान होता है ।  
तथा तीसरा आत्मा “जहाँसे वाणी  
लौट आती है” एवं “यह नहीं  
यह नहीं” इत्यादि शास्त्रसे प्रसिद्ध  
औपनिषद पुरुष है । इस प्रकार ये  
तीनों आत्मा एक दूसरेसे विलक्षण  
हैं । अतः यह कैसे जाना जा सकता  
है कि आत्मा एक, अद्वितीय और  
असंसारी ही है ?

तत्र जीव एव तावत्कथं  
ज्ञायते ?

नन्वेवं ज्ञायते श्रोता मन्ता  
द्रष्टा आदेष्टा आघोष्टा विज्ञाता  
प्रज्ञातेति ।

ननु विप्रतिपिद्धं ज्ञायते यः  
श्रवणादिकर्तृत्वेनामतो मन्ता-  
विज्ञातो विज्ञातेति च । तथा  
“न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न  
विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः”  
(वृ० उ० ३।४।२) इत्यादि च ।

सत्यं विप्रतिपिद्धम्, यदि  
प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिचत् ।  
प्रत्यक्षज्ञानं च निवार्यते “न  
मतेर्मन्तारं मन्वीथाः” ( वृ०  
उ० ३।४।२ ) इत्यादिना ।  
ज्ञायते तु श्रवणादिलिङ्गेन;  
तत्र कुतो विप्रतिपेधः ।

ननु श्रवणादिलिङ्गेनापि कथं  
ज्ञायते ? यावता यदा शृणोत्या-  
त्मा श्रोतव्यं शब्दम्, तदा तस्य

सिद्धान्ती—इन तीनोंमें पहले  
जीवका ही ज्ञान कैसे होता है ?

पूर्व०—इस प्रकार ज्ञान होता है  
कि वह श्रवण करनेवाला, मनन  
करनेवाला, द्रष्टा, आज्ञा करनेवाला,  
शब्द उच्चारण करनेवाला, विज्ञाता  
और प्रज्ञाता है ।

सिद्धान्ती—परन्तु जिसका  
श्रवणादिके कर्तारूपसे ज्ञान होता है  
उसे ‘अमत और मनन करनेवाला  
अविज्ञात और विशेष रूपसे जानने-  
वाला’ इस प्रकार कहना तथा “मति-  
के मनन करनेवालेका मनन न करो,  
विज्ञानिके विज्ञाताको न जानो”  
इत्यादि श्रुतिवचन भी विरुद्ध होगा ।

पूर्व०—यदि उसे सुखादिके  
समान प्रत्यक्षरूपसे जाना जाय तो  
अवश्य विरुद्ध होगा । किन्तु “मतिके  
मनन करनेवालेका मनन न करो”  
इत्यादि वाक्यसे उसके प्रत्यक्षज्ञानका  
निवारण किया गया है । उसका  
ज्ञान तो श्रवणादि लिङ्गसे होता है,  
फिर इसमें विरोध कहाँ है ?

सिद्धान्ती—श्रवणादि लिङ्गसे भी  
आत्माका ज्ञान किस प्रकार हो  
सकता है ? क्योंकि जब और जिस  
समय आत्मा सुननेयोग्य शब्दको  
सुनता है उस समय श्रवणक्रियाके

१. सिद्धान्तिकी यह उक्ति पहले आत्मामें बतलाये हुए कर्तृत्व भोक्तृत्व  
आदि धर्मोंका प्रतिपेध करनेके लिये है ।

२. विशेष जाननेवाला । ३. सबसे अधिक जाननेवाला ।

श्रवणक्रियैव वर्तमानत्वा-  
 न्मननविज्ञानक्रिये न संभवतः  
 आत्मनि परत्र वा । तथान्यत्रापि  
 मननादिक्रियासु । श्रवणादि-  
 क्रियाश्च स्वविषयेष्वेव । न हि  
 मन्तव्यादन्यत्र मन्तुर्मननक्रिया  
 संभवति ।

ननु मनसा सर्वमेव मन्तव्यम् ।

सत्यमेवं तथापि सर्वमपि  
 मन्तव्यं मन्तारमन्तरेण न मन्तुं  
 शक्यम् ।

यद्येवं किं स्यात् ?

इदमत्र स्यात्; सर्वस्य योऽयं  
 मन्ता स मन्तैवेति न स मन्तव्यः  
 स्यात् । न च द्वितीयो मन्तुर्म-  
 न्तास्ति । यदा स आत्मनैव

साथ ही वर्तमान रहनेके कारण  
 उसके लिये अपनेमें अथवा अन्यत्र  
 मनन या विज्ञानरूप क्रियाएँ संभव  
 नहीं हैं । [ इस प्रकार विजातीय  
 क्रियाओंकी समकालीनताका निषेध  
 करके अब सजातीय क्रियाओंका  
 निषेध करते हैं— ] इसी प्रकार  
 अन्यत्र मनन आदि क्रियाओंमें भी  
 समझना चाहिये । श्रवणादि क्रियाएँ  
 भी अपने विषयोंमें ही प्रवृत्त हो  
 सकती हैं [ आश्रयमें नहीं ] । मनन  
 करनेवालेकी मननक्रिया मन्तव्यसे  
 भिन्न स्थानमें सम्भव नहीं है ।

पूर्व०—मनसे तो सभीका मनन  
 किया जाता है ।

सिद्धान्ती—यह ठीक है; परन्तु  
 जो कुछ मनन किया जाता है वह  
 सब मननकर्ताके विना नहीं किया  
 जा सकता ।

पूर्व०—यदि ऐसा हो भी तो  
 इससे क्या होगा ?

सिद्धान्ती—इससे यहाँ यह होगा  
 कि जो इस सबका मनन करनेवाला  
 है वह मनन करनेवाला ही रहेगा,  
 मन्तव्य नहीं होगा । तथा उस  
 मनन करनेवालेका कोई दूसरा  
 मननकर्ता भी नहीं है । यदि उसे



मन्तव्यस्तदा येन च मन्तव्यः  
 आत्मा आत्मना यश्च मन्तव्य  
 आत्मा तौ द्वौ प्रसज्येयाताम् ।  
 एक एवात्मा द्विधा मन्तुमन्तव्य-  
 त्वेन द्विशकलीभवेद्वंशादिवत् ।  
 उभयथाप्यनुपपत्तिरेव । यथा  
 प्रदीपयोः प्रकाश्यप्रकाशकत्वा-  
 नुपपत्तिः समत्वात्तद्वत् ।

न च मन्तुमन्तव्ये मननव्या-  
 पारशून्यः कालोऽस्त्यात्ममन-  
 नाय । यदापि लिङ्गेनात्मानं  
 मनुते मन्ता; तदापि पूर्ववदेव  
 लिङ्गेन मन्तव्य आत्मा यश्च  
 तस्य मन्ता तौ द्वौ प्रसज्येया-  
 ताम् एक एव वा द्विघेति  
 पूर्वोक्तदोषः । न प्रत्यक्षेण  
 नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत् कथ-  
 मुच्यते “स म आत्मेति विद्यात्”  
 (कौपी० ३ । ९) इति ? कथं  
 वा श्रोता मन्तेत्यादि ?

आत्माद्वारा ही मन्तव्य माना जाय  
 तो जिस आत्मासे आत्मा मनन  
 किया जाता है और जिस आत्माका  
 मनन किया जाता है उनके दो होने-  
 का प्रसंग उपस्थित हो जायगा ।  
 अथवा बाँस आदिके समान एक ही  
 आत्मा मन्ता और मन्तव्यरूपसे दो  
 भागोंमें विभक्त माना जायगा । किन्तु  
 उपर्युक्त दोनों प्रकारसे अनुपपत्ति  
 ही है । जैसे कि समानरूप होनेके  
 कारण दो दीपकोंका परस्पर प्रसज्य-  
 प्रकाशकमात्र नहीं बन सकता, उसी  
 प्रकार [ यहाँ समझना चाहिये ] ।

इसके सिवा मन्ताको अपना मनन  
 करनेके लिये मन्तव्य पदार्थोंका  
 मनन करनेके व्यापारसे रहित कोई  
 काल भी नहीं है । जिस समय भी  
 किसी लिङ्गके द्वारा मन्ता अपना  
 मनन करता है उस समय भी पहले-  
 हीके समान लिङ्गसे मन्तव्य आत्मा  
 और जो कोई उसका मनन करने-  
 वाला है वे दो सिद्ध होते हैं, अथवा  
 एक ही दो भागोंमें विभक्त है—इस  
 प्रकार पूर्वोक्त दोष उपस्थित हो  
 जाता है । और यदि वह न प्रत्यक्षसे  
 जाना जाता है और न अनुमानसे  
 तो ऐसा क्यों कहते हैं कि “वह  
 मेरा आत्मा है—ऐसा जाने” और क्यों  
 उसे श्रोता-मन्ता इत्यादि बतलाते हैं ?

ननु श्रोतृत्वादिधर्मवानात्मा,  
अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धमात्म-  
नः । किमत्र विपमं पश्यसि ?

यद्यपि तव न विपमं तथापि  
मम तु विपमं प्रतिभाति ।  
कथम् ? यदासौ श्रोता तदा  
न मन्ता यदा मन्ता तदा न  
श्रोता । तत्रैवं सति पक्षे श्रोता  
मन्ता पक्षे न श्रोता नापि  
मन्ता । तथान्यत्रापि च ।

यदैवं तदा श्रोतृत्वादिधर्म-  
वानात्मा अश्रोतृत्वादिधर्मवा-  
न्वेति संशयस्थाने कथं तव  
न वैपम्यम् । यदा देवदत्तो  
गच्छति तदा न स्यात्ता  
गन्तैव । यदा तिष्ठति तदा  
न गन्ता स्यात्तैव । तदा अस्य  
पक्ष एव गन्तृत्वं स्यात्तृत्वं

पूर्व०—आत्मा तो श्रोतृत्वादि  
धर्मवाला है और आत्माके अश्रोतृत्व  
आदि धर्म भी [ श्रुतिमें ] प्रसिद्ध  
है । फिर इसमें तुम्हें विपमता क्या  
दिखलायी देती है ?

सिद्धान्ती—यद्यपि तुझे कोई  
विपमता ज्ञात नहीं होती, तथापि मुझे  
तो होती ही है । किस प्रकार कि  
जिस समय यह श्रोता होता है उस  
समय मन्ता नहीं होता और जब  
मन्ता होता है तब श्रोता नहीं होता ।  
ऐसा होनेके कारण वह एक पक्षमें  
श्रोता और मन्ता है तो दूसरे पक्षमें  
न श्रोता है और न मन्ता ही है ।  
ऐसा ही अन्यत्र ( विज्ञाता आदिके  
सम्बन्धमें ) भी समझना चाहिये ।

जब कि ऐसी बात है तब  
आत्मा श्रोतृत्वादि धर्मवाला है अथवा  
अश्रोतृत्वादि धर्मवाला ? इस प्रकार  
संशयस्थान उपस्थित होनेपर तुझे  
विपमता क्यों नहीं दिखायी देती ?  
जिस समय देवदत्त चलता है उस  
समय वह चलनेवाला ही होता है  
ठहरनेवाला नहीं होता, तथा जिस  
समय वह ठहरता है उस समय  
वह ठहरनेवाला ही होता है, चलने-  
वाला नहीं होता । ऐसी अवस्थामें  
इसका गन्तृत्व और स्यात्तृत्व पार्श्विक

च । न नित्यं गन्तृत्वं स्यात्त्वं  
वा । तद्वत् ।

तथैवात्र काणादादयः पश्य-  
न्ति । पक्षप्राप्तेनैव श्रोतृत्वादिना  
आत्मोच्यते श्रोता मन्तेत्यादि-  
वचनात् । संयोगजत्वमयौगपद्यं  
च ज्ञानस्य ह्याचक्षते । दर्शयन्ति  
चान्यत्रमना अभूवं नादर्शमि-  
त्यादि युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो  
लिङ्गमिति च न्याय्यम् ।

भवत्वेवम्; किं तव नष्टं  
यद्येवं स्यात् ?

अस्त्वेवं तवेष्टं चेत् । श्रुत्य-  
र्थस्तु न संमपति ।

किं न श्रोता मन्तेत्यादि-  
श्रुत्यर्थः ?

न; न श्रोता न मन्तेत्यादि-  
वचनात् ।

ही होता है, नित्यगन्तृत्व अथवा  
नित्यस्यात्त्वं नहीं होता । इसी प्रकार  
[ आत्माका श्रोतृत्वादि भी पाक्षिक  
ही सिद्ध होगा, नित्य नहीं ] ।

काणाद आदि अन्य मतावज्ज्वी  
भी इस विषयमें ऐसा ही समझते हैं,  
क्योंकि इस विषयमें उनका कथन  
है कि पक्षमें प्राप्त होनेवाले श्रोतृ-  
त्वादिके कारण ही आत्मा श्रोता, मन्ता  
इत्यादि कहा जाता है । वे ज्ञानका  
संयोगजत्व ( इन्द्रिय और मनके संयोगमे  
उत्पन्न होना ) और अयौगपद्य ( एक  
साथ न होना ) प्रतिपादन करते हैं ।  
और मनको एक साथ ज्ञान उत्पन्न न  
होनेमें वे 'मैं अन्यमनस्क था, इसलिये  
न देख सका' इत्यादि लिङ्ग प्रदर्शित  
करते हैं और यह युक्तिसङ्गत भी है ।

पूर्व०—ऐसा सिद्धान्त भले ही  
रहे, किन्तु यदि ऐसा हो भी तो  
तुम्हारी क्या हानि है ?

सिद्धान्ती—यदि तुम्हें अभिमत  
हो तो तुम्हारे लिये ऐसा भले ही  
हो, परन्तु यह श्रुतिका तात्पर्य तो  
हो नहीं सकता ।

पूर्व०—क्या श्रोता, मन्ता इत्यादि  
श्रुतिका अर्थ नहीं है ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि [ श्रुतिमें  
तो ] 'न श्रोता है न मन्ता है' इत्यादि  
भी कहा है ।

ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तं  
त्वया ।

न; नित्यमेव श्रोतृत्वाद्यभ्यु-  
पगमात् । “न हि श्रोतुः श्रुते-  
र्विपरिलोपो विद्यते” ( वृ० उ०  
४ । ३ । २७ ) इत्यादिश्रुतेः ।

एवं तर्हि नित्यमेव श्रोतृ-  
त्वाद्यभ्युपगमे प्रत्यक्षविरुद्धा  
युगपज्ज्ञानोत्पत्तिरज्ञानाभावश्चा-  
त्मनः कल्पितः स्यात् । तच्चा-  
निष्टमिति ।

तोभयदोषोपपत्तिः । आत्मनः  
श्रुत्यादिश्रोतृत्वादिधर्मवच्चश्रुतेः ।  
अनित्यानां मूर्तानां च चक्षुरा-  
दीनां दृष्ट्याद्यनित्यमेव संयोग-  
वियोगधर्मिणाम्, यथाग्नेर्ज्वलनं  
तृणादिसंयोगजत्वाच्चद्वत् । न तु  
नित्यस्यामूर्तस्यासंयोगवियोगध-

पूर्व०—परन्तु इस विरोधको तो  
तुमने पाक्षिक बतलाकर खण्डित  
कर दिया है ।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि आत्मा-  
का श्रोतृत्व आदि तो नित्य ही माना  
गया है, जैसा कि “श्रोताकी श्रुति-  
का लोप कभी नहीं होता” इत्यादि  
श्रुतिसे सिद्ध होता है ।

पूर्व०—ऐसी दशामें तो आत्माका  
नित्य श्रोतृत्वादि माननेपर प्रत्यक्ष-  
विरुद्ध अनेक ज्ञानोंका एक साथ  
उत्पन्न होना और आत्मामें अज्ञानका  
अभाव ये दो बातें माननी पड़ेंगी ।  
किन्तु यह किसीको अभीष्ट नहीं है ।

सिद्धान्ती—इन दोनों दोषोंकी-  
सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि  
श्रुतिके कथनानुसार आत्मा श्रुति  
आदिके श्रोतृत्वादि धर्मबाला है\*  
जिस प्रकार अग्निका प्रज्वलित  
होना, तृणादिके संयोगसे होनेके  
कारण, अनित्य है; उसी प्रकार  
संयोग-वियोगधर्मा, मूर्त एवं अनित्य  
चक्षु आदिके धर्म दृष्टि आदि  
अनित्य ही हैं । किन्तु जो नित्य,  
अमूर्त और संयोग-वियोग-धर्मसे

\* अर्थात् वह श्रुतिका श्रोता, मतिके मन्ता तथा विशाता आदि  
रूपसे प्रसिद्ध है ।

मिणः संयोगजदृष्ट्यादनित्यधर्म-  
वचनं संभवति । तथा च श्रुतिः  
“न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो  
विद्यते” ( बृ० उ० ४।३।२३ )  
इत्याद्या । एवं तर्हि द्वे दृष्टी चक्षु-  
पोऽनित्या दृष्टिर्नित्या चात्मनः ।  
तथा च द्वे श्रुती श्रोत्रस्यानित्या  
नित्या चात्मस्वरूपस्य । तथा  
द्वे मती विज्ञाती वाद्यावाद्ये एवं  
ह्येव । तथा चेयं श्रुतिरूपपन्ना  
भवति “दृष्टेर्द्रष्टा श्रुतेः श्रोता”  
इत्याद्या ।

लोकैऽपि प्रसिद्धं चक्षुपस्ति-  
मिरागमापाययोर्नष्टा दृष्टिर्जाता  
दृष्टिगिति चक्षुर्दृष्टेरनित्यत्वम्;  
तथा च श्रुतिमत्यादीनामात्म-  
दृष्ट्यादीनां च नित्यत्वं प्रसिद्ध-  
मेव लोके । वदति हि उद्धृतचक्षुः  
स्वप्नेऽद्य मया भ्राता दृष्ट इति ।

रहित है उस ( आत्मा ) का संयोग-  
जनित दृष्टि आदि अनित्य धर्मोंसे  
युक्त होना सम्भव नहीं है । ऐसी  
ही “दृष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं  
होता” इत्यादि श्रुति भी है । इस  
प्रकार दो दृष्टि सिद्ध होती हैं—  
( १ ) नेत्रकी अनित्य दृष्टि और ( २ )  
आत्माकी नित्य दृष्टि । इसी प्रकार दो  
श्रुति हैं—श्रोत्रकी अनित्य श्रुति और  
आत्माकी नित्य श्रुति । तथा इसी  
प्रकार बाह्य और अबाह्यरूप दो मति  
और दो विज्ञानि हैं । ऐसी अवस्थामें  
ही “दृष्टिका दृष्टा है, श्रुतिका श्रोता  
है” इत्यादि श्रुति सार्थक हो  
सकती है ।

लोकमें भी निमिर रोगकी उत्पत्ति  
और विनाशमें ‘दृष्टि नष्ट हो गयी,  
दृष्टि उत्पन्न हो गयी’ इस प्रकार  
नेत्रकी दृष्टिका अनित्यत्व प्रसिद्ध ही  
है । इसी प्रकार श्रुति-मति इत्यादि-  
का [ अनित्यत्व माना गया है; ] और  
आत्माकी दृष्टि आदिका नित्यत्व तो  
लोकमें प्रसिद्ध ही है । जिसके नेत्र  
निकाल लिये गये हैं वह पुरुष भी  
ऐसा कहता ही है कि ‘आज  
स्वप्नमें मैंने अपने भाईको देखा था ।’

तथावगतवाधिर्यः स्वप्ने श्रुतो मन्त्रो  
ऽद्येत्यादि । यदि चक्षुःसंयोग-  
जैवात्मनो नित्या दृष्टिस्तन्नाशे  
नश्येत् । तदोद्भूतचक्षुः स्वप्ने  
नीलपीतादि न पश्येत् । “न हि  
द्रष्टुर्दृष्टेः” ( वृ० उ० ४ । ३ ।  
२३ ) इत्याद्या च श्रुतिरनुपपन्ना  
स्यात् । “तच्चक्षुः पुरुषो येन  
स्वप्ने पश्यति” इत्याद्या च  
श्रुतिः ।

नित्या आत्मनो दृष्टिर्वाद्या-  
नित्यदृष्टेर्ग्राहिका । बाह्यदृष्टेश्चो-  
पजनापायाद्यनित्यधर्मवच्चात्तद्-  
ग्राहिकाया आत्मदृष्टेस्तद्बदवभा-  
सत्वमनित्यत्वादि भ्रान्तिनिमित्तं  
लोकस्येति युक्तम् । यथा भ्रम-  
णादिधर्मवदलातादिवस्तुविषय-  
दृष्टिरपि भ्रमतीव तद्वत् । तथा

तथा जिसका बहिरापन सबको  
ज्ञात है वह भी ‘मैंने स्वप्नमें मन्त्र  
सुना’ इत्यादि कहता ही है । यदि  
आत्माकी नित्य दृष्टि नेत्रेन्द्रियके  
संयोगसे ही उत्पन्न होनेवाली हो  
तो वह उसका नाश होनेपर नष्ट  
हो जाय । उस अवस्थामें जिसके  
नेत्र निकाल लिये गये हैं वह  
पुरुष स्वप्नमें नील-पीला आदि  
नहीं देख सकेगा और तब “द्रष्टाकी  
दृष्टिका लोप नहीं होता” इत्यादि  
श्रुति और “वह नेत्र है, जिसके द्वारा  
पुरुष स्वप्नमें देखता है” इत्यादि  
श्रुति भी निरर्थक हो जायगी ।

आत्माकी नित्य दृष्टि बाह्य अनित्य  
दृष्टिको ग्रहण करनेवाली है । बाह्य  
दृष्टि उत्पत्ति-विनाशादि अनित्य  
धर्मवाली है; अतः लोगोंको जो  
उसे ग्रहण करनेवाली आत्म-  
दृष्टिका उसीके समान भासित  
होना और अनित्य होना आदि प्रतीत  
होता है वह भ्रान्तिके कारण है—  
ऐसा मानना ठीक ही है । जिस  
प्रकार भ्रमण आदि धर्मवाली अलात-  
चक्र आदि वस्तुओंसे सम्बन्धित  
दृष्टि भी भ्रमनी-सी जान पड़ती है;  
उसी प्रकार [ इसे समझना

च श्रुतिः “ध्यायतीव लेलायतीव”

( वृ० उ० ४ । ३ । ७ ) इति ।

तस्मादात्मदृष्टेर्नित्यत्वान्न यौग-  
पद्यमयौगपद्यं वास्ति ।

वाद्यानित्यदृष्ट्युपाधिवशात्तु  
लोकस्य तार्किकाणां चागम-  
संप्रदायवर्जितत्वाद् अनित्या आ-  
त्मनो दृष्टिरिति भ्रान्तिरुपपन्नैव ।  
• जीवेश्वरपरमात्मभेदकल्पना चै-  
तन्निमित्तैः । तथा च अस्ति  
नास्तीत्याद्याश्च यावन्तो वाङ्मन-  
सयोर्भेदा यत्रैकं भवन्ति, तद्वि-  
पयाया नित्याया दृष्टेर्निर्दिशेपा-  
याः—अस्ति नास्ति, एकं नाना, गुण-  
वदगुणम्, जानाति न जानाति,  
क्रियावदक्रियम्, फलवदफलम्,  
सवीजं निर्बीजम्, सुखं दुःखम्,  
मध्यममध्यम्, शून्यमशून्यम्,  
परोऽहमन्य इति वा सर्ववाकप्रत्य-  
यागोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितु-  
मिच्छति; स नूनं खमपि चर्म-

चहिये ] । ऐसा ही “ध्यायतीव  
लेलायतीव” आदि श्रुति भी कहती  
है । अत नित्य होनेके कारण  
आत्मदृष्टिका यौगपद्य ( अनेक  
दृष्टियोंका एक साथ होना ) अथवा  
अयौगपद्य नहीं है ।

वाङ्मन अनित्य-दृष्टिरूप उपाधिके  
कारण लोकज्ञे और तार्किक पुरुषों-  
को वैदिक सम्प्रदायसे रहित होनेके  
कारण ऐसी भ्रान्ति होना उचित  
ही है कि आत्माकी दृष्टि अनित्य  
है । जीव, ईश्वर और परमात्माके  
भेदकी कल्पना भी इसी निमित्तसे  
है । इसी प्रकार अस्ति ( है )  
नास्ति ( नहीं है ) आदि जितने  
भी वाणी और मनके भेद हैं वे सब  
जहाँ एक हो जाते हैं । उसे प्रिय  
करनेवाली नित्य निर्दिशेप दृष्टिके  
सम्पूर्ण वाकप्रतीतियोंके अप्रिय  
स्वरूपमें जो है-नहीं है, एक-  
अनेक, सगुण निर्गुण, जानता है,  
नहीं जानता, सक्रिय निष्क्रिय,  
सफल-निष्फल, सवीज-निर्बीज,  
सुख-दुःख, मध्य-अमध्य, शून्य-  
अशून्य अथवा पर-अह एवं अन्य-  
की कल्पना करना चाहता है वह  
निश्चय ही आकाशको भी चमड़ेके

वद्रेष्टयितुमिच्छति, सोपानमिव  
च पद्भ्यामारोढुम्, जले खे च  
मीनानां त्रयसां च पदं दिदृक्षते ।  
“नेति नेति” ( वृ० उ० ३ । ९ ।  
२६ ) “यतो वाचो निवर्तन्ते”  
( तै० उ० २ । ४ । १ ) इत्या-  
दिश्रुतिभ्यः । “को अद्वा वेद”  
( ऋ० सं० १ । ३० । ६ )  
इत्यादिमन्त्रवर्णात् ।

कथं तर्हि तस्य स म आत्मेति  
वेदनम् । ब्रूहि केन प्रकारेण तमहं  
स म आत्मेति विद्याम् ।

अत्रारख्यायिकामाचक्षते—क-  
कश्चित्किल मनुष्यो मुग्धः कैश्चि-  
दुक्तः कस्मिंश्चिदपराधे सति  
धिक्त्वां नासि मनुष्य इति ।  
स मुग्धतया आत्मनो मनुष्यत्वं  
प्रत्यायितुं कंचिदुपेत्याह ब्रवीतु  
भवान्कोऽहमस्मीति । स तस्य  
मुग्धतां ज्ञात्वाह । क्रमेण बोध-  
यिष्यामीति । स्यावराद्यात्मभाव-

समान लपेटना चाहता है और  
अपने पैरोंसे उसपर सीढ़ियोंके  
समान आरूढ़ होनेको उद्यत है ।  
वह मानो जल और आकाशमें मछली  
तया पक्षियोंके चरणचिह्न देखनेको  
उत्सुक है; जैसा कि “नेति नेति”  
“यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादि  
श्रुतियों और “को अद्वा वेद”  
इत्यादि मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है ।

पूर्व०—तो फिर उसे ‘वह मेरा  
आत्मा है’ इस प्रकार कैसे जाना  
जाता है ? वतलाओ उसे मैं किस  
प्रकारसे ‘वह मेरा आत्मा है’ इस  
प्रकार जानूँगा ?

सिद्धान्ती—इस विषयमें एक  
आख्यायिका कहते हैं, किसी मूढ़  
मनुष्यसे किसीने, उससे कोई  
अपराध बन जानंपर, कहा—‘तुझे  
धिक्कार है, तू मनुष्य नहीं है ।’  
उसने मूढ़तावश अपना मनुष्यत्व  
निश्चित करानेके लिये किसीके पास  
जाकर कहा—‘आप वतलाइये, मैं  
कौन हूँ ?’ वह उसकी मूर्खता  
समझकर उससे बोला—‘धीरे-धीरे  
वतलाऊँगा ।’ और फिर स्यावरादिमें



मपोह्य न त्वममनुष्य इत्युक्तवो-  
परराम । स तं मुग्धः प्रत्याह  
भवान्मां बोधयितुं प्रवृत्तस्तूर्णानि  
वभूव । किं न बोधयतीति ? तादृ-  
गेव तद्भवतो वचनम् । नास्य-  
मनुष्य इत्युक्तेऽपि मनुष्यत्वमा-  
त्मनो न प्रतिपद्यते यः स कथं  
मनुष्योऽसीत्युक्तोऽपि मनुष्यत्व-  
मात्मनः प्रतिपद्येत ?

तस्माद्यथाशास्त्रोपदेश एवा-  
त्मावबोधविधिर्नान्यः । न ह्यग्ने-  
र्दाहं तृणाद्यन्येन केनचिद्गन्धुं  
शक्यम् । अत एव शास्त्रमात्म-  
स्वरूपं बोधयितुं प्रवृत्तं सद-  
मनुष्यत्वप्रतिषेधेनेव “नेति  
नेति” ( वृ० उ० ३ । ९ । २६ )  
इत्युक्तवोपरराम । तथा “अनन्त-  
रमवाह्यम्” ( वृ० उ० २ । ५ ।  
१९, ३ । ८ । ८ ) “अथमात्मा  
ब्रह्म सर्वानुमूः” ( वृ० उ० २ । ५ ।  
१९ ) इत्यनुशासनम् । “तत्त्व-  
मसि” ( छा० उ० ६ । ८-१६ )  
यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन

उसके आत्मत्वका निषेध बतलाक  
'तू अमनुष्य नहीं है,' ऐसा कहकर  
चुप हो गया । तब उस मूर्खने  
उससे कहा—‘आप मुझे समझानेके  
लिये प्रवृत्त होकर अब चुप हो गये,  
समझाते क्यों नहीं हैं ?’ उसीके  
समान आपके ये वचन हैं । जो  
पुरुष ‘तू अमनुष्य नहीं है’ ऐसा  
कहनेपर अपना मनुष्यत्व नहीं  
समझता वह ‘तू मनुष्य है’ ऐसा  
कहनेपर भी अपना मनुष्यत्व कैसे  
समझ सकेगा ?

अतः जैसा शास्त्रका उपदेश है  
उसके अनुसार ही आत्मसाक्षात्कार-  
की विधि है, उससे भिन्न नहीं ।  
अग्निसे दग्ध होनेवाले तृण आदि  
किमी अन्य वस्तुसे नहीं जलाये  
जा सकते । अतएव शास्त्र आत्म-  
स्वरूपका बोध करानेके लिये प्रवृत्त  
होकर अमनुष्यत्वके प्रतिषेधके  
समान “नेति नेति” ऐसा कहकर  
चुप हो गया है । इसी तरह  
“अन्तर्बाह्यभावसे रहित” “यह  
आत्मा सबका अनुभव करनेवाला  
ब्रह्म है” इत्यादि भी शास्त्रका  
उपदेश है । तथा “वह तू है”  
“जहाँ इसके लिये सब कुल आत्मा

कं पश्येत्" ( बृ० उ० २ । ४ ।  
१४, ४ । ५ । १५ ) इत्येवमा-  
द्यपि च ।

यावदयमेवं यथोक्तमिममा-  
त्मानं न वेत्ति तावदयं ब्रह्मा-  
नित्यदृष्टिलक्षणमुपाधिमात्मत्वे-  
नोपेत्य अविद्या उपाधिधर्मा-  
नात्मनो मन्यमानो ब्रह्मादिस्तन्व-  
पर्यन्तेषु देवतिर्यङ्नरस्थानेषु पुनः  
पुनरावर्तमानोऽविद्याकामकर्मव-  
शात्संसरति । स एवं संसरन्तु-  
पात्तदेहेन्द्रियसंघातं त्यजति ।  
त्यक्त्वान्यमुपादत्ते ! पुनः पुन-  
रेवमेव नदीस्रोतोवज्जन्ममरण-  
प्रवन्धाविच्छेदेन वर्तमानः का-  
भिरवस्थाभिर्वर्तत इत्येतमर्थं द-  
र्शयन्त्याह श्रुतिवैराग्यहेतोः—

ही हो जाता है वहाँ किससे किसे  
देखे ?" इत्यादि ऐसे ही और भी  
वाक्य यही बतलाते हैं ।

जबतक यह जीव उपर्युक्त  
आत्माको 'यह ऐसा है' इस प्रकार  
नहीं जानता तबतक यह बाह्य  
अनित्य दृष्टिरूप उपाधिको आत्म-  
भावसे प्राप्त होकर अविद्यावश  
उपाधिके धर्मोंको आत्माके धर्म  
मानता हुआ ब्रह्मासे लेकर स्तम्भ-  
पर्यन्त देवता, पशु-पक्षी और  
मनुष्योंकी योनियोंमें पुनः-पुनः चकर  
लगाता हुआ अविद्या, कामना और  
कर्मके अधीन हो [ जन्म-मरणरूप ]  
संसारको प्राप्त होता रहता है । वह  
इस प्रकार संसारको प्राप्त होता  
हुआ प्राप्त हुए देह और इन्द्रियके  
संघातको त्याग देता है और एकको  
त्याग कर दूसरेको ग्रहण कर लेता  
है । वह इसी प्रकार नदीके स्रोतके  
समान जन्म-मरणकी परम्पराका  
विच्छेद न होते हुए किन अवस्थाओं-  
में रहता है इसी बातको [ मनुष्योंके  
मनमें ] वैराग्य उत्पन्न करानेके लिये  
दिखाती हुई श्रुति कहती है—

दुःखका पहला जन्म

पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति । यदेतद्रेतः

तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवात्मानं विभर्ति ।  
तद्यदा स्त्रियां सिञ्चत्यथैनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥१॥

सबसे पहले यह पुरुषशरीरमें ही गर्भरूपसे रहता है । यह जो प्रसिद्ध रेतस् ( वीर्य ) है वह पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गोंसे उत्पन्न हुआ तेज ( सार ) है । पुरुष इस आत्ममूत तेजको अपने [ शरीर ] में ही पोषण करता है । फिर जिस समय वह इसे स्त्रीमें सींचता है तब इसे [ गर्भ-रूपसे ] उत्पन्न करता है । यह इसका पहला जन्म है ॥ १ ॥

अयमेवाविद्याकामकर्माभिमा-  
नवान् यज्ञादिकर्म कृत्वास्माल्लो-  
काद् धूमादिक्रमेण चन्द्रमसं  
प्राप्य क्षीणकर्मा वृष्ट्यादिक्रमे-  
णमं लोकं प्राप्य अन्नभूतः  
पुरुषाग्नौ हुतः । तस्मिन्पुरुषे ह  
वा अयं संसारी रसादिक्रमेण  
आदितः प्रथमतो रेतोरूपेण  
गर्भो भवतीत्येतदाह यदेतत्पु-  
रुषे रेतस्तेन रूपेणोति ।

तच्चैतद्रेतोऽन्नमयस्य पिण्डस्य  
सर्वेभ्योऽङ्गेभ्योऽन्नयवेभ्यो रसा-  
दिलक्षणेभ्यस्तेजः साररूपं शरी-  
रस्य संभूतं परिनिष्पन्नं तत्पुरुष-

अविद्या, काम और कर्मजनित  
अभिमानवाला यह जीव ही यज्ञादि  
कर्म करके इस लोकसे धूमादि  
क्रमसे चन्द्रलोकको प्राप्त हो कर्मकि  
क्षीण होनेपर वृष्टि आदि क्रमसे  
इस लोकको प्राप्त होनेपर अन्नरूप-  
से पुरुषरूप अग्निमें हवन किया  
जाता है । उस पुरुषमें यह संसारी  
जीव रसादिक्रमसे सबसे पहले  
शुक्ररूपसे गर्भ होता है । इसी  
वातको 'यह जो पुरुषमें रेतस् है  
तद्रूपमे [ गर्भ होता है ]' इस  
वाक्यसे कहा है ।

वह यह रेतस् ( शुक्र ) अन्नमय  
पिण्डके रसादिरूप सम्पूर्ण अङ्ग  
यानी अवयवोंसे तेज-शरीरका  
सारमूत निष्पन्न हुआ है । वह  
पुरुषका आत्ममूत होनेके कारण

स्यात्मभूतत्वादात्मा । तमात्मानं  
रेतोरूपेण गर्भीभूतमात्मन्येव  
स्वशरीर एवात्मानं विभक्तिं  
धारयति ।

तद्रेतो यदा यस्मिन्काले  
भार्यतुमती तस्यां योपाश्रौ स्त्रियां  
सिञ्चत्युपगच्छन्, अथ तदैतदेत-  
द्रेत आत्मनो गर्भभूतं जनयति  
पित्रा । तदस्य पुरुषस्य स्थाना-  
न्निर्गमनं रेतःसेककाले रेतोरूपे-  
णास्य संसारिणः प्रथमं जन्म-  
प्रथमावस्थामिब्यक्तिः । तदेतदुक्तं  
पुरस्तात् “असावात्मानमुमात्मा-  
नम्” इत्यादिना ॥ १ ॥

‘आत्मा’ है । शुक्ररूपसे गर्भीभूत  
हुए उस आत्माको पुरुष अपने  
शरीरमें ही धारण ( पोषण )  
करता है ।

जिस समय भार्या ऋतुमती होती  
है उस समय पिता उस शुक्रको  
स्त्रीरूप अग्नि—अर्थात् स्त्री [ की  
योनि ] में उससे संयोग करके  
सींचता है उस समय वह इस  
शुक्रको अपने गर्भरूपसे उत्पन्न  
करता है । इस प्रकार रेतःसिञ्चन-  
कालमें रेतोरूपसे अपने स्थानसे  
निकलना ही इस संसारी पुरुषका  
प्रथम जन्म अर्थात् प्रथमावस्थाकी  
अभिब्यक्ति है । यही बात “असावात्मा  
अमुमात्मानम्” इत्यादि वाक्यसे पहले  
कही गयी है ॥ १ ॥

तस्त्रिया आत्मभूतं गच्छति । यथा स्वमङ्गं  
तथा । तस्मादेनां न हिनस्ति । सास्यैतमात्मानमत्रगतं  
भावयति ॥ २ ॥

जिस प्रकार [ स्तनादि ] अपने अङ्ग होते हैं उसी प्रकार वह वीर्य  
स्त्रीके आत्मभाव ( तादात्म्य ) को प्राप्त हो जाता है । अतः वह उसे पीडा  
नहीं पहुँचाता । अपने उदरमें गये हुए उस ( पति ) के इस आत्माका वह  
पोषण करती है ॥ २ ॥

तद्वेतो यस्यां स्त्रियां सित्तं  
सत्तस्या आत्मभूयमात्माव्यति  
रेकतां यथा पितुरेवं गच्छति  
प्राप्नोति यथा स्वमङ्गं स्तनादि  
तथा तद्वदेव । तस्माद्वेतोरेनां  
मातरं स गर्भो न हिनस्ति  
पिटकादिवत् । यस्मात्स्तनादि-  
स्वाङ्गवदात्मभूतं गतं तस्मान्न  
हिनस्ति न बाधत इत्यर्थः ।

सा अन्तर्वत्त्येतमस्य भर्तुरा-  
त्मानमत्रात्मन उदरे गतं प्रविष्टं  
बुद्ध्या भावयति वर्धयति परि-  
पालयति गर्भविरुद्धाशनादिपरि-  
हारमनुकूलाशनाद्युपयोगं च  
कुर्वती ॥ २ ॥

वह वीर्य जिस स्त्रीमें सींचा  
जाता है उस स्त्रीके आत्मभाव  
अर्थात् पिताके शरीरके समान उसके  
शरीरमें अभिन्नताको प्राप्त हो जाता  
है । जिस प्रकार अपने अङ्ग स्तनादि  
( देहसे पृथक् नहीं ) होते हैं उसी  
प्रकार यह भी हो जाता है । इसीलिये  
यह गर्भ पिटक ( आन्तरिक ब्रणरूप  
ग्रन्थि ) आदिके समान उसमाताको  
कष्ट नहीं देता । क्योंकि वह स्तनादि  
अपने अङ्गके समान शरीरसे अभेद-  
को प्राप्त हो जाता है इसलिये वह  
[ किसी प्रकारका ] कष्ट यानी  
बाधा नहीं पहुँचाता—यह इसका  
तात्पर्य है ।

वह गर्भिणी इस अपने पतिके  
आत्माको यहाँ—अपने उदरमें प्रविष्ट  
हुआ जानकर गर्भके निरोधी  
भोजनादिको त्यागकर अनुकूल  
भोजनादिका उपयोग करती हुई  
उसका पालन करती है ॥ २ ॥

पुरुरका दूसरा जन्म

सा भावयित्री भावयित्तव्या भवति तं स्त्री गर्भं  
विभर्ति । सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति । स

यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां  
लोकानां सन्तत्या । एवं सन्तता हीमे लोकास्तदस्य  
द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥

वह [ गर्भभूत पतिके आत्माका ] पालन करनेवाली [ गर्भिणी स्त्री  
अपने पतिद्वारा ] पालनीया होती है । गर्भिणी स्त्री उस गर्भका पोषण  
करती है तथा वह ( पिता ) गर्भरूपसे उत्पन्न हुए उस कुमारको  
प्रसवके अनन्तर पहले [ जातकर्मादि संस्कारोंसे ] ही संस्कृत करता  
है । वह जो जन्मके अनन्तर कुमारका संस्कार करता है सो इस  
प्रकार इन लोकों ( पुत्र-पौत्रादि ) की वृद्धिसे वह अपना ही संस्कार  
करता है; क्योंकि इसी प्रकार इन लोकोंकी वृद्धि होनी है—यही इसका  
दूसरा जन्म है ॥ ३ ॥

सा भावयित्री वर्धयित्री भर्तु-  
रात्मनो गर्भभूतस्य भावयितव्या  
वर्धयितव्या रक्षयितव्या च  
भर्ता भवति । न ह्युपकार-  
प्रत्युपकारमन्तरंण लोके कस्य-  
चित्केनचित्सम्बन्ध उपपद्यते ।  
तं गर्भं स्त्री यथोक्तेन गर्भधारण-  
विधानेन विभर्ति धारयत्यग्रे  
प्राग्जन्मनः । स पिता अग्र एव  
पूर्वमेव जातमात्रं जन्मनोऽप्युर्ध्वं  
जन्मनो जातं कुमारं जातकर्मा-  
दिना पिता भावयति । स  
पिता यद्यस्मात्कुमारं जन्मनो-

गर्भभूत पतिके आत्माका वृद्धि  
करनेवाली वह स्त्री अपने स्वामीद्वारा  
वर्धयितव्या—पालनीया होती है;  
क्योंकि लोकमें उपकार-प्रत्युपकारके  
बिना किसीके साथ किसीका सम्बन्ध  
होना सम्भव नहीं है । जन्म होनेसे  
पूर्व उस गर्भको वह स्त्री गर्भधारणकी  
यथोक्त विधिसे धारण-पोषण करती  
है । तथा वह पिता [ जन्म होनेके बाद ]  
पहले ही जन्म लेने ही उस कुमारका  
जन्मके अनन्तर जातकर्मादिद्वारा  
संस्कार करता है । वह पिता जो जन्म-  
के अनन्तर उस सस्योजात कुमारका

ऽध्वर्युर्मग्रे जातमात्रमेव  
जातकर्मादिना यद्भावयति त-  
दात्मानमेव भावयति । पितुरा-  
त्मैव हि पुत्ररूपेण जायते । तथा  
सुक्तम् “पतिर्जायां प्रविशति”  
(हरि० ३।७३।३१) इत्यादि ।

तत्किमर्थमात्मानं पुत्ररूपेण  
जनयित्वा भावयतीत्युच्यते—  
एषां लोकानां सन्तत्या अविच्छे-  
दायेत्यर्थः । विच्छिद्येरन्हीमे  
लोकाः पुत्रोत्पादनादि यदि न  
कुर्युः केचन । एवं पुत्रोत्पाद-  
नादिकर्माविच्छेदेनैव सन्तताः  
प्रबन्धरूपेण वर्तन्ते हि यस्मादिमे  
लोकास्तस्मात्तदविच्छेदाय तत्क-  
र्तव्यं न मोक्षायैत्यर्थः । तदस्य  
संसारिणः कुमाररूपेण मातुरुद-  
राद्यन्निर्गमनं तद्रेतोरूपापेक्षया  
द्वितीयं जन्म द्वितीयावस्थामि-  
व्यक्तिः ॥ ३ ॥

जातकर्म आदिसे सस्कार करता है  
सो मानो अपना ही सस्कार करता  
है, क्योंकि पिताका आत्मा ही पुत्र-  
रूपसे उत्पन्न होता है । यही बात  
“पतिर्जाया प्रविशति” इत्यादि  
शाक्योमें कही है ।

पिता अपनेको पुत्ररूपसे उत्पन्न  
करके क्यों सस्कार करता है ?  
इसपर कहते हैं—इन लोकोंके विस्तार  
अर्थात् अविच्छेदके लिये । यदि कोई  
पुत्रोत्पादनादि न करे तो ये लोक  
विच्छिन्न हो जायें । इस प्रकार,  
क्योंकि पुत्रोत्पादनादि कर्मोंका  
विच्छेद न होनेके कारण ही ये  
लोक वृद्धिको प्राप्त होकर प्रमाहरूप-  
से वर्तमान रहते हैं इसलिये उनके  
अविच्छेदके लिये उस [ पुत्रो-  
त्पादनादि ] को करना चाहिये,  
मोक्षके लिये नहीं—यह इसका  
अभिप्राय है । इस प्रकार कुमार-  
रूपसे जो माताके उदरसे बाहर  
निकलना है वही इस संसारी  
जीवका, रेतोरूप जन्मकी अपेक्षा,  
दूसरा जन्म यानी इसकी द्वितीय  
अवस्थाकी अभिव्यक्ति है ॥ ३ ॥

## पुरुषका तीसरा जन्म

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते । अथास्या-  
यमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति । स इतः  
प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥

इस ( पिता ) का यह [ पुत्ररूप ] आत्मा पुण्यकर्मोंके अनुष्ठानके  
लिये [ घरमें पिताके स्थानपर ] प्रतिनिधिरूपसे स्थापित किया जाता  
है । तदनन्तर इसका यह अन्य ( पितृरूप ) आत्मा वृद्धावस्थामें पहुँचकर  
कृतकृत्य होकर यहाँसे कूच कर जाता है । यहाँसे कूच करनेके अनन्तर  
ही वह [ कर्मफलभोगके लिये ] पुनः जन्म लेता है । यही इसका तीसरा  
जन्म है ॥ ४ ॥

अस्य पितुः सोऽयं पुत्रात्मा  
पुण्येभ्यः शास्त्रोक्तेभ्यः कर्मभ्यः  
कर्मनिष्पादनार्थं प्रतिधीयते पितुः  
स्थाने पित्रा यत्कर्तव्यं तत्कर-  
णाय प्रतिनिधीयत इत्यर्थः ।  
तथा च संप्रतिविद्यायां वाज-  
सनेयके पित्रानुशिष्टः—“अहं  
ब्रह्माहं यज्ञः” ( वृ० उ० १।५ )  
१७ ) इत्यादि प्रतिषद्यत इति ।

अथानन्तरं पुत्रे निवेश्यात्म-  
नो मारमस्य पुत्रस्येतरोऽयं यः  
पित्रात्मा कृतकृत्यः कर्तव्या-  
दृणत्रयाद्विमुक्तः कृतकर्तव्य

इस पिताका वह यह पुत्ररूप  
आत्मा पुण्य यानी शास्त्रोक्त कर्मोंके  
निमित्त अर्थात् कार्यसम्पादनके  
लिये पिताके स्थानपर प्रतिनिधि  
स्थापित किया जाता है । अर्थात्  
पिताको जो कुछ करना चाहिये  
उसे करनेके लिये यह प्रतिनिधि  
होता है । यही बात बृहदारण्यको-  
पनिषद्में संप्रतिविद्याके\* प्रकरणमें  
पितासे शिक्षा पाकर पुत्र कहता  
है—“मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ” इत्यादि ।

तदनन्तर पुत्रपर अपना भार  
छोड़कर इस पुत्रका यह नितारूप  
दूसरा आत्मा कृतकृत्य यानी कर्तव्य-  
रूप ऋणत्रयसे मुक्त होकर अर्थात्  
अपना कर्तव्य सम्पादन करके वयोगत

\* जिसमें पुत्रको अपने कर्तव्य करनेकी बात बारी गयी है ।



इत्यर्थः, वयोगतो गतवया  
जीर्णः सन्प्रैति म्रियते । स इतो-  
ऽस्मात्प्रयन्नेव शरीरं परित्यजन्नेव  
वृणजल्लकावद् देहान्तरमुपाद-  
दानः कर्मचितं पुनर्जायते ।  
तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यं यत्तत्तृ-  
तीयं जन्म ।

ननु संसरतः पितुः सकाशा-  
द्रेतोरूपेण प्रथमं जन्म । तस्यैव  
कुमाररूपेण मातुर्द्वितीयं जन्मो-  
क्तम् । तस्यैव तृतीये जन्मनि  
वक्तव्ये प्रेतस्य पितुर्यज्जन्म तत्तृ-  
तीयमिति कथमुच्यते ?

नैष दोषः; पितापुत्रयोरै-  
कात्म्यस्य विवक्षितत्वात् ।  
सोऽपि पुत्रः स्वपुत्रे भारं निधा-  
येतः प्रयन्नेव पुनर्जायते यथा  
पिता । तदन्यत्रोक्तमितरत्राप्यु-  
क्तमेव भवतीति मन्यते श्रुतिः;  
पितापुत्रयोरैकात्मत्वात् ॥ ४ ॥

होकर-अस्था समाप्त हो जानेपर  
अर्थात् वृद्ध होनेपर प्रेत-मृत्युको प्राप्त  
हो जाता है । वह यहाँसे जाने समय  
अर्थात् शरीरको त्यागता हुआ ही  
निनकेकी जोंक आदिके समान  
कर्मोपलब्ध अन्य देहको प्राप्त करके  
पुन उत्पन्न होता है । वह जो इसे  
मरनेपर प्राप्त हुआ करता है, इसका  
तीसरा जन्म है ।

शङ्का-ससारी जीवका पितासे  
वीर्यरूपसे पहला जन्म बनलया,  
उसाका कुमाररूपसे मातासे दूसरा  
जन्म कहा । अब उसीका तीसरा  
जन्म बनलते समय उसके मृत  
पिताका जो जन्म होता है वही  
इसका तीसरा जन्म है-ऐसा क्यों  
कहा गया ?

समाधान-पिता और पुत्रकी  
एकात्मता बतलानी इष्ट होनेके  
कारण ऐसा कहनेमें कोई दोष नहीं  
है । वह पुत्र भी अपने पिताके  
समान अपने पुत्रपर भार छोड़कर  
यहाँसे कूच करनेपर फिर उत्पन्न  
होता ही है । यह बात एकके  
प्रति कही जानेपर दूसरेके लिये  
भी कह ही दी गयी है-ऐसा श्रुति  
मानती है, क्योंकि पिता और पुत्र  
एकरूप ही हैं ॥ ४ ॥

## वामदेवकी उक्ति

एवं संसरन्नत्रस्थामिभ्यक्ति-  
त्रयेण जन्ममरणप्रबन्धारूढः सर्वो  
लोकः संसारसमुद्रे निपतितः  
कथंचिद्यदा श्रुत्युक्तमात्मानं  
विजानाति यस्यां कस्यांचिद-  
वस्थायां तदैव मुक्तसर्वसंसार-  
बन्धनः कृतकृत्यो भवतीति—

इस प्रकार संसरण करता [ अर्थात्  
संसारमें उत्पन्न होता ] हुआ और  
अवस्थाकी तीन अभिव्यक्तियोंके  
क्रमसे जन्म-मरणरूप परम्परापर-  
आरूढ़ हुआ सम्पूर्ण लोक संसार-  
समुद्रमें पड़ा-पड़ा जिस समय किसी  
प्रकार जिस-किसी अवस्थामें भी अपने  
श्रुतिप्रतिपादित आत्माको जान लेता  
है उसी समय वह सम्पूर्ण संसार-  
बन्धनोंसे मुक्त होकर कृतकृत्य हो  
जाता है—

तदुक्तमृषिणा— गर्भे नु सन्नन्त्रेपामवेदमहं  
देवानां जनिमानि विश्वा । शतं मा पुर आयसीरपक्षन्नधः  
श्येनो जवसा निरदीयमिति । गर्भे एवैतच्छयानो  
वामदेव एवमुवाच ॥ ५ ॥

यही बात ऋषि ( मन्त्र ) ने भी कही है— 'मैंने गर्भमें रहते हुए ही इन  
देवताओंके सम्पूर्ण जन्मोंको जान लिया है । [ तत्त्वज्ञान होनेसे पूर्व ]  
मैं सैकड़ों लोहमय ( लोहेके समान सुदृढ़ ) शरीरोंद्वारा अवरूढ़ किया  
हुआ था । अब [ तत्त्वज्ञानके प्रभावसे ] मैं श्येन पक्षीके समान [ उनका  
छेदन करके ] बाहर निकल आया हूँ—' शानदेवने गर्भमें शयन करते  
समय ही ऐसा कहा था ॥ ५ ॥

एतद्वस्तु तदृषिणा मन्त्रेणा-  
प्युक्तमित्याह—

गर्भे नु मातुर्गर्भाशय एव  
सन् । न्विति वितर्के । अनेक-

यही बात ऋषि यानी मन्त्रने  
भी कही है, सो बतलाते हैं—

'गर्भे नु'—माताके गर्भमें  
रहने हुए ही—यहाँ 'नु' शब्द

जन्मान्तरमावनापरिपाकवशादेपां  
 देवानां वागग्न्यादीनां जनिमानि  
 जन्मानि विश्वा विश्वानि सर्वा-  
 ष्यन्ववेदमहमहो अनुबुद्धवान-  
 स्सीत्यर्थः शतमनेका बह्वथोमा  
 मां पुर आयसीः आयस्यो लोह-  
 मय्य इवाभेधानि शरीराणीत्य-  
 मिप्रायः, अरक्षन्नक्षितवत्यः  
 संसारपाशनिर्गमनादधः । अथ  
 श्येन इव जालं मित्वा जवसा  
 आत्मज्ञानकृतसामर्थ्येन निरदीयं  
 निर्गतोऽसि । अहो गर्भ एव  
 शयानो वामदेव ऋपिरेवमुवा-  
 चैतत् ॥ ५ ॥

वितर्कका बोध कराता है—अनेक  
 जन्मान्तरोंकी भावनाके परिपाकवश  
 मैंने इन वाक् एव अग्नि आदि देवताओं-  
 के सम्पूर्ण जन्मोंका अनुभव—बोध  
 प्राप्त किया है । मुझे ससार समाने  
 मुक्त होनेसे पूर्व आयसी 'अर्थात्'  
 लोहमयीके समान सैकड़ों—अनेकों  
 अभेध पुरियों—शरीरोंने सुरक्षित (अ-  
 रुद्ध) किया हुआ था । अब जालको  
 काटकर वेगसे उड़ जानेवाले श्येन  
 ( बाज पक्षी ) के समान मैं आत्मज्ञान-  
 जनित सामर्थ्यके द्वारा उससे बाहर  
 निकल आया हूँ—अहो ! वामदेव  
 ऋपिने गर्भमें शयन करते हुए ही  
 ऐसा कहा था ॥ ५ ॥

### वामदेवकी गति

स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्ध्व उत्क्रम्यामुप्सि-  
 न्त्स्वर्गं लोके सर्वान्कामानाप्त्वामृतः समभवत्समभवत् ॥ ६ ॥

वह [ वामदेव ऋपि ] ऐसा ज्ञान प्राप्तकर इस शरीरका नाश  
 होनेके अनन्तर उत्क्रमणकर इन्द्रियोंके अविषयभूत स्वर्ग ( स्वप्रकाश )  
 लोकमें सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्तकर अमर हो गया, [ अमर ] हो गया ॥ ६ ॥

स वामदेव ऋपिर्वथोक्तमा-  
 त्मानमेव विद्वानस्माच्छरीरभेदा-  
 च्छरीरस्याविद्यापरिकल्पितस्य  
 आयसवदनिर्वेद्यस्य जननमरणा-  
 दनेकानर्थशताविष्टशरीरप्रबन्धन-

वह वामदेव ऋपि पूर्वोक्त आत्मा-  
 को इस प्रकार जानकर इस शरीरका  
 नाश होनेके अनन्तर अर्थात्  
 लोहमयके समान दुर्भेद्य और जन्म-  
 मरणादि अनेक प्रकारके सैकड़ों  
 अनर्थोंसे समन्वित इस अविद्यापरि-

स परमात्मज्ञानामृतोपयोगज-  
 नितवीर्यकृतभेदाच्छरीरोत्पत्ति-  
 बीजाविद्यादिनिमित्तोपमर्दहेतोः  
 शरीरविनाशादित्यर्थः । ऊर्ध्वः  
 परमात्मभूतः सन्नधोमावात्सं-  
 सारादुत्क्रम्य ज्ञानावद्योतिता-  
 मलसर्वात्मभावमापन्नः सन्नमु-  
 ष्मिन्यथोक्तेऽजरऽमरेऽमृतेऽमये  
 सर्वज्ञेऽपूर्वेऽनपरेऽनन्तरेऽबाह्ये प्र-  
 ज्ञानामृतैकरसे प्रदीपवन्निर्वाण-  
 मत्यगमत्स्वर्गे लोके स्वसिन्ना-  
 त्मनि स्वे स्वरूपेऽमृतः समभवत् ।  
 आत्मज्ञानेन पूर्वमाप्तकामतया  
 जीवन्नेव सर्वान्कामानाप्त्वेत्यर्थः ।  
 द्विर्वचनं सफलस्य सोदाहरण-  
 स्यात्मात्मज्ञानस्य परिसमाप्तिप्रदर्श-  
 नार्थम् ॥ ६ ॥

कल्पित शरीरपरम्पराका परमात्म-  
 ज्ञानरूप अमृतके उपयोग ( आस्वाद )  
 से प्राप्त हुई शक्तिद्वारा भेद होनेपर  
 यानी शरीरोत्पत्तिके बीजभूत अविद्या  
 आदि निमित्तकी, निवृत्तिसे होनेवाले  
 देहपातके अनन्तर ऊर्ध्व अर्थात्  
 परमात्मभावको प्राप्त हो अथोभाव  
 यानी संसारसे ऊपर उठ तत्त्वज्ञानसे  
 उद्भासित निर्मल सर्वात्मभावको प्राप्त  
 हो उस ( इन्द्रियोसे अगोचर ) पूर्वोक्त  
 अजर, अमर, अमृत, अमय, सर्वज्ञ,  
 अपूर्व, अनन्य, अनन्तर, अबाह्य और  
 एकमात्र प्रज्ञानामृतस्वरूप स्वर्गलोकमें  
 दीपककी भाँति शान्त हो गया;  
 अर्थात् अपने आत्मा-स्वरूपमें  
 स्थित होकर अमृत हो गया । भाव यह  
 है कि आत्मज्ञानद्वारा पहलेहीसे पूर्ण-  
 काम होनेके कारण अर्थात् जीवित  
 अवस्थामें ही सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्तकर  
 [ वह अमरत्वको प्राप्त हो गया ] । फल  
 और उदाहरणके सहित आत्मज्ञानकी  
 सम्यक् समाप्ति सूचित करनेके लिये  
 यहाँ [ समभवत् समभवत्-ऐसी ]  
 द्विरुक्ति की गयी है ॥ ६ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-  
 श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावतरेयोपनिषद्भाष्ये द्वितीयेऽध्याये  
 प्रथमः खण्डः समाप्तः ।

उपनिषत्क्रमेण द्वितीयः, आरण्यकक्रमेण  
 पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ।

# तृतीय अध्याय

## प्रथम स्कण्ड

आत्मसम्बन्धी प्रश्न

ब्रह्मविद्यासाधनकृतसर्वात्म-  
भावफलावाप्तिं वामदेवाद्याचार्य-  
परम्परया श्रुत्यावद्योत्यमानां ब्रह्म-  
वित्परिपद्यत्यन्तप्रसिद्धामुपलभ-  
माना मुमुक्षवो ब्राह्मणा अधुनातना  
ब्रह्मजिज्ञासवोऽनित्यात्साध्यसा-  
धनलक्षणात्संसारदाजीवमावाद्  
व्याविवृत्सवो विचारयन्तो-  
ऽन्योन्यं पृच्छन्ति कोऽयमात्मेति ?  
कथम्—

श्रुतिद्वारा वामदेव आदि  
आचार्योंकी परम्परासे प्रकाशित  
तथा ब्रह्मवेत्ताओंकी सभामें अत्यन्त  
प्रसिद्ध, ब्रह्मविद्यारूप साधनके  
रूपे हुए सर्वात्मभावरूप फलकी  
प्राप्तिको उपलब्ध करनेवाले आधुनिक  
मुमुक्षु और ब्रह्मजिज्ञासु ब्राह्मणलोग  
जीवभावपर्यन्त साध्य साधनरूप  
अनित्य संसारसे निवृत्त होनेकी  
इच्छासे परस्पर विचार करते हुए  
पूछते हैं—यह आत्मा कौन है ?  
किस प्रकार [ पूछते हैं ? सो बतलाया  
जाता है ]—

कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे । कतरः स आत्मा,  
येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति  
येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च  
विजानाति ॥ १ ॥

हम जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है ? जिससे [ प्राणी ] देखता है, जिससे सुनता है, जिससे गन्धोंको सूँघता है, जिससे वाणीका विलेखण करता है और जिससे खादु-भखादुका ज्ञान प्राप्त करता है वह [ श्रुतिकथित दो आत्माओंसे ] कौन-सा आत्मा है ? ॥ १ ॥

यमात्मानमयमात्मेति साक्षा-  
द्वयमुपासहे कः स आत्मेति यं  
चात्मानमयमात्मेति साक्षादुपा-  
सीनो वामदेवोऽभृतः समभवत्त-  
मेव वयमप्युपासहे को नु खलु  
स आत्मेति ।

एवं जिज्ञासापूर्वमन्योन्यं पृ-  
च्छतामतिक्रान्तविशेषविषयश्रुति-  
संस्कारजनिता स्मृतिरजायत ।  
'तं प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मेणं  
पुरुषम्' 'स एतमेव सीमानं  
विदार्यंतया द्वारा प्रापद्यत'  
एतमेव पुरुषम् । अत्र द्वे ब्रह्मणी  
इतरेतरप्रातिकूल्येन प्रतिपन्ने  
इति । ते चास्य पिण्डसात्मभूते ।  
तयोरन्यतर आत्मोपासां भवि-

हम जिस आत्माकी 'यह आत्मा  
है' इस प्रकार साक्षात् उपासना  
करते हैं वह आत्मा कौन है ? तथा  
जिस आत्माकी 'यह आत्मा है' इस  
प्रकार साक्षात् उपासना करनेवाला  
वामदेव अमर हो गया था उसी  
आत्माकी हम उपासना करते हैं ।  
किन्तु वस्तुतः वह आत्मा है कौन-सा ?

इस प्रकार जिज्ञासापूर्वक एक  
दूसरेसे प्रश्न करते हुए उन्हें आत्म-  
सम्बन्धी विशेष विवरणसे युक्त  
पूर्वोक्त श्रुतिके संस्कारसे यह स्मृति  
पैदा हुई—'इस पुरुषमें ब्रह्म पादाप्र-  
भागद्वारा प्रविष्ट हुआ' तथा इसी  
पुरुषमें 'वह इस सीमाको ही  
विदीर्णकर इसके द्वारा प्राप्त हुआ ।'  
इस प्रकार यहाँ एक दूसरेसे प्रतिकूल  
दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं और वे  
इस पिण्डके आत्मस्वरूप हैं । इनमेंसे  
कोई एक ही आत्मा उपासनीय हो

तुमर्हति । योऽत्रोपास्यः कः स  
 आत्मेति विशेषनिर्धारणार्थं पुन-  
 रन्योन्यं पप्रच्छुर्विचारयन्तः ।  
 पुनस्तेषां विचारयतां विशेष-  
 विचारणास्पदविषया भतिरभूत् ।  
 कथम् ? द्वे वस्तुनी असिन् पिण्ड  
 उपलभ्येते । अनेकभेदमिन्नेन  
 करणेन येनोपलभते । यच्चैक  
 उपलभते । करणान्तरोपलब्ध-  
 विषयस्मृतिप्रतिसन्धानात् । तत्र  
 न तावद्येनोपलभते स आत्मा  
 भवितुमर्हति ।

केन पुनरुपलभत इत्युच्यते  
 येन वा चक्षुर्भूतेन रूपं पश्यति ।  
 येन वा शृणोति श्रोत्रभूतेन शब्दम्,  
 येन वा घ्राणभूतेन गन्धानाजि-  
 घति, येन वा वाक्करणभूतेन वाचं  
 नामात्मिकां व्याकरोति गौरश्च  
 इत्येवमाद्यां साध्वसाध्विति च,

सकता है । इनमें जो उपासनीय  
 है वह आत्मा कौन-सा है ? इस  
 विशेष बातको निश्चय करनेके लिये  
 उन्होंने आपसमें विचार करते हुए  
 एक-दूसरेसे फिर पूछा ।

फिर आपसमें विचार करनेवाले  
 उन मुमुक्षुओंको अपने विचारणीय  
 विशेष विषयके सम्बन्धमें यह बुद्धि  
 पैदा हुई । किस प्रकार पैदा हुई ?  
 [ सो बतलाते हैं— ] इस पिण्डमें  
 दो वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं—एक तो  
 जिस चक्षु आदि अनेक प्रकारके  
 भेदोंसे विभिन्न साधन ( इन्द्रियग्राम )  
 द्वारा [ पुरुष विषयोंको ] उपलब्ध  
 करता है और दूसरा जो उपलब्ध  
 किया करता है, क्योंकि वह भिन्न-  
 भिन्न इन्द्रियोंद्वारा उपलब्ध हुए  
 विषयोंकी स्मृतिका अनुसन्धान  
 करता है । उनमेंसे जिसके द्वारा पुरुष  
 उपलब्ध करता है वह तो आत्मा  
 हो नहीं सकता ।

तो फिर वह किसके द्वारा उपलब्ध  
 करता है, सो बतलाया जाता है—  
 नेत्रके साथ एकीभूत हुए जिस  
 श्रोत्रमात्राणके द्वारा वह शब्द श्रवण  
 करता है, जिस घ्राणेन्द्रियभूतसे वह  
 गन्धोंको सूँघता है, जिस वागिन्द्रिय-  
 भूतसे वह गौ-अश्व इत्यादि नामात्मिका  
 तथा साधु-असाधु, वाणीका विस्तारण

येन वा जिह्वाभूतेन स्वादु चास्वादु  
च विजानातीति ॥ १ ॥

करता है और जिस रसनेन्द्रियमूलसे  
वह स्वादु-अस्वादु पदार्थोंको जानता  
है ॥ १ ॥

प्रज्ञानसंज्ञक मनके अनेक नाम

किं पुनस्तदेवैकमनेकधा भिन्नं  
करणम् ? इत्युच्यते—

पहले जो एक ही अनेक प्रकार-  
से विभिन्न करण बतलाया है वह  
कौन है ? इसपर कहते हैं—

यदेतद्दृदयं मनश्चैतत् । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं  
प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः  
क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य  
नामधेयानि भवन्ति ॥ २ ॥

यह जो हृदय है वही मन भी है । संज्ञान ( चेतनता ), आज्ञान  
( प्रसुता ), विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूति  
( रोगादिजनित दुःख ), स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु ( प्राण ), काम  
और वश ( मनोह वस्तुओंके स्पर्शादिकी कामना )—ये सभी प्रज्ञानके  
नाम हैं ॥ २ ॥

यदुक्तं पुरस्तात्प्रजानां रेतो  
हृदयं हृदयस्य रेतो मनो मनसा  
सृष्टा आपश्च वरुणश्च हृदयान्मनो  
मनसश्चन्द्रमाः । तदेवैतद्दृदयं  
मनश्च, एकमेव तदनेकधा ।  
एतेनान्तःकरणेनैकेन चक्षुर्भूतेन

पहले जो कहा है कि प्रजाओं-  
का रेतस् ( सारभूत ) हृदय है,  
हृदयका सारभूत मन है, मनसे जल  
और वरुणकी सृष्टि हुई; हृदयसे मन  
हुआ और मनसे चन्द्रमा । वह यह  
हृदय ही मन भी है । वह एक ही  
अनेक रूप हो रहा है । इस एक  
अन्तःकरणसे ही नेत्ररूपसे रूपकी



रूपं पश्यति श्रोत्रभूतेन शृणोति  
 घ्राणभूतेन जिघ्रति वाग्भूतेन  
 वदति जिह्वाभूतेन रसयति  
 स्वेनैव विकल्पनारूपेण मनसा  
 विकल्पयति हृदयरूपेणाध्यव-  
 स्यति । तस्मात्सर्वकरणविषय-  
 व्यापाररूपेणैकमिदं करणं सर्वोप-  
 लब्ध्यर्थमुपलब्धुः ।

तथा च कौपीतकीनां “प्रज्ञ-  
 या वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि  
 नामान्याप्नोति । प्रज्ञया चक्षुः  
 समारुह्य चक्षुषा सर्वाणि रूपा-  
 ष्याप्नोति” ( ३ । ६ ) इत्यादि ।  
 याजसनेयके च—“मनसा  
 ह्येव पश्यति मनसा शृणोति  
 हृदयेन हि रूपाणि जानाति”  
 ( बृ० उ० १ । ५ । ३ )  
 इत्यादि । तस्माद् हृदयमनोनाच्य-  
 स्य सर्वोपलब्धिकरत्वं प्रसिद्धम् ।  
 तदात्मकश्च प्राणो “यो वै  
 प्राणः सा प्रज्ञा या वै प्रज्ञा स  
 प्राणः” ( कौपी० ३ । ३ ) इति  
 हि ब्राह्मणम् ।

देखता है, श्रोत्ररूपसे श्रवण करता है,  
 घ्राणरूपसे सूँघता है, वागिन्द्रिय-  
 रूपसे बोलता है, जिह्वारूपसे खसता  
 है, स्वयं सङ्कल्प विकल्परूप मनसे  
 सङ्कल्प करता है और हृदयरूपसे  
 निश्चय करता है । अतः उपलब्धा-  
 की समस्त उपलब्धियोंके लिये  
 इन्द्रियसम्बन्धी सारे व्यापारोंको  
 करनेवाला यही एक साधन है ।

इसी प्रकार कौपीतकी उपनिषद्-  
 में भी कहा है—“प्रज्ञाद्वारा वाणी-  
 पर आरुह्य होकर वाणीसे सम्पूर्ण  
 नामोंको प्राप्त ( ग्रहण ) करता है,  
 प्रज्ञाद्वारा चक्षु इन्द्रियपर आरुह्य  
 होकर चक्षुसे सारे रूपोंको  
 प्राप्त करता है” इत्यादि । तथा  
 बृहदारण्यकमें कहा है—“मनसे ही  
 देखना है, मनमे ही सुनना है,  
 हृदयसे ही रूपोंका ज्ञान प्राप्त करता  
 है” इत्यादि । अतः हृदय और मन-  
 शब्दवाच्य अन्तःकरणका ही सब  
 प्रकारकी उपलब्धिमें साधनत्व  
 प्रसिद्ध है । प्राण भी तद्रूप ही है ।  
 “जो प्राण है वही प्रज्ञा है और  
 जो प्रज्ञा है वही प्राण है” ऐसा  
 ब्राह्मणवाक्य है ।

करणसंहतिरूपश्च प्राण इत्य-  
 बोचाम प्राणसंवादादौ । तस्मा-  
 द्यत्यद्भ्यां प्रापद्यत तद्ब्रह्म तदु-  
 पलब्धुरुपलब्धिकरणत्वेन गुण-  
 भूतत्वान्नैव तदस्तु ब्रह्मोपास्या-  
 त्मा भवितुमर्हति । पारिशेष्या-  
 दस्योपलब्धुरुपलब्ध्यर्था एतस्य  
 हृदयस्य मनोरूपस्य करणस्य  
 वृत्तयो वक्ष्यमाणाः स उपल-  
 ब्धोपास्य आत्मानोऽस्माकं भवि-  
 तुमर्हतीति निश्चयं कृतवन्तः ।

तदन्तःकरणोपाधिस्वस्योप-  
 लब्धुः प्रज्ञारूपस्य ब्रह्मण उप-  
 लब्ध्यर्था या अन्तःकरणवृत्तयो  
 बाह्यान्तर्वर्तिविषयविषयास्ता इमा  
 उच्यन्ते । संज्ञानं संज्ञप्तिश्चेतन-  
 भावः, आज्ञानमाज्ञप्तिरिश्चरभावः,  
 विज्ञानं कलादिपरिज्ञानम्, प्रह्वानं

‘प्राण- इन्द्रियोंका संवातरूप  
 है’ यह बात हम प्राणसंवाद  
 आदि प्रकरणोंमें कह चुके हैं ।  
 अतः जिसने चरणोंकी ओरसे प्रवेश  
 किया था वह ब्रह्म उपलब्धाकी  
 उपलब्धिका साधन होनेके कारण  
 गौण होनेसे मुख्य ब्रह्म अर्थात्  
 उपास्य आत्मा नहीं हो सकता ।  
 अतः पारिशेष्यनियमानुसार\* जिस  
 उपलब्धाकी उपलब्धिके लिये इस  
 हृदय एवं मनोरूप अन्तःकरणकी  
 आगे बतलायी जानेवाली वृत्तियों  
 होती हैं वह उपलब्धा ही हमारा  
 उपासनीय आत्मा है—ऐसा उन्होंने  
 निश्चय किया ।

उस अन्तःकरणरूप उपाधिमें  
 स्थित प्रज्ञारूप उपलब्धा ब्रह्मकी  
 उपलब्धिके लिये जो बाह्य और  
 आन्तरिक विषयोंसे सम्बन्ध रखने-  
 वाली अन्तःकरणकी वृत्तियों हैं वे ये  
 बतलायी जाती हैं—‘संज्ञान-संज्ञप्ति  
 अर्थात् चेतनभाव, आज्ञान—आज्ञा  
 करना अर्थात् ईश्वरभाव ( प्रभुता ),  
 विज्ञान—कलादिका ज्ञान, प्रज्ञान—

\* जहाँ आयाततः अनेकोंमेंसे किसी एक धर्म या गुणकी सम्भावना प्रतीत  
 होनेपर भी और सबका प्रतिषेध करके बचे हुए किसी एक ही पदार्थमें उचका  
 निर्णय किया जाता है वहाँ ‘पारिशेष्यनियम’ माना जाता है ।

प्रज्ञप्तिः प्रज्ञता, मेधा ग्रन्थधारण-  
सामर्थ्यम्, दृष्टिरिन्द्रियद्वारा स-  
र्वविषयोपलब्धिः, धृतिधारण-  
मवसन्नानां शरीरेन्द्रियाणां ययो-  
त्तम्भनं भवति—धृत्या शरीर-  
मुद्वहन्तीति हि वदन्ति, मति-  
र्मननम्, मनीषा तत्र स्वातन्त्र्यम्,  
जृतिश्चेतमो रुजादिदुःखित्व-  
भावः, स्मृतिः स्मरणम्, संकल्पः  
शुक्लकृष्णादिभावेन संकल्पनं  
रूपादीनाम्, क्रतुरध्यवसायः,  
असुः प्राणनादिजीवनक्रिया-  
निमित्ता वृत्तिः, कामोऽसंनिहि-  
तविषयाकाङ्क्षा तृष्णा,  
वशः स्त्रीव्यतिराराद्यभिलापः,  
इत्येवमाद्या अन्तःकरणवृत्तयः  
प्रज्ञप्तिमात्रस्योपलब्धुरुपलब्ध्यर्थ-  
त्वाच्छुद्धप्रज्ञानरूपस्य ब्रह्मण  
उपाधिभूतास्तदुपाधिजनितगुण-  
नामधेयानि भवन्ति संज्ञाना-  
दीनि । सर्वाण्येव एतानि प्रज्ञा-  
जस्य नामधेयानि भवन्ति न  
स्वतः साक्षात् । तथा चोक्तं

प्रज्ञप्ति यानी प्रज्ञता ( समयोचित बुद्धि  
स्फुरित हो जाना—प्रतिभा ), मेधा—  
ग्रन्थधारणकी शक्ति, दृष्टि—इन्द्रियों-  
द्वारा सब विषयोंको उपलब्ध करना,  
धृति—धारण करना, जिससे शिथिल  
हुए शरीर और इन्द्रियोंमें जागृति  
होती है, 'धृतिसे ही शरीरको  
उठाकर बहन करते हैं' ऐसा  
[ पण्डितजन ] कहते भी हैं, मनि—  
मनन करना, मनीषा—मनन करनेकी  
स्वतन्त्रता, जृति—चित्तका रोगादिसे  
दु खी होना, स्मृति—स्मरण, संकल्प  
—शुक्ल-कृष्णादि भावसे रूपादिका  
संकल्प करना, क्रतु—अध्यवसाय,  
असु—जीवनकी निमित्तभूत श्वासो-  
च्छ्वासादि क्रिया, काम—अप्राप्त  
विषयकी आकाङ्क्षा यानी तृष्णा और  
वश—स्त्रीसंसर्गादिकी अभिलाषा—  
इत्यादि प्रकारकी अन्तःकरणकी  
वृत्तियाँ प्रज्ञप्तिरूप उपलब्धाकी उप-  
लब्धिके लिये होनेके कारण विशुद्ध-  
बोधस्वरूप ब्रह्मकी उपाधिभूत हैं ।  
अतः उसकी उपाधिजनित गुणवृत्तिसे  
ये संज्ञान आदि उम ब्रह्मके ही नाम  
हैं । ये सभी प्रज्ञप्तिमात्र प्रयानके नाम  
ही हैं; स्वतः साक्षात् कुछ नहीं हैं

“प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति” | ऐसा ही कदा भी है—“प्राणन  
( वृ० उ० १ । ४ । ७ ) करनेके कारण ही [ ब्रह्म ] प्राण  
इत्यादि ॥ २ ॥ नामवाला है” इत्यादि ॥ २ ॥

### प्रज्ञानकी सर्वरूपता

एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि  
च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीषी-  
त्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेताराणि  
चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिजानि  
चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किंचेदं प्राणि जङ्गमं च  
पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम् । प्रज्ञाने  
प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ ३ ॥

यह ( प्रज्ञानरूप आत्मा ) ही ब्रह्म है, यही इन्द्र है, यही प्रजापति  
है, यही ये [ अग्नि आदि ] सारे देव तथा पृथिवी, वायु, आकाश, जल  
और तेज—ये पाँच सूत हैं, यही क्षुद्र जीवोंके सहित उनके बीज  
( कारण ) और अन्य अण्डज, जंरायुज, स्वेदज, उद्भिज, अश्व, गौ,  
मनुष्य एवं हाथी है तथा [ इनके अतिरिक्त ] जो कुछ भी यह जङ्गम  
( पैरसे चलनेवाले ), पतत्रि ( आकाशमें उड़नेवाले ) और स्थावर ( वृक्ष-  
पर्वत आदि ) रूप प्राणिवर्ग है वह सब प्रज्ञानेत्र और प्रज्ञान ( निरुपा-  
धिक चैतन्य ) में ही स्थित है । लोक प्रज्ञानेत्र ( प्रज्ञा—चैतन्य ही जिसका  
नेत्र—व्यवहारका कारण है ऐसा ) है, प्रज्ञा ही उसका लयस्थान है,  
अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है ॥ ३ ॥

स एष प्रज्ञानरूप आत्मा  
ब्रह्मापरं सर्वशरीरस्थः प्राणः  
प्रज्ञात्मा । अन्तःकरणोपाधिष्वनु-  
प्रविष्टो जलभेदगतसूर्यप्रतिबिम्ब-  
वद्विरप्यगम्यः प्राणः प्रज्ञात्मा ।  
एष एव इन्द्रो गुणादेवराजो वा ।  
एष प्रजापतिर्यःप्रथमजः जगिरी ।  
यतो मुखादिनिर्भेदद्वारेणाग्न्या-  
दयो लोकपाला जाताः स प्रजा-  
पतिरेष एव । येऽप्येतेऽग्न्यादयः  
सर्वे देवा एष एव ।

इमानि च सर्वशरीरोपादान-  
भूतानि पञ्च पृथिव्यादीनि महा-  
भूतान्यन्नान्नादत्वलक्षणान्येतानि  
किंचेमानि च क्षुद्रमिश्राणि क्षुद्रै-  
रल्पकर्मिश्राणि, इवशब्दोऽन-  
र्थकः, सर्पादीनि बीजानि कार-  
णानीतराणि चैतराणि च द्वैरा-  
श्येन निर्दिश्यमानानि ।

वह यह प्रज्ञानरूप आत्मा ही  
अपर ब्रह्म है, अर्थात् सम्पूर्ण जगतिमें  
स्थित प्राण-प्रज्ञात्मा है । विभिन्न  
जलपात्रोंमें पड़े हुए प्रतिबिम्बके  
समान यही अन्तःकरणरूप  
उपाधिषुमें अनुप्रविष्ट हिरण्यगर्भ-  
प्राण यानी प्रज्ञात्मा है । यही  
[ 'इदमदर्शम्' इस श्रुतिमें बतलाये  
हुए ] गुणके कारण इन्द्र अथवा  
देवराज है । यही प्रजापति है, जो  
सबसे पहले उत्पन्न हुआ देवधारी  
है । जिसमें मुखादिनिर्भेदके द्वारा  
अग्नि आदि लोकपाल उत्पन्न हुए हैं  
यह प्रजापति भी यही है । और भी  
ये जो अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता हैं  
वे भी यही हैं ।

ये जो समस्त शरीरोंके उपादान  
भूत एव अन्न और अनादत्वभारती  
प्राप्त हुए पृथिवी आदि पञ्चभूत हैं,  
क्षुद्र यानी अल्प जीवोंके सहित  
जो सर्पादि हैं तथा बीज-  
कारण और इतर—कार्यगर्ग इस  
प्रकार अलग-अलग दो विभागोंमें  
निर्दिष्ट [ समस्त प्राणी हैं वे भी यही  
हैं ] । [ 'क्षुद्रमिश्राजीव' इस  
पदसमूहमें ] 'इव' शब्दका प्रयोग  
अनर्थक है ।

कानि तानि ? उच्यन्ते—  
 अण्डजानि पक्ष्यादीनि; जारु-  
 जानि जरायुजानि मनुष्या-  
 दीनि, स्वेदजादीनि यूका-  
 दीनि, उद्भिजानि च वृक्षा-  
 दीनि, अश्वा गावः पुरुषा  
 हस्तिनोऽन्यच्च यत्किंचेदं प्राणि-  
 जातम्; किं तत् ? जङ्गमं यच-  
 लति पद्भ्यां गच्छति । यच्च  
 पतत्रि आकाशेन पतनशीलम् ।  
 यच्च स्थावरमचलम् । सर्वं तदेष  
 एव । सर्वं तदशेषतः प्रज्ञानेत्रम् ।  
 प्रज्ञप्तिः प्रज्ञा तच्च ब्रह्मैव । नीय-  
 तेऽनेनेति नेत्रम् प्रज्ञा नेत्रं यस्य  
 तदिदं प्रज्ञानेत्रम् । प्रज्ञाने ब्रह्म-  
 ण्युत्पत्तिस्थितिलयकालेषु प्रतिष्ठितं  
 प्रज्ञाश्रयमित्यर्थः । प्रज्ञानेत्रो  
 लोकः पूर्ववत् । प्रज्ञाचक्षुर्वा सर्व  
 एव लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्य  
 जगतः । तस्मात्प्रज्ञानं ब्रह्म ।

तदेतत्प्रत्यस्तमितसर्वोपाधि-  
 विशेषं सन्निरञ्जनं निर्मलं निष्क्रियं  
 शान्तमेकमद्वयं "नेति नेति"  
 इति ( वृ० उ० ३ । ९ । २६ )

वे कौन-कौन हैं, सो बतलते  
 हैं । अण्डज—पक्षी आदि, जारुज—  
 जरायुज मनुष्यादि, स्वेदज—जूँ  
 आदि, उद्भिज—वृक्षादि तथा अश्व,  
 गौ, पुरुष, हाथी एवं अन्य भी ये  
 जो कुछ प्राणी हैं—वे कौन-कौन-से ?  
 जङ्गम—जो पैरोंसे चलते हैं, पक्षी—  
 जो आकाशमें उड़नेवाले हैं और  
 स्थावर—जो अचल हैं, वे सब यही  
 हैं अर्थात् वे सब-के-सब प्रज्ञा-  
 नेत्र हैं । प्रज्ञा प्रज्ञप्तिको कहते  
 हैं और वह ब्रह्म ही है तथा जिससे  
 नयन किया जाय [ अर्थात् लेजाया  
 जाय ] उसे 'नेत्र' कहते हैं । इस  
 प्रकार प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है वह  
 प्रज्ञानेत्र कहलाता है । तथा उत्पत्ति,  
 स्थिति और प्रलयकं, समय प्रज्ञान  
 यानी ब्रह्ममें स्थित रहनेवाले अर्थात्  
 प्रज्ञाके आश्रित हैं । इस प्रकार  
 पूर्ववत् यह लोक प्रज्ञानेत्र है अर्थात्  
 सभी लोक प्रज्ञारूप नेत्रवाला है,  
 सम्पूर्ण जगत्का आश्रय प्रज्ञा ही है;  
 अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है ।

जो सम्पूर्ण औपाधिक विशेषता-  
 से रहित, नित्य, निरञ्जन, निर्मल,  
 निष्क्रिय, शान्त, एक और  
 अद्वितीय है, जो "नेति नेति"  
 इत्यादि [ श्रुतियोंद्वारा ] क्रमसे

सर्वविशेषापोहसंवेद्यं सर्वशब्द-  
 प्रत्ययागोचरम् । तदत्यन्तविशुद्ध-  
 प्रज्ञोपाधिसंबन्धेन सर्वज्ञमीश्वरं  
 सर्वसाधारणाव्याकृतजगद्धीजप्र-  
 वर्तकं नियन्त्रुत्यादन्तर्यामिसंज्ञं  
 भवति । तदेव व्याकृतजगद्धीज-  
 भूतबुद्ध्यात्माभिमानलक्षणहिर-  
 ष्यगर्मसंज्ञं भवति । तदेवान्तर-  
 रण्डोद्भूतप्रथमशरीरोपाधिम-  
 द्विराट्प्रजापतिसंज्ञं भवति ।  
 तदुद्भूताग्न्याद्युपाधिमद्देवतासंज्ञं  
 भवति । तथा विशेषशरीरोपाधि-  
 प्वपि ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु  
 तत्तन्नामरूपलामो ब्रह्मणः ।  
 तदेवैकं सर्वोपाधिभेदमिन्नं  
 सर्वैः प्राणिभिस्तार्किकैश्च सर्व-  
 प्रकारेण ज्ञायते पिरुलप्यते चा-  
 नेकधा । “एतमेके वदन्त्यग्निं  
 मनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेकेऽपरे  
 प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्” ( मनु०  
 १२ । १२३ ) इत्याद्या स्मृतिः ॥३॥

समस्त विषयोंका बाध करके जानने-  
 योग्य है तथा सब प्रकारके शाब्दिक  
 ज्ञानका अविषय है, अत्यन्त विशुद्ध  
 प्रज्ञारूप उपाधिके सम्बन्धसे सर्वज्ञ  
 तथा जगत्के सर्वसाधारण और  
 अव्यक्त बीजका प्रवर्तक वह ईश्वर  
 ही सबका नियन्ता होनेके कारण  
 ‘अन्तर्यामी’ नामवाला है । वही  
 व्याकृत जगत्का बीजमूल विज्ञाना-  
 त्माका अभिमानी ‘हिरण्यगर्म’  
 नामवाला है तथा वही ब्रह्माण्डके  
 भीतर सबसे पहले उत्पन्न हुए  
 शरीररूप उपाधिवाला ‘विराट् प्रजा-  
 पति’ सज्ञावाला है । वही उसने  
 उत्पन्न हुए अग्नि आदिकी उपाधि-  
 से ‘देवता’ सज्ञावाला है तथा उस  
 ब्रह्मको ही ब्रह्मसे लेकर स्तम्बपर्यन्त  
 विशेष-विशेष शरीरोंकी उपाधियोंमें  
 भी उन-उनके नाम और रूप प्राप्त  
 हुए हैं । सम्पूर्ण उपाधिभेदसे विभिन्न  
 वही एक समस्त प्राणियों और  
 तार्किकोंद्वारा सब प्रकारसे जाना  
 जाता और अनेक प्रकारसे कल्पना  
 किया जाता है । [ इस विषयमें ]  
 “इसे कोई तो अग्नि बतलाते हैं तथा  
 कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र,  
 कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह्म  
 कहते हैं” इत्यादि स्मृति भी हैं ॥ ३ ॥

आत्मैक्यवेत्ताकी अमृतत्व-प्राप्ति

स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्क्रम्यामुष्मिन्स्वर्गे  
लोके सर्वान् कामानाप्त्वामृतः समभवत्समभवत् ॥४॥

वह ( वामदेव ) इस चैतन्यस्वरूपसे ही इस लोकसे उत्क्रमण कर  
इन्द्रियातीत स्वर्गलोकमें सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर अमर हो गया,  
[ अमर ] हो गया ॥ ४ ॥

स वामदेवोऽन्यो वैवं यथोक्तं  
ब्रह्म वेद प्रज्ञेनात्मना; येनैव  
प्रज्ञेनात्मना पूर्वं विद्वांसोऽमृता  
अभूवंस्तथायमपि विद्वानेतेनैव  
प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्क्रम्य  
इत्यादि व्याख्यातम् । अस्माल्लो-  
कादुत्क्रम्यामुष्मिन्स्वर्गे लोके  
सर्वान्कामानाप्त्वा अमृतः सम-  
भवत्समभवदित्योमिति ॥ ४ ॥

इस प्रकार पूर्वोक्त ब्रह्मको  
जाननेवाला वह वामदेव अथवा  
कोई अन्य पुरुष चेतनात्मस्वरूपसे,  
जिस चेतनात्मस्वरूपसे पूर्ववर्ती  
विद्वान् अमरभावको प्राप्त हुए थे  
उसी प्रकार यह विद्वान् भी इस  
चेतनात्मस्वरूपसे ही इस लोकसे  
उत्क्रमण कर—इत्यादि वाक्यकी पहले  
( १ । २ । ६ में ) ही व्याख्या की  
जा चुकी है । अर्थात् इस लोकसे  
उत्क्रमण कर इन्द्रियातीत स्वर्गलोकमें  
सम्पूर्ण कामनाएँ पाकर अमर हो  
गया, [अमर] हो गया—इत्यलम् ॥४॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य

श्रीमच्छङ्करभगवतः कृनावैतरेयोपनिषद्भाष्ये तृतीयेऽध्याये

प्रथमः खण्डः समाप्तः ।

उपनिषत्क्रमेण तृतीयः, आरण्यकक्रमेण

षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ।

ॐ तत्सत्



ॐ

## शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे  
वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्थः  
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधा-  
म्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।  
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु  
वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥



॥ हरि ॐ तत्सत् ॥

श्रीहरिः

## मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	ख०	गं०	पृ०
ॐ आत्मा वा इदम्	...	१	१	२२
अग्निर्वाग्भूत्वा मुखम्	...	१	४	४७
एष ब्रह्मैष इन्द्रः	...	३	३	९७
कोऽयमात्मेति वचम्	...	३	१	१०
तच्चक्षुषाजिवृक्षत्	...	१	६	६३
तच्छिश्नेनाजिवृक्षत्	...	१	९	६४
तच्छ्रोत्रेणाजिवृक्षत्	...	१	६	६३
तस्वचाजिवृक्षत्	...	१	७	६४
तस्पाणेनाजिवृक्षत्	...	१	४	६३
तस्त्रिषया आत्मभूतम्	...	२	२	८१
तदपानेनाजिवृक्षत्	...	१	१०	६४
तदुक्कमृषिणा	...	२	६	८७
तदेनत्सृष्टम्	...	१	३	६१
तन्मनसाजिवृक्षत्	...	१	८	६४
तमभ्यतपत्	...	१	४	३९
तमशनायापिरासे	...	१	६	४८
तस्मादिदन्द्रो नाम	...	१	१४	६२
ता एता देवताः सृष्टाः	...	१	१	४२
ताभ्यः पुरुषमाप्तयत्ताः	...	१	३	४६
ताभ्यो गामानयत्ताः	...	१	२	४६
पुरुषे ह वा अयम्	...	२	१	७९
यदेतद्दृश्यं मनश्चैतत्	...	३	२	९३

स इमाँल्लोकांनसृजत	•••	१	१	२	३५
स ईक्षत कथ न्विदम्	•	१	३	११	५५
स ईक्षतेमे नु लोका	•	१	१	३	३८
स इक्षतेमे नु लोकाश्च	•	१	३	१	५०
स एतमेव सीमानम्	•••	१	३	१२	५८
स एतेन प्रज्ञेनात्मना		३	१	४	१०१
स एव विद्वानस्मात्		२	१	६	८८
स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत्	•	१	३	१३	६१
सा भावयित्री		२	१	३	८२
सोऽपोऽम्यतपत्	•	१	३	२	५१
सोऽस्यायमात्मा	••	२	१	४	८५



ॐ

# तैत्तिरीयोपनिषद्

सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित



गीताप्रेस, गोरखपुर

मुद्रक तथा प्रकाशक

धनश्यामदास जालान

गीताप्रेस, गोरखपुर

स० १०९३ से १९९५ तक ६,०५०

स० २००० वृत्ताय संस्करण ३,०००

स० २००९ चतुर्थ संस्करण १०,०००

कुल १९,२५०

मूल्य III- ) तेरह आना

पना-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )

## निवेदन

—

कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यकके प्रपाठक ७-८ और ९ का नाम तैत्तिरीयोपनिषद् है। इनमें सप्तम प्रपाठक, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षावल्ली कहते हैं, सांख्यी उपनिषद् कही जाती है और अष्टम तथा नवम प्रपाठक, जो इस उपनिषद्की ब्रह्मानन्दवल्ली और भृगुवल्ली हैं, वारुणी उपनिषद् कहलाती हैं। इनके आगे जो दशम प्रपाठक है उसे नारायणोपनिषद् कहते हैं, वह याज्ञिकी उपनिषद् है। इनमें महर्षिकी दृष्टिसे वारुणी उपनिषद् प्रधान है; उसमें विशुद्ध ब्रह्मविद्याका ही निरूपण किया गया है। किन्तु उसकी उपलब्धिके लिये चित्तकी एकाग्रता एवं गुरुकृपाकी आवश्यकता है। इसके लिये शीक्षावल्लीमें कई प्रकारकी उपासना तथा शिष्य एवं आचार्यसम्बन्धी शिष्टाचारका निरूपण किया गया है। अतः औपनिषद् सिद्धान्तको हृद्यंगम करनेके लिये पहले शीक्षावल्ल्युक्त उपासनादिका ही आश्रय लेना चाहिये। इसके आगे ब्रह्मानन्दवल्ली तथा भृगुवल्लीमें जिस ब्रह्मविद्याका निरूपण है उसके सम्प्रदायप्रवर्तक वरुण हैं; इसलिये वे दोनों वल्लियाँ वारुणी विद्या अथवा वारुणी उपनिषद् कहलाती हैं।

इस उपनिषद्पर भगवान् शङ्कराचार्यने जो भाष्य लिखा है वह बहुत ही विचारपूर्ण और मुक्तियुक्त है। उसके आरम्भमें ग्रन्थका

उपोद्घात करते हुए भगवान् ने यह बतलाया है कि मोक्षरूप परम-नि श्रेयसकी प्राप्ति का एकमात्र हेतु ज्ञान ही है । इसके लिये कोई अन्य साधन नहीं है । मीमांसकोंके मतमें 'स्वर्ग' शब्दवाच्य निरतिशय प्रीति ( प्रेय ) ही मोक्ष है और उसकी प्राप्ति का साधन कर्म है । इस मत का आचार्यने अनेकों युक्तियोंसे खण्डन किया है और स्वर्ग तथा कर्म दोनोंहीकी अनित्यता सिद्ध की है ।

इस प्रकार आरम्भ करके फिर इस बल्लीमें बतलायी हुई भिन्न-भिन्न उपासनादिकी मक्षिप्त व्याख्या करते हुए इसके उपसहारमें भी भगवान् भाष्यकारने कुछ विशद विचार किया है । एकादश अनुवाकमें शिष्योंको वेदका स्वाध्याय करानेके अनन्तर आचार्य सत्यभाषण एव धर्माचरणादिका उपदेश करता है तथा समावर्तन सस्कारके लिये आदेश देते हुए उसे गृहस्थोचित कर्मोंकी भी शिक्षा देता है । वहाँ यह बतलाया गया है कि देवकर्म, पितृकर्म तथा अनियिपूजनमें कभी प्रमाद न होना चाहिये, दान और स्वाध्यायमें भी कभी भूल न होनी चाहिये, सदाचारकी रक्षाके लिये गुरुजनोंके प्रति श्रद्धा रखने हुए उन्हींके आचरणोंका अनुकरण करना चाहिये—किन्तु वह अनुकरण केवल उनके सुकृतोंका हो, दुष्कृतोंका नहीं । इस प्रकार समस्त बल्लीमें उपासना एव गृहस्थजनोचित सदाचारका ही निरूपण होनेके कारण किमीको यह आशंका न हो जाय कि ये ही मोक्षके प्रधान साधन हैं इसलिये आचार्य फिर मोक्षके साक्षात् साधन का निर्णय करनेके लिये पाँच विकल्प करते हैं—( १ ) क्या परम श्रेयसी प्राप्ति केवल कर्मसे हो सकती है ? ( २ ) अथवा विद्याकी अपेक्षायुक्त कर्मसे ( ३ ) किंवा कर्म और ज्ञानके समुच्चयसे ( ४ ) या कर्मकी अपेक्षावाले ज्ञानसे ( ५ ) अथवा केवल ज्ञानसे ? इनमेंसे अन्य सब पक्षोंको सदोष सिद्ध करते हुए आचार्यने यही निश्चय किया है कि केवल ज्ञान ही मोक्षका साक्षात् साधन है ।

इस प्रकार शीक्षाबल्लीमें सहितादिविषयक उपासनाओंका निरूपण कर फिर ब्रह्मानन्दबल्लीमें ब्रह्मविद्याका वर्णन किया गया है । इसका पहला

वाक्य है—‘ब्रह्मविदाप्नोति परम्’ यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो यह सूत्रभूत वाक्य ही सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका बीज है । ब्रह्म और ब्रह्मवित्के स्वरूपका विचार ही तो ब्रह्मविद्या है और ब्रह्मवेत्ताकी परप्राप्ति ही उसका फल है; अतः निःसन्देह यह वाक्य फलसहित ब्रह्मविद्याका निरूपण करनेवाला है । आगेका समस्त ग्रन्थ इस सूत्रभूत मन्त्रकी ही व्याख्या है । उसमें सबसे पहले ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इस वाक्यद्वारा श्रुति ब्रह्मका लक्षण करती है । इससे ब्रह्मके स्वरूपका निश्चय हो जानेपर उसकी उपलब्धिके लिये पञ्चकोशका विवेक करनेके अभिप्रायसे उसने पक्षीके रूपकद्वारा पाँचों कोशोंका वर्णन किया है और उन सबके आधार-रूपसे सर्वान्तरतम परब्रह्मका ‘ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इस वाक्यद्वारा निर्णय किया है । इसके पश्चात् ब्रह्मकी असत्ता माननेवाले पुरुषकी निन्दा करते हुए उसका अस्तित्व स्वीकार करनेवाले पुरुषकी प्रशंसा की है और उसे ‘सत्’ बतलाया है । फिर ब्रह्मका सार्वाम्य प्रतिपादन करनेके लिये ‘सोऽकामयन् । बहु स्यां प्रजायेय’ इत्यादि वाक्यद्वारा उसीको जगत्का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बतलाया है ।

इस प्रकार सत्संज्ञक ब्रह्मसे जगत्की उत्पत्ति दिखलाकर फिर सप्तम अनुवाकमें असत्से ही सत्की उत्पत्ति बतलायी है । किन्तु यहाँ ‘असत्’ का अर्थ अभाव न समझकर अव्याकृत ब्रह्म समझना चाहिये और ‘सत्’का व्याकृत जगत्; क्योंकि अत्यन्ताभावसे किसी भावपदार्थकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और उत्पत्तिसे पूर्व सारे पदार्थ अव्यक्त थे ही । इसलिये ‘असत्’ शब्द अव्याकृत ब्रह्मका ही वाचक है । वह ब्रह्म रसस्वरूप है; उस रसकी प्राप्ति होनेपर यह जीव रसमय—आनन्दमय हो जाता है । उस रसके लेशसे ही सारा संसार सजीव देखा जाता है । जिस समय साधनाका परिपाक होनेपर पुरुष इस अदृश्य अशरीर अनिर्वाच्य और अनाश्रय परमात्मामें स्थिति लाभ करता है उस समय वह सर्वथा निर्मय हो जाता है; और जो उसमें धोड़ा-सा भी अन्तर करता है उसे भय प्राप्त होता है ।



अतः ब्रह्ममें स्थित होना ही जीवकी अभयस्थिति है, क्योंकि वहाँ भेदका सर्वथा अभाव है और भय भेदमें ही होता है 'द्वितीयाद्दे भय भवति' ।

इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठकी अभयप्राप्तिका निरूपण कर ब्रह्मके सर्वान्तर्यामित्व और सर्वशासकत्वका वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्ताके आनन्दकी सर्वोत्कृष्टता दिखलायी है । वहाँ मनुष्य, मनुष्यगन्धर्व, देवगन्धर्व, पितृगण, आजानज-देव, कर्मदेव, देव, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा—इन सबके आनन्दोंको उत्तरोत्तर शतगुण बतलाते हुए यह दिखलाया है कि निष्काम ब्रह्मवेत्ताको वे सभी आनन्द प्राप्त हैं । क्यों न हो ? सबके अधिष्ठानभूत परब्रह्मसे अभिन्न होनेके कारण क्या वह इन सभीका आत्मा नहीं है । अतः सर्वरूपसे वही तो सारे आनन्दोंका भोक्ता है । भोक्ता ही क्यों, सर्व-आन्दस्वरूप भी तो वही है, सारे आनन्द उसीके स्वरूपभूत आनन्द-महोदधिके क्षुद्रातिक्षुद्र काण ही तो हैं ।

इसके पश्चात् हृदयपुण्डरीकस्य पुरुषका आदित्यमण्डलस्य पुरुषके साथ अभेद करते हुए यह बतलाया है कि जो इन दोनोंका अभेद जानता है वह इस लोक अर्थात् दृष्ट और अदृष्ट विषयसमूहसे निवृत्त होकर इस समाष्टि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय आत्माको प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार सारा प्रपञ्च उसका अपना शरीर हो जाता है—उसके लिये अपनेसे भिन्न कुछ भी नहीं रहता । उस निर्भय और अनिर्वाच्य स्वात्मत्वकी जिसे प्राप्ति हो जाती है, उसे न तो किसीका भय रहता है और न किसी कृत या अकृतका अनुताप ही । जब अपनेमे भिन्न कुछ है ही नहीं तो भय किसका और क्रिया कैसी ? क्रिया तो देश, काल या वस्तुका परिच्छेद होनेपर ही होती है, उस एक, अखण्ड, अमर्यादित, अद्वितीय वस्तुमें किसी प्रकारकी क्रियाका प्रवेश कैसे हो सकता है ?

इस प्रकार ब्रह्मानन्दवल्लीमें ब्रह्मविद्याका निरूपण कर भृगुवर्णनीमें उसकी प्राप्तिका मुख्य साधन पञ्चकोश विवेक दिखलानेके लिये वरुण और भृगुका आख्यान दिया गया है । आत्मतत्त्वका जिज्ञासु भृगु अपने



इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषद्का प्रधान लक्ष्य ब्रह्म-ज्ञान ही है। इसकी वर्णन-शैली बड़ी ही मर्मस्पर्शिणी और शृङ्खलाबद्ध है। भगवान् शङ्कराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह भी बहुत विचारपूर्ण है। आशा है, विज्ञान उससे यथेष्ट लाभ उठानेका प्रयत्न करेंगे।

इस उपनिषद्के प्रकाशनके साथ प्रथम आठ उपनिषदोंके प्रकाशनका कार्य समाप्त हो जाता है। हमें इनके अनुवादमें श्रीविष्णु-वापटशास्त्रीकृत मराठी-अनुवाद, श्रीदुर्गाचरण मजूमदारकृत बंगल-अनुवाद, ब्रह्मनिष्ठ प० श्रीपीताम्बरजीकृत हिन्दी-अनुवाद और महा-महोपाध्याय डा० श्रीगगनायजी झा एच प० श्रीसीतारामजी शास्त्रीकृत अंग्रेजी अनुवादसे यथेष्ट सहायता मिली है। अतः हम इन सभी महानुभावोंके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। फिर भी हमारी अल्पज्ञताके कारण इनमें बहुत-सी त्रुटियाँ रह जानी स्वाभाविक हैं। उनके लिये हम कृपालु पाठकोंसे सविनय क्षमा-प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि वे उनकी सूचना देकर हमें अनुगृहीत करें, जिससे कि हम अगले संस्करणमें उनके सशोधनका प्रयत्न कर सकें। हमारी इच्छा है कि हम शीघ्र ही छान्दोग्य और बृहदारण्यक भी हिन्दी-संसारके सामने रख सकें। यदि विचारशील वाचकवृन्दने हमें प्रोत्साहित किया तो बहुत सम्भव है कि हम इस सेवामें शीघ्र ही सफल हो सकें।

अनुवादक



श्रीहरिः

## विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१. शान्तिपाठ	१३
<b>शिक्षावली</b>	
<b>प्रथम अनुवाक</b>	
२. सम्बन्ध-भाष्य	१४
३. शिक्षावलीका शान्तिपाठ	२१
<b>द्वितीय अनुवाक</b>	
४. शिक्षाकी व्याख्या	२६
<b>तृतीय अनुवाक</b>	
५. पाँच प्रकारकी संहितोपासना	२७
<b>चतुर्थ अनुवाक</b>	
६. श्री और बुद्धिकी कामनावालोंके लिये जप और होम-सम्बन्धी मन्त्र	३३
<b>पञ्चम अनुवाक</b>	
७. व्याहृतिरूप ब्रह्मकी उपासना	४१
<b>षष्ठ अनुवाक</b>	
८. ब्रह्मके साक्षात् उपलब्धिस्थान हृदयाकाशका वर्णन	४७
<b>सप्तम अनुवाक</b>	
९. पास्कुरूपसे ब्रह्मकी उपासना	५४
<b>अष्टम अनुवाक</b>	
१०. ओङ्कारोपासनाका विधान	५७
<b>नवम अनुवाक</b>	
११. श्रुतादि शुभ कर्मोंकी अवश्यकर्तव्यताका विधान	६१
<b>दशम अनुवाक</b>	
१२. त्रिशङ्कुका वेदानुबन्धन	६६
<b>एकादश अनुवाक</b>	
१३. वेदाध्ययनके अनन्तर शिष्यको आचार्यका उपदेश	६८
१४. मोक्ष-साधनकी मीमांसा	७८
<b>द्वादश अनुवाक</b>	
	९१

## ब्रह्मानन्दवल्ली

## प्रथम अनुवाक

१५. ब्रह्मानन्दवल्लीका शान्तिपाठ • १४

१६. ब्रह्मज्ञानके फल, सृष्टिक्रम और अन्नमय कोशरूप पक्षीका वर्णन • १६

## द्वितीय अनुवाक

१७. अन्नकी महिमा तथा प्राणमय कोशका वर्णन • १२४

## तृतीय अनुवाक

१८. प्राणकी महिमा और मनोमय कोशका वर्णन १३०

## चतुर्थ अनुवाक

१९. मनोमय कोशकी महिमा तथा विशानमय कोशका वर्णन १३८

## पञ्चम अनुवाक

२०. विशानकी महिमा तथा आनन्दमय कोशका वर्णन • १४१

## षष्ठ अनुवाक

२१. ब्रह्मको सत् और असत् जाननेवालोंका भेद, ब्रह्मज्ञ और अब्रह्मज्ञकी ब्रह्मप्राप्तिके विषयमें शङ्का तथा सम्पूर्ण प्रपञ्चरूपसे ब्रह्मके स्थित होनेका निरूपण • १५०

## सप्तम अनुवाक

२२. ब्रह्मकी सुकृतता एव आनन्दरूपताका तथा ब्रह्मप्रेक्षाकी अभय प्राप्तिका वर्णन • १७३

## अष्टम अनुवाक

२३. ब्रह्मानन्दके निरतिशयत्वकी मीमांसा • १८२

२४. ब्रह्मात्मैक्य-दृष्टिका उपसंहार • १९१

## नवम अनुवाक

२५. ब्रह्मानन्दका अनुभव करनेवाले विद्वान्की अभयप्राप्ति २०८

## भृगुवल्ली

## प्रथम अनुवाक

२६. भृगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मविद्याविषयक प्रश्न करना तथा वरुणका ब्रह्मोपदेश ••• २१३

## द्वितीय अनुवाक

२७. अन्न ही ब्रह्म है—ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर भृगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके उपदेशसे पुनः तप करना ••• २१८

### तृतीय अनुवाक

२८. प्राण ही ब्रह्म है—ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर भृगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके उपदेशसे पुनः तप करना ... २२०

### चतुर्थ अनुवाक

२९. मन ही ब्रह्म है—ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर भृगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके उपदेशसे पुनः तप करना ... २२१

### पञ्चम अनुवाक

३०. विधान ही ब्रह्म है—ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर भृगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके उपदेशसे पुनः तप करना ... २२२

### षष्ठ अनुवाक

३१. आनन्द ही ब्रह्म है—ऐसा भृगुका निश्चय करना तथा इस मार्गवी चारुणी विद्याका महत्त्व और फल ... २२३

### सप्तम अनुवाक

३२. अन्नकी निन्दा न करनारूप व्रत तथा शरीर और प्राणरूप अन्न-ब्रह्मके उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन ... २२६

### अष्टम अनुवाक

३३. अन्नका त्याग न करनारूप व्रत तथा बल और ज्योतिरूप अन्न-ब्रह्मके उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन ... २२८

### नवम अनुवाक

३४. अन्नसञ्चयरूप व्रत तथा पृथिवी और आकाशरूप अन्नब्रह्मके उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन ... २२९

### दशम अनुवाक

३५. शृङ्गागत अतिथिकी आश्रय और अन्न देनेका विधान एवं उससे प्राप्त होनेवाला फल तथा प्रकारान्तरसे ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन ... २३०

३६. आदित्य और देहोपाधिक चेतनकी एकता जाननेवाले उपासक-को मिलनेवाला फल ... २४१

३७. ब्रह्मवेत्ताद्वारा गायत जानेवाला साम ... २४६

३८. शान्तिपाठ ... २४९



# श्रीक्षात्रसू

## प्रथम अनुवाक

सम्बन्ध-माध्य

यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते ।

येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥ १ ॥

जिससे सारा जगत् उत्पन्न हुआ है, जिसमें ही यह लीन होता है और जिसके द्वारा यह धारण किया जाता है उस ज्ञानस्वरूपको मेरा नमस्कार है ।

यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः ।

व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् ॥ २ ॥

पूर्वकालमें जिन गुरुजनोंने पद, वाक्य और प्रमाणोंके त्रिवेचनपूर्वक इन सम्पूर्ण वेदान्तों ( उपनिषदों ) की व्याख्या की है उन्हें मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ ।

तैत्तिरीयक्रमारस्य मयाचार्यप्रसादतः ।

विस्पष्टार्थरुचीनां हि व्याख्येयं संप्रणीयते ॥ ३ ॥

जो स्पष्ट अर्थ जाननेके इच्छुक हैं उन पुरुषोंके लिये मैं श्रीआचार्यकी कृपासे तैत्तिरीयशास्त्राके सारभूत इस उपनिषद्की व्याख्या करता हूँ ।



नित्यान्यधिगतानि कर्माण्यु-

उपक्रमः

पात्तदुरितश्चयार्था-  
नि, काम्यानि च

फलार्थिनां पूर्वसिद्ध्यन्थे । इदानीं  
कर्मोपादानहेतुपरिहाराय ब्रह्म-  
विद्या प्रस्तूयते ।

कर्महेतुः कामः स्यात् ।

आत्मविदेवात्-  
कामो भवति

प्रवर्तकत्वात् । आ-  
प्तकामानां हि कामा-

भावे स्वात्मन्यवस्थानात् प्रवृत्त्य-  
नुपपत्तिः । आत्मकामित्वे चाप्त-  
कामता; आत्मा हि ब्रह्म;  
तद्विदो हि परप्राप्तिं वक्ष्यति ।  
अतोऽविद्यानिवृत्तां स्वात्मन्य-  
वस्थानं परप्राप्तिः । “अभयं  
प्रतिष्ठां विन्दते” ( तै० उ० २ ।  
७ । १ ) “एतमानन्दमयमात्मा-  
नमुपसंक्रामति” ( तै० उ० २ ।  
८ । १२ ) इत्यादिश्रुतेः ।

सञ्चित पापोंका क्षय ही जिनका  
मुख्य प्रयोजन है ऐसे नित्यकर्मोंका  
तथा सकाम पुरुषोंके लिये विहित  
काम्यकर्मोंका इससे पूर्ववर्ती ग्रन्थमें  
[ अर्थात् कर्मकाण्डमें ] परिज्ञान हो  
चुका है । अब कर्मानुष्ठानके  
कारणकी निवृत्तिके लिये ब्रह्मविद्याका  
आरम्भ किया जाता है ।

कामना ही कर्मकी कारण हो  
सकती है; क्योंकि वही उसकी  
प्रवर्तक है । जो लोग पूर्णकाम हैं  
उनकी कामनाओंका अभाव होनेपर  
स्वरूपमें स्थिति हो जानेसे कर्ममें  
प्रवृत्ति होनी असम्भव है । आत्म-  
दर्शनकी कामना पूर्ण होनेपर  
ही पूर्णकामता [ की सिद्धि ] होती  
है; क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है और  
ब्रह्मवेत्ताको ही परमात्माकी प्राप्ति  
होती है ऐसा आगे [ श्रुति ]  
बतलायेगा । अतः अविद्याकी निवृत्ति  
होनेपर अपने आत्मामें स्थित हो  
जाना ही परमात्माकी प्राप्ति है;  
जैसा कि “अभय पद प्राप्त कर लेता  
है” [ उक्त समय ] इस आनन्द-  
मय आत्माको प्राप्त हो जाना है”  
इत्यादि श्रुतियोंमें प्रमाणित होता है ।

काम्यप्रतिषिद्धयोरनारब्धा-

मीमांसकमत  
समीक्षा  
दारब्धस्य चोप-  
भोगेन क्षयान्नित्या-  
नुष्ठानेन प्रत्यवायामावादयन्नत

एव स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षः ।  
अथवा निरतिशयायाः प्रीतेः  
स्वर्गशब्दवाच्यायाः कर्महेतु-  
त्वात्कर्मस्य एव मोक्ष इति चेत् ।

न; कर्मनिकत्वात् । अने-

कानि द्वारब्धफलान्यनारब्ध-

फलानि चानेकजन्मान्तरकृतानि

विरुद्धफलानि कर्माणि सम्भवन्ति ।

अतस्तेष्वनारब्धफलानामेकसि-

ज्जन्मन्युपभोगक्षयासंभवाच्छेष-

कर्मनिमित्तशरीरारम्भोपपत्तिः ।

कर्मशेषसद्भावसिद्धिश्च "तद्य इह

रमणीयचरणाः" ( छा० उ०

५ । १० । ७ ) "ततः शेषेण"

( आ० घ० २ । २ । २ । ३, गो०

पूर्व०—काम्य और निषिद्ध कर्मों-  
का आरम्भ न करनेसे, प्रारब्ध कर्मों-  
का भोगद्वारा क्षय हो जानेसे तथा  
नित्यकर्मोंके अनुष्ठानसे प्रत्यवायोंका  
अभाव हो जानेसे अनायास ही  
अपने आत्मामें स्थित ह्योनारूप मोक्ष  
प्राप्त हो जायगा, अथवा 'स्वर्ग'  
शब्दवाच्य आत्यन्तिक प्रीति कर्म-  
जनित होनेके कारण कर्ममें ही  
मोक्ष हो सकता है—यदि ऐसा माना  
जाय तो ?

2013  
2002  
सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि कर्म

तो बहुत-से हैं । अनेकों जन्मान्तरोंमें

किये हुए ऐसे अनेकों विरुद्ध फलवाले

कर्म हो सकते हैं जिनमेंसे कुछ तो

फलेन्मुख हो गये हैं और कुछ अभी

फलेन्मुख नहीं हुए हैं । अतः उनमें

जो कर्म अभी फलेन्मुख नहीं हुए

हैं उनका एक जन्ममें ही क्षय होना

असम्भव होनेके कारण उन अवशिष्ट

कर्मोंके कारण दूसरे शरीरका

आरम्भ होना असम्भव ही है ।

"इस लोकमें जो शुभ कर्म करनेवाले

हैं [ उन्हें शुभयोनि प्राप्त होती है ]"

"[ उपभोग किये कर्मोंसे ] बचे हुए

कर्मोंद्वारा [ जीवको आगेका शरीर

स्मृ० ११ ) इत्यादिश्रुतिस्मृति-  
शतेभ्यः ।

इष्टानिष्टफलानामनारब्धानां

*Lycan philosophy*

क्षयार्थानि नित्यानीति चेत् ?

*५७*

न; अकरणे प्रत्यवायश्रव-

*१-३०*

णात् । प्रत्यवायशब्दो ह्यनिष्ट-

विषयः । नित्याकरणनिमित्तस्य

प्रत्यवायस्य दुःखरूपस्यागामिनः

परिहारार्थानि नित्यानीत्यभ्युप-

गमान्नानारब्धफलकर्मक्षयार्थानि ।

यदि नामानारब्धकर्मक्षया-

र्थानि नित्यानि कर्माणि तथा-

प्यशुद्धमेव क्षययेयुर्न शुद्धम् ।

विरोधाभावात् । न हीष्टफलस्य

कर्मणः शुद्धरूपत्वान्नित्यैर्विरोध-

उपपद्यते । शुद्धाशुद्धयोर्हि विरो-

धो युक्तः ।

तै० उ० २—

प्राप्त होता है ]” इत्यादि सैकड़ों  
श्रुति-स्मृतियोंसे अवशिष्ट कर्मके  
सद्भावकी सिद्धि होती ही है ।

पूर्व०—इष्ट और अनिष्ट दोनों  
प्रकारके फल देनेवाले सञ्चित कर्मों-  
का क्षय करनेके लिये ही नित्यकर्म  
हैं—ऐसी बात हो तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि उन्हें  
न करनेपर प्रत्यवाय होता है—ऐसा  
सुना गया है । ‘प्रत्यवाय’ शब्द  
अनिष्टका ही सूचक है । नित्य-  
कर्मोंके न करनेके कारण जो  
आगामी दुःखरूप प्रत्यवाय होता है  
उसका नाश करनेके लिये ही  
नित्यकर्म हैं—ऐसा माना जानेके  
कारण वे सञ्चित कर्मोंके क्षयके लिये  
नहीं हो सकते ।

और यदि नित्यकर्म, जिनका  
फल अभी आरम्भ नहीं हुआ है उन  
कर्मोंके क्षयके लिये हों भी तो भी  
वे अशुद्ध कर्मका ही क्षय करेंगे,  
शुद्धका नहीं; क्योंकि उनसे तो  
उनका विरोध ही नहीं है । जिनका  
फल इष्ट है उन कर्मोंका तो शुद्ध-  
रूप होनेके कारण नित्यकर्मनि-  
विरोध होना सम्भव ही नहीं है ।  
विरोध तो शुद्ध और अशुद्ध कर्मोंका  
ही होना उचित है ।

न च कर्महेतूनां कामानां  
ज्ञानाभावे निवृत्त्यसंभवादशेष-  
कर्मक्षयोपपत्तिः । अनात्मविदो  
हि कामोऽनात्मफलविषयत्वात् ।  
स्वात्मनि च कामानुपपत्तिर्नित्य-  
प्राप्तत्वात् । स्वयं चात्मा परं  
ब्रह्मेत्युक्तम् ।

नित्यानां चारुणमभावस्ततः  
प्रत्यवायानुपपत्तिरिति । अतः  
पूर्वोपचितदुरितेभ्यः प्राप्यमाणा-  
याः प्रत्यवायक्रियाया नित्यांकरणं  
लक्षणमिति "अकुर्वन्विहितं कर्म"  
(मनु० ११ । ४४ ) इति शतु-  
र्नानुपपत्तिः । अन्यथाभावाद्भा-  
वोत्पत्तिरिति सर्वप्रमाणव्याप्य-  
इति । अतोऽयत्ततः स्वात्मन्य-  
व्याप्तमित्यनुपपन्नम् ।

इसके सिवा कर्मकी हेतुभूत  
कामनाओंकी निवृत्ति भी ज्ञानके  
अभावमें असम्भव होनेके कारण  
उन ( नित्यकर्मों ) के द्वारा सम्पूर्ण  
कर्मोंका क्षय होना सम्भव नहीं है,  
क्योंकि अनात्मफलविषयिणी होनेके  
कारण कामना अनात्मवेत्ताको ही  
हुआ करती है । आत्मामें तो कामना-  
का होना सर्वथा असम्भव है, क्योंकि  
वह नित्यप्राप्त है । और यह तो कहा  
ही जा चुका है कि स्वयं आत्मा ही  
परब्रह्म है ।

तथा नित्यकर्मोंका न करना तो  
अभावरूप है, उससे प्रत्यवाय होना  
असम्भव है । अतः नित्यकर्मोंका न  
करना यह पूर्वमन्वित पापोंसे प्राप्त  
होनेवाली प्रत्यवायक्रियाका ही  
लक्षण है । इसलिये "अकुर्वन्  
विहितं कर्म" इस वाक्यके  
'अकुर्वन्' पदमें 'शतृ' प्रत्ययका  
होना अनुचित नहीं है । अन्यथा  
अभावसे भावकी उत्पत्ति सिद्ध होने-  
के कारण सभी प्रमाणोंसे विरोध हो  
जायगा । अतः ऐसा मानना सर्वथा  
अयुक्त है कि [ कर्मोत्पत्तिसे ]  
अनायास ही आत्मस्वरूपमें स्थिति  
हो जाती है ।

यच्चोक्तं निरतिशयप्रीतेः स्वर्ग-  
शब्दवाच्यायाः कर्मनिमित्तत्वा-  
त्कर्मारब्ध एव मोक्ष इति, तन्न;  
नित्यत्वान्मोक्षस्य । न हि नित्यं  
किञ्चिदारभ्यते लोके यदारब्धं  
तदनित्यमिति । अतो न कर्मा-  
रब्धो मोक्षः ।

विद्यासहितानां कर्मणां नि-  
त्यारम्भसामर्थ्यमिति चेत् ?

न; विरोधात् । नित्यं चा-  
रभ्यत इति विरुद्धम् ।

यद्विनष्टं तदेव नोत्पद्यत इति ।  
प्रध्वंसाभाववच्चिन्वोऽपि मोक्ष  
आरभ्य एवेति चेत् ?

न; मोक्षस्य भावरूपत्वात्  
प्रध्वंसाभावोऽप्यारभ्यत इति  
न संभवति; अभावस्य  
विशेषाभावाद्विकल्पमात्रमेतत् ।

और यह जो कहा कि 'स्वर्ग'  
शब्दसे कही जानेवाली निरतिशय  
प्रीति कर्मनिमित्तक होनेके कारण  
मोक्ष कर्मसे ही आरम्भ होनेवाला है,  
तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि  
मोक्ष नित्य है और किसी भी नित्य  
वस्तुका आरम्भ नहीं किया जाता;  
लोकमें जिन वस्तुका भी आरम्भ  
होता है वह अनित्य हुआ करती  
है; इसलिये मोक्ष कर्मारब्ध नहीं है ।

पूर्व०—ज्ञानसहित कर्मोंमें तो  
नित्य मोक्षके आरम्भ करनेकी भी  
सामर्थ्य है ही ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि ऐसा  
माननेसे विरोध आता है, मोक्ष नित्य  
है और उसका आरम्भ किया जाता  
है—ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है ।

पूर्व०—जो वस्तु नष्ट हो जाती  
है वही फिर उत्पन्न नहीं हुआ  
करती, अतः प्रध्वंसाभावके समान  
नित्य होनेपर भी मोक्षका आरम्भ  
किया ही जाता है । ऐसा माने तो ?

सिद्धान्ती—नहीं क्योंकि मोक्ष  
तो भावरूप है । प्रध्वंसाभाव भी  
आरम्भ किया जाता है यह  
संभव नहीं; क्योंकि अभावमें  
कोई विशेषता न होनेके कारण यह  
तो केवल विकल्प ही है । भावका

भावप्रतियोगी ह्यभावः ।

यथा ह्यभिन्नोऽपि भागो घट-

पटादिभिर्विशेष्यते भिन्न इव

घटभावः पटभाप इति; एवं

निर्विशेषोऽप्यभावः क्रिया-

गुणयोगाद्द्रव्यादिवद्विकल्प्यते ।

न ह्यभाव उत्पलादिवद्विशेषण-

सहभावी । विशेषणत्वे भाव

एव स्यात् ।

विद्याकर्मकर्तृनित्यत्वाद्विद्या-

कर्मतन्तानजनितमोक्षनित्यत्व-

मिति चेत् ?

न; गङ्गास्रोतोवत्कर्तृत्वस्य

दुःखरूपत्वात् । कर्तृत्वोपरमे च

मोक्षविच्छेदात् । तस्माद्विद्या-

कामकर्मोपादानहेतुनिवृत्तौ स्वा-

त्मन्यवस्थानं मोक्ष इति । स्वयं

प्रतियोगी ही 'अभाव' कहलाता

है । जिस प्रकार भाव वस्तुतः

अभिन्न होनेपर भी घट-पट आदि

विशेषणोंसे भिन्नके समान घटभाव,

पटभाव आदि रूपसे विशेषित किया

जाता है इसी प्रकार अभाव

निर्विशेष होनेपर भी क्रिया और

गुणके योगसे द्रव्यादिके समान

विकल्पित होता है । कमल आदि

पदार्थोंके समान अभाव विशेषणके

सहित रहनेवाला नहीं है । विशेषण-

युक्त होनेपर तो वह भाव ही हो

जायगा ।

पूर्व०—विद्या और कर्म इनका

कर्ता नित्य होनेके कारण विद्या

और कर्मके अविच्छिन्न प्रवाहसे

होनेवाला मोक्ष नित्य ही होना

चाहिये । ऐसा मानें तो '

सिद्धान्ती—नहीं, गङ्गाप्रवाहके

समान जो कर्तृत्व है वह तो दुःख-

रूप है । [अतः उससे मोक्षकी प्राप्ति

नहीं हो सकती, और यदि उसीसे

मोक्ष माना जाय तो भी ] कर्तृत्वकी

निवृत्ति होनेपर मोक्षका विच्छेद हो

जायगा । अतः अविद्या, कामना

और कर्म—इनके उपादान कारणकी

निवृत्ति होनेपर आत्मस्वरूपमें स्थित

हो जाना ही मोक्ष है—यह सिद्ध

चात्मा ब्रह्म । तद्विज्ञानादविद्या-  
निवृत्तिरिति ब्रह्मविद्यार्थोपनिष-  
दारभ्यते ।

उपनिषदिति विद्योच्यते;

उपनिषच्छब्द- तच्छीलानां गर्भज-  
निष्कृतिः न्मजरादिनिशात-

नात्तदवसादनाद्वा ब्रह्मणो वोप-  
निगमयितृत्वादुपनिषण्णं वास्यां  
परं श्रेय इति । तदर्थत्वाद्-  
ग्रन्थोऽप्युपनिषत् ।

होता है । तथा स्वयं आत्मा ही ब्रह्म  
है और उसके ज्ञानसे ही अविद्यार्था  
निवृत्ति होती है; अतः अब ब्रह्म-  
ज्ञानके लिये उपनिषद्का आरम्भ  
किया जाता है ।

अपना सेवन करनेवाले पुरुषोंके  
गर्भ, जन्म और जरा आदिका निशातन  
( उच्छेद ) करने या उनका अवसादन  
( नाश ) करनेके कारण 'उपनिषद्'  
शब्दसे विद्या ही कही जाती है ।  
अथवा ब्रह्मके समीप ले जानेवाली  
होनेसे या इसमें परम श्रेय ब्रह्म  
उपस्थित है इसलिये [ यह विद्या 'उप-  
निषद्' है ] । उस विद्याके ही लिये  
होनेके कारण ग्रन्थ भी 'उपनिषद्' है ।

श्रीक्षावह्लीका शान्तिपाठ

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वयमा ।  
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुक्रमः । नमो  
ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव  
प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं  
वदिष्यामि । त्स्नमामवतु तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् ।  
अवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥

[ प्राणवृत्ति और दिनका अभिमानी देवता ] मित्र ( सूर्यदेव )  
हमारे लिये सुखकर हो । [ अपानवृत्ति और रात्रिका अभिमानी ] वरुण

हमारे लिये सुखायह हो [ नेत्र और सूर्यका अभिमानी देवता ] अर्यमा  
हमारे लिये सुखप्रद हो । बलका अभिमानी इन्द्र तथा [ वाक् और  
बुद्धिका अभिमानी देवता ] बृहस्पति हमारे लिये शान्तिदायक हो ।  
तथा जिसका पादविक्षेप ( ढग ) बहुत विस्तृत है वह [ पादाभिमानी  
देवता ] विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो । ब्रह्म [ रूप वायु ] को  
नमस्कार है । हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है । तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो ।  
अतः तुम्हींको मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा । तुम्हींको ऋत ( शाखोक्त निश्चित  
अर्थ ) कहूँगा और [ क्योंकि वाक् और शरीरसे सम्पन्न होनेवाले कार्य  
भी तुम्हारे ही अधीन हैं इसलिये ] तुम्हींको मैं सत्य कहूँगा । अतः तुम  
[ विद्यादानके द्वारा ] मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले  
आचार्यकी भी [ उन्मः वक्तृत्व सामर्थ्य देकर ] रक्षा करो । मेरी रक्षा करो  
और वक्ताकी रक्षा करो । आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक  
तीनों प्रकारके तापोंकी शान्ति हो ॥ १ ॥

शं मुखं प्राणवृत्तेरह्वश्वामि-  
मानी देवतात्मा मित्रो नोऽस्माकं  
भवतु । तथैवापानवृत्तेरात्रेश्वामि-  
मानी देवतात्मा वरुणः । चक्षु-  
ष्यादित्ये चामिमान्यर्यमा ।  
बल इन्द्रः । वाचि बुद्धौ च  
बृहस्पतिः । विष्णुरुत्क्रमो वि-  
स्तीर्णक्रमः पादयोरभिमानी ।  
एवमाद्याध्यात्मदेवताः शं नः ।  
भवत्विति सर्वत्रानुपङ्गः ।

प्राणवृत्ति और दिनका अभिमानी  
देवता मित्र हमारे लिये शं सुखरूप  
हो । इसी प्रकार अपानवृत्ति और  
रात्रिका अभिमानी देवता वरुण,  
नेत्र और सूर्यमें अभिमान करनेवाला  
अर्यमा, बलमें अभिमान करनेवाला  
इन्द्र, वाणी और बुद्धिका अभिमानी  
बृहस्पति तथा उरुक्रम अर्थात्  
विस्तीर्ण पादविक्षेपवाला पादाभिमानी  
देवता विष्णु—इत्यादि सभी अध्यात्म-  
देवता हमारे लिये सुखदायक हों ।  
'भवतु' ( हों ) इस क्रियाका मभी  
वाक्योंके साथ सम्बन्ध है ।



तासु हि सुखकृत्सु विद्या-  
श्रवणधारणोपयोगा अप्रतिबन्धे-  
न भविष्यन्तीति तत्सुखकर्तृत्वं  
प्रार्थ्यते शं नो भवत्विति ।

ब्रह्म विविदिपुणा नमस्कार-  
वन्दनक्रिये वायुविषये ब्रह्म-  
विद्योपसर्गशान्त्यर्थं क्रियेते । सर्व-  
क्रियाफलानां तदधीनत्वाद्  
ब्रह्म वायुस्तस्मै ब्रह्मणे नमः ।  
प्रह्नीभावं करोमीति वाक्यशेषः ।  
नमस्ते तुभ्यं हे वायो नमस्क-  
रोमीति । परोक्षप्रत्यक्षाभ्यां  
वायुरेवामिधीयते ।

किं च त्वमेव चक्षुराद्यपेक्ष्य  
वाह्यं संनिकृष्टमव्यवहितं प्रत्यक्षं  
ब्रह्मासि यस्मात्तस्मात्त्वामेव  
प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं  
यथाशास्त्रं यथाकर्तव्यं बुद्धौ  
सुपरिनिश्चितमर्थं तदपि त्वद-

उनके सुखप्रद होनेपर ही ज्ञान-  
के श्रवण, धारण और उपयोग  
निर्विघ्नतासे हो सकेंगे—इसलिये ही  
'शं नो भवतु' आदि मन्त्रद्वारा  
उनकी सुखावहताके लिये प्रार्थना  
की जाती है ।

अब ब्रह्मके जिज्ञासुद्वारा ब्रह्म-  
विद्याके विघ्नोक्ती शान्तिके लिये  
वायुसम्बन्धी नमस्कार और वन्दन  
क्रिये जाते हैं । समस्त कर्मोंका  
फल वायुके ही अधीन होनेके  
कारण ब्रह्म वायु है । उस  
ब्रह्मको मैं नमस्कार अर्थात् प्रह्नीभाव  
( विनीतभाव ) करता हूँ । यहाँ  
'करोमि' यह क्रिया वाक्यशेष है ।  
हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है—मैं  
तुम्हें नमस्कार करता हूँ—इस प्रकार  
यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्षरूपसे वायु  
ही कहा गया है ।

इसके सिवा क्योंकि ब्राह्म चक्षु  
आदिकी अपेक्षा तुम्हीं समीपवर्ती—  
अव्यवहित अर्थात् प्रत्यक्ष ब्रह्म हो  
इसलिये तुम्हींको मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म  
कहूँगा । तुम्हींको ऋत अर्थात् शास्त्र  
और अपने कर्तव्यानुसार बुद्धिमें  
सम्यक् रूपसे निश्चित किया हुआ  
अर्थ कहूँगा; क्योंकि वह [ ऋत ]

धीनत्वाच्चामेव वदिष्यामि ।  
सत्यमिति स एव वाक्कायाम्ब्यां  
मंपाग्रमानः, सोऽपि त्वदधीन  
एव सपाद्य इति त्वामेव सत्यं  
वदिष्यामि ।

तत्सर्वात्मकं वाय्वाख्यं ब्रह्म  
मयैवं स्तुतं सन्मां विद्यार्थिनम-  
वतु विद्यासंयोजनेन । तदेव  
ब्रह्म वक्तारमाचार्यं वक्तृत्व-  
सामर्थ्यसंयोजनेनावतु । अतु  
मामवतु वक्तारमिति पुनर्वचन-  
मादरार्थम् । ॐ शान्तिः शान्तिः  
शान्तिरिति त्रिवचनमाध्यात्मि-  
काधिर्मात्तिकाधिदैविकानां विद्या-  
प्राप्त्युपसर्गाणां प्रथमार्थम् ॥१॥

तुम्हारे ही अधीन है । वाक् और  
शरीरसे सम्पादन किया जानेवाला  
वह अर्थ ही सत्य कहलाता है, वह  
भी तुम्हारे ही अधीन सम्पादन किया  
जाता है, अतः तुम्हींको मैं सत्य  
कहूँगा ।

वह वायुसंज्ञक सर्वात्मक ब्रह्म  
मेरेद्वारा इस प्रकार स्तुति किये  
जानेपर मुझ विद्यार्थियों विद्यामे  
युक्त करके रक्षा करे । वही ब्रह्म  
वक्ता आचार्यको वक्तृत्वसामर्थ्यसे  
युक्त करके उसकी रक्षा करे । मेरी  
रक्षा करे और वक्ताकी रक्षा करे—इस  
प्रकार दो बार कहना आदरके लिये  
है । 'ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः'—  
ऐसा तीन बार कहना विद्याप्राप्तिके-  
आध्यात्मिक, आधिभौतिक और  
आधिदैविक विद्वानोंकी शान्तिके  
लिये है ॥ १ ॥

इति शिक्षाख्या प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥



## द्वितीय अनुवाक

शीक्षाकी व्याख्या

अर्थज्ञानप्रधानत्वादुपनिषदो  
ग्रन्थपाठे यत्नोपरमो मा भूदिति  
शीक्षाध्याय आरम्भते—

उपनिषद् अर्थज्ञानप्रधान है  
[ अर्थात् अर्थज्ञान ही इसमें मुख्य  
है ], अतः इस ग्रन्थके अध्ययनका  
प्रयत्न शिथिल न हो जाय—इसलिये  
पहले शीक्षाध्याय आरम्भ किया  
जाता है—

शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णः स्वरः । मात्रा बलम् ।

साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥ १ ॥

हम शीक्षाकी व्याख्या करते हैं । [ अकारादि ] वर्ण, [ उदात्तादि ] स्वर, [ ह्रस्वादि ] मात्रा, [ शब्दोच्चारणमें प्राणका प्रयत्नरूप ] बल, [ एक ही नियमसे उच्चारण करनारूप ] साम तथा सन्तान ( संहिता ) [ ये ही विषय इस अध्यायसे सीखे जाने योग्य हैं ] । इस प्रकार शीक्षाध्याय कहा गया ॥ १ ॥

शिक्षा शिक्ष्यतेऽनयेति वर्णा-  
द्युच्चारणलक्षणम् । शिक्ष्यन्त  
इति वा शिक्षा वर्णादयः ।  
शिक्षैव शीक्षा । दैव्यं छान्दसम् ।  
तां शीक्षां व्याख्यास्यामो विस्प-  
ष्टमा समन्तात्कथयिष्यामः ।

जिससे वर्णादिका उच्चारण सीखा  
जाय उसे 'शिक्षा' कहते हैं अथवा  
जो सीखे जायें वे वर्ण आदि ही  
शिक्षा हैं । शिक्षाको ही 'शीक्षा'  
कहा गया है । [ शीक्षाशब्दमें  
ईकारका ] दीर्घत्व वैदिक प्रक्रियाके  
अनुसार है । उस शीक्षाकी हम  
व्याख्या करते हैं अर्थात् उसका  
सर्वतोभावसे स्पष्ट वर्णन करते हैं ।

चक्षिडो वा ख्याजादिष्टस्य  
व्याङ्पूर्वस्य व्यक्तवाकर्मण एत-  
द्रूपम् ।

तत्र वर्णोऽकारादिः, स्वर  
उदात्तादिः, मात्रा ह्रस्वाद्याः, बलं  
प्रयत्नविशेषः, साम वर्णानां मध्य-  
मदृश्योच्चारणं समता, सन्तानः  
सन्ततिः संहितेत्यर्थः । एष हि  
शिक्षितव्योऽर्थः । शिक्षा यस्मिन्न-  
ध्याये सोऽयं शीक्षाध्याय इत्येव-  
मुक्त उदितः । उक्त इत्युपसं-  
हारार्थः ॥ १ ॥

‘व्याख्यास्याम’ यह पद ‘वि’ और  
‘आङ्’ उपसर्गपूर्वक ‘चक्षिङ्’ धातुके  
स्थानमें वैकल्पिक ‘ख्याञ्’ आदेश  
करनेसे निष्पन्न होता है । इसका  
अर्थ स्पष्ट उच्चारण है ।

तहाँ अकारादि वर्ण, उदात्तादि  
स्वर, ह्रस्वादि मात्राएँ, [ वर्णोंके  
उच्चारणमें ] प्रयत्नविशेषरूप बल,  
वर्णोंको मध्यम वृत्तिसे उच्चारण  
करनारूप साम अर्थात् समता तथा  
सन्तान—सन्तति अर्थात् संहिता—  
यही शिक्षणीय विषय है । शिक्षा  
जिस अध्यायमें है उस इस शिक्षा-  
अध्यायका इस प्रकार कथन याना  
प्रकाशन कर दिया गया । यहाँ  
‘उक्त’ पद उपसहारके लिये  
है ॥ १ ॥

इति शीक्षावल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥



## तृतीय अनुवाक

पाँच प्रकारकी संहिनोपासना

अधुना संहितोपनिषदुच्यते— | अथ संहितासम्बन्धिनी उपनिषत्  
( उपासना ) कही जाती है—

सह नौ यशः । सह नौ ब्रह्मवर्चसम् । अथातः  
संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पञ्चस्वधिकरणेषु ।  
अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् । ता  
सहासंहिता इत्याचक्षते । अथाधिलोकम् । पृथिवी  
पूर्वरूपम् । द्यौरुत्तररूपम् । आकाशः संधिः ॥ १ ॥

वायुः संधानम् । इत्यधिलोकम् । अथाधि-  
ज्योतिषम् । अग्निः पूर्वरूपम् । आदित्य उत्तररूपम् ।  
आपः संधिः । वैद्युतः संधानम् । इत्यधिज्योतिषम् । अथा-  
धिविद्यम् । आचार्यः पूर्वरूपम् ॥ २ ॥

अन्तेवास्युत्तररूपम् । विद्या संधिः । प्रवचन-  
संधानम् । इत्यधिविद्यम् । अथाधिप्रजम् । माता पूर्व-  
रूपम् । पितोत्तररूपम् । प्रजा संधिः । प्रजननसंधानम् ।  
इत्यधिप्रजम् ॥ ३ ॥

अथाध्यात्मम् । अधरा हनुः पूर्वरूपम् । उत्तरा  
हनुरुत्तररूपम् । वाक्संधिः । जिहा संधानम् । इत्य-

ध्यात्मम् । इतीमा महासंहिता य एवमेता महासंहिता  
व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुभिः । ब्रह्मवर्चसे-  
नाच्चाद्येन सुवर्गेण लोकेन ॥ ४ ॥

हम [ शिष्य और आचार्य ] दोनोंको साथ-साथ यश प्राप्त हो  
और हमें साथ-साथ ब्रह्मतेजस्वी प्राप्ति हो । [ क्योंकि जिन पुरुषोंकी  
बुद्धि शास्त्राध्ययनद्वारा परिमार्जित हो गयी है वे भी परमार्थनस्वको समझनेमें  
सहसा समर्थ नहीं होते, इसलिये ] अब हम पाँच अधिकरणोंमें  
संहिताकी \* उपनिषद् [ अर्थात् संहितासम्बन्धिनी उपासना ] की  
व्याख्या करेंगे । अधिलोक, अधिज्योतिष अधिविद्य, अत्रिप्रज्ञ और  
अत्यात्म—ये ही पाँच अधिकरण हैं । पण्डितजन उन्हें महासंहिता  
कहकर पुकारते हैं । अब अधिलोक ( लोकसम्बन्धी ) दर्शन ( उपासना )  
का वर्णन किया जाता है—संहिताका प्रथम वर्ण पृथिवी है, अन्तिम वर्ण  
शुलोक है, मध्यभाग आकाश है ॥ १ ॥ और वायु सन्धान ( उनका  
परस्पर सम्बन्ध करनेवाला ) है [ अधिलोक-उपासकको संहितामें इस  
प्रकार दृष्टि करनी चाहिये ]—यह अधिलोक दर्शन कहा गया । इसके  
अनन्तर अधिज्यौतिष दर्शन कहा जाता है—यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण  
अग्नि है, अन्तिम वर्ण शुलोक है, मध्यभाग आप ( जल ) है और विद्युत्  
सन्धान है [ अधिज्यौतिष-उपासकको संहितामें ऐसी दृष्टि करनी  
चाहिये ]—यह अधिज्यौतिष दर्शन कहा गया । इसके पश्चात् अधिविद्य  
दर्शन कहा जाता है—इसकी संहिताका प्रथम वर्ण आचार्य  
है ॥ २ ॥ अन्तिम वर्ण शिष्य है, विद्या सन्धि है और प्रवचन ( प्रज्ञोत्तर  
रूपसे निरूपण करना ) सन्धान है [—ऐसी अधिविद्य-उपासकको दृष्टि

छ 'संहिता' शब्दका अर्थ सन्धि या वर्णोंका सामीप्य है । भिन्न-भिन्न  
वर्णोंके मिलनेपर ही शब्द बनते हैं, उनमें जब एक वर्णका दूसरे वर्णसे योग होता  
है तो उन पूर्वोत्तर वर्णों-योगको 'सन्धि' कहते हैं और जिस शब्दोच्चारण सम्बन्धी  
प्रयत्नके योगसे है उसे 'सन्धान' कहा जाता है ।

करनी चाहिये ] । यह विद्यासम्बन्धी दर्शन कहा गया । इससे आगे अधिप्रज दर्शन कहा जाता है—यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण माता है, अन्तिम वर्ण पिता है, प्रजा ( सन्तान ) सन्धि है और प्रजनन ( ऋतु-कालमें भार्यागमन ) सन्धान है [—अधिप्रज-उपासकको ऐसी दृष्टि करनी चाहिये ] । यह प्रजासम्बन्धी उपासनाका वर्णन किया गया ॥ ३ ॥ इसके पश्चात् अध्यात्मदर्शन कहा जाता है—इसमें संहिताका प्रथम वर्ण नीचेका हनु ( नीचेके होठसे ठोड़ीतकका भाग ) है, अन्तिमवर्ण ऊपरका हनु ( ऊपरके होठसे नासिकातकका भाग ) है, गणी सन्धि है और जिह्वा सन्धान है [—ऐसा अध्यात्म-उपासकको दृष्टि करनी चाहिये ] । यह अध्यात्मदर्शन कहा गया । इस प्रकार ये महासंहिताएँ कहलाती हैं । जो पुरुष इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंहिताओको जानता है [ अर्थात् इस प्रकार उपासना करता है ] वह प्रजा, पशु, ब्रह्मतेज, अन्न और स्वर्गलोकसे संशुक्त किया जाता है । [ अर्थात् उसे इन सबकी प्राप्ति होती है ] ॥ ४ ॥

तत्र संहिताद्युपनिषत्परिज्ञाननिमित्तं यद्यशः प्रार्थ्यते तन्नावावयोः शिष्याचार्ययोः सहैवास्तु । तन्निमित्तं च यद्ब्रह्मवर्चसं तेजस्तच्च सहैवास्त्विति शिष्यवचनमाशीः । शिष्यस्य कृतार्थत्वात्प्रार्थनोपपद्यते नाचार्यस्य । कृतार्थत्वात् । कृतार्थो ह्याचार्यो नाम भवति ।

उस संहितादि उपनिषद् [ अर्थात् संहितादिसम्बन्धिनी उपासना ] के परिज्ञानके कारण जिस यशकी याचना की जाती है वह हम शिष्य और आचार्य दोनोंको साथ-साथ ही प्राप्त हो । तथा उसके कारण जो ब्रह्मतेज होता है वह भी हम दोनोंको साथ-साथ ही मिले—इस प्रकार यह कामना शिष्यका वाक्य है; क्योंकि अकृतार्थ होनेके कारण शिष्यके लिये ही प्रार्थना करना सम्भव भी है—आचार्यके लिये नहीं; क्योंकि वह कृतार्थ होता है । जो पुरुष कृतार्थ होता है वही आचार्य कहलाता है ।

अथानन्तरमध्ययनलक्षणवि-  
धानस्य, अतो यतोऽत्यर्थं ग्रन्थ-  
भाविता बुद्धिर्न शक्यते सहसार्थ-  
ज्ञानविषयेऽवतारयितुमित्यतः  
संहिताया उपनिषदं संहिताविषयं  
दर्शनमित्येतद्ग्रन्थसंनिष्ठायामेव  
व्याख्यास्यामः; पञ्चस्राधिकरणे-  
ष्वथशेषु ज्ञानविषयेष्वित्यर्थः ।

कानि तानीत्याह अधिलोकं  
लोकेष्वधि यद्दर्शनं तदधिलोकम् ।  
तथाधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रज-  
मध्यात्ममिति । ता एताः पञ्च-  
विषया उपनिषदो लोकादिमहा-  
वस्तुविषयत्वात्संहिताविषयत्वाच्च  
महत्त्वश्च ताः संहिताश्च महा-  
संहिता इत्याचक्षते कथयन्ति  
वेदविदः ।

अथ तासां यथोपन्यस्ताना-  
मधिलोकं दर्शनमुच्यते । दर्शन-

‘अय’ अर्थात् पहले कहे हुए  
अध्ययनरूप विधानके अनन्तर,  
‘अतः’—क्योंकि ग्रन्थके अध्ययनमें  
अत्यन्त आसक्त की हुई बुद्धिको  
सहसा अर्थज्ञान [ को ग्रहण करने ]  
में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता,  
इसलिये हम ग्रन्थकी समीपवर्तिनी  
संहितोपनिषद् अर्थात् संहिता-  
सम्बन्धिनी दृष्टिकी पाँच अधिकरण  
—आश्रय अर्थात् ज्ञानके विषयोंमें  
व्याख्या करेंगे [ तात्पर्य यह कि  
वर्णोंके विषयमें पाँच प्रकारके  
ज्ञान बतलावेंगे ] ।

वे पाँच अधिकरण कांन-से हैं ।  
सो बतलाते हैं—‘अधिलोक’—जो  
दर्शन लोकविषयक हो उसे अधिलोक  
कहते हैं । इसी प्रकार अधिज्योतिष,  
अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म  
भी समझने चाहिये । ये पञ्चविषय-  
सम्बन्धिनी उपनिषदें लोकादि महा-  
वस्तुविषयिणी और संहितासम्बन्धिनी  
हैं, इसलिये वेदवेत्तालोग इन्हें महती  
संहिता अर्थात् ‘महासंहिता’  
कहकर पुकारते हैं ।

अब ऊपर बतलाये हुई उन (पाँच  
प्रकारकी उपासनाओं ) मेंसे पहले  
अधिलोक-दृष्टि बतलायी जाती है ।



क्रमविवक्षार्थोऽथशब्दः सर्वत्र ।  
 पृथिवी पूर्वरूपं पूर्वं वर्णः पूर्व-  
 रूपम् । संहितायाः पूर्वं वर्णं  
 पृथिवीदृष्टिः कर्तव्येत्युक्तं भवति ।  
 तथा धीः उत्तररूपमाकाशोऽन्त-  
 रिक्षलोकः संधिर्मध्यं पूर्वोत्तर-  
 रूपयोः संधीयेते अस्मिन्पूर्वोत्तर-  
 रूपे इति । वायुः संधानम् ।  
 संधीयतेऽनेनेति संधानम् । इत्य-  
 धिलोकं दर्शनमुक्तम् । अथाधि-  
 व्योतिपमित्यादि समानम् ।

इतीमा इत्युक्ता उपप्रदर्शन्ते ।

यः कश्चिदेवमेता महासंहिता  
 व्याख्याता वेदोपास्ते । वेदेत्यु-  
 पासनं स्याद्विज्ञानाधिकारात्  
 "इति प्राचीनयोग्योपास्त्र" इति  
 च वचनात् । उपासनं च यथा-

यहाँ दर्शनक्रम बतलाना इष्ट होनेके  
 कारण 'अथ' शब्दकी सर्वत्र अनुवृत्ति  
 करनी चाहिये । पृथिवी पूर्वरूप  
 है । यहाँ पूर्ववर्ण ही पूर्वरूप कहा  
 गया है । इससे यह बतलाया गया  
 है कि संहिता ( सन्धि ) के प्रथम  
 वर्णमें पृथिवीदृष्टि करनी चाहिये ।  
 इसी प्रकार शुद्धेक उत्तररूप  
 ( अन्तिम वर्ण ) है, आकाश अर्थात्  
 अन्तरिक्ष सन्धि-पूर्व और उत्तर-  
 रूपका मध्य है अर्थात् इसमें ही  
 पूर्व और उत्तररूप एकत्रित किये  
 जाते हैं । वायु सन्धान है ।  
 जिससे सन्धि की जाय उसे सन्धान  
 कहते हैं । इस प्रकार अधिलोक  
 दर्शन कहा गया । उसीके समान  
 'अथाधिव्योतिपम्' इत्यादि मन्त्रोंका  
 अर्थ भी समझना चाहिये ।

'इति' और 'इमाः' इन शब्दोंसे  
 पूर्वोक्त दर्शनोंका परामर्श किया  
 जाता है । जो कोई इस प्रकार  
 व्याख्या की हुई इस महासंहिताको  
 जानता अर्थात् उपासना करता है—  
 यहाँ उपासनाका प्रकरण होनेके  
 कारण 'वेद' शब्दसे उपासना समझना  
 चाहिये जैसा कि 'इति प्राचीन-  
 योग्योपास्त्र' इस आगे ( १ । ६ । २ में )  
 कहे जानेवाले वचनसे सिद्ध होता है ।

शास्त्रं तुल्यप्रत्ययसन्ततिरसंकीर्णा  
 चातप्रत्ययैः शास्त्रोक्तालम्बन-  
 विषया च । प्रसिद्धश्चोपासन-  
 शब्दार्थो लोके गुरुमुपास्ते  
 राजानमुपास्त इति । यो हि  
 गुर्वादीन्सन्ततमुपचरति स उपास्त  
 इत्युच्यते । स' च फलमाप्नोत्यु-  
 पासनस्य । अतोऽत्रापि च य  
 एषं वेद सधीयते प्रजादिभिः  
 स्वर्गान्तैः । प्रजादिफलान्यामो-  
 तीत्यर्थः ॥१-४॥

शास्त्रानुसार समान प्रत्ययके प्रवाहका  
 नाम 'उपासना' है । वह प्रवाह विजा-  
 तीय प्रत्ययोसे रहित और शास्त्रोक्त  
 आलम्बनको आश्रय करनेवाला होना  
 चाहिये । लोकमें 'गुरुकी उपासना  
 करता है' 'राजाकी उपासना करता है'  
 इत्यादि वाक्योंमें 'उपासना' शब्दका  
 अर्थ प्रसिद्ध ही है । जो पुरुष गुरु  
 आदिकी निरन्तर परिचर्या करता  
 है वही 'उपासना करता है' ऐसा  
 कहा जाता है । वही उस उपासना-  
 का फल भी प्राप्त करता है । अत  
 इस महासहितके सम्बन्धमें भी जो  
 पुरुष इस प्रकार उपासना करता है  
 वह [ मन्त्रमें बतलाये हुए ] प्रजासे  
 लेकर स्वर्गपर्यन्त समस्त पदार्थोंमें  
 सम्पन्न होता है, अर्थात् प्रजादिरूप  
 फल प्राप्त करता है ॥ १-४ ॥

इति शीक्षावल्या तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥



## चतुर्थ अनुवाक

श्री और बुद्धकी कामनावालोंके लिये जप

और होमसम्बन्धी मन्त्र

यश्छन्दसामिति मेधाकाम-  
स्य श्रीकामस्य च तत्प्राप्तिसाधनं  
जपहोमावुच्येते । “स मेन्द्रो  
मेधया स्पृणोतु” “ततो मे श्रिय-  
मावह” इति च लिङ्गदर्शनात् ।

अत्र ‘यश्छन्दसाम्’ इत्यादि  
मन्त्रोंसे मेधाकामी तथा श्रीकामी  
पुरुषोंके लिये उनकी प्राप्तिके साधन  
जप और होम बतलाये जाते हैं;  
क्योंकि “वह इन्द्र मुझे मेधासे प्रसन्न  
अथवा बलयुक्त करे” तथा “अतः  
उस श्रीको तू मेरे पास ला” इन  
वाक्योंमें [ क्रमशः मेधा और श्री-  
प्राप्तिके लिये की गयी प्रार्थनाके ]  
लिङ्ग देखे जाते हैं ।

यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्य-  
मृतात्संवभृव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव  
धारणो भूयासम् । शरीरं मे विचर्षणम् । जिह्वा मे  
मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि  
मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय । आवहन्ती वितन्वाना ॥ १ ॥

कुर्वाणाचीरमात्मनः । वासाऽसि मम गावश्च ।  
अन्नपाने च सर्वदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशुभिः  
सह स्वाहा । आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । विमायन्तु  
ब्रह्मचारिणः स्वाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ।  
दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः  
स्वाहा ॥ २ ॥

जो वेदोंमें ऋषभ ( श्रेष्ठ अथवा प्रधान ) और सर्वरूप है तथा वेदरूप अमृतसे प्रधानरूपमें आविर्भूत हुआ है वह [ ओंकाररूप ] इन्द्र ( सम्पूर्ण कामनाओंका ईश ) मुझे मेधासे प्रसन्न अथवा बलयुक्त करे । हे देव ! मैं अमृतत्व ( अमृतत्वके हेतुभूत ब्रह्मज्ञान ) का धारण करनेवाला हों । मेरा शरीर विचक्षण ( योग्य ) हों । मेरी जिह्वा अत्यन्त मधुमती ( मधुर भाषण करनेवाली ) हों । मैं कानोंसे खूब श्रवण करूँ । [ हे ओंकार ! ] तू ब्रह्मका कोप है और लौकिक बुद्धिसे ढँका हुआ है [ अर्थात् लौकिक बुद्धिके कारण तेरा ज्ञान नहीं होता ] । तू मेरी श्रवण की हुई विद्याकी रक्षा कर । मेरे लिये ब्रह्म, गौ और अन्न-पानका सर्वदा शीघ्र ही ले आनेवाली और इनका विस्तार करनेवाली श्रीको [ भेड-बकरी आदि ] उनवाले तथा अन्य पशुओंके सहित बुद्धि प्राप्त करानेके अनन्तर तू मेरे पास ला—स्वाहा । ब्रह्मचारीलोग मेरे पास आवें—स्वाहा । ब्रह्मचारीलोग मेरे प्रति निष्कपट हों—स्वाहा । ब्रह्मचारीलोग प्रमा ( यथार्थ ज्ञान ) को धारण करें—स्वाहा । ब्रह्मचारीलोग दम ( इन्द्रियदमन ) करें—स्वाहा । ब्रह्मचारीलोग शम ( मनोनिग्रह ) करें—स्वाहा । [ इन मन्त्रोंके पीछे जो 'स्वाहा' शब्द है वह इस बातको सूचित करता है कि ये हवनके लिये हैं ] ॥ १-२ ॥

यद्वच्छन्दसां वेदानामृषभ  
 ओङ्कारतो बुद्धि इवर्षमः प्राधान्यात् ।  
 बल प्राच्यते विश्वरूपः सर्वरूपः  
 सर्ववाग्भ्याप्तेः । “तद्यथा श-  
 ङ्कुना” ( छा० उ० २।२३।३ )  
 इत्यादि श्रुत्यन्तरात् । अत एव-

जो [ ओंकार ] प्रधान होनेके कारण छन्द—वेदोंमें श्रेष्ठके समान श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण वाणीमें व्याप्त होनेके कारण विश्वरूप यानी सर्वमय है, जैसा कि “जिस प्रकार शङ्कुओं ( पत्तोंकी नसों ) से [ सम्पूर्ण पते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओंकारसे सम्पूर्ण वाणी व्याप्त है—ओंकार ही यह सब कुल है ]” इस एक अन्य श्रुतिमें सिद्ध होता है । इसीन्निर्णय

र्पमत्वमोङ्कारस्य । ओङ्कारो  
 ह्यत्रोपास्य इति ऋषभादि-  
 शब्दैः स्तुतिर्न्याय्यैवोङ्कारस्य ।  
 छन्दोभ्यो वेदेभ्यो वेदा ह्यमृतं  
 तस्मादमृतादधिसंबभूव । लोक-  
 देववेदव्याहृतिभ्यः सारिष्ठं  
 जिघृक्षोः प्रजापतेस्तपस्यत  
 ओङ्कारः सारिष्ठत्वेन प्रत्यभा-  
 दित्यर्थः । न हि नित्यस्योङ्कार-  
 स्याज्जसैवोत्पत्तिरेव कल्प्यते ।  
 स एवभूत ओङ्कार इन्द्रः सर्व-  
 कामेशः परमेश्वरो मा मां मेधया  
 प्रज्ञया स्पृणोतु प्रीणयतु बलयतु  
 वा । प्रज्ञाबलं हि प्रार्थ्यते ।

अमृतस्य अमृतत्वहेतुभूतस्य  
 ब्रह्मज्ञानस्य तदधिहारात्, हे  
 देव धारणो धारयिता भूयासं  
 भवेयम् । किं च शरीरं मे मम  
 विचर्षणं विचक्षणं योग्यमित्ये-  
 तत् । भूयादिति प्रथमपुरुष-  
 विपरिणामः । जिह्वा मे मधु-

ओङ्कारकी श्रेष्ठता है । यहाँ ओङ्कार  
 ही उपासनीय है, इसलिये 'ऋषभ'  
 आदि शब्दोंसे ओङ्कारकी स्तुति की  
 जानी उचित ही है । छन्द अर्थात्  
 वेदोंसे—वेद ही अमृत हैं, उस  
 अमृतसे जो प्रधानरूपसे हुआ है ।  
 तात्पर्य यह है कि लोक, देव, वेद  
 और व्याहृतियोंसे सर्वविकृष्ट सार ग्रहण  
 करनेकी इच्छासे तप करते हुए प्रजा-  
 पतिको ओङ्कार ही सर्वोत्तम साररूपसे  
 भासित हुआ था; क्योंकि नित्य  
 ओङ्कारकी साक्षात् उत्पत्तिकी कल्पना  
 नहीं की जा सकती । वह इस  
 प्रकारका ओङ्काररूप इन्द्र—सम्पूर्ण  
 कामनाओंका स्वामी परमेश्वर मुझे  
 मेधाद्वारा प्रसन्न अथवा सबल करे;  
 इस प्रकार यहाँ बुद्धिवलके लिये  
 प्रार्थना की जाती है ।

हे देव ! मैं अमृत—अमृतत्वके  
 हेतुभूत ब्रह्मज्ञानका धारण करने-  
 वाला होऊँ; क्योंकि यहाँ ब्रह्मज्ञान-  
 का ही प्रसङ्ग है । तथा मेरा शरीर  
 विचर्षण—विचक्षण अर्थात् योग्य  
 हो । [ मूलमें 'भूयासम्' (होऊँ) यह  
 उत्तम पुरुषका प्रयोग है उसे ]  
 'भूयात्' (हो) इस प्रकार प्रथम पुरुष-  
 में परिणत कर लेना चाहिये । मेरी

मत्तमा मधुमत्यतिशयेन मधुर-  
भाषिणीत्यर्थः । कर्णाभ्यां श्रोत्रा-  
भ्यां भूरि बहु विश्रवं व्यश्रवं  
श्रोता भूयासमित्यर्थः । आत्म-  
ज्ञानयोग्यः कार्यकरणसंधातो-  
ऽस्त्विति वाक्यार्थः । मेधा च  
तदर्थमेव हि प्रार्थ्यते ।

ब्रह्मणः परमात्मनः कोशो-  
ऽसि । असेरिरोपलब्धघिष्ठान-  
त्मान् । त्वं हि ब्रह्मणः प्रतीक  
त्वयि ब्रह्मोपलभ्यते । मेघषा  
लौकिकप्रतया पिहित आच्छा-  
दितः स त्वं मामान्यप्रज्ञैरविदि-  
ततत्त्वं इत्यर्थः । श्रुतं श्रवणपूर्व-  
कमात्मज्ञानादिकं मे गोपाय  
रक्ष । तत्प्राप्त्यविस्मरणादि  
कुर्वित्यर्थः । जपार्था एते मन्त्रा  
मेधाज्ञामस्य ।

होमार्थास्त्वधुना श्रीरामस्य  
बोद्धारण मन्त्रा उच्यन्ते ।  
श्रियं प्रार्थना आवहन्त्यानयन्ती ।  
वितन्वाना विस्तारयन्ती । तनो-

जिह्वा मधुमत्तमा—अतिशय मधुमती  
अर्थात् अत्यन्त मधुरभाषिणी हो । मैं  
कानोंसे भूरि—अधिक मात्रामें श्रवण  
करूँ अर्थात् बड़ा श्रोता होंऊँ ।  
इस वाक्यका तात्पर्य यह है कि  
मेरा शरीर और इन्द्रियसबल आत्म-  
ज्ञानके योग्य हो । तथा उसीके  
लिये ही बुद्धिनी याचना की  
जाती है ।

परमात्माकी उपलब्धिका स्थान  
होनेके कारण त् तलरके कोशके  
समान ब्रह्म यानी परमात्माकोश  
है, क्योंकि त् ब्रह्मका प्रतीक है—  
तुझमें ब्रह्मकी उपलब्धि होती है ।  
वही त् मेधा अर्थात् लौकिकी बुद्धि-  
से आच्छादित यानी टन्ना हुआ है,  
अर्थात् मामान्य-बुद्धि पुरुषोंको तेरे  
तत्त्वका ज्ञान नहीं होता । मेरे  
श्रुत अर्थात् श्रवणपूर्वक आत्म-  
ज्ञानादि विज्ञानकी रक्षा कर, अर्थात्  
उसकी प्राप्ति एव अविस्मरण आदि  
कर । ये मन्त्र मेधाज्ञामो पुरुषके  
जपके लिये हैं ।

अब लक्ष्मीकामो पुरुषको हमके  
लिये मन्त्र ब्रनलाये जाते हैं—आव-  
हन्ती—अनेकाली, विन्वाना—  
विस्तार करनेवाली, क्योंकि 'तनु'

तेस्तत्कर्मत्वात् । कुर्वाणा निर्वर्त-  
यन्ती, अचीरमचिरं क्षिप्रमेव,  
छान्दसो दीर्घः; चिरं वा कुर्वा-  
णा आत्मनो मम, किमित्याह—  
वासांमि वस्त्राणि मम गावश्च  
गाश्चेति यावत्, अन्नपाने च  
सर्वदैवमादीनि कुर्वाणा श्रीर्वा  
तां ततो भेदानिर्वर्तनात्परमा-  
वहानय । अमेधसो हि श्रीरन-  
र्थयैवेति ।

किंविशिष्टाम् । लोमशामजाव्या-  
दियुक्तामन्यैश्च पशुभिः संयुक्ता-  
मावहेत्यधिकारादोङ्कार एवामि-  
संबध्यते । स्वाहा स्वाहाकारो  
होमार्थमन्त्रान्तज्ञापनार्थः । आ-  
यन्तु मामिति व्यवहितेन सं-  
बन्धः । ब्रह्मचारिणो विमायन्तु  
प्रमायन्तु दमायन्तु जमायन्त्व-  
त्यादि ॥१-२॥

धातुका अर्थ विस्तार करना ही है;  
कुर्वाणा-करनेवाली; अचीरम्-  
अचिर अर्थात् शीघ्र ही; 'अचीरम्' मे  
दीर्घ ईकार वैदिक प्रक्रियाके अनुसार  
है । अथवा चिरं ( चिरकालतक )  
आत्मनः—मेरे लिये करनेवाली, क्या  
करनेवाली? सां बतलाने हैं—मेरे वस्त्र,  
गौ और अन्न-पान इन्हें जो श्री सदा  
ही करनेवाली है उसे, बुद्धि प्राप्त  
करानेके अनन्तर तू मेरे पास ला;  
क्योंके बुद्धिहीनके लिये तो लक्ष्मी  
अनर्थका ही कारण होती है ।

किन विशेषणोंसे युक्त श्रीकां  
लावे ? लोमश अर्थात् भेड़-बकरों  
आदि ऊनवालोंके सहित और अन्य  
पशुओंसे युक्त श्रीको ला । यहाँ 'आवह'  
क्रियाका अधिकार होनेके कारण  
[ उसके कर्ता ] ओंकारसे ही सम्बन्ध  
है । स्वाहा—यह स्वाहाकार होमार्थ  
मन्त्रोंका अन्त सूचित करनेके लिये  
है । [ 'आ मायन्तु ब्रह्मचारिणः' इस  
वाक्यमें ] 'आयन्तु माम्' इस प्रकार  
'आ' का व्यवधानयुक्त 'यन्तु' शब्दसे  
सम्बन्ध है । [ इसी प्रकार मेरे प्रति ]  
ब्रह्मचारीलोग निष्कपट हों । वे प्रमा-  
कों धारण करें, इन्द्रिय-निग्रह करें-  
मनोनिग्रह करें, इत्यादि ॥ १-२ ॥

यशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान् वस्यसोऽसानि  
 स्वाहा । तं त्वा भग प्रविशानि स्याहा । स मा भग प्रविश  
 स्वाहा । तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाह त्वयि मृजे स्वाहा ।  
 यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहर्जरम् । एवं मां  
 ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि  
 प्र मा पाहि प्र मा पद्यस्व ॥ ३ ॥

मैं जनतामें यशस्वी होऊँ—स्वाहा । मैं अत्यन्त प्रशंसनीय और  
 वनवान् होऊँ—स्वाहा । हे भगवन् ! मैं उस ब्रह्मकोशभूत तुझमें प्रवेश कर  
 जाऊँ—स्वाहा । हे भगवन् ! वह तू मुझमें प्रवेश कर—स्वाहा । हे भगवन् !  
 उस सङ्खशाखायुक्त [ अर्थात् अनेकों भेदवाले ] तुझमें मैं अपने पापा-  
 चरणोंका शोधन करता हूँ—स्वाहा । जिस प्रकार जल निम्न प्रदेशकी  
 ओर जाता है तथा महीने अहर्जर—सशरमें अन्तर्हित हो जाते हैं,  
 उसी प्रकार हे धात ! ब्रह्मचारीयोग सब ओरसे मेरे पास आवें—  
 स्वाहा । तू [ शरणागतोंका ] आश्रयस्थान है अतः मेरे प्रति भासमान  
 हो, तू मुझे प्राप्त हो ॥ ३ ॥

यशो यशस्वी जने जनसमूहे-  
 ऽसानि मवानि । श्रेयान्प्रशस्यतरो  
 वस्यसो वसीयसो वसुतराद्बसुमत्त-  
 राद्वासानीत्यन्वयः । किं च तं  
 ब्रह्मणः कोशभूतं त्वा त्वा हे भग  
 मगन्पूजावन्प्रविशानि प्रविश्य  
 चानन्यस्त्वदात्मैव मरानीत्यर्थः ।

मैं जनतामें यशस्वी होऊँ तथा  
 श्रेयान्—प्रशस्यतर और वस्यस—  
 वसीयस अर्थात् वसुमान्से भी  
 वसुमान् यानी अत्यन्त धनी पुरुषों-  
 से भी विशेष धनवान् होऊँ । तथा  
 हे भग भगवन्-पूजनीय ! ब्रह्मके  
 कोशभूत उस तुझमें मैं प्रवेश करूँ,  
 तात्पर्य यह है कि तुझमें प्रवेश करके  
 तुझसे अनन्य हो मैं तेरा ही रूप



स त्वमपि मा मां भग भगवन्  
प्रविश । आवयोरेकत्वमेवास्तु ।  
तस्मिंस्त्वयि सहस्रशाखे बहु-  
शाखाभेदे हे भगवन्, निमृजे  
शोधयाम्यहं पापकृत्याम् ।

यथा लोक आपः प्रवता  
प्रवणवता निम्नवता देशेन यन्ति  
गच्छन्ति । यथा च मासा  
अहर्जरं संवत्सरोऽहर्जरः ।  
अहोभिः परिवर्तमानो लोकाञ्जर-  
यतीत्यहानि वासिञ्जीर्यन्त्यन्त-  
र्भवन्तीत्यहर्जरः । तं च यथा  
मासा यन्त्येवं मां ब्रह्मचारिणो  
हे धातः सर्वस्य विधातः मामा-  
यन्त्वागच्छन्तु सर्वतः सर्व-  
दिग्भ्यः ।

प्रतिवेशः—श्रमापनयनस्थान-  
मासन्नगृहमित्यर्थः । एवं त्वं  
प्रतिवेश इव प्रतिवेशस्त्वच्छी-  
लिनां सर्वपापदुःखापनयनस्था-  
नमसि, अतो मा मां प्रति प्रभाहि  
प्रकाशयात्मानं प्रपद्यन् च ।

हो जाऊँ; तथा तू भी, हे भग-  
भगवन् ! मुझमें प्रवेश कर । अर्थात्  
हम दोनोंकी एकता ही हो जाय । हे  
भगवन् ! उस सहस्रशाख—अनेकों  
शाखाभेदवाले तुझमें मैं अपने पाप-  
कर्मोंका शोधन करता हूँ ।

लोकमें जिस प्रकार जल प्रवण-  
वान्—निम्नतायुक्त देशकी ओर जाते  
हैं और महीने जिस प्रकार अहर्जरमें  
अन्तर्हित होते हैं । अहर्जर संवत्सर-  
कों कहते हैं; क्योंकि वह अहः  
दिनोंके रूपमें परिवर्तित होता हुआ  
लोकोंको जीर्ण करता है अथवा  
उसमें अहः—दिन जीर्ण यानी  
अन्तर्भूत होते हैं इसलिये वह  
अहर्जर है । उस संवत्सरमें जिस  
प्रकार महीने जाते हैं उसी प्रकार  
हे धातः ! मेरे पास सब ओरसे—  
सम्पूर्ण दिशाओंसे ब्रह्मचारीलोग  
आवें ।

‘प्रतिवेश’ श्रमनिवृत्तिके स्थान  
अर्थात् समापवर्ती गृहको कहते हैं ।  
इस प्रकार तू प्रतिवेशके समान प्रति-  
वेश यानी अपना अनुशीलन करने-  
वालोंका दुःखनिवृत्तिका स्थान है ।  
अतः तू मेरे प्रति अपनेको प्रकाशित  
कर और मुझे प्राप्त हो; अर्थात्

मां रसचिद्धमित्र लोहं त्वन्मयं  
त्वदात्मानं कुर्वित्यर्थः ।

श्रीकामोऽग्निनिद्याप्रकरणे-

विशोपलब्धी  
धनस्योपयोग  
ऽभिधीयमानो धना-  
र्थः । धनं च कर्मा-  
र्थम् । कर्म चोपात्तदुरितक्षयाय ।  
तत्क्षये हि विद्या प्रकाशते । तथा  
च स्मृतिः “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां  
क्षयात्पापस्य कर्मणः । यथादर्श-  
तले प्रख्ये पश्यन्त्यात्मान-  
मात्मनि” ( महा० शा० २०४ ।  
८, गरुड० १ । २३७ । ६ )  
इति ॥ ३ ॥

पारदसयुक्त लोहेके समान व मुझे  
अपनेसे अभिन्न कर ले ।

इस ज्ञानके प्रकरणमें जो लक्ष्मी-  
की कामना कही जाती है वह धनके  
लिये है, धन कर्मके लिये होता है,  
और कर्म प्राप्त हुए पापोंके क्षयके  
लिये है । उनके क्षीण होनेपर ही  
ज्ञानका प्रकाश होता है, जैसा कि  
यह स्मृति भी कहती है—“पाप-  
कर्मोंका क्षय हो जानेपर ही पुरुष-  
को ज्ञान होता है । जिस प्रकार  
दर्पणके स्वच्छ हो जानेपर उसमें  
मुख देखा जा सकता है उसी  
प्रकार शुद्ध अन्तकरणमें आत्माका  
साक्षात्कार होता है” ॥ ३ ॥

इति शीक्षावल्यां चतुर्थोऽनुवाक ॥ ४ ॥



## पञ्चम अनुवाक

व्याहृतिरूप ब्रह्मकी उपासना

संहिताविषयमुपासनमुक्तं त-  
दनु मेधाकामस्य श्रीकामस्य  
मन्त्रा अनुक्रान्ताः । ते च पार-  
म्पर्येण विद्योपयोगार्था एव ।  
अनन्तरं व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणो-  
ऽन्तरुपासनं स्वाराज्यफलं प्र-  
स्तूयते—

पहले संहितासम्बन्धिनी  
उपासनाका वर्णन किया गया ।  
तत्पश्चात् मेधाकी कामनावाले तथा  
श्रीकामी पुरुषोंके लिये मन्त्र बतलाये  
गये । वे भी परम्परासे ज्ञानके  
उपयोगके लिये ही हैं । उसके  
पश्चात् अब जिसका फल स्वाराज्य  
है उस व्याहृतिरूप ब्रह्मकी आन्तरिक  
उपासनाका आरम्भ किया जाता है—

भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहतयः ।  
तासामु ह स्मैतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते  
मह इति । तद्ब्रह्म । स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः ।  
भूरिति वा अयं लोकः । भुव इत्यन्तरिक्षम् । सुवरित्यसौ  
लोकः ॥ १ ॥

मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे लोका  
महीयन्ते । भूरिति वा अग्निः । भुव इति वायुः । सुवरित्या-  
दित्यः । मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि  
ज्योतीःषि महीयन्ते । भूरिति वा ऋचः । भुव इति  
सामानि । सुवरिति यजूषि ॥ २ ॥

मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते  
भूरिति वै प्राणः । भुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । मह  
इत्यन्नम् । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते । ता वा  
एताश्चतस्रश्चतुर्धा । चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद ।  
स वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा वलिमावहन्ति ॥ ३ ॥

‘भू, भुव और सुव’ ये तीन व्याहृतियाँ हैं । उनमेंसे ‘मह’  
इस चौथी व्याहृतिको माहाचमस्य ( महाचमसका पुत्र ) जानता है ।  
वह मह. ही ब्रह्म है । वही आत्मा है । अन्य देवता उसके अङ्ग ( अवयव )  
हैं । ‘भू’ यह व्याहृति यह लोक है, ‘भुव’ अन्तरिक्षलोक है  
और ‘सुव’ यह स्वर्गलोक है ॥ १ ॥ तथा ‘मह.’ आदित्य है । आदित्यमे  
ही समस्त लोक वृद्धिको प्राप्त हाते हैं । ‘भू’ यही आग्ने है, ‘भुव’  
वायु है, ‘सुव’ आदित्य है तथा ‘मह’ चन्द्रमा है । चन्द्रमासे ही  
सम्पूर्ण ज्योतियाँ वृद्धिको प्राप्त होती हैं । ‘भू’ यही ऋक् है, ‘भुव’  
साम है, ‘सुव’ यजु है ॥ २ ॥ तथा ‘मह.’ ब्रह्म है । ब्रह्ममे ही  
समस्त वेद वृद्धिको प्राप्त होते हैं । ‘भू’ यही प्राण है, ‘भुव’  
अपान है, ‘सुव’ व्यान है तथा ‘मह’ अन्न है । अन्नसे ही समस्त  
प्राण वृद्धिको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार ये चार व्याहृतियों हैं । इनमेंसे  
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी है । जो इन्हें जानता है वह ब्रह्मको  
जानता है । सम्पूर्ण देवगण उसे वलि ( उपहार ) समर्पण करते हैं ॥३॥

भूर्भुवः सुवरिति; इतीत्युक्तोप-

व्याहृतिचतुष्टयम्

प्रदर्शनार्थः । एता-  
स्तिस्र इति च प्रद-

र्शितानां परामर्शार्थः । परामृष्टाः

‘भूर्भुव सुवरिति’ इसमें ‘इति’  
शब्द पूर्वकथित [ व्याहृतियों ] को  
ही प्रदर्शित करनेके लिये है,  
‘एतास्तिस्र’ ये शब्द भी पूर्व  
प्रदर्शित [ व्याहृतियों ] के ही  
परामर्शके लिये हैं । ‘वै’ इस

स्सार्यन्ते वा इत्यनेन । तिस्र एताः  
 प्रसिद्धा व्याहृतयः सार्यन्ते  
 तावत् । तासामियं चतुर्थी  
 व्याहृतिर्मह इति । तामेतां चतुर्थीं  
 महाचमसस्यापत्यं माहाचमस्यः  
 प्रवेदयते । उ ह स इत्येतेषां वृत्ता-  
 नुकथनार्थत्वाद्विदितवान्ददर्श-  
 त्वर्थः । माहाचमस्यग्रहणमार्पा-  
 नुस्मरणार्थम् । ऋपिस्मरणमप्यु-  
 पासनाङ्गमिति गम्यत इहो-  
 पदेशात् ।

येयं माहाचमस्येन दृष्टा व्या-

व्याहृतिसु मासः इतिर्मह इति तद्वत्त्वा ।  
 प्रधान्यम् महद्वि ब्रह्म महश्च

व्याहृतिः । किं पुनस्तत् ? स आत्मा

आप्नोतेव्याप्तिकर्मणः आत्मा ।

अव्ययसे परामृष्ट व्याहृतियोंका  
 स्मरण कराया जाता है । अर्थात्  
 [ इन शब्दोंसे ] ये तीन प्रसिद्ध  
 व्याहृतियाँ स्मरण दिलायी जाती  
 हैं । उनमें 'महः' यह चौथी  
 व्याहृति है । उस इस चौथी  
 व्याहृतिको महाचमसका पुत्र माहा-  
 चमस्य जानता है । किन्तु 'उ ह  
 स' ये तीन निपात अतीत घटना-  
 का अनुकथन करनेके लिये होनेके  
 कारण इसका अर्थ 'जानता था'  
 'देखा था' इस प्रकार होगा ।  
 [ व्याहृतिके दृष्टा ] ऋषिका अनु-  
 स्मरण करनेके लिये 'माहाचमस्य'  
 यह नाम लिया गया है । इस प्रकार  
 यहाँ उपदेश होनेके कारण यह  
 जाना जाता है कि ऋषिका अनु-  
 स्मरण भी उपासनाका एक अङ्ग है ।

जिस 'महः' नामक व्याहृतिको  
 माहाचमस्यने देखा था वह ब्रह्म है ।  
 ब्रह्म भी महान् है और व्याहृति भी  
 महः है । और वह क्या है ? वही  
 आत्मा है । 'व्याप्ति' अर्थवाले  
 'आप्' धातुसे 'आत्मा' शब्द  
 निष्पन्न होता है । क्योंकि लोक,

इतराथ व्याहृतयो लोका देवा  
 वेदाः प्राणाश्च मह इत्यनेन  
 व्याहृत्यात्मनादित्यचन्द्रब्रह्मान्न-  
 भूतेन व्याप्यन्ते यतः अतो-  
 ऽङ्गान्यवयवा अन्या देवताः ।  
 देवताग्रहणमुपलक्षणार्थं लोका-  
 दीनाम् । मह इ येतस्य व्या-  
 हृत्यात्मनो देवलोकादयः सर्वे-  
 ऽवयवभूता यतोऽत आहादित्या-  
 दिभिर्लोकादयो महीयन्ते इति ।  
 आत्मनो ह्यङ्गानि महीयन्ते, महन  
 वृद्धिरुपचयः । महीयन्ते वर्धन्त  
 इत्यर्थः ।

अयं लोकोऽग्निर्ऋग्वेदः प्राण

इति प्रथमा व्याहृति  
 चत्वारो वेदा भूरिति । एवमुत्त-  
 रोत्तरैकैका चतुर्धा भवति ।  
 मह इति ब्रह्म । ब्रह्मेत्योङ्कारः,  
 शब्दाधिकारेऽन्यस्यासंभवात् ।  
 उक्तार्थमन्यत् ।

देव, वेद और प्राणरूप अन्य  
 व्याहृतियों आदित्य, चन्द्र, ब्रह्म एव  
 अनस्वरूप व्याहृत्यात्मक मह से  
 व्याप्त हैं, इसलिये वे अन्य देवता  
 इसके अङ्ग—अवयव हैं । यहाँ  
 लोकादिका उपलक्षण करानेके लिये  
 'देवता' शब्दका ग्रहण किया  
 गया है । क्योंकि देव और लोक  
 आदि सभी 'मह' इस व्याहृत्यात्माके  
 अवयवरूप हैं, इसीलिये ऐसा  
 कहा है कि आदित्यादिके योगमे  
 लोकादि महत्ताको प्राप्त होते हैं ।  
 आत्मासे ही अङ्ग महत्ताको प्राप्त  
 हुआ करते हैं । 'महन' शब्दका  
 अर्थ वृद्धि—उपचय है । अतः  
 'महीयन्ते' इसका 'वृद्धिको प्राप्त  
 होते हैं' यह अर्थ है ।

यह लोक, अग्नि, ऋग्वेद और  
 प्राण—ये पहली व्याहृति मू हैं, इसी  
 प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याहृति चार-  
 चार प्रकारकी है । \* 'मह.' ब्रह्म  
 है, ब्रह्मका अर्थ ओंकार है, क्योंकि  
 शब्दके प्रकरणमें अन्य किसी ब्रह्म-  
 का होना असम्भव है । शेष सप्तका  
 अर्थ पहले कहा जा चुका है ।

\* यथा अन्तरिक्षलोक, वायु, सामवेद और अपान—ये दूसरी व्याहृति  
 भुव हैं, द्युलोक, आदित्य, यजुर्वेद और व्यान—ये तीसरी व्याहृति सुव. हैं,  
 तथा आदित्य, चन्द्रमा, ब्रह्म और अन्न—ये चौथी व्याहृति महः हैं ।

ता वा एताश्चतस्रश्चतुर्थेति ।

ता वा एता भूर्भुवः सुवर्मह इति

चतस्र एकैकशश्चतुर्धा चतुष्प्र-

काराः । धाशब्दः प्रकारवचनः ।

चतस्रश्चतस्रः सत्यश्चतुर्धा भव-

न्तीत्यर्थः । तासां यथाकल्पानां

पुनरुपदेशस्तथैवोपासननियमार्थः ।

ता यथोक्तव्याहृतीर्थो वेद स

वेद विज्ञानाति । किम् ? ब्रह्म ।

ननु "तद्ब्रह्म स आत्मा" इति

ज्ञाते ब्रह्मणि न वक्तव्यमविज्ञात-

वत्स वेद ब्रह्मेति ।

नः तद्विशेषविवक्षुत्वाद्-

पद्मामरः ठानु-

गान्धोरेयनाम्बना

दोषः । सत्यं विज्ञातं

चतुर्थव्याहृत्यात्मा

ब्रह्मेति न तु तद्विशेषो हृदयान्त-

रुपलभ्यत्वं मनोमयत्वादिश्च ।

वे ये चारो व्याहृतिर्यौ चार

प्रकारकी हैं । अर्थात् वे ये भूः,

भुवः, सुवः और महः चार व्याहृतिर्यौ

प्रत्येक चार-चार प्रकारकी हैं ।

'धा' शब्द 'प्रकार' का वाचक है ।

अर्थात् वे चार-चार होती हुई चार

प्रकारकी हैं । उनकी जिस प्रकार

पहले कल्पना की गयी है उसी

प्रकार उपासना करनेका नियम

करनेके लिये उनका पुनः उपदेश

किया गया है । उन उपर्युक्त

व्याहृतिर्यौको जो पुरुष जानता है

वही जानता है । किसे जानता है ?

ब्रह्मको ।

शङ्का--"वह ब्रह्म है, वह आत्मा

है" इस वाक्यद्वारा [ महःरूपसे ]

ब्रह्मको जान लेनेपर भी उसे न

जाननेके समान [ उसे जो जानता

है ] वह ब्रह्मको जानता है' ऐसा

कहना तो ठीक नहीं है ।

समाधान--ऐसी शङ्का नहीं करनी

चाहिये; क्योंकि उस [ ब्रह्मविषयक

ज्ञान ] के विषयमें विशेष कहना

अभीष्ट होनेके कारण इस प्रकार

कहनेमें कोई दोष नहीं है । यह

ठीक है कि इतना तो जान लिया

कि चतुर्थ व्याहृतिरूप ब्रह्म है; किन्तु

हृदयके भीतर उपलब्ध होना तथा मनो-

मयत्वादिरूप उसकी विशेषताओंका

‘शान्तिसमृद्धम्’ इत्येवमन्तो

विशेषणविशेष्यरूपो धर्मपूरो न

विज्ञायत इति तद्विवक्षु हि

शास्त्रमविज्ञातमिव ब्रह्म मत्वा स

वेद ब्रह्मेत्याह । अतो न दोषः ।

यो हि वक्ष्यमाणेन धर्मपूणेन

विशिष्ट ब्रह्म वेद स वेद ब्रह्मे-

त्यमिप्रायः । अतो वक्ष्यमाणा-

नुवाकैर्नैकवाचपतास्यः उभयोर्ह-

नुवाकयोरेकमुपासनम् ।

लिङ्गाच्च, भूरित्यग्री प्रति-

तिष्ठतीत्यादिकं लिङ्गमुपासनै-

कत्वे । विधायकामावाच । न हि

‘वेद’ ‘उपासितव्यः’ इति विधा-

यकः कश्चिच्छब्दोऽस्ति । व्याहृत्स-

नुवाके ‘ता यो वेद’ इति च

तो ज्ञान नहीं हुआ । [ अगले अनुवाक-

में ] ‘शान्तिसमृद्धम्’ इस वाक्यतक

कहा हुआ विशेषण-विशेष्यरूप धर्म-

समूह ज्ञात नहीं है, उसे बनानेकी

इच्छासे ही शास्त्रने ब्रह्मको न जाने

हुएके समान मानकर ‘वह ब्रह्मको

जानता है’ ऐसा कहा है । इसलिये

इसमें कोई दोष नहीं है । इसका

अभिप्राय यह है कि जो पुरुष आगे

बतलाये जानेवाले धर्मसमूहसे

विशिष्ट ब्रह्मको जानता है वही

ब्रह्मको जानता है । अत आगे

कहे जानेवाले अनुवाकसे इसकी

एकताक्यता है, क्योंकि इन दोनों

अनुवाकोंकी एक ही उपासना है ।

[ ज्ञापक ] लिङ्ग होनेसे भी यही

वात सिद्ध होती है । [ छठे

अनुवाकमें ] ‘भूरित्यग्री प्रतिनिष्ठति’

इत्यादि फलश्रुति इन दोनों अनुवाकमें

एक ही उपासना होनेका लिङ्ग है ।

कोई विधान करनेवाला शब्द न

होनेके कारण भी ऐसा ही समझा

जाता है । [ छठे अनुवाकमें ] ‘वेद

‘उपासितव्य’ ऐसा कोई [ उपासना-

का ] विधान करनेवाला शब्द

नहीं है । व्याहृति-अनुवाकमें

जो ‘उन ( व्याहृतिमें ) को जो

जानता है’ ऐसा वाक्य है वह



वक्ष्यमाणार्थत्वात्प्रोपासनभेदकः

वक्ष्यमाणार्थत्वं च तद्विशेषविव-

क्षुत्वादित्यादिनोक्तम् । सर्वे देवा

अस्मा एवं विदुषेऽङ्गभूता आव-

हन्त्यानश्नन्ति वलिं स्वाराज्य-

प्राप्तौ सत्यामित्यर्थः ॥ १-३ ॥

आगे वतलायी जानेवाली उपासनाके लिये होनेके कारण [ पूर्वोक्त उपासनासे ] उसका भेद करने-वाला नहीं है । उसी उपासनाको आगे वतलाना क्यों इष्ट है यह बात 'उसकी विशेषता वतलानेकी इच्छा होनेके कारण' आदि हेतुओंसे पहले कह ही चुके हैं । ऐसा जाननेवाले उपासकको उसके अङ्ग-भूत समस्त देवगण वलि ( उपहार ) समर्पण करते हैं अर्थात् स्वाराज्यकी प्राप्ति हो जानेपर उसके लिये उपहार लाते हैं--यह इसका तात्पर्य है ॥ १-३ ॥

इति शीक्षावल्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

## षष्ठ अनुवाक

ब्रह्मके साक्षात् उपलब्धिस्थान हृदयाकाशका वर्णन

भूर्भुवःसुवःस्वरूपा मह इत्ये-  
तस्य व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणोऽङ्-  
गान्यन्या देवता इत्युक्तम् । यस्य  
ता अङ्गभूतास्तस्यैतस्य ब्रह्मणः  
साक्षाद्गुणलब्ध्यर्थमुपासनार्थं च  
हृदयाकाशः स्थानमुच्यते शाल-  
ग्राम इव विष्णोः । तस्मिन्निह  
तद्ब्रह्मोपास्यमानं मनोमयत्वादि-

भूः, भुवः और सुवः--ये अन्य देवता 'महः' इस व्याहृतिरूप हिरण्य-गर्भसंज्ञक ब्रह्मके अङ्ग हैं--ऐसा पहले कहा जा चुका है । जिसके वे अङ्गभूत हैं उस इस ब्रह्मकी साक्षात् उपलब्धि और उपासनाके लिये हृदयाकाश स्थान वतलाया जाता है, जैसे कि विष्णुके लिये शालग्राम । उसमें उपासना किये जानेपर ही वह मनोमयत्वादिधर्मविशिष्ट

धर्मविशिष्टं साक्षादुपलभ्यते ।  
 पाणाविदामलकम् । मार्गश्च  
 सर्वात्मभावप्रतिपत्तये वक्तव्य  
 इत्यनुवाक आरभ्यते—

ब्रह्म हृथेलीपर रखे हुए आँवलेके  
 समान साक्षात् उपलब्ध होता है ।  
 इसके सिवा सर्वात्मभावकी प्राप्तिके  
 लिये मार्ग भी बतलाना है, इसलिये इस  
 अनुवाकका आरम्भ किया जाता है—

स य एपोऽन्तर्हृदय आकाशः । तस्मिन्नयं पुरुषो  
 मनोमयः । अमृतो हिरण्मयः । अन्तरेण तालुके । य  
 एष स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो  
 विवर्तने । व्यपोह्य शीर्षकपाले । भूरित्यभौ प्रतितिष्ठति ।  
 भुव इति वायौ ॥ १ ॥

सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । आप्नोति  
 स्वाराज्यम् । आप्नोति मनसस्पतिम् । वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः ।  
 श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । आकाशशरीरं  
 ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दम् । शान्ति-  
 समृद्धममृतम् । इति प्राचीनयोग्योपास्त्र ॥ २ ॥

यह जो हृदयके मध्यमें स्थित आकाश है उसमें ही यह मनोमय अमृत-  
 स्वरूप हिरण्मय पुरुष रहता है । तालुओंके बीचमें और [ उनके मध्य ] यह  
 जो स्तनके समान [ मासखण्ड ] छटका हुआ है [ उसमें होकर जो सुषुम्ना  
 नाडी ] जहाँ केशोंका मूलभाग विभक्त होकर रहता है उस मूर्धप्रदेशमें  
 मस्तकके कपालोंको विदीर्ण करके निकल गयी है वह इन्द्रयोनि [ अर्थात्  
 परमात्माकी प्राप्तिका मार्ग ] है । [ इस प्रकार उपासना करनेवाला पुरुष  
 प्राणप्रयाणके समय मूर्धाका भेदन कर ] भू' इस व्याहतिरूप अग्निमें  
 स्थित होता है [ अर्थात् 'भू' इस व्याहतिकी चिन्तन करनेसे अग्नि-  
 रूप होकर इस लोकको व्याप्त करता है ] । इसी प्रकार 'भुव' इस

व्याहृतिका ध्यान करनेसे वायुमें ॥ १ ॥ 'सुवः' इस व्याहृतिका चिन्तन करनेसे आदित्यमें तथा 'महः' की उपासना करनेसे ब्रह्ममें स्थित हो जाता है। इस प्रकार वह स्वराज्य प्राप्त कर लेता है तथा मनके पति (ब्रह्म) को पा लेता है। तथा वाणीका पति, चक्षुका पति, श्रोत्रका पति और सारे विज्ञानका पति हो जाता है। यही नहीं; इससे भी बड़ा हों जाता है। वह आकाश शरीर, सत्यस्वरूप, प्राणाराम, मनआनन्द (जिसके लिये मन आनन्दस्वरूप है), शान्तिऽम्पन्न और अमृतस्वरूप ब्रह्म हो जाता है। हे प्राचीनयोग्य शिष्य ! वृ. इस प्रकार [ उस ब्रह्मकी ] उपासना कर ॥ २ ॥

'सः' इति व्युत्क्रम्य 'अयं हृदयकाशान्त- पुरुषः' इत्यनेन सं- जावयोः स्वरूपम् वध्यते । य एषो- ऽन्तर्हृदये हृदयसान्तर्हृदयमिति पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डः प्रा- णायतनांऽनेकनाडीसुपिर ऊर्ध्व- नालांऽबोमुखो विशिखमाने पर्शो- प्रसिद्ध उपऽभ्यते । तस्यान्तर्य- म्प आकाशः प्रसिद्ध एव कर- काकाशवत्, तस्मिन्तोऽयं पुरुषः । पुरि शयनात्पूर्णा वा भूरादयो लोका येनेति पुरुषः । मनोमयो

'सः' इस पहले पदका, पाठ- क्रमको छोड़कर आगेके 'अयं पुरुषः' इस पदसे सम्बन्ध है। जो यह अन्तर्हृदयमें हृदयके भीतर [ आकाश है ]। हृदय अर्थात् श्वेत कमलके आकारवाला मांस- पिण्ड, जो प्राणका आश्रय, अनेकों- नाडियोंके छिद्रवाला तथा ऊपरको नाल और नीचेको मुखवाला है, जो कि पशुका आलमन (बध) किये जानेपर स्पष्टतया उपलब्ध होता है। उसके भीतर जो यह कमण्डलुके अन्तर्गता आकाशके समान प्रसिद्ध आकाश है उसीमें यह पुरुष रहता है, जो शरीररूप पुरमें शयन करनेके कारण अथवा उसने भूः आदि सम्पूर्ण लोकोंको पूरित किया हुआ है इसलिये 'पुरुष' कहलता है। यह मनोमय

मनो विज्ञानम् मनुतेर्ज्ञान-  
कर्मणः, तन्मयस्तत्प्रायस्तदुपल-  
भ्यत्वात् । मनुतेऽनेनेति वा मनो-  
ऽन्तःकरण तदभिमानं तन्मय-  
स्तल्लिङ्गो वा; अमृतोऽमरणधर्मा  
हिरण्यमयो ज्योतिर्मयः ।

तस्यैवंलक्षणस्य हृदयाकाशे  
हृदयाकाशस्य साक्षात्कृतस्य विदुष  
जीवोपलब्धये आत्मभूतस्येन्द्रस्ये-  
माग दृशस्वरूपप्रतिपत्तये  
मार्गोऽभिधीयते । हृदयादूर्ध्वं प्रवृ-  
त्ता मुष्टुम्ना नाम नाडी योग-  
शास्त्रेषु च प्रसिद्धा । सा चान्त-  
रेण मध्ये प्रसिद्धे तालुके तालु-  
कयोगता । यत्रैव तालुकयोर्मध्ये  
स्तन इवावलम्ब्यते मांसखण्डस्त-  
स्य चान्तरेणेत्येतत् । यत्र च  
केशान्तः केशानामन्तोऽवसानं  
मूलं केशान्तो विवर्तते विभागेन  
वर्तते मूर्धप्रदेश इत्यर्थः सं देशं  
प्राप्य तत्र विनिःसृता व्यपोह्य  
विमज्य विदार्य शीर्षकपाले

—ज्ञानवाची 'मन्' धातुसे सिद्ध होनेके  
कारण 'मन' शब्दका अर्थ 'विज्ञान'  
है, तन्मय—तत्प्राय अर्थात् विज्ञान-  
मय है, क्योंकि उस ( विज्ञानस्वरूप )  
से ही वह उपलब्ध होता है, अथवा  
जिसके द्वारा जीव मनन करता है वह  
अन्त करण ही 'मन' है उसका अभि-  
मानी, तन्मय अथवा उसमें उपलक्षित  
होनेवाला अमृत—अमरणधर्मा और  
हिरण्यमय—ज्योतिर्मय है ।

हृदयाकाशमें साक्षात्कार किये  
हुए उस ऐमे लक्षणोंवाले तथा निश्चान-  
के आत्मभूत इन्द्र ( ईश्वर ) के ऐसे  
स्वरूपकी प्राप्तिके लिये मार्ग बतलाया  
जाता है—हृदयदेशसे ऊपरकी ओर  
जानेवाली मुष्टुम्ना नामकी नाडी योग-  
शास्त्रमें प्रसिद्ध है । वह 'अन्तरेण  
तालुके' अर्थात् दोनों तालुओंके  
बीचमें होकर गयी है । और तालुओंके  
बीचमें यह जो स्तनके समान मांस-  
खण्ड लटका हुआ है उसके भी  
बीचमें होकर गयी है । तथा जहाँ यह  
केशान्त—केशोंके मूलभागका नाम  
'केशान्त' है वह जिम स्थानपर  
विभक्त होता है अर्थात् जो मूर्ध-  
प्रदेश है, उस स्थानमें पहुँचकर  
जो निकल गयी है, अर्थात् जो  
शीर्षकपालों—मस्तकके कपालोंके

शिरःकपाले विनिर्गता या सेन्द्र-  
योनिरिन्द्रस्य ब्रह्मणो योनिर्मार्गः  
स्वरूपप्रतिपत्तिद्वारमित्यर्थः ।

तथैवं विद्वान्मनोमयात्मदर्शी  
सुष्मनाशरा मूर्ध्ने विनिष्क्रम्या-  
चतुर्व्यादितिरूप-स्य लोकस्याधिष्ठा-  
मत्प्रसक्तिः ता भूरिति व्याहृति-  
रूपो योऽग्निर्महतो ब्रह्मणोऽङ्गभूत-  
स्तस्मिन्नग्नौ प्रतितिष्ठत्यग्न्यात्मनेमं  
लोकं व्याप्नोतीत्यर्थः । तथा भुव  
इति द्वितीयव्याहृत्यात्मनि वार्या ।  
प्रतितिष्ठतीत्यनुवर्तते । सुवरिति  
तृतीयव्याहृत्यात्मन्यादित्ये । मह  
इत्यङ्गिनि चतुर्थव्याहृत्यात्मनि  
ब्रह्मणि प्रतितिष्ठति ।

तेष्व्वात्मभावेन स्थित्वाप्नोति  
मूर्ध्नाभूतस्य ब्रह्मभूतः स्वाराज्यं  
विशुभ ऐश्वर्यं स्वराज्भावं स्वयमेव  
राजाधिपतिर्भवति । अङ्गभूतानां  
देवानां यथा ब्रह्म । देवाश्च

पार—विभक्त यानी विदीर्ण करती हुई  
बाहर निकल गयी हैं वही इन्द्रयोनि—  
इन्द्र अर्थात् ब्रह्मकी योनि—मार्ग यानी  
ब्रह्मस्वरूपकी प्राप्तिका द्वार है ।

इस प्रकार उस सुष्मना नाडीद्वारा  
जाननेवाला अर्थात् मनोमय आत्मा-  
का साक्षात्कार करनेवाला पुरुष  
मूर्ध्नाद्वारेसे निकलकर इस लोकका  
अधिष्ठाता जो महान् ब्रह्मका अङ्ग-  
भूत 'मूः' ऐसा व्याहृतिरूप अग्नि  
है उस अग्निमें स्थित हो जाता है;  
अर्थात् अग्निरूप होकर इस लोक-  
को व्याप्त कर लेता है । इसी प्रकार  
वह 'भुवः' इस द्वितीय व्याहृति-  
रूप वायुमें स्थित हो जाता है—इस  
प्रकार 'प्रतितिष्ठति' इस क्रियाकी  
अनुवृत्ति की जाती है । तथा [ ऐसे  
ही ] 'सुवः' इस तृतीय व्याहृति-  
रूप आदित्यमें और 'महः' इस  
चतुर्थ व्याहृतिरूप अग्नी ब्रह्ममें स्थित  
होता है ।

उनमें आत्मस्वरूपसे स्थित हो वह  
ब्रह्मभूत हुआ स्वाराज्य—स्वराज्भावको  
प्राप्त कर लेता है अर्थात् जिस प्रकार  
ब्रह्म अङ्गभूत देवताओंका अधिपति  
है उसी प्रकार स्वयं उनका राजा—  
अधिपति हो जाता है । तथा उसके

सर्वेऽस्मै बलिमावहन्त्यङ्गभूता  
 यथा ब्रह्मणे । आप्नोति  
 मनस्पतिम् । सर्वेषां हि  
 मनसां पतिः सर्वात्मकत्वाद्ब्र-  
 ह्मणः । सर्वैर्हि मनोभिन्तमनुते ।  
 तदामोत्येवं विद्वान् । किं च वा-  
 क्पतिः सर्वासां वाचां पतिर्भवति ।  
 तथैव चक्षुष्पतिश्चक्षुषां पतिः ।  
 श्रोत्रपतिः श्रोत्राणां पतिः ।  
 विज्ञानपतिर्विज्ञानानां च पतिः ।  
 सर्वात्मकत्वात्सर्वप्राणिना करणै-  
 स्तद्वान्भवतीत्यर्थः ।

किं च ततोऽप्यधिकतरमेतद्भवति । किं तत् ? उच्यते । आकाश-  
 शरीरमाकाशः शरीरमस्याकाश-  
 वद्वा सूक्ष्मं शरीरमस्येत्याकाश-  
 शरीरम् । किं तत् ? प्रकृतं ब्रह्म ।  
 सत्यात्म सत्यं मूर्तामूर्तमवितथं  
 स्वरूपं चात्मा स्वभावोऽस्य तदिदं  
 मन्यात्म । प्राणारामं प्राणेष्वाम-

अङ्गभूत देवगण जिस प्रकार ब्रह्मको  
 उसी प्रकार इस अपने अङ्गीके लिये  
 उपहार लाते हैं । तथा वह मनस्पति-  
 को प्राप्त हो जाता है । ब्रह्म सर्वात्मक  
 होनेके कारण सम्पूर्ण मनोका पति  
 है, वह सारे ही मनोद्वारा मनन  
 करता है । इस प्रकार उपासनाद्वारा  
 विद्वान् उमे प्राप्त कर लेता है । यही  
 नहीं, वह वाक्पति—सम्पूर्ण वाणियों-  
 का पति हो जाता है, तथा चक्षु-  
 ष्पति—नेत्रोंका स्वामी, श्रोत्रपति—  
 कानोंका स्वामी और विज्ञानपति—  
 विज्ञानोंका स्वामी हो जाता है ।  
 तात्पर्य यह है कि सर्वात्मक होनेके  
 कारण वह समस्त प्राणियोंकी  
 इन्द्रियोंसे इन्द्रियवान् होता है ।

यही नहीं, वह तो इससे भी बड़ा  
 हो जाता है । सो क्या ? बतलाते  
 हैं—आकाशशरीर—आकाश जिसका  
 शरीर है अथवा आकाशके समान  
 जिसका सूक्ष्म शरीर है वही आकाश  
 शरीर है । वह है कौन ? प्रकृत  
 ब्रह्म [ अर्थात् वह ब्रह्म जिसका यहाँ  
 प्रकरण है ] । सत्यात्म—जिसका  
 मूर्तामूर्तरूप सत्य अर्थात् अमिथ्या  
 'सत्यात्म' कहते हैं । प्राणाराम—

राम आक्रीडा यस्य तत्प्राणा-  
 रामम् । प्राणानां वारामो यस्मिं-  
 स्तत्प्राणारामम् । मनआनन्दम्;  
 आनन्दभूतं सुखकृदेव यस्य  
 मनस्तन्मनआनन्दम् । शान्ति-  
 समृद्धं शान्तिरूपशमः, शान्तिश्च  
 तत्समृद्धं च शान्तिसमृद्धम् ।  
 शान्त्या वा समृद्धं तदुपलभ्यत  
 इति शान्तिसमृद्धम् । अमृतम-  
 मरणधर्मि । एतच्चाधिकरण-  
 विशेषणं तत्रैव मनोमय इत्यादौ  
 द्रष्टव्यमिति । एवं मनोमयत्वा-  
 दिधर्मैर्दिशिष्टं यथोक्तं ब्रह्म हे  
 प्राचीनयोग्य, उपास्स्वेत्याचार्य-  
 वचनोक्तिरादरार्था । उक्तस्तू-  
 पासनाशब्दार्थः ॥ १-२ ॥

प्राणोंमें जिसका रमण अर्थात् क्रीडा  
 है अथवा जिसमें प्राणोंका आरमण  
 है उसे प्राणाराम कहते हैं । मन-  
 आनन्दम्—जिसका मन आनन्दभूत  
 अर्थात् सुखकारी ही है वह मन-  
 आनन्द कहलाता है । शान्तिसमृद्धम्  
 —शान्ति उपशमको कहते हैं, जो  
 शान्ति भी है और समृद्ध भी वह  
 शान्तिसमृद्ध है अथवा शान्तिके  
 द्वारा उस समृद्ध ब्रह्मकी उपलब्धि  
 होनी है, इसलिये उसे शान्तिसमृद्ध  
 कहते हैं । अमृत—अमरणधर्मी । ये  
 अधिकरणमें आये हुए विशेषण उस  
 मनोमय आदिमें ही जानने चाहिये ।  
 इस प्रकार मनोमयत्व आदि धर्मोंसे  
 विशिष्ट उपर्युक्त ब्रह्मकी, हे प्राचीन-  
 योग्य ! त्, उपासना कर—यह  
 आचार्यकी उक्ति [ उपासनाके ]  
 आदरके लिये है । 'उपासना'  
 शब्दका अर्थ तो पहले बतलाया ही  
 जा चुका है ॥ १-२ ॥

इति शंखावल्यां षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥



## सप्तम अनुवाक

पाङ्करूपसे ब्रह्मकी उपासना

यदेतद्ब्रह्माहृत्यात्मकं ब्रह्मो-  
पास्यमुक्तं तस्यैवेदानीं पृथिव्या-  
दिपाङ्कस्वरूपेणोपासनमुच्यते ।  
पञ्चमंखण्डयोगात्पङ्क्तिच्छन्दः—  
संपत्तिः । ततः पाङ्कत्वं  
सर्वस्य । पाङ्कश्च यज्ञः ।  
“पञ्चपदा पङ्क्तिः पाङ्को  
यज्ञः” इति श्रुतेः । तेन यत्सर्वं  
लोकाद्यात्मान्तं च पाङ्कं परि-  
कल्पयति यज्ञमेव तत्परिकल्प-  
यति । तेन यज्ञेन परिकल्पितेन  
पाङ्कात्मकं प्रजापतिमभि-  
संपद्यते । तत्कथं पाङ्कमिदं  
सर्वमित्यत आह —

यह जो व्याहृतिरूप उपास्य  
ब्रह्म बतलाया गया है अब पृथिवी  
आदि पाङ्करूपसे उसीकी उपासना-  
का वर्णन किया जाता है—[ पृथिवी  
आदि पाँच-पाँच सख्यावाले पदार्थ हैं  
तथा पङ्क्तिछन्द भी पाँच पदोंवाला  
है, अतः ] ‘पाँच’ सख्याका य.ग. होनेसे  
[ उन पृथिवी आदिसे ] पङ्क्तिछन्द  
सम्पन्न होता है । इसीसे उन सबका  
पाङ्कत्व है । यज्ञ भी पाङ्क है, जैसा  
कि “पङ्क्तिछन्द पाँच पदोंवाला है,  
यज्ञ पाङ्क है” इस श्रुतिसे ज्ञात  
होता है । अतः जो लोकसे लेकर  
आत्मापर्यन्त सबको पाङ्करूपसे  
कल्पना करता है वह यज्ञकी ही  
कल्पना करता है । उस कल्पना  
किये हुए यज्ञसे वह पाङ्कस्वरूप  
प्रजापतिको प्राप्त हो जाता है ।  
अच्छा तो यह सब किस प्रकार  
पाङ्क है ? सो अब बतलाते हैं—

पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशाऽवान्तरदिशः । अग्निर्वायुरा-  
दित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो वनस्पतय



आकाश आत्मा । इत्यधिभूतम् । अथाध्यात्मम् । प्राणो  
व्यानोऽपान उदानः समानः । चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्  
त्वक् । चर्म मांसस्नावास्थि मज्जा । एतदधिविधाय  
ऋषिरवोचत् । पाङ्क्तं वा इदं सर्वम् । पाङ्क्तेनैव  
पाङ्क्तं स्पृणोतीति ॥ १ ॥

पृथिवी, अन्तरिक्ष, धुलोक, दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ [—यह  
लोकपाङ्क्त ] ; अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र [—यह देवता-  
पाङ्क्त ] तथा आप, ओषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा—ये  
अधिभूतपाङ्क्त हैं । अब अध्यात्मपाङ्क्त बतलाते हैं—प्राण, व्यान,  
अपान, उदान और समान [—यह वायुपाङ्क्त ] ; चक्षु, श्रोत्र, मन,  
वाक् और त्वचा [—यह इन्द्रियपाङ्क्त ] तथा चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि  
और मज्जा [—यह धातुपाङ्क्त—ये सब मिलाकर अध्यात्मपाङ्क्त हैं ] । इस  
प्रकार पाङ्क्तोपासनाका विधानकर ऋषिने कहा—‘यह सब पाङ्क्त ही  
है; इस [ आध्यात्मिक ] पाङ्क्तसे ही उपासक [ बाह्य ] पाङ्क्तको पूर्ण  
करता है’ ॥ १ ॥

पृथिव्यन्तरिक्षं चोर्दिशोऽवा-  
विक्रिभ- न्तरदिश इति लो-  
भूतपाङ्क्तम् कपाङ्क्तम् । अग्नि-  
वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणीति  
देवतापाङ्क्तम् । आप ओषधयो  
वनस्पतय आकाश आत्मेति  
भूतपाङ्क्तम् । आत्मेति विराड्  
भूताधिकारात् । इत्यधिभूतमि-

पृथिवी, अन्तरिक्ष, धुलोक,  
दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ—ये  
लोकपाङ्क्त हैं; अग्नि, वायु, आदित्य,  
चन्द्रमा और नक्षत्र—ये देवतापाङ्क्त  
हैं; जल, ओषधि, वनस्पति, आकाश  
और आत्मा—ये भूतपाङ्क्त हैं । यहाँ  
‘आत्मा’ विराट्को कहा है; क्योंकि  
यह भूतोंका अधिकरण है ‘इत्यधि-  
भूतम्’ यह वाक्य अञ्जिलोक और

त्यधिलोकाधिदैवतपाङ्क्तद्वयोप-  
लक्षणार्थम् । लोकादेवतापाङ्क्त-  
योश्चाभिहितत्वात् ।

अथानन्तरमध्यात्मं पाङ्क्त-

त्रिविधा-आत्म

त्रयमुच्यते-प्राणा-

पाङ्क्तम्

दि वायुपाङ्क्तम् ।

चक्षुरादीन्द्रियपाङ्क्तम् । चर्मादि

धातुपाङ्क्तम् । एतास्त्रीदं

सर्वमध्यात्मम्, बाह्यं च

पाङ्क्तमेवेत्येतदेवमधिविधाय

परिकल्प्यपिर्वेद एतद्दर्शनसंपन्नो

वा कश्चिद्विद्विषोचदुक्तवान् ।

किमित्याह-पाङ्क्तं वा इदं सर्वं

पाङ्क्तैवाध्यात्मिकेन सख्या-

सामान्यात्पाङ्क्तं बाह्यं स्पृणोति

ब्रह्मपति पूरयति । एकात्मतयो-

पलभ्यत इत्येतत् । एवं पाङ्क्त-

मिदं सर्वमिति यो वेद स प्रजा-

पत्यात्मैव भवतीत्यर्थः ॥ १ ॥

अधिदैवत-इन दो पाङ्क्तोंका भी  
उपलक्षण करानेके लिये है, क्योंकि  
इनमें लोक और देवतासम्बन्धी दो  
पाङ्क्तोंका भी वर्णन किया गया है ।

अब आगे तीन अध्यात्मपाङ्क्तों-  
का वर्णन किया जाता है-प्राणादि  
वायुपाङ्क्त, चक्षु आदि इन्द्रियपाङ्क्त  
आंर चर्मादि धातुपाङ्क्त-ब्रह्म ये  
इतने ही अध्यात्म और बाह्य पाङ्क्त  
हैं । इनका इस प्रकार विधान अर्थात्  
कल्पना करके ऋषि-वेद अथवा  
इस दृष्टिसे सम्पन्न किमी ऋषिके  
कहा । क्या कहा ? सो ब्रतलाते  
हैं-निश्चय ही यह सब पाङ्क्त ही  
हैं । अध्यात्मिक पाङ्क्तसे ही,  
सख्यामें समानता होनेके कारण  
उपासक, बाह्यपाङ्क्तको ब्रह्मवान्-  
भूषित करता है अर्थात् उसके माफ  
एकरूपमे उपलब्ध करता है । इस  
प्रकार 'यह सब पाङ्क्त है' ऐसा  
जो पुरुष जानता है वह प्रजापति-  
स्वरूप ही हो जाता है-ऐसा इसका  
तात्पर्य है ॥ १ ॥

इति शीक्षावल्ल्यां सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

## अष्टम अनुवाक

ओङ्कारोपासनाका विधान

व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मण उपा-  
सनमुक्तम् । अनन्तरं च पाङ्क्त-  
स्वरूपेण तस्यैवोपासनमुक्तम् ।  
इदानीं सर्वोपासनाङ्गभूतस्योङ्का-  
रस्योपासनं विधित्स्यते । परापर-  
ब्रह्मदृष्ट्या उपास्यमान ओङ्कारः  
शब्दमात्रोऽपि परापरब्रह्मप्राप्ति-  
साधनं भवति । स ह्यालम्बनं  
ब्रह्मणः परस्यापरस्य च, प्रति-  
मेव विष्णोः । 'एतेनैवायतने-  
नैकतरमन्वेति' ( प्र० उ० ५ ।  
२ ) इति श्रुतेः ।

व्याहृतिरूप ब्रह्मकी उपासनाका  
निरूपण किया गया; उसके पश्चात्  
उसीकी उपासनाका पाङ्क्तरूपसे  
वर्णन किया । अब सम्पूर्ण  
उपासनाओंके अङ्गभूत ओङ्कारकी  
उपासनाका विधान करना चाहते  
हैं । पर एवं अपर ब्रह्मदृष्टिसे  
उपासना किये जानेपर ओङ्कार—  
केवल शब्दमात्र होनेपर भी पर  
और अपर ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन  
होता है । वही पर और अपर ब्रह्मका  
आलम्बन है, जिस प्रकार कि  
विष्णुका आलम्बन प्रतिमा है ।  
“इसी आलम्बनसे उपासक [ पर  
या अपर ] किसी एक ब्रह्मकी प्राप्त  
हो जाता है” इस श्रुतिसे यही  
वात प्रमाणित होती है ।

ओमिति ब्रह्म । ओमितीदं सर्वम् । ओमित्ये-  
तदनुकृतिर्ह स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति  
सामानि गायन्ति । ओंशोमिति शस्त्राणि शंसन्ति ।  
ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रह्मा  
प्रसौति । ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः  
प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति । ब्रह्मैवोपाप्नोति ॥ १ ॥

‘ॐ’ यह शब्द ब्रह्म है, क्योंकि ‘ॐ’ यह सर्वरूप है; ‘ॐ’ यह अनुकृति ( अनुकरण—सम्मतिसूचक सकेत ) है—ऐसा प्रसिद्ध है । [ याज्ञिकलोग ] “ओ श्रावय” ऐसा कहकर श्रवण कराते हैं । ‘ॐ’ ऐसा कहकर सामगान करते हैं । ‘ॐ शोम्’ ऐसा कहकर शत्रों ( गीतिरहित ऋचाओं ) का पाठ करते हैं । अध्वर्यु प्रतिगर ( प्रत्येक कर्म ) के प्रति ‘ॐ’ ऐसा उच्चारण करता है । ‘ॐ’ ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है, ‘ॐ’ ऐसा कहकर वह अग्निहोत्रके लिये आज्ञा देता है । वेदाध्ययन करनेवाला ब्राह्मण ‘ॐ’ ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता है—‘मैं ब्रह्म ( वेद अयम् परब्रह्म ) को प्राप्त करूँ ।’ इससे वह ब्रह्मको ही प्राप्त कर लेता है ॥ १ ॥

ओमिति । इतिशब्दः स्वरूप-

ओङ्कारस्य परिच्छेदार्थः, ओ-  
सावात्म्यम् मित्येतच्छब्दरूप

ब्रह्मेति मनसा धारयेदुपासीत ।  
यत ओमितीदं सर्वं हि शब्दरूप-  
मोङ्कारेण व्याप्तम् । “तद्यथा  
शङ्कुना” ( छा० उ० २ । २३ ।  
३ ) इति श्रुत्यन्तरात् । अमि-  
धानतन्त्रं ह्यमिधेयमित्यत इदं  
सर्वमोङ्कार इत्युच्यते ।

ओङ्कारस्तुत्यर्थमुत्तरो ग्रन्थः ।

ओङ्कारमहिमा उपास्यत्वात्तस्य ।  
ओमित्येतदनुकृति-

रनुकरणम् । करोमि यास्यामि

‘ओमिति’ इसमें ‘इति’ शब्द ओङ्कारके स्वरूपका परिच्छेद ( निर्देश ) करनेके लिये है । अर्थात् ‘ॐ’ यह शब्दरूप ब्रह्म है—ऐसा इसका मनसे ध्यान—उपासना करे, क्योंकि ‘ॐ’ यही सब कुछ है, कारण, समस्त शब्दरूप प्रपञ्च ओङ्कारसे व्याप्त है, जैसा कि ‘जिस प्रकार शकुसे पत्ते व्याप्त रहते हैं’ इत्यादि एक दूसरी श्रुतिसे सिद्ध होता है । सम्पूर्ण वाच्य वाचकके ही अर्थान होता है, इसलिये यह सब ओङ्कार ही कहा जाता है ।

आगेका ग्रन्थ ओङ्कारकी स्तुतिके लिये है, क्योंकि वह उपासनीय है । ‘ॐ’ यह अनुकृति यानी अनुकरण है । इसीसे किसीके द्वारा ‘मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ’

चेति कृतमुक्तमोमित्यनुकरोत्य-  
न्यः । अत ओङ्कारोऽनुकृतिः ।  
ह स वा इति प्रसिद्धार्थाव-  
द्योतकाः । प्रसिद्धमोङ्कारस्यानु-  
कृतित्वम् ।

अपि च 'ओ श्रावय' इति  
प्रैवपूर्वकमाश्रावयन्ति । तयोमिति  
सामानि गायन्ति सामगाः ।  
ॐशोमिति शस्त्राणि शंसन्ति शस्त्र-  
शंसितारोऽपि । तयोमित्यध्वर्युः  
प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति  
ब्रह्मा प्रसोत्यनुजानाति प्रैवपूर्व-  
कमाश्रावयति । ओमित्यग्नि-  
होत्रमनुजानाति । जुहोमीत्युक्त-  
ओमित्येवानुज्ञां प्रयच्छति ।

इस प्रकार किये हुए कथनको  
सुनकर दूसरा पुरुष [ उसको  
स्वीकृत करते हुए ] 'ॐ' ऐसा  
अनुकरण करता है । इसलिये  
ओंकार अनुकृति है । 'ह' 'स्म' और  
'वै'—ये निपात प्रसिद्धिके सूचक  
हैं; क्योंकि ओंकारका अनुकृतित्व तो  
प्रसिद्ध ही है ।

इसके सिवा 'ओ श्रावय' इस  
प्रकार प्रेरणापूर्वक याज्ञिकलोग  
प्रतिश्रवण कराते हैं । तथा 'ॐ'  
ऐसा कहकर सामगान करनेवाले  
सामका गान करते हैं । शस्त्र  
शंसन करनेवाले भी 'ॐ' शोम्'  
ऐसा कहकर शस्त्रोंका पाठ करते  
हैं । तथा अध्वर्युलोग प्रतिगरके  
प्रति 'ॐ' ऐसा उच्चारण करते  
हैं । 'ॐ' ऐसा कहकर ब्रह्मा  
अनुज्ञा देता है अर्थात् प्रेरणापूर्वक  
आश्रवण करता है; और 'ॐ'  
कहकर वह अग्निहोत्रके लिये आज्ञा  
देता है । अर्थात् यजमानके यों  
कहनेपर कि 'मैं हवन करता हूँ'  
वह 'ॐ' ऐसा कहकर उसे  
अनुज्ञा देता है ।

ओमित्येव ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्  
 प्रवचनं करिष्यन्नध्येष्यमाण  
 ओमित्येवाह । ओमित्येव प्रति-  
 पद्यतेऽध्येतुमिन्वर्थः । ब्रह्मवेद-  
 मुपाप्तवानीति प्राप्नुयां ग्रीही-  
 प्यामीत्युपाप्तोत्येव ब्रह्म ।  
 अथवा ब्रह्म परमात्मा तस्य-  
 प्राप्तवानीत्यात्मानं प्रवक्ष्यन्प्राप-  
 यिष्यन्नोमित्येवाह । स च तेनो-  
 ङ्कारेण ब्रह्म प्राप्नोत्येव । ओङ्का-  
 रपूर्वं प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवचनं  
 यस्मात्तस्मादोङ्कारं ब्रह्मेत्युपासी-  
 तेति वाक्यार्थः ॥ १ ॥

प्रवचन अर्थात् अध्ययन करनेवाला  
 ब्राह्मण 'ॐ' ऐसा उच्चारण करता  
 है, अर्थात् 'ॐ' ऐसा कहकर ही  
 वह अध्ययन करनेके लिये प्रवृत्त होता  
 है । 'मैं ब्रह्म यानी वेदको प्राप्त करूँ'  
 अर्थात् उसे ग्रहण करूँ' ऐसा कहकर  
 वह ब्रह्मको प्राप्त कर ही लेता है ।  
 अथवा [ यों समझो कि ] 'मैं ब्रह्म-  
 परमात्माको प्राप्त करूँ' इस प्रकार  
 आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छासे वह  
 'ॐ' ऐसा ही कहता है ओं  
 उस ॐकारके द्वारा वह ब्रह्मको  
 प्राप्त कर ही लेता है । इस प्रकार  
 क्योंकि ॐकारपूर्वक प्रवृत्त होनेवाली  
 क्रियाएँ फलवती होती हैं इसलिये  
 'ॐकार ब्रह्म है' इस तरह उसको  
 उपासना करे—यह इस वाक्यका  
 अर्थ है ॥ १ ॥

इति शीक्षावल्क्यामष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥



## नवम अनुवाक

ऋतादि शुभकर्मोंकी अवश्यकर्तव्यताका विधान

<p>विज्ञानादेवाप्नोति स्वाराज्य- मित्युक्तत्वाच्छ्रौतसार्तानां कर्म- णामानर्थक्यं प्राप्तमित्यतस्तन्मा प्रापदिति कर्मणां पुरुषार्थं प्रति साधनत्वप्रदर्शनार्थमिहोपन्यासः-</p>	<p>विज्ञानसे ही स्वाराज्य प्राप्त कर लेता है—ऐसा [छठे अनुवाकमें] कहे जानेके कारण श्रौत और स्मार्त कर्मों- की व्यर्थता प्राप्त होनी है। वह प्राप्त न हो, इसलिये पुरुषार्थके प्रति कर्मोंका साधनत्व प्रदर्शित करनेके लिये यहाँ उनका उल्लेख किया जाता है—</p>
---	--

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्याय-  
प्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्याय-  
प्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्रयश्च स्वाध्याय-  
प्रवचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च  
स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च ।  
प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च ।  
प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा  
राधीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः स्वाध्यायप्रवचने  
एवेति नाको मौद्गल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ १ ॥

ऋत ( शास्त्रादिद्वारा बुद्धिमें निश्चय किया हुआ अर्थ ) तथा  
स्वाध्याय ( शास्त्राध्ययन ) और प्रवचन ( अध्यापन अथवा वेदपाठरूप  
व्रतमयज्ञ ) [ ये अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं ] । सत्य ( सत्यभाषण )  
तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ अनुष्ठान किये जाने चाहिये ] । दम

( इन्द्रियदमन ) तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ इन्हें सदा करता रहे ] । शम ( मनोनिग्रह ) तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ ये सर्वदा कर्तव्य हैं ] । अग्नि ( अग्न्याधान ) तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ इनका अनुष्ठान करे ] अग्निहोत्र तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ ये नित्य कर्तव्य हैं ] । अतिथि ( अतिथिसत्कार ) तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ इनका नियमसे अनुष्ठान करे ] । मानुषकर्म ( विवाहादि लौकिक व्यवहार ) तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ इन्हें करता रहे ] । प्रजा ( प्रजा उत्पन्न करना ) तथा स्वाध्याय और प्रवचन [—ये सदा ही कर्तव्य हैं ] । प्रजन ( ऋतुकालमें भार्यागमन ) तथा [ इसके साथ ] स्वाध्याय और प्रवचन [ करता रहे ] । प्रजाति ( पौत्रोत्पत्ति ) तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ इनका नियतरूपसे अनुष्ठान करे ] । सत्य ही [ अनुष्ठान करने योग्य है ] ऐसा रथीतरका पुत्र सत्यवचा मानता है । तप ही [ नित्य अनुष्ठान करने योग्य है ] ऐसा नित्य तपोनिष्ठ पौरुशिष्टिका मन है । स्वाध्याय और प्रवचन ही [ कर्तव्य हैं ] ऐसा मुद्गलके पुत्र नाकका मत है । अत वे ( स्वाध्याय आर प्रवचन ) ही तप हैं, वे ही तप हैं ॥ १ ॥

ऋतमिति व्याख्यातम् । स्वा-  
ध्यायोऽध्ययनम् । प्रवचनमध्या-  
पनं ब्रह्मयज्ञो वा । एतान्युता-  
दीन्यनुष्ठेयानीति वाक्यशेषः ।  
सत्य च सत्यवचनं यथाव्या-  
ख्यातार्थं वा । तपः कृच्छ्रादि ।  
दमो बाह्यकरणोपशमः । शमो-  
ऽन्तःकरणोपशमः । अग्नय आधा-

‘ऋत’—इसकी व्याख्या पहले [ ऋत वदिष्यामि—इस वाक्यमें ] को जा चुकी है । ‘स्वाध्याय’ अध्ययनको कहते हैं, तथा ‘प्रवचन’ अध्यापन या ब्रह्मयज्ञका नाम है । ये ऋत आदि अनुष्ठान क्रिये जाने योग्य हैं—यह वाक्यशेष है । सत्य—सत्य-वचन अथवा जैसा पहले [ सत्य वदिष्यामि—इस वाक्यमें ] व्याख्या की गयी है, वह, तप—कृच्छ्रादि, दम—बाह्य इन्द्रियोंका निग्रह, शम—चित्तकी शान्ति; [ ये सब करने योग्य



तव्याः । अग्निहोत्रं च होतव्यम् ।  
अतिथयश्च पूज्याः । मानुषमिति  
लौकिकः संव्यवहारः, तच्च  
यथाप्राप्तमनुष्ठेयम् । प्रजा चोत्पा-  
द्या । प्रजनश्च प्रजननमृतौ  
भार्यागमनमित्यर्थः । प्रजातिः  
पौत्रोत्पत्तिः पुत्रो निवेशयितव्य  
इत्येतत् ।

सर्वैरेतैः कर्मभिर्युक्तस्यापि

स्वाध्यायप्रवचन- स्वाध्यायप्रवचने  
सहयोगकारणम् यत्नतोऽनुष्ठेये इत्येव-  
मर्थं सर्वेषां सह स्वाध्यायप्रवचन-  
ग्रहणम् । स्वाध्यायाधीनं ह्यर्थ-  
ज्ञानम्, अर्थज्ञानायत्तं च परं  
श्रेयः; प्रवचनं च तदविस्मरणार्थं  
धर्मप्रवृद्धयर्थं च । अतः स्वाध्या-  
यप्रवचनयोरादरः कार्यः ।

सत्यमिति सत्यमेवानुष्ठातव्य-  
मिति सत्यमेव  
सुनीनां नाम्नेशः वचो यस्य सोऽयं  
सत्यवचा नाम वा तस्य । राथी-  
तरो रथीतरस्य गोशो राथीतरा-  
चार्यो मन्यते । तप इति तप एव

हैं ] । अग्नियौका आधान करना  
चाहिये । अग्निहोत्र होम करने योग्य  
है । अतिथियोंका पूजन करना  
चाहिये । मानुष यानी लौकिक  
व्यवहार; उसका भी यथाप्राप्त  
अनुष्ठान करना चाहिये । प्रजा  
उत्पन्न करनी चाहिये । प्रजन-  
प्रजनन—ऋतुकालमें भार्यागमन और  
प्रजाति—पौत्रोत्पत्ति अर्थात् पुत्रको  
स्त्रीपरिग्रह कराना चाहिये ।

इन सब कर्मोंसे युक्त पुरुषको  
भी स्वाध्याय और प्रवचनका यत्न-  
पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये—इसी-  
लिये इन सबके साथ स्वाध्याय और  
प्रवचनको ग्रहण किया गया है ।  
स्वाध्यायके अधीन ही अर्थज्ञान है  
और अर्थज्ञानके अधीन ही परमश्रेय  
है; तथा प्रवचन उसकी अविस्मृति  
और धर्मकी वृद्धिके लिये है; इसलिये  
स्वाध्याय और प्रवचनमें आदर  
( श्रद्धा ) रखना चाहिये ।

सत्य अर्थात् सत्य ही अनुष्ठान  
किये जाने योग्य है—ऐसा सत्यवचा  
—सत्य ही जिसका वचन हां वह  
अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है  
वह राथीतर अर्थात् रथीतरके वंशमें  
उत्पन्न हुआ राथीतर आचार्य मानता  
है । तप यानी तप ही कर्तव्य है—

कर्तव्यमिति तपोनित्यस्तपमि  
नित्यस्तपःपरस्तपोनित्य इति वा  
नाम पौरुशिष्टिः पुरुशिष्टस्या-  
पत्यं पौरुशिष्टिराचार्यो मन्यते ।  
स्वाध्यायप्रवचने एवानुष्ठेये इति  
नाको नामतो मुद्गलस्यापत्यं  
मौद्गल्य आचार्यो मन्यते । तद्वि  
तपस्तद्वि तपः । हि यस्मात्स्वा-  
ध्यायप्रवचने एव तपस्तस्मात्ते  
एवानुष्ठेये इति । उक्तानामपि  
सत्यतपःस्वाध्यायप्रवचनानां पु-  
नर्ग्रहणमादरार्थम् ॥ १ ॥

ऐसा तपोनित्य-नित्य तपोनिष्ठ  
अथवा तपोनित्य नामवाला पौरुशिष्टि  
-पुरुशिष्टका पुत्र पौरुशिष्टि आचार्य  
मानता है । स्वाध्याय और प्रवचन  
ही अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं-  
ऐसा नाक नामवाला मुद्गलका  
पुत्र मौद्गल्य आचार्य मानता है ।  
वही तप है, वही तप है ।  
इसका तात्पर्य यह है-क्योंकि  
स्वाध्याय और प्रवचन ही तप हैं,  
इसलिये वे ही अनुष्ठान किये जाने  
योग्य हैं । पहले कहे हुए भी सत्य,  
तप, स्वाध्याय और प्रवचनोंका  
पुनर्ग्रहण उनके आदरके लिये है ॥१॥

इति शीक्षावल्यां नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥



## दशम अनुवाक

त्रिशङ्कुका वेदानुवचन

अहं वृक्षस्य रेरिवेति स्वाध्या-  
यार्थं मन्त्राम्नायः । स्वाध्यायश्च  
विद्योत्पत्तये । प्रकरणात् ।  
विद्यार्थं हीदं प्रकरणम् । न  
चान्यार्थस्त्वमवगम्यते । स्वाध्या-  
येन च विशुद्धसत्त्वस्य विद्योत्प-  
त्तिरवकल्प्यते ।

‘अहं वृक्षस्य रेरिवा’ आदि  
मन्त्राम्नाय स्वाध्याय ( जप ) के  
लिये है । तथा स्वाध्याय विद्या  
( ज्ञान ) की उत्पत्तिके लिये बतलाया  
गया है; यह प्रकरणसे ज्ञात होता  
है; क्योंकि यह प्रकरण विद्याके  
लिये ही है, इसके सिवा उसका  
कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता;  
क्योंकि स्वाध्यायके द्वारा जिसका  
चित्त शुद्ध हो गया है उसीको  
विद्याकी उत्पत्ति होना सम्भव है ।

अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊर्ध्व-  
पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविणसवर्चसम् ।  
सुमेधा अमृतोक्षितः । इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॥ १ ॥

मैं [ अन्तर्पामीह्रसे उच्छेदरूप संसार- ] वृक्षका प्रेरक हूँ । मेरी  
कीर्ति परतेशिवरके समान उच्च है । ऊर्ध्वपवित्र ( परमात्मारूप कारण-  
वाला ) हूँ । अन्नवान् सूर्यमें जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार मैं भी  
शुद्ध अमृतमय हूँ । मैं प्रकाशमान [ आत्मतत्त्वरूप ] धन, सुमेधा  
( सुन्दर मेधावाला ) और अमरणधर्मा तथा अक्षित ( अव्यय ) हूँ,  
अथवा अमृतसे सिक्त ( भँगा हुआ ) हूँ—यह त्रिशङ्कु ऋषिका वेदानुवचन  
है ॥ १ ॥

अहं वृक्षस्योच्छेदात्मकस्य  
संसारवृक्षस्य रेरिवा प्रेरयिता-  
ऽन्तर्याम्यात्मना । कीर्तिः ख्या-  
तिर्गिरेः पृष्ठमिवोच्छ्रिता मम ।  
ऊर्ध्वपवित्र ऊर्ध्वं कारणं पवित्रं  
पावनं ज्ञानप्रकाश्यं पवित्रं परमं  
ब्रह्म यस्य सर्वात्मनो मम सो-  
ऽहमूर्ध्वपवित्रः । वाजिनीव वाज-  
वतीव । वाजमन्नं तद्वति सवित-  
रीत्यर्थः । यथा सवितर्यमृतमा-  
त्मतत्त्वं विशुद्धं प्रसिद्धं श्रुति-  
स्मृतिशतेभ्य एवं स्वमृतं शोभनं  
विशुद्धमात्मतत्त्वमस्मि मयामि ।

द्रविणं धनं सर्वर्षसं दीप्ति-  
मत्तदेवात्मतत्त्वमस्मीत्यनुवर्तते ।

ब्रह्मज्ञानं वात्मतत्त्वप्रकाश-  
कत्वात्सर्वर्षसम् । द्रविणमिव

द्रविणं मोक्षसुखहेतुत्वात् ।

अस्मिन्पक्षे प्राप्तं मयेत्यध्याहारः

कर्तव्यः ।

मैं अन्तर्यामीरूपसे वृक्ष अर्थात्  
उच्छेदात्मक संसाररूप वृक्षका प्रेरक  
हूँ । मेरी कीर्ति—प्रसिद्धि पर्वतके  
पृष्ठभागके समान ऊँची है । मैं ऊर्ध्व-  
पवित्र हूँ—पवित्र—पावन अर्थात्  
ज्ञानसे प्रकाशित होने योग्य पवित्र  
परब्रह्म जिस मुझ सर्वात्माका  
ऊर्ध्व यानी कारण है वह  
मैं ऊर्ध्वपवित्र हूँ । 'वाजिनि  
इव'—वाजवान्के समान—वाज अर्थात्  
अन्न उससे युक्त सूर्यके समान,  
जिस प्रकार सँकड़ों श्रुति-स्मृतियों-  
के अनुसार सूर्यमें निशुद्ध  
अमृत यानी आत्मतत्त्व प्रसिद्ध है  
उसी प्रकार मैं भी सु अमृत अर्थात्  
शोभन—विशुद्ध आत्मतत्त्व हूँ ।

वही मैं आत्मतत्त्व सर्वर्षस—  
दीप्तिशाली द्रविण यानी धन हूँ—इस  
प्रकार यहाँ 'अस्मि ( हूँ )' क्रिया-  
की अनुवृत्ति की जाती है । अथवा  
आत्मतत्त्वका प्रकाशक होनेसे तेजस्वी  
ब्रह्मज्ञान, जो मोक्षसुखका हेतु होने-  
के कारण धनके समान धन है,  
[ मुझे प्राप्त हो गया है ]—इस  
पक्षमें [ 'अस्मि' क्रियाकी अनुवृत्ति  
न करके ] 'मया प्राप्तम्' ( वह  
मुझे प्राप्त हो गया है ) इसका  
अध्याहार करना चाहिये ।

सुमेधाः शोभना मेधा सर्व-  
ज्ञलक्षणा यस्य मम सोऽहं  
सुमेधाः । संसारस्थित्युत्पत्त्युप-  
संहारकौशलयोगात्सुमेधस्त्वम् ।  
अत एवामृतोऽमरणधर्माक्षितो-  
ऽक्षीणोऽन्यथः, अक्षतो वा; अमृतेन  
वोक्षितः सिक्तः । “अमृतोक्षितो-  
ऽहम्” इत्यादि ब्राह्मणम् ।

इत्येवं त्रिशङ्कोर्ऋषेर्ब्रह्मभूतस्य  
ब्रह्मविदो वेदानुवचनम्; वेदो  
वेदनमात्मैकत्वविज्ञानं तस्य  
प्राप्तिमनु वचनं वेदानुवचनम् ।  
आत्मनः कृतकृत्यताख्यापनार्थं  
वामदेवत्रिशङ्कुनापेण दर्शनेन  
दृष्टो मन्त्राम्नाय आत्मविद्या-  
प्रकाशक इत्यर्थः ।

अस्य च जपो विद्योत्पत्त्य-  
र्थोऽवगम्यते । ऋतं चेत्यादि-

सुमेधा—जिस मेरी मेधा शोभन  
अर्थात् सर्वज्ञत्वलक्षणवाली है वह  
मैं सुमेधा हूँ । संसारकी स्थिति,  
उत्पत्ति और संहार—इसका कौशल  
होनेके कारण मेरा सुमेधस्त्व है ।  
इसीसे मैं अमृत-अमरणधर्मा और  
अक्षित—अक्षीण यानी अन्यथ अथवा  
अक्षय हूँ । अथवा, [ तृतीयात्त्वरुप  
समास माननेपर ] अमृतेन उक्षितः  
अमृतसे सिक्त हूँ । “मैं अमृतसे  
उक्षित हूँ” ऐसा ब्राह्मणवाक्य भी है ।

इस प्रकार यह ब्रह्मभूत ब्रह्मवेत्ता  
त्रिशङ्कु ऋषिका वेदानुवचन है ।  
वेद वेदन अर्थात् आत्मैकत्वविज्ञान-  
को कहते हैं । उसकी प्राप्तिके अनु-  
पीलिका वचन ‘वेदानुवचन’  
कहलाता है । तात्पर्य यह है कि  
अपनी कृतकृत्यता प्रकट करनेके  
लिये वामदेवके समान\* त्रिशङ्कु  
ऋषिद्वारा आर्षदृष्टिसे देखा हुआ  
यह मन्त्राम्नाय आत्मविद्याका प्रकाश  
करनेवाला है ।

इसका जप विद्याकी उत्पत्तिके  
लिये माना जाता है । इस ‘ऋतं

कर्मोपन्यासादनन्तरं च वेदानु-  
वचनपाठादेतदवगम्यत एवं  
श्रौतस्मार्तेषु नित्येषु कर्मसु  
युक्तस्य निष्कामस्य परं ब्रह्म  
विविदिपोरार्षाणि दर्शनानि प्रा-  
दुर्भवन्त्यात्मादिविषयाणीति ॥ १ ॥

च' इत्यादि अनुवाकमें धर्मका  
उपन्यास ( उल्लेख ) करनेके  
अनन्तर वेदानुवचनका पाठ करनेसे  
यह जाना जाता है कि इस प्रकार  
श्रौत और स्मार्त नित्यकर्मोंमें लगे  
हुए परब्रह्मके निष्काम जिज्ञासुके प्रति  
आत्मा आदिसे सम्बन्धित आर्षदर्शनों-  
का प्रादुर्भाव हुआ करता है ॥ १ ॥

इति शीशाब्रह्मव्या दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

## एकादश अनुवाक

वेदानुपन्यासके अनन्तर शिष्यको आचार्यका उपदेश

वेदमनूष्येत्येवमादिकर्तव्य-  
प्राग्ग्रन्थनिगन्तान् तोपदेशारम्भः प्रा-  
वर्गविधि ब्रह्मविज्ञानान्निय-  
मेन कर्तव्यानि श्रौतस्मार्त-  
कर्माणीत्येवमर्थः । अनुशासनश्रुतेः  
पुरुषसंस्कारार्थत्वात् । सस्कृतस्य  
हि विशुद्धसच्चस्यात्मज्ञानमञ्ज-  
सैरोत्पद्यते । “तपसा कल्मषं  
हन्ति विद्ययामृतमश्नुते” ( मनु०  
१२ । १०४ ) इति स्मृतिः ।  
वक्ष्यति च—“तपसा ब्रह्म विजि-

ब्रह्मात्मैक्यविज्ञानसे पूर्व श्रौत  
और स्मार्तकर्मोंका नियममे अनुष्ठान  
करना चाहिये—इसीलिये वेदम-  
नूष्य' इत्यादि श्रुतिसे उनकी  
कर्तव्यताके उपदेशका आरम्भ किया  
जाता है, क्योंकि [ 'अनुशास्ति'  
ऐसी ] जो अनुशासन-श्रुति है वह  
पुरुषके सस्कारके लिये है, क्योंकि जो  
पुरुष सस्कारयुक्त और विशुद्धचित्त  
होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान  
प्राप्त हो जाता है । इस सम्बन्धमें  
“तपसे पापका नाश करता है और  
ज्ञानसे अमरत्व लाभ करता है” ऐसी  
स्मृति है । आगे ऐसा कहेंगे भी कि

ज्ञासस्व" ( तै० उ० ३ । २ । ५ )  
इति । अतो विद्योत्पत्त्यर्थमनुष्टे-  
यानि कर्माणि । अनुशास्तीत्यनु-  
शासनशब्दादनुशासनातिक्रमे हि  
दोषोत्पत्तिः ।

प्रागुपन्यासाच्च कर्मणाम् ।  
केवलब्रह्मविद्यारम्भाच्च पूर्वं  
कर्माण्युपन्यस्तानि । उदितायां  
च ब्रह्मविद्यायाम् "अभयं प्रतिष्ठां  
विन्दते" ( तै० उ० २ । ७ । १ )  
"न विभेति कुतश्चन" ( तै० उ०  
२ । ९ । १ ) "किमहं साधु नाक-  
रवम्" ( तै० उ० २ । ९ । १ )  
इत्येवमादिना कर्मानैष्किञ्चन्यं  
दर्शयिष्यति; इत्यतोऽवगम्यते  
पूर्वोपचितदुरितक्षयद्वारेण  
विद्योत्पत्त्यर्थानि कर्माणीति ।  
मन्त्रवर्णाच्च— "अविद्यया मृत्युं  
तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते"  
( ई० उ० ११ ) इति । ऋता-

"तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर"  
अतः ज्ञानकी उत्पत्तिके लिये कर्म  
करने चाहिये । 'अनुशास्ति' इसमें  
'अनुशासन'—ऐसा शब्द होनेके  
कारण उस अनुशासनका अति-  
क्रमण करनेपर दोषकी उत्पत्ति  
होगी ।

कर्मोंका उपन्यास पहले किया  
जानेके कारण भी [ यह निश्चय  
होता है कि ये कर्म विद्याकी उत्पत्ति  
के लिये हैं ] । कर्मोंका उपन्यास  
केवल ब्रह्मविद्याका निरूपण  
आरम्भ करनेसे पूर्व ही किया  
गया है । ब्रह्मविद्याका उद्भव  
होनेपर तो "अभय प्रतिष्ठाको प्राप्त  
कर लेता है" "किसीसे भी भय  
नहीं मानता" "मैंने कौन-सा शुभ  
कर्म नहीं किया" इत्यादि वाक्योंद्वारा  
कर्मोंकी निष्किञ्चनता ही दिखलायेगी ।  
इससे विदित होता है कि कर्म पूर्व-  
सञ्चित पापोंके क्षयके द्वारा ज्ञानकी  
प्राप्तिके ही लिये हैं । "अविद्या  
( कर्म ) से मृत्यु ( अधर्म ) को  
पार करके विद्या ( उपासना ) से  
अमरत्व लाभ करता है" इस मन्त्र-  
वर्णसे भी यही बात प्रमाणित होती  
है । अतः पहले ( नवम अनुवाकमें )

दीनां पूर्वत्रोपदेश आनर्थक्य- | जो ऋतादिका उपदेश किया है वह  
परिहारार्थः । इह तु ज्ञानोत्पत्त्य- | उनके आनर्थक्यकी निवृत्तिके लिये  
र्थस्वात्कर्तव्यतानियमार्थः । | है । तथा यहाँ ज्ञानकी उत्पत्तिके  
हेतु होनेसे उनकी कर्तव्यताका  
नियम करनेके लिये है ।

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद ।  
धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धन-  
माहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् ।  
धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भूत्यै न  
प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥ १ ॥

देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो  
भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।  
यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि ।  
यान्यस्माकंसुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि ॥ २ ॥

नां इतराणि । ये के चास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणाः ।  
तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् । श्रद्धया देयम् ।  
अश्रद्धयाऽदेयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया  
देयम् । सविदा देयम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा  
वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ॥ ३ ॥

ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः ।  
अलूक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन् । तथा  
तत्र वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः



संमर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः स्युः ।  
यथा ते तेषु वर्तेरन् । तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेशः ।  
एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत् । एतदनुशासनम् । एव-  
मुपासितव्यम् । एवमु चैतदुपास्यम् ॥ ४ ॥

वेदाध्ययन करानेके अनन्तर आचार्य शिष्यको उपदेश देता है—  
सत्य बोल । धर्मका आचरण कर । स्वाध्यायसे प्रमाद न कर । आचार्यके  
लिये अभीष्ट धन लाकर [ उसकी आज्ञासे स्वीपरिग्रह कर और ] सन्तान-  
परम्पराका छेदन न कर । सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । धर्मसे  
प्रमाद नहीं करना चाहिये । कुशल ( आत्मरक्षामें उपयोगी ) कर्मसे  
प्रमाद नहीं करना चाहिये । ऐश्वर्य देनेवाले माङ्गलिक कर्मोंसे प्रमाद  
नहीं करना चाहिये । स्वाध्याय और प्रवचनसे प्रमाद नहीं करना  
चाहिये ॥ १ ॥ देवकार्य और पितृकार्योंसे प्रमाद नहीं करना चाहिये ।  
तू मातृदेव ( माता ही जिसका देव है ऐसा ) हो, पितृदेव हों, आचार्य-  
देव हों और अतिथिदेव हो । जो अनिन्ध कर्म हैं उन्हींका सेवन करना  
चाहिये—दूसरोंका नहीं । हमारे ( हम गुरुजनोंके ) जो शुभ आचरण  
हैं तुझे उन्हींकी उपासना करनी चाहिये ॥ २ ॥ दूसरे प्रकारके कर्मोंकी  
नहीं । जो कोई [ आचार्यादि धर्मोंसे युक्त होनेके कारण ] हमारी अपेक्षा भी  
श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनका आसनादिके द्वारा तुझे आश्रासन ( श्रमापहरण )  
करना चाहिये । श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिये ।  
अपने ऐश्वर्यके अनुसार देना चाहिये । लज्जापूर्वक देना चाहिये । भय मानते  
हुए देना चाहिये । संघित्—मैत्री आदि कार्यके निमित्तसे देना चाहिये ।  
यदि तुझे कर्म या आचारके विषयमें कोई सन्देह उपस्थित हो ॥ ३ ॥  
तो वहाँ जो विचारशील, कर्ममें नियुक्त, आयुक्त ( स्वेच्छासे कर्मपरायण ),  
अरुद्ध ( सरलमति ) एवं धर्माभिलाषी ब्राह्मण हों, उस प्रसङ्गमें वे जैसा  
व्यवहार करें वैसा ही तू भी कर । इसी प्रकार जिनपर संशययुक्त दोष  
आरोपित किये गये हों उनके विषयमें, वहाँ जो विचारशील, कर्ममें

नियुक्त अथवा आयुक्त ( दूसरोंसे प्रेरित न होकर स्वतः कर्ममें परायण ), सरलहृदय और धर्माभिलाषी ब्राह्मण हों, वे जैसा व्यवहार करें त भी वैसा ही कर । यह आदेश—विधि है, यह उपदेश है, यह वेदका रहस्य है और [ ईश्वरकी ] आज्ञा है । इसी प्रकार तुझे उपासना कर्नी चाहिये—ऐसा ही आचरण करना चाहिये ॥ ४ ॥

वेदमन्त्र्याध्याप्याचार्योऽन्ते-

अधीनके स्य चासिनं शिष्यमनु-

वनव्यतिरूपगम शास्त्रि ग्रन्थग्रहणा-

दनु पश्चाच्छान्ति तदर्थं ग्राहयती-

त्यर्थः । अतोऽगम्यतेऽधीतवेदस्य

धर्मजिज्ञासामकृत्वा गुरुकुलान्न

समापतितव्यमिति । “बुद्ध्या

कर्माणि चारभेत्” इति स्मृतेश्च ।

कथमनुशास्तीत्याह—

सत्यं वद यथाप्रमाणावगतं

वक्तव्यं तद्वद । तद्वदमं चर ।

धर्म इत्यनुष्ठेयानां सामान्यवचनं

सत्यादिविशेषनिर्देशात् । स्वा-

वेदका अध्ययन करानेके अनन्तर आचार्य अन्तेवासी-शिष्यको उपदेश करता है, अर्थात् प्रत्य-ग्रहणके पश्चात् अनुशासन करता है—उसका अर्थ ग्रहण कराता है । इससे ज्ञात होता है कि वेदाध्ययन कर चुकनेपर भी ब्रह्मचारीको बिना धर्मजिज्ञासा किये गुरुकुलसे समा-वर्तन ( अपने घरकी ओर प्रत्या-गमन ) नहीं करना चाहिये । “कर्मोंका यथावत् ज्ञान प्राप्त करके उनके अनुष्ठानका आरम्भ करे” इस स्मृतिसे भी यही सिद्ध होता है । किस प्रकार उपदेश करता है ? सो बतलाते हैं—

सत्य बोल अर्थात् जो कहने-योग्य बात प्रमाणसे जैसी जानी गयी हो उसे उसी प्रकार कह । इसी प्रकार धर्मका आचरण कर । ‘धर्म’ यह अनुष्ठान करनेयोग्य कर्मोंका सामान्यरूपसे वाचक है, क्योंकि सत्यादि विशेष धर्मोंका तो निर्देश कर ही दिया है । स्वाध्यय

ध्यायादध्ययनान्मा प्रमदः प्रमादं  
 मा कार्षीः । आचार्यायाचार्यार्थं  
 प्रियमिष्टं धनमाहृत्यानीय दत्त्वा  
 विद्यानिष्क्रयार्थम्, आचार्येण  
 चानुज्ञातोऽनुरूपान्दारानाहत्य  
 प्रजातन्तुं प्रजासन्तानं मा व्यव-  
 च्छेत्सीः । प्रजासन्ततेर्विच्छित्तिर्न  
 कर्तव्या । अनुत्पद्यमानेऽपि पुत्रे  
 पुत्रकाम्यादिकर्मणा तदुत्पत्तौ  
 यत्नः कर्तव्य इत्यभिप्रायः ।  
 प्रजाप्रजनप्रजातित्रयनिर्देश-  
 सामर्थ्यात् । अन्यथा प्रजनश्चे-  
 त्येतदेकमेवावक्ष्यत् ।

सत्यान्न प्रमदित्तव्यं प्रमादो  
 न कर्तव्यः । सत्याच्च प्रमदनम-  
 नृतप्रसङ्गः, प्रमादशब्दसामर्थ्यात् ।  
 विस्मृत्याप्यनृतं न वक्तव्य-  
 मित्यर्थः । अन्यथासत्यवदन-  
 प्रतिषेध एव स्यात् । धर्मान्न

अर्थात् अध्ययनसे प्रमाद न कर ।  
 आचार्यके लिये प्रिय--उनका अभीष्ट  
 धन छाकर और विद्यादानसे उन्नत  
 होनेके लिये उन्हें देकर आचार्यके  
 आज्ञा देनेपर अपने अनुरूप खीसे  
 विशाह करके प्रजातन्तु--सन्तति-  
 क्रमका छेदन न कर । अर्थात्  
 प्रजासन्ततिका विच्छेद नहीं करना  
 चाहिये । तात्पर्य यह है कि यदि  
 पुत्र उत्पन्न न हो तो भी पुत्र-काम्या  
 ( पुत्रेष्टि ) आदि कर्मोंद्वारा उसकी  
 उत्पत्तिके लिये यत्न करना ही  
 चाहिये । [ नश्रम अनुवाकमें ] प्रजा,  
 प्रजन और प्रजाति--तीनोंहीका  
 निर्देश किया गया है; उसकी  
 सामर्थ्यसे यही बात सिद्ध होती है;  
 अन्यथा वहाँ केवल 'प्रजन' इस  
 एक ही साधनका निर्देश किया  
 जाता ।

सत्यसे प्रमाद नहीं करना  
 चाहिये । सत्यसे प्रमादका अभिप्राय  
 है असत्यका प्रसंग, यह प्रमादशब्द-  
 के सामर्थ्यसे बोधित होता है । तात्पर्य  
 यह है कि कभी भूलकर भी असत्य-  
 भाषण नहीं करना चाहिये; यदि  
 ऐसा तात्पर्य न होता तो, यहाँ  
 केवल असत्यभाषणका निषेध ही  
 किया जाता । धर्मसे प्रमाद नहीं

प्रमदितव्यम् । धर्मशब्दस्यानुष्ठे-  
यविषयत्वादननुष्ठानं प्रमादः स  
न कर्तव्यः । अनुष्ठातव्य एव  
धर्म इति यावत् । एवं कुशला-  
दात्मरक्षार्थात्कर्मणो न प्रमदि-  
तव्यम् । भूतिर्भिभूतिस्तस्यै भूत्यै  
भूत्यर्थान्मङ्गलयुक्तात्कर्मणो न  
प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवच-  
नाभ्यां न प्रमदितव्यम् । स्वाध्या-  
योऽध्ययनं प्रवचनमध्यापनं  
ताभ्यां न प्रमदितव्यम् । ते हि  
नियमेन कर्तव्ये इत्यर्थः ॥ १ ॥  
तथा देवपितृकार्याभ्यां न  
प्रमदितव्यम् । दैवपित्र्ये कर्मणी  
कर्तव्ये ।

मातृदेवो माता देवो यस्य स  
त्वं मातृदेवो भव स्याः । एवं  
पितृदेव आचार्यदेवो भव ।  
देवतावदुपासा एत इत्यर्थः ।  
यान्यपि चान्यान्यनवग्रान्यनि-  
न्दितानि शिष्टाचारलक्षणानि  
कर्माणि तानि सेवितव्यानि  
कर्तव्यानि त्वया । नो न कर्त-

करना चाहिये । 'धर्म' शब्द अनुष्ठेय  
कर्मविशेषका वाचक होनेसे उसका  
अनुष्ठान न करना ही प्रमाद है,  
सो नहीं करना चाहिये । अर्थात्  
धर्मका अनुष्ठान करना ही चाहिये ।  
इसी प्रकार कुशल—आत्मरक्षामें  
उपयोगी कर्मोंसे प्रमाद न करे । 'भूति'  
वैभक्तों कहते हैं, उस वैभक्तके लिये  
होनेवाले मङ्गलयुक्त कर्मोंसे प्रमाद  
न करे । स्वाध्याय और प्रवचनसे  
प्रमाद न करे । स्वाध्याय अव्ययन है  
और प्रवचन अध्यापन, उन दोनोंसे  
प्रमाद न करे अर्थात् उनका नियम-  
से आचरण करता रहे ॥ १ ॥ इसी  
प्रकार देवकार्य और पितृकार्योंसे भी  
प्रमाद न करे, अर्थात् देवता और  
पितृसम्बन्धी कर्म अग्रय करने  
चाहिये ।

मातृदेव—माता है देव जिसका  
वह तू मातृदेव हो । इसी प्रकार  
पितृदेव हो, आचार्यदेव हो, [ अतिथि-  
देव हो ] [ इनका अर्थ समझना  
चाहिये ] । तात्पर्य यह है कि ये  
सब देवताके समान उपासना  
करनेयोग्य हैं । इसके सिवा और  
भी जो अनवग्र—अनित्य यानी  
शिष्टाचाररूप कर्म हैं तेरे लिये वे ही  
सेवनीय यानी कर्तव्य हैं । अन्य

व्यानीतराणि सावधानि शिष्ट-  
कृतान्यपि । यान्यस्माकमाचा-  
र्याणां सुचरितानि शोभनचरि-  
तान्याम्नायाद्यविरुद्धानि तान्येव  
त्वयोपास्यान्यदृष्टार्थान्यनुष्ठेया-  
नि, नियमेन कर्तव्यानीति या-  
चत् ॥ २ ॥ नो इतराणि विपरी-  
तान्याचार्यकृतान्यपि ।

निन्दायुक्त कर्म—भले ही वे शिष्ट  
पुरुषोंके किये हुए हों—तुझे नहीं  
करने चाहिये । हम आचार्यलोगोंके  
भी जो सुचरित—शुभ चरित अर्थात्  
शास्त्रसे अविरुद्ध कर्म हैं उन्हींकी  
तुझे उपासना करनी चाहिये; अदृष्ट  
फलके लिये उन्हींका अनुष्ठान करना  
चाहिये अर्थात् तेरे लिये वे ही  
नियमसे कर्तव्य हैं ॥ २ ॥—दूसरे  
नहीं, अर्थात् उनसे विपरीत कर्म  
आचार्यके किये हुए भी कर्तव्य  
नहीं हैं ।

ये के च विशेषिता आचार्य-  
त्वादिधर्मैरसदसत्तः श्रेयांसः  
प्रशस्यतरास्ते च ब्राह्मणा न  
क्षत्रियादयस्तेषामासनेनासनदा-  
नादिना त्वया प्रश्वसितव्यम् ।  
प्रश्वसनं प्रश्वासः श्रमापनयः ।  
तेषां श्रमस्त्वयापनेतव्य इत्यर्थः ।  
तेषां चासने गोष्ठीनिमित्ते समु-  
दिते तेषु न प्रश्वसितव्यं प्रश्वा-  
सोऽपि न कर्तव्यः केवलं तदुक्त-  
सारग्राहिणा भवितव्यम् ।

जो कोई भी आचार्यत्व आदि धर्मोंके  
कारण विशिष्ट हैं, अर्थात् हमसे श्रेष्ठ—  
बड़े हैं तथा वे ब्राह्मण भी हैं—क्षत्रिय  
आदि नहीं हैं, उनका आसनादिके  
द्वारा अर्थात् उन्हें आसनादि देकर  
तुझे प्रश्वास—प्रश्वासका अर्थ है  
आश्वासन यानी श्रमापहरण करना  
चाहिये । तात्पर्य यह है कि तुझे  
उनका श्रम निवृत्त करना चाहिये ।  
तथा किसी गोष्ठी ( सभा ) के लिये  
उन्हें उच्चासन प्राप्त होनेपर तुझे  
प्रश्वास—दीर्घनिःश्वास भी नहीं  
छोड़ना चाहिये; तुझे केवल उनके  
कथनका सार ग्रहण करनेवाला  
होना चाहिये ।

किं च यत्किंचिदेयं तच्छूद्र-  
यैव दातव्यम् । अश्रद्धया अदेयं न  
दातव्यम् । श्रिया विभूत्या देयं  
दातव्यम् । द्विया लज्जया च  
देयम् । भिया भीत्या च देयम् ।  
संविदा च मैत्र्याटिकार्येण  
देयम् ।

अथैवं वर्तमानस्य यदि कदा-  
चित्ते तत्र श्रौते स्मार्ते वा कर्मणि  
वृत्ते वाचारलक्षणे विचिकित्सा  
संशयः स्यात् ॥ ३ ॥ ये तत्र तस्मिन्  
देशे काले वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मा-  
दौ युक्ता इति व्यवहितेन संबन्धः  
कर्तव्यः । संमर्शिनो विचार-  
क्षमाः । युक्ता अभियुक्ताः कर्मणि  
वृत्ते वा । आयुक्ता अपरप्रयुक्ताः ।  
अलक्ष्णा अरुक्ष्णा अकृमन्तयः ।  
धर्मकामा अदृष्टार्थिनोऽकामहता  
इत्येतत्, स्युर्मवेयुः । ते यथा येन  
प्रकारेण ब्राह्मणास्तत्र तस्मिन्क-

इसके सिवा, तुझे जो कुछ दान  
करना हो यह श्रद्धासे ही देना  
चाहिये, अश्रद्धासे नहीं । श्रौ  
अर्थात् विभूतिके अनुसार देना  
चाहिये, ही-लज्जापूर्वक देना  
चाहिये, भी-भय मानते हुए  
देना चाहिये तथा सविद् यानी  
मैत्री आदि कार्यके निमित्तमे देना  
चाहिये ।

फिर इस प्रकार वर्तते हुए तुझे  
यदि किसी समय किसी श्रौत या  
स्मार्त कर्म अथवा आचरणरूप  
वृत्त ( व्यवहार ) में संशय उपस्थित  
हो ॥ ३ ॥ तो वहाँ उस देश  
या कालमें जो ब्राह्मण नियुक्त  
हों-इस प्रकार 'तत्र' इस पदका  
'युक्ता' इस व्यवगनयुक्त पदमे  
सम्बन्ध करना चाहिये-[ और जो ]  
संमर्शा-विचारक्षम, युक्त-कर्म  
अथवा आचरणमें पूर्णतया तत्पर,  
आयुक्त-किमी दूसरेसे प्रयुक्त न  
होनेवाले [ अर्थात् स्वेच्छासे प्रवृत्त ],  
अलक्ष्ण-अरुक्ष अर्थात् अकृमन्ति  
( सरलचित्त ) और धर्मकामी-  
अदृष्टफल्की इच्छावाले अर्थात्  
कामनावश विवेकगून्थ न हों, वे  
ब्राह्मण उस कर्म या आचरणमें जिन

र्मणि वृत्ते वा वर्तेरंस्तथा त्वमपि  
वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु,  
अभ्याख्याता अभ्युक्ता दोषेण  
संदिह्यमानेन संयोजिताः केन-  
चित्तेषु च यथोक्तं सर्वमुपन-  
येद्ये तत्रेत्यादि ।

एष आदेशो विधिः । एष  
उपदेशः पुत्रादिभ्यः पित्रादी-  
नाम् । एषा वेदोपनिषद्वेदरहस्यं  
वेदार्थं इत्येतत् । एतदेवानुशा-  
सनमीश्वरवचनम् । आदेश-  
वाक्यस्य विधेरुक्तत्वात्सर्वेषां वा  
प्रमाणभूतानामशासनमेतत् ।  
यस्मादेवं तस्मादेवं यथोक्तं सर्व-  
मुपासितव्यं कर्तव्यम् । एवमु-  
चैतदुपास्यमुपास्यमेव चैतन्नानुपा-  
स्यमित्यादरार्थं पुनर्वचनम् ॥४॥

प्रकार वर्ताव करें उसी प्रकार तुझे  
भी वर्ताव करना चाहिये । इसी  
प्रकार अभ्याख्यातोंके प्रति—  
अभ्याख्यात—अभ्युक्त अर्थात् जिन-  
पर कोई संशययुक्त दोष आरोपित  
नकिया गया हो उनके प्रति जैसा  
पहले 'ये तत्र' इत्यादिसे कहा गया  
है उसी सब व्यवहारका प्रयोग  
करना चाहिये ।

यह आदेश अर्थात् विधि है,  
यह पुत्रादिको पिता आदिका उपदेश  
है, यह वेदोपनिषद्—वेदका रहस्य  
यानी वेदार्थ है । यही अनुशासन  
यानी ईश्वरका वाक्य है । अथवा  
आदेशवाक्य विधि है—ऐसा पहले  
कहा जा चुका है, इसलिये यह  
सभी प्रमाणभूत [ उपदेशकों ] का  
अनुशासन है । क्योंकि ऐसा  
है इसलिये पहले जो कुछ  
कहा गया है वह सब इसी  
प्रकार उपासनीय—करने योग्य है ।  
इस प्रकार ही इसकी उपासना  
करनी चाहिये—यह उपासनीय ही  
है, अनुपास्य नहीं है—इस प्रकार  
यह पुनरुक्ति उपासनाके आदरके  
लिये है ॥ ४ ॥

## मोक्ष-साधनकी मीमांसा

अत्रैतच्चिन्त्यते विद्याकर्मणो-

मोक्षसाधन-  
मीमांसाया  
चत्वारो विकल्पा  
विवेकार्थं किं कर्म-  
भ्य एव केवलेभ्यः  
परं श्रेय उत वि-  
द्यासव्यपेक्षेभ्य आहोस्विद्विद्या-  
कर्मभ्यां संहताभ्यां विद्याया वा  
कर्मापेक्षाया उत केवलाया एव  
विद्याया इति ?

तत्र केवलेभ्य एव कर्मभ्यः

कर्मणा मोक्ष-  
साधनत्वनिराम  
स्यात् । समस्तवे-  
दार्थज्ञानवतः कर्मा-  
धिकारात् । “वेदः कृत्स्नोऽधि-  
गन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना”  
इति सारणात् । अधिगमश्च  
सहोपनिषदर्थेनात्मज्ञानादिना ।  
“विद्वान्यजते” “विद्वान्याज-  
यति” इति च विदुष एव कर्म-  
प्यधिकारः प्रदर्श्यते सर्वत्र  
“ज्ञात्वा चानुष्ठानं” इति च ।

अत्र विद्या और कर्मका विवेक  
[ अर्थात् इन दोनोंका फल भिन्न-  
भिन्न है-इसका निश्चय ] करनेके  
लिये यह विचार किया जाता है  
कि ( १ ) क्या परम श्रेयकी प्राप्ति  
केवल कर्मसे होती है, ( २ ) अथवा  
विद्याकी अपेक्षायुक्त कर्मसे, ( ३ )  
किंवा परस्पर मिले हुए विद्या और  
कर्म दोनोंसे, ( ४ ) अथवा कर्मकी  
अपेक्षा रखनेवाली विद्यासे, ( ५ )  
या केवल विद्यासे ही ?

उनमें [ पहला पक्ष यह है कि ]  
केवल कर्मसे ही परम श्रेयकी प्राप्ति  
हो सकती है, क्योंकि “द्विजातिको  
रहस्यके सहित सम्पूर्ण वेदका ज्ञान  
प्राप्त करना चाहिये” ऐसी स्मृति  
हानेसे सम्पूर्ण वेदका ज्ञान रखने-  
वालेको ही कर्मका अधिकार है और  
वेदका ज्ञान उपनिषद्के अर्थमूल  
आत्मज्ञानादिके सहित ही हो  
सकता है । “विद्वान् यज्ञ करता  
है” “विद्वान् यज्ञ कराता है”  
इत्यादि वाक्योंसे सर्वत्र विद्वान्का ही  
कर्ममें अधिकार दिखलाया गया  
है, तथा “जानकर कर्मानुष्ठान  
करे” ऐसा भी कहा है । कोई-कोई



कृत्स्नश्च वेदः कर्मार्थ इति हि  
मन्यन्ते कैचित् । कर्मभ्यश्चेत्परं  
श्रेयो नावाप्यते वेदोऽनर्थकः  
स्यात् ।

न; नित्यत्वान्मोक्षस्य, नित्यो  
हि मोक्ष इष्यते । कर्मकार्य-  
स्यानित्यत्वं प्रसिद्धं लोके ।  
कर्मभ्यश्चेच्छ्रेयो नित्यं स्यात्तच्चा-  
निष्टम् । “तद्यथेह कर्मचितो  
लोकः क्षीयते” ( छा० उ० ८ ।  
१ । ६ ) इति न्यायानुगृहीत-  
श्रुतिविरोधात् ।

काम्यप्रतिषिद्धयोरनारम्भा-  
दारब्धस्य च कर्मण उपमोगेन  
क्षयान्नित्यानुष्ठानाच्च तत्प्रत्यवा-  
यानुत्पत्तेर्ज्ञाननिरपेक्ष एव मोक्ष  
इति चेत् ?

तच्च न; शेषकर्मसंभवात्तन्नि-

मित्तशरीरान्तरोत्पत्तिः प्राप्नो-

ऐसा भी मानते हैं कि सम्पूर्ण वेद  
कर्मके ही लिये हैं; और यदि कर्मोंसे  
ही परम श्रेयकी प्राप्ति न हुई तो  
वेद भी व्यर्थ ही हो जायगा ।

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक  
नहीं; क्योंकि मोक्षका नित्यत्व है—  
मोक्ष नित्य ही माना गया है । और  
जो वस्तु कर्मका कार्य है उसकी  
अनित्यता लोकमें प्रसिद्ध है । यदि  
नित्य श्रेय कर्मोंसे होता है ऐसा  
मानें तो इष्ट नहीं है; क्योंकि इसका  
“जिस प्रकार यह कर्मोपाजित लोक  
क्षीण होता है [ उसी प्रकार पुण्यार्जित  
परलोक भी क्षीण हो जाता है ]”  
इस न्याययुक्ता श्रुतिसे विरोध है ।

पूर्व०—काम्य और प्रतिषिद्ध  
कर्मोंका आरम्भ न करनेसे, प्रारब्ध  
कर्मोंका भोगसे ही क्षय हो जानेसे  
तथा नित्य कर्मोंके अनुष्ठानके कारण  
प्रत्यवायकी उत्पत्ति न होनेसे मोक्ष  
ज्ञानकी अपेक्षासे रहित ही है—यदि  
ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात भी नहीं  
है; शेष ( सञ्चित ) कर्मोंके रह  
जानेसे उनके कारण अन्य शरीरकी  
उत्पत्ति सिद्ध होती है—इस प्रकार

तीति प्रत्युक्तम् । कर्मशेषस्य च  
नित्यानुष्ठानेनाविरोधात्क्षयानुप-  
पत्तिरिति च ।

यदुक्तं समस्तवेदार्थज्ञानवतः

कर्माधिकारादित्यादि, तच्च न,

श्रुतज्ञानव्यतिरेकादुपासनस्य ।

श्रुतज्ञानमात्रेण हि कर्मण्यधि-

क्रियते नोपासनामपेक्षते । उपा-

सनं च श्रुतज्ञानादर्थान्तरं वि-

धीयते । मोक्षफलमर्थान्तरप्रसिद्धं

च स्यात् । 'श्रोतव्यः' इत्युक्त्वा

तद्व्यतिरेकेण 'मन्तव्यो निदि-

ध्यासितव्यः' इति यत्नान्तरवि-

धानात् । मनननिदिध्यासनयोश्च

प्रसिद्धं श्रवणज्ञानादर्थान्तरत्वम् ।

एवं तर्हि विद्यासव्यपेक्षेभ्यः

ज्ञानकर्ममनुच- कर्मभ्यः स्यान्मोक्षः ।

यस्य मोक्षसाध- विग्रामहितानां च

नत्वनिरास- कर्मणा मवेत्कार्या-

हम इसका पहले ही खण्टन कर  
चुके हैं, तथा नित्यकर्मोंके अनुष्ठानमे  
सञ्चित कर्मोंका विरोध न होनेके कारण  
उनका क्षय होना सम्भव नहीं है ।

और यह जो कहा कि समस्त  
वेदके अर्थको जाननेवालेको ही  
कर्मका अधिकार होनेके कारण  
[ केवल कर्मसे ही नि.श्रेयसकी प्राप्ति  
हो सकती है ] सो भी ठीक नहीं,  
क्योंकि उपासना श्रुतज्ञान ( गुरु-  
कुलमें किये हुए वाक्यविचार ) से  
भिन्न ही है । मनुष्य श्रुतज्ञानमात्रसे  
ही कर्मका अधिकारी हो जाता है,  
इसके लिये वह उपासनाकी अपेक्षा  
नहीं रखता । उपासना-तो श्रुतज्ञान-  
से भिन्न वस्तु ही बतलायी गयी है ।  
यह उपासना मोक्षरूप फलवाली  
और अर्थान्तररूपसे प्रसिद्ध है,  
क्योंकि 'श्रोतव्य' ऐसा कहकर  
[ मनन और निदिध्यासनके लिये ]  
'मन्तव्यो निदिध्यासितव्य'—इस  
प्रकार पृथक् यत्नान्तरका विधान  
किया है । लोकमें भी श्रवणज्ञानमे  
मनन और निदिध्यासनका अर्थान्त-  
रत्व प्रसिद्ध ही है ।

पूर्व०—इस प्रकार तब तो विद्या-

की अपेक्षासे युक्त कर्मोंद्वारा ही  
मोक्ष हो सकता है । जो कर्म ज्ञान-  
के सहित होते हैं उनमें कार्यान्तरके

न्तरारम्भसामर्थ्यम् । यथा स्वतो मरणज्वरादिकार्यारम्भसमर्थानामपि विषदध्यादीनां मन्त्रशर्करादिसंयुक्तानां कार्यान्तरारम्भसामर्थ्यम्, एवं विद्यासहितैः कर्मभिर्मोक्ष आरभ्यत इति चेत् ?

न; आरभ्यस्थानित्यत्वादि-

त्युक्तो दोषः ।

वचनादारभ्योऽपि नित्य

एवेति चेत् ?

न; ज्ञापकत्वाद्बचनस्य ।

वचनं नाम यथाभूतस्वार्थस्य

ज्ञापकं नाविश्रमानस्य कर्तुं । न

हि वचनशतेनापि नित्यमारभ्यत

आरब्धं चाविनाशि भवेत् ।

एतेन विद्याकर्मणोः संहत-

योर्मोक्षारम्भकत्वं प्रत्युक्तम् ।

आरम्भका सामर्थ्य हो सकता है, जिस प्रकार कि स्वयं मरण और ज्वरादि कारणोंके आरम्भमें समर्थ होनेपर भी विष एवं दधि आदिमें मन्त्र और शर्करादिसे युक्त होनेपर कार्यान्तरके आरम्भका सामर्थ्य हो जाता है, इसी प्रकार विद्यासहित कर्मोंसे मोक्षका आरम्भ हो सकता है—यदि ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, जो वस्तु आरम्भ होनेवाली होती है वह अनित्य हुआ करती है—इस प्रकार इस पक्षका दोष बतलाया जा चुका है ।

पूर्व०—किन्तु [ 'न स पुनरवर्तते' इत्यादि ] वचनसे तो आरम्भ होनेवाला मोक्ष भी नित्य ही होता है ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि वचन तो केवल ज्ञापक है; यद्यार्थ अर्थको बतलानेवालेका ही नाम 'वचन' है । वह किसी अधिद्यमान पदार्थको उत्पन्न करनेवाला नहीं होता । सैकड़ों वचन होनेपर भी नित्य वस्तुका आरम्भ नहीं किया जा सकता और न आरम्भ होनेवाली वस्तु अविनाशी ही हो सकती है । इससे समुचित विद्या और कर्मके मोक्षारम्भकत्वं प्रतिषेध कर दिया गया ।

विद्याकर्मणी मोक्षप्रतिबन्ध-

हेतुनिवर्तके इति चेत्-न, कर्मणः

फलान्तरदर्शनात् । उत्पत्तिमं-

स्कारविकाराप्तयो हि फलं

कर्मणो दृश्यते । उत्पत्त्यादिफल-

विपरीतश्च मोक्षः ।

गतिश्रुतेराप्य इति चेत् ।

“सूर्यद्वारेण”, “तयोर्ध्वमायन्”

( क० उ० २।३।१६ ) इत्ये-

वमादिगतिश्रुतिभ्यः प्राप्यो मोक्ष

इति चेत् ।

न; सर्वगतत्वाद्ब्रह्मन्तुमिश्वा-

नन्यत्वादाकाशादिकारणत्वात्स-

र्वगतं ब्रह्म । ब्रह्माव्यतिरिक्ताश्च

सर्वे विज्ञानात्मानः । अतो ना-

प्यो मोक्षः । गन्तुरन्यद्विमिन्नं

देशं प्रति भवति गन्तव्यम् । न

हि येनैवाव्यतिरिक्तं यत्तत्तेनैव

विद्या और कर्म—ये दोनों मोक्षके

प्रतिबन्धके हेतुओंको निवृत्त करने-

वाले हैं [ मोक्षके स्वरूपको उत्पन्न

करनेवाले नहीं हैं, अतः जिस

प्रकार प्रध्वसाभाव कृतक होनेपर

भी नित्य है उसी प्रकार उन प्रति-

बन्धोंकी निवृत्ति भी नित्य ही होगी ]

—यदि ऐसा कहो तो यह कथन

ठीक नहीं, क्योंकि कर्मोंका तो

अन्य ही फल देखा गया है । उत्पत्ति,

सस्कार, विकार और भास्ति—ये

कर्मके फल देखे गये हैं । किन्तु

मोक्ष उत्पत्ति आदि फलसे विपरीत है ।

पूर्व०—गतिप्रतिपादिका श्रुतियों-

से तो मोक्ष आप्य सिद्ध होता

है—“सूर्यद्वारेण”, “उस सुपुत्रा

नाडीद्वारा ऊर्ध्वलोकोंको जानेवाला”

आदि गतिप्रतिपादिका श्रुतियोंसे

जाना जाता है कि मोक्ष प्राप्य है ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,

क्योंकि ब्रह्म सर्वगत, गमन करने-

वालोंसे अभिन्न और आकाशादि-

का भी कारण होनेसे सर्वगत

है तथा सम्पूर्ण विज्ञानात्मा ब्रह्मसे

अभिन्न हैं, इसलिये मोक्ष आप्य

नहीं है । गमन करनेवालेसे पृथक्

अन्यदेशमें ही गमन करने योग्य हुआ

करता है । जो जिससे अभिन्न होना

गम्यते । तदनन्यत्वप्रसिद्धेश्च  
 “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्”  
 ( तै० उ० २ । ६ । १ ) “क्षेत्रज्ञं  
 चापि मां विद्वि” ( गीता १३ । २ )  
 इत्येवमादिश्रुतिस्मृतिशतेभ्यः ।

गत्यैश्वर्यादिश्रुतिविरोध इति  
 चेत् । अथापि स्याद्यद्यप्राप्यो  
 मोक्षस्तदा गतिश्रुतीनां “स  
 एकधा” ( छा० उ० ७ । २६ । २ )  
 “स यदि पितृलोककामो भवति”  
 ( छा० उ० ८ । २ । १ ) “स्त्री-  
 भिर्वा यानैर्वा” ( छा० उ० ८ ।  
 १२ । ३ ) इत्यादिश्रुतीनां च  
 कोपः स्यादिति चेत् ।

न; कार्यब्रह्मविषयत्वात्ता-  
 साम् । कार्ये हि ब्रह्मणि स्या-  
 दयः स्युर्न कारणे । “एकमेवा-  
 द्वितीयम्” ( छा० उ० ६ । २ ।  
 १ ) “यत्र नान्यत्पश्यति”  
 ( छा० उ० ७ । २४ । १ )  
 “तत्केन कं पश्येत्” ( बृ० उ०  
 २ । ४ । १४, ४ । ५ । १५ )  
 इत्यादिश्रुतिभ्यः ।

है उसीसे वह गन्तव्य नहीं होता ।  
 और उसकी अनन्यता तो “उसे  
 रचकर वह उसीमें प्रविष्ट हो गया”  
 “सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ भी तू मुझको  
 ही जान” इत्यादि सैकड़ों श्रुति-  
 स्मृतियोंसे सिद्ध होती है ।

पूर्व०—[ ऐसा माननेसे तां ]  
 गति और ऐश्वर्यका प्रतिपादन करने-  
 वाली श्रुतियोंसे विरोध होगा—अच्छा,  
 यदि मोक्ष अप्राप्य ही हों तो भी  
 गतिश्रुति तथा “वह एकरूप होता है”  
 “वह यदि पितृलोककी इच्छावाला  
 होता है” “वह स्त्री और यानोंके  
 साथ रमण करता है” इत्यादि  
 श्रुतियोंका व्याकोप ( बाध ) हो  
 जायगा ।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि वे तो  
 कार्य ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं ।  
 स्त्री आदि तो कार्य ब्रह्ममें ही हों  
 सकती हैं, कारण ब्रह्ममें नहीं; जैसा  
 कि “एक ही अद्वितीय ब्रह्म” “जहाँ  
 कोई और नहीं देखता” “तत्र  
 किसके द्वारा किसे देखे” इत्यादि  
 श्रुतियोंसे सिद्ध होता है ।

विरोधाच्च विद्याकर्मणोः समु-  
 च्चयानुपपत्तिः । प्रविलीनकर्त्रा-  
 दिकारकविशेषतन्वविषया हि  
 विद्या तद्विपरीतकारकमाध्येन  
 कर्मणा विरुध्यते न ह्येकं वस्तु  
 परमार्थतः कर्त्रादिविशेषवत्तच्छ्र-  
 न्यं चेत्युभयथा द्रष्टुं शक्यते ।  
 अवश्य एतन्तरन्मिथ्या स्यात् ।  
 अन्यतरस्य च मिथ्यात्वप्रसङ्गे  
 युक्तं यत्स्वामाधिकान्नानविषयस्य  
 द्वैतस्य मिथ्यात्वम् । “यत्र हि  
 द्वैतमिदं भवति” ( वृ० उ० २ ।  
 ४ । १४ ) “मृत्योः स मृत्यु-  
 माप्नोति” ( क० उ० २ । १ ।  
 १०, वृ० उ० ४ । ४ । १९ )  
 “अथ यत्रान्यत्पश्यति  
 तदल्पम्” ( छा० उ० ७ । २४ । १ )  
 “अन्योऽमावन्योऽहमसि” ( वृ०  
 उ० १ । ४ । १० ) “उदरमन्तरं  
 कुरुते अथ तस्य मयं भवति”  
 ( तै० उ० २ । ७ । १ ) इत्यादि-  
 श्रुतिश्रुतेभ्यः ।

इसके सिवा विद्या और कर्मका  
 विरोध होनेके कारण भी उनका  
 समुच्चय नहीं हो सकता । जिसमें  
 कर्ता-करण आदि कारकविशेषोंका  
 पूर्णतया लय होना है उस तत्त्वको  
 ( ब्रह्मको ) विषय करनेवाली विद्या  
 अपनेमे विपरीत साधनसाध्य कर्ममे  
 विरुद्ध है । एक ही वस्तु परमार्थत  
 कर्ता आदि विशेषसे युक्त और उस-  
 से रहित-दोनों ही प्रकारसे नहीं  
 देखी जा सकती । उनमेंमे एक  
 पक्ष अवश्य मिथ्या होना चाहिये ।  
 इस प्रकार किसी एकके मिथ्यात्वका  
 प्रसङ्ग उपस्थित होनेपर जो स्वभान-  
 मे ही अज्ञानका नियम है उस  
 द्वैतका ही मिथ्या होना उचित है,  
 जैसा कि “जहाँ द्वैतके समान होना  
 है” “वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता  
 है” “जहाँ अन्य देखता है वह अन्य  
 है” “यह अन्य है मैं अन्य हूँ” “जो  
 योड़ा-सा भी अन्तर करता है उसे  
 मय प्राप्त होना है” इत्यादि सैकड़ों  
 श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है ।

सत्यत्वं चैकत्वस्य “एकधै-  
वानुद्वष्टव्यम्” ( वृ० उ० ४ ।  
४ । २० ) “एकमेवाद्वितीयम्”  
( छा० उ० ६ । २ । १ ) “ब्रह्मै-  
वेदः सर्वम्” ( मु० उ० २ । २  
११ ) “आत्मैवेदः सर्वम्”  
( छा० उ० ७ । २५ । २ )  
इत्यादिश्रुतिभ्यः । न च संप्रदा-  
नादिकारकभेदादर्शने कर्मोप-  
पद्यते । अन्यत्वदर्शनापवादश्च  
विद्याविषये सहस्रशः श्रूयते ।  
अतो विरोधो विद्याकर्मणोः ।  
अतश्च समुच्चयानुपपत्तिः । तत्र  
यदुक्तं संहताभ्यां विद्याकर्मभ्यां  
मोक्ष इति अनुपपन्नं तत् ।

विहितत्वात्कर्मणां श्रुतिवि-  
रोध इति चेत् । यद्युपमृद्य कर्त्रा-  
दिकारकविशेषमात्मैकत्वविज्ञानं  
विधीयते सर्पादिभ्रान्तिविज्ञानो-  
पमर्दकरज्ज्वादिविषयविज्ञानव-  
त्प्राप्तः कर्मविधिश्रुतीनां निर्विप-

तथा “एक रूपसे ही देखना  
चाहिये” “एक ही अद्वितीय” “यह  
सब ब्रह्म ही है” “यह सब आत्मा  
ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे एकत्वकी  
सत्यता सिद्ध होती है । सम्प्रदान  
आदि कारकभेदके दिखार्या न देने-  
पर कर्म होना सम्भव भी नहीं है ।  
ज्ञानके प्रसंगमें भेददृष्टिके अपवाद  
तो सहस्रों सुननेमें आते हैं । अतः  
विद्या और कर्मका विरोध है; इस-  
लिये भी उनका समुच्चय होना  
असम्भव है । ऐसी दशामें पूर्वमें  
तुमने जो कहा था कि ‘परस्पर  
मिले हुए विद्या और कर्म दोनोंके  
मोक्ष होता है’ वह सिद्ध नहीं होता ।

पूर्व०—कर्म भी श्रुतिविहित हैं,  
अतः ऐसा माननेपर श्रुतिसे विरोध  
उपस्थित होता है । यदि सर्पादि  
भ्रान्तिजनित ज्ञानका बाध करनेवाले  
रज्जु आदि विषयक ज्ञानके समान  
कर्ता आदि कारकविशेषका बाध  
करके ही आत्मैकत्वके ज्ञानका  
विधान किया जाता है तो कोई  
विषय न रहनेके कारण कर्मका  
विधान करनेवाली श्रुतियोंका उन

यत्वाद्बिरोधः । विहितानि च  
कर्माणि । स च विरोधो न  
युक्तः । प्रमाणत्वाच्छ्रुतीनामिति  
चेत् ?

न; पुरुषार्थोपदेशपरत्वाच्छ्रुती-  
नाम् । विद्योपदेशपरा ताच्छ्रुतिः  
मंसारात्पुरुषो मोक्षयितव्य इति  
मंसारहेतोरविद्याया विद्यया  
निवृत्तिः कर्तव्येति विद्याप्रकाश-  
कत्वेन प्रवृत्तेति न विरोधः ।

एवमपि कर्त्रादिकारकसद्भावा-  
प्रतिपादनपर शास्त्रं विरुध्यत  
एवेति चेत् ?

न; यथाप्राप्तमेव कारकास्ति-  
त्वमुपादायोपात्तदुरितक्षयार्थं  
कर्माणि विदधच्छास्त्रं मुमुक्षुणां

( विद्याका विधान करनेवाली  
श्रुतियों ) से विरोध उपस्थित होता  
है, और कर्मोंका विधान भी  
क्रिया ही गया है तथा सभी श्रुतियों  
प्रमाणभूत हैं इसलिये पूर्वोक्त  
विरोधका होना उचित नहीं है—यदि  
ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती—यह कथन ठीक नहीं,  
क्योंकि श्रुतियों परम पुरुषार्थका  
उपदेश करनेमें प्रवृत्त हैं । श्रुति  
ज्ञानका उपदेश करनेमें तत्पर है ।  
उसे ससारसे पुरुषका मोक्ष कराना  
है, इसके लिये ससारका हेतुभूत  
अविद्याकी विद्याके द्वारा निवृत्ति  
करना आवश्यक है, अतः वह  
विद्याका प्रकाश करनेवाली होकर  
प्रवृत्त हुई है । इसलिये ऐसा  
माननेसे कोई विरोध नहीं आता ।

पूर्व०—किन्तु ऐसा माननेपर भी  
तो कर्तादि कारककी सत्ताका प्रति-  
पादन करनेवाले शास्त्रका तो उससे  
विरोध होता ही है ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
स्वभावतः प्राप्त कारकोंके अस्तित्वको  
स्वीकार कर सञ्चित पापोंके क्षयके  
लिये कर्मोंका विधान करनेवाला  
शास्त्र मुमुक्षुओं और फलकी



फलार्थिनां च फलसाधनं न  
कारकास्तित्वे व्याप्रियते । उप-  
चितदुरितप्रतिबन्धस्य हि विद्यो-  
त्पत्तिर्नाशकल्पते । तत्क्षये च  
विद्योत्पत्तिः स्यात्तत्राविद्यानि-  
वृत्तिस्तत्र आत्यन्तिकः संसारो-  
परमः ।

अपि चानात्मदर्शिनो ह्यना-  
गानादेव तु त्मविषयः कामः ।  
कीवल्यन् कामयमानश्च करो-  
ति कर्माणि । ततस्तत्फलोप-  
भोगाय शरीराद्युपादानलक्षणः  
संसारः । तद्व्यतिरेकेणात्मैक-  
त्वदर्शिनो विषयाभावात्कामानु-  
त्पत्तिरात्मनि चानन्यत्वात्का-  
मानुत्पत्तौ स्वात्मन्यवस्थानं मोक्ष  
इत्यतोऽपि विद्याकर्मणोर्विरोधः ।

इच्छावालोको [ उनके इष्ट ] फलकी  
प्राप्ति करानेका साधन है; वह  
कारकोंका अस्तित्व सिद्ध करनेमें  
प्रवृत्त नहीं है । जिस पुरुषका  
सञ्चित पापरूप प्रतिबन्ध विद्यमान  
रहता है उसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं  
हो सकती; उसका क्षय हो जानेपर  
ही ज्ञान होता है और तभी  
अविद्याकी निवृत्ति होती है तथा  
उसके अनन्तर ही संसारकी  
आत्यन्तिक उपरति होती है ।

इसके सिवा जो पुरुष अनात्म-  
दर्शी है उसे ही अनात्मवस्तु-  
सम्बन्धिनी कामना हो सकती है;  
कामनावाला ही कर्म करता  
है और उसीसे उनका फल भोगनेके  
लिये उसे शरीरादिग्रहणरूप संसार-  
की प्राप्ति होती है । इसके विपरीत  
जो आत्मैकत्वदर्शी है उसकी दृष्टिमें  
विषयोंका अभाव होनेके कारण उसे  
उनकी कामना भी नहीं हो सकती ।  
आत्मा तो अपनेसे अभिन्न है, इस-  
लिये उसकी कामना भी असम्भव  
होनेके कारण उसे स्वात्मस्वरूपमें  
स्थित होनारूप मोक्ष सिद्ध ही है ।  
इसलिये भी ज्ञान और कर्मका विरोध

विरोधादेव च विद्या मोक्षं प्रति  
न कर्माण्यपेक्षते ।

स्वात्मलाभे तु पूर्वोपचित-  
प्रतिग्रन्थापनयद्वारेण विद्याहेतुत्वं  
प्रतिपद्यन्ते कर्माणि नित्यानीति ।  
अत एवास्मिन्प्रकरण उपन्य-  
स्तानि कर्माणीत्यथोचाम । एवं  
चाविरोधः कर्मविधिश्रुतीनाम्  
अतः केवलाया एव विद्यायाः  
परं श्रेय इति सिद्धम् ।

एवं तर्थाश्रमान्तरानुपपत्तिः ।

कर्मनिमित्तत्वाद्विद्योत्पत्तेः । गा-  
र्हस्थ्ये च विहितानि कर्माणी-  
त्यैकाश्रम्यमेव । अतश्च याज्ञी-  
वादिश्रुतयोऽनुकूलतराः ।

न; कर्मनिकृत्वात् । न ह-

ज्ञानमाधकानि  
कर्माणि

ग्रिहोत्रादीन्येव क-  
र्माणि । ब्रह्मचर्यं

तपः सत्यवदनं शमो दमोऽहिंसे-

है और विरोध होनेके कारण ही ज्ञान  
मोक्षके प्रति कर्मकी अपेक्षा नहीं  
रखता ।

हाँ, आत्मलाभमें पूर्वसञ्चित  
पापरूप प्रतिबन्धकी निवृत्तिद्वारा  
नित्यकर्म ज्ञानप्राप्तिके हेतु अद्य  
होने हैं । इसीलिये इस प्रकरणमें  
कर्मोंका उल्लेख किया गया है—यह  
हम पहले ही कह चुके हैं । इस  
प्रकार भी कर्मका विधान करनेवाली  
श्रुतियोंका [ विद्याविधायिनी श्रुतियों-  
में ] विरोध नहीं है । अत यह  
सिद्ध हुआ कि केवल विद्यामे ही  
परमश्रेयकी प्राप्ति होती है ।

पूर्व०—यदि ऐसी बात है तब  
तो [ गृहस्थाश्रमके सिवा ] अन्य  
आश्रमोंका होना भी उपपन्न नहीं  
है, क्योंकि विद्याकी उत्पत्ति तो  
कर्मके निमित्तसे होती है और कर्मों-  
का विधान केवल गृहस्थके ही लिये  
किया गया है, अत इससे एकाश्रमत्व-  
की ही सिद्धि होती है । और इसलिये  
'यावज्जीवन अग्निहोत्र करे' इत्यादि  
श्रुतियों और भी अनुकूल ठहरती हैं ।

मिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि कर्म तो अनेक हैं । केवल  
अग्निहोत्र आदि ही कर्म नहीं हैं ।  
ब्रह्मचर्य, तप, सत्यभाषण, शम,  
दम और अहिंसा आदि अन्य कर्म

त्येवमादीन्यपि कर्माणीतराश्रम-  
प्रसिद्धानि विद्योत्पत्तौ साधक-  
तमान्यसंकीर्णत्वाद्विद्यन्ते ध्यान-  
धारणादिलक्षणानि च । वक्ष्यति  
च—“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व”  
( तै० उ० ३ । २—५ ) इति ।

जन्मान्तरकृतकर्मभ्यश्च प्राग-

मानप्राप्तौ  
गार्हस्थ्यस्य  
आनर्थक्यम्  
पि गार्हस्थ्यविद्यो-  
त्पत्तिसंभवात्कर्मा-  
र्थत्वाच्च गार्हस्थ्य-  
प्रतिपत्तेः कर्मसाध्यायां च  
विद्यायां सत्यां गार्हस्थ्यप्रति-  
पत्तिरनर्थिकैव ।

लोकार्यत्वाच्च पुत्रादीनाम्;  
पुत्रादिसाध्येभ्यश्चायं लोकः पितृ-  
लोको देवलोक इत्येतेभ्यो व्या-  
वृत्तकामस्य नित्यसिद्धात्मलोक-  
दर्शिनः कर्मणि प्रयोजनमपश्यतः  
कथं प्रवृत्तिरुपपद्यते । प्रतिपन्न-  
गार्हस्थ्यस्यापि विद्योत्पत्तौ विद्या-

भी इतर आश्रमोंके लिये प्रसिद्ध ही  
हैं । वे तथा ध्यान-धारणादिरूप  
कर्म [ हिंसा आदि दोषोंसे ]  
असंकीर्ण होनेके कारण ज्ञानकी  
उत्पत्तिमें सर्वोत्तम साधन हैं । अगे  
( भृगु० २ । ५ में ) यह कहेंगे  
भी कि “तपके द्वारा ब्रह्मको जानने-  
की इच्छा कर” ।

जन्मान्तरमें किये हुए कर्मोंसे तो  
गृहस्थाश्रम स्वीकार करनेसे पूर्व भी  
ज्ञानकी उत्पत्ति होना सम्भव है ।  
तथा गृहस्थाश्रमकी स्वीकृति केवल  
कर्मोंके ही लिये की जाती है ।  
अतः कर्मसाध्य ज्ञानकी प्राप्ति हो  
जानेपर तो गृहस्थाश्रमकी स्वीकृति  
भी व्यर्थ ही है ।

इसके सिवा पुत्रादि साधन तो  
लोकोंकी प्राप्तिके लिये हैं । पुत्रादि  
साधनोंसे सिद्ध होनेवाले उन इह-  
लोक, पितृलोक एवं देवलोक आदि-  
से जिसकी कामना निवृत्त हो गयी  
है, नित्यसिद्ध आत्माका साक्षात्कार  
करनेवाले एवं कर्ममें कोई प्रयोजन  
न देखनेवाले उस ब्रह्मवेत्ताकी  
कर्मोंमें कैसे प्रवृत्ति हो सकती  
है ? जिसने गृहस्थाश्रम स्वीकार  
कर लिया है उसे भी, जब ज्ञानकी

परिपाकाद्विरक्तस्य कर्मसु प्रयोजनमपश्यतः कर्मभ्यो निवृत्तिरेव स्यात् । “प्रव्रजिष्यन्वा अरेऽहमस्मात्स्थानादस्मि” ( बृ० उ० ४ । ५ । २ ) इत्येवमादिश्रुतिलिङ्गदर्शनात् ।

कर्म प्रति श्रुतेर्यत्ताधिक्यदर्शनादयुक्तमिति चेदग्निहोत्रादिकर्म प्रति श्रुतेरधिको यत्तो महांश्च कर्मण्यायासोऽनेकसाधनसाध्यत्वादग्निहोत्रादीनाम् ।

तपोब्रह्मचर्यादीनां चैतराश्रमकर्मणा गार्हस्थ्येऽपि समानत्वाद्-ल्पसाधनापेक्षत्वाच्चेतरेषां न युक्तस्तुल्यवद्विकल्प आश्रमिस्तस्येति चेत् ।

न; जन्मान्तरकृतानुग्रहात् ।

यदुक्तं कर्मणि श्रुतेरधिको

यत्न इत्यादि नासौ दोषः

प्राप्ति होती है और ज्ञानके परिपाकसे विषयोंमें वैराग्य होता है तो, कर्मोंमें अपना कोई प्रयोजन न देखकर उनसे निवृत्ति ही होगी । इस विषयमें “अरी मैत्रेयि ! अब मैं इस स्थानसे सन्यास करना चाहता हूँ” इत्यादि श्रुतिरूप लिंग भी देखा जाता है ।

पूर्व०—किन्तु कर्मके प्रति श्रुतिका अधिक प्रयत्न देखनेसे तो यह बात ठीक नहीं जान पड़ती ?—अग्निहोत्रादिकर्मके प्रति श्रुतिका विशेष प्रयत्न है, कर्मनुष्ठानमें आयास भी अधिक है, क्योंकि अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधनोंमें सिद्ध होनेवाले हैं । अन्य आश्रमोंके कर्म तप और ब्रह्मचर्यादि तो गृहस्थाश्रममें भी उन्हींके समान कर्तव्य तथा अल्पसाधनकी अपेक्षावाले हैं, अतः अन्य आश्रमियोंके साथ गृहस्थाश्रमको समान-समानना तां उचित नहीं है ।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि उनपर जन्मान्तरका अनुग्रह होता है । तुमने जो कहा कि ‘कर्मपर श्रुतिका विशेष प्रयत्न है’ इत्यादि, सो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि

यतो जन्मान्तरकृतमप्यग्निहोत्रा-  
दिलक्षणं कर्म ब्रह्मचर्यादिलक्षणं  
चानुग्राहकं भवति विद्योत्पत्तिं  
प्रति । येन जन्मनैव विरक्ता  
दृश्यन्ते केचित् । केचित्तु कर्मसु  
प्रवृत्ता अविरक्ता विद्याविद्वे-  
षिणः । तस्माज्जन्मान्तरकृत-  
संस्कारेभ्यो विरक्तानामाश्रमा-  
न्तरप्रतिपत्तिरेवेव्यते ।

कर्मफलबाहुल्याच्च; पुत्रस्व-

कर्मविधी श्रुतेः **गर्भदावर्चसादिलक्ष-**  
मयासप्रयोजनम् **णस्य कर्मफलस्या-**  
संख्येयत्वात्, तत्प्रति च पुरु-  
षाणां कामबाहुल्यात्तदर्थः श्रुते-  
रधिको यत्नः कर्मसूपपद्यते ।  
आशिषां बाहुल्यदर्शनादिदं मे  
स्यादिदं मे स्यादिति ।

उपायत्वाच्च, उपायभूतानि

हि कर्माणि विद्यां प्रतीत्यवो-  
चाम । उपायेऽधिको यत्नः  
कर्तव्यो नोपेये ।

जन्मान्तरमें किया हुआ भी अग्नि-  
होत्रादि तथा ब्रह्मचर्यादिरूप कर्म  
ज्ञानकी उत्पत्तिमें उपयोगी होता है,  
जिससे कि कोई लोग तो जन्मसे ही  
विरक्त देखे जाते हैं और कोई कर्ममें  
तत्पर, वैराग्यशून्य एवं ज्ञानके  
विरोधी दीख पड़ते हैं । अतः  
जन्मान्तरके संस्कारोंके कारण जो  
विरक्त हैं उन्हें तो [ गृहस्थाश्रमसे  
भिन्न ] अन्य आश्रमोंको स्वीकार  
करना ही इष्ट होता है ।

कर्मफलकी अधिकता होनेके  
कारण भी [ श्रुतिमें उनका  
विशेष विस्तार है ] । पुत्र, स्वर्ग एवं  
ब्रह्मतेज आदि कर्मफल असंख्येय  
होनेके कारण और उनके लिये  
पुरुषोंको कामनाओंकी अधिकता  
होनेसे भी कर्मोंके प्रति श्रुतिका  
अधिक यत्न होना उचित ही है;  
क्योंकि 'मुझे यह मिले, मुझे यह  
मिले' इस प्रकार कामनाओंकी  
बहुलता भी देखी ही जाती है ।

उपायरूप होनेके कारण भी  
[ श्रुतिका उनमें विशेष प्रयत्न है ] ।  
कर्म ज्ञानोत्पत्तिमें उपायरूप हैं—ऐसा  
हम पहले कह चुके हैं; तथा प्रयत्न  
उपायमें ही अधिक करना चाहिये,  
उपेयमें नहीं ।

कर्मनिमित्तत्वाद्धिद्याया यत्नान्तरानर्थक्यमिति चेत्कर्मभ्य एव पूर्वोपचितदुरितप्रतिबन्धक्षयादेव विद्योत्पद्यते चेत्कर्मभ्यः पृथगुपनिषच्छ्रणादियत्नाऽनर्थक इति चेत् ।

न; नियमामावात् । न हि प्रतिबन्धक्षयादेव विद्योत्पद्यते न त्प्रीश्वरप्रसादतपोध्यानाद्यनुष्ठानादिति नियमोऽस्ति । अहिंसा-ब्रह्मचर्यादीनां च विद्यां प्रत्युपकारकत्वात्साक्षादेव च कारणत्वाच्छ्रवणमनननिदिध्यासनानाम् । अतः सिद्धान्याश्रमान्तराणि सर्वेषां चाधिकारो विद्यायां परं च श्रेयः केवलाया विद्याया एवेति सिद्धम् ।

पूर्व०—ज्ञान कर्मके निमित्तसे होने-वाला है, इसलिये भी अन्य प्रयत्नकी निरर्थकता सिद्ध होती है । यदि कर्मोंके द्वारा ही पूर्वमन्धिन पापरूप प्रतिबन्धका क्षय होनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति होती है तो कर्मोंमें भिन्न उपनिषच्छ्रवणादिविषयक प्रयत्न व्यर्थ ही है । ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है—ज्ञानकी उत्पत्ति प्रतिबन्धके क्षयसे ही होनी है, ईश्वरकृपा, तप एव ध्यानादिके अनुष्ठानसे नहीं हो सकती, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि अहिंसा एवं ब्रह्मचर्यादि भी ज्ञानोत्पत्तिमें उपयोगी हैं तथा श्रवण, मनन और निदिध्यासनादि तो उसके साक्षात् कारण ही हैं । अतः अन्य आश्रमोंका होना सिद्ध ही है तथा ज्ञानमें सभी आश्रमियोंका अधिकार है । इससे यह सिद्ध हुआ कि परमश्रेयस्की प्राप्ति केवल ज्ञानसे ही हो सकती है ।

## द्वादश अनुवाक

अतीतविद्याप्राप्त्युपसर्गशम-  
नार्थं शान्तिं पठति—

पूर्वकथित विद्याकी प्राप्तिके  
प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति-  
पाठ किया जाता है—

शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा ।  
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुक्मः । नमो  
ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव  
प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम् । ऋतमवादिषम् । सत्यमवादिषम् ।  
तन्मामावीत् । तद्वृत्तारमावीत् । आवीन्माम् । आवीद्वृत्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! ॥ १ ॥

मित्र ( सूर्यदेव ) हमारे लिये सुखकर हो । वरुण हमारे लिये  
सुखावह हो । अर्यमा हमारे लिये सुखप्रद हों । इन्द्र तथा बृहस्पति हमारे  
लिये शान्तिदायक हों । तथा जिसका पादविक्षेप बहुत विस्तृत है वह  
विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो । ब्रह्म [ रूप वायु ] को नमस्कार है ।  
हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है । तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो । तुम्हींको हमने  
प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है । तुम्हींको ऋत कहा है । तुम्हींको सत्य कहा है ।  
अतः तुमने मेरी रक्षा की है तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले आचार्यकी  
भी रक्षा की है । मेरी रक्षा की है और वक्ताकी भी रक्षा की है । त्रिविध  
तापकी शान्ति हों ॥ १ ॥

व्याख्यातमेतत्पूर्वम् ॥ १ ॥

इसकी व्याख्या पहले की जा  
चुकी है ॥ १ ॥

इति शीक्षावल्यां द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-  
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृती तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये  
शीक्षावल्ली समाप्ता ॥

# ब्रह्मानन्दवल्ली



## प्रथम अनुवाक

ब्रह्मानन्दवल्लीका शान्तिपाठ

अतीतविद्याप्राप्त्युपमर्गप्रश-  
मनार्था शान्तिः पठिता । इदानीं  
तु वक्ष्यमाणब्रह्मविद्याप्राप्त्युप-  
सर्गोपशमनार्था शान्तिः पठयते—

पूर्वकथित विद्याकी प्राप्तिके  
प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति-  
पाठ कर दिया गया । अब आगे  
कहीं जानेवाली विद्याकी प्राप्तिके  
प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति-  
पाठ किया जाता है—

ॐ सह नात्रवतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै ।  
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

[ वह परमात्मा ] हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ  
रक्षा करे, हम दोनोंका साथ-साथ पालन करे, हम साथ-साथ वीर्यलाभ  
करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो और हम परस्पर द्वेष न  
करें । तीनों प्रकारके प्रतिबन्धोंकी शान्ति हो ।



सह नाववतु—नौ शिष्याचार्यौ  
सहैवावतु रक्षतु । सह नौ भुनक्तु  
भोजयतु । सह वीर्यं विद्यादि-  
निमित्तं सामर्थ्यं करवावहै निर्वर्त-  
यावहै । तेजस्वि नावावयोस्तेज-  
स्विनोरधीतं स्वधीतमस्तु, अर्थ-  
ज्ञानयोग्यमस्त्वित्यर्थः । मा  
विद्विषावहै; विद्याग्रहणनिमित्तं  
शिष्यस्याचार्यस्य वा प्रमादकृता-  
दन्यायाद्विद्वेषः प्राप्तस्तच्छमनाय  
इयमाशीर्मा विद्विषावहा इति ।  
मैवेतरेतरं विद्वेषमापद्यावहै ।

शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति  
त्रिर्वचनमुक्तार्थम् । वक्ष्यमाण-  
विद्याविघ्नप्रशमनार्था चैयं  
शान्तिः । अविघ्नेनात्मविद्या-  
प्राप्तिराशास्यते तन्मूलं हि परं  
श्रेय इति ।

‘सह नाववतु’—[ वह ब्रह्म ] हम  
आचार्य और शिष्य दोनोंकी साथ-  
साथ ही रक्षा करे और हमारा साथ-  
साथ भरण अर्थात् पालन करे । हम  
साथ-साथ वीर्य यानी विद्याजनित  
सामर्थ्य सम्पादन करें; हम दोनों  
तेजस्वियोंका अध्ययन किया हुआ  
तेजस्वी—सम्यक् प्रकारसे अध्ययन  
किया हुआ अर्थात् अर्थ-ज्ञानके योग्य  
हो तथा हम विद्वेष न करें । विद्या-  
ग्रहणके कारण शिष्य अथवा  
आचार्यका प्रमादकृत अन्यायसे  
द्वेष हो सकता है; उसकी शान्तिके  
लिये ‘मा विद्विषावहै’ ऐसी कामना  
की गयी है । तात्पर्य यह है कि  
हम एक-दूसरेसे विद्वेषको प्राप्त न हों ।

‘शान्तिः शान्तिः शान्तिः’ इस  
प्रकार तीन बार ‘शान्ति’ शब्द  
उच्चारण करनेका प्रयोजन पहले कहा  
जा चुका है । यह शान्तिपाठ आगे  
कही जानेवाली त्रिधाके विघ्नोंकी  
शान्तिके लिये है । इसके द्वारा  
निर्विघ्नतापूर्वक आत्मविद्याकी प्राप्ति-  
की कामना की गयी है; क्योंकि यही  
परम श्रेयका भी मूल कारण है ।

ब्रह्मज्ञानके फल, सृष्टिक्रम और अन्नमय कोशरूप

पक्षीका वर्णन

संहितादिविषयाणि कर्मभि-

रविरुद्धान्युपासना-

उपक्रम

न्युक्तानि । अनन्तरं

चान्तःसोपाधिकात्मदर्शनमुक्तं  
व्याहृतिद्वारेण स्वाराज्यफलम् ।  
न चैतान्ताशेषतः संसारबीज-  
स्योपमर्दनमस्तीत्यतोऽशेषोपद्रव-  
बीजस्याज्ञानस्य निवृत्त्यर्थं विधूत-  
सर्वोपाधिविशेषात्मदर्शनार्थमिद-  
मारम्यते ब्रह्मविदाप्नोति पर-  
मित्यादि ।

प्रयोजनं चास्या ब्रह्मविद्याया  
अविद्यानिवृत्तिस्तत आत्यन्तिकः  
संसारामावः । वक्ष्यति च-  
“विद्वाञ्च विभेति कुतश्चन”  
( तै० उ० २ । ९ । १ ) इति ।  
ससारनिमित्ते च सत्यमय  
प्रतिष्ठां च पिन्दत इत्यनुपपन्नम्,  
कृताकृते पुण्यपापे न तपत इति  
च । अतोऽन्नगम्यतेऽस्माद्विज्ञाना-  
त्सर्वात्मब्रह्मविषयादात्यन्तिकः  
संसारामाव इति ।

कर्ममे अविरुद्ध संहितादिविषयक  
उपासनाओंका पहले वर्णन किया  
गया । उसके पश्चात् व्याहृतियोंके  
द्वारा स्वाराज्यरूप फल देनेशाला  
हृदयस्थित सोपाधिक आत्मदर्शन  
कहा गया । किन्तु इतनेहीसे ससार-  
के बीजका पूर्णतया नाश नहीं हो  
जाता । अतः सम्पूर्ण उपद्रवोंके  
बीजभूत अज्ञानकी निवृत्तिके निमित्त  
इस सर्वोपाधिरूप विशेषमे रहित  
आत्माका साक्षात्कार करानेके लिये  
अब 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' इत्यादि  
मन्त्र आरम्भ किया जाता है ।

इस ब्रह्मविद्याका प्रयोजन अविद्या-  
की निवृत्ति है, उससे ससारका  
आत्यन्तिक अभाव होता है । यहाँ  
बात "ब्रह्मवेत्ता किसीसे नहीं डरना"  
इत्यादि वाक्यमे श्रुति आगे कहेगी  
भी । ससारके निमित्त [ अज्ञान ]  
के रहते हुए 'पुरुष अभय स्थितिको  
प्राप्त कर लेता है, तथा उसे कृत  
आंर अकृत अर्थात् पुण्य और पाप  
ताप नहीं पहुँचाते' ऐसा मानना  
सर्वथा अयुक्त है । इमसे जाना  
जाता है कि इस सर्वात्मरु ब्रह्म-  
विषयक विज्ञानसे ही ससारका  
आत्यन्तिक अभाव होता है ।

स्वयमेव च प्रयोजनमाह  
ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यादावेव  
सम्बन्धप्रयोजनज्ञापनार्थम् । नि-  
र्ज्ञातयोर्हि सम्बन्धप्रयोजनयो-  
र्विद्याश्रवणग्रहणधारणाभ्यासार्थं  
प्रवर्तते । श्रवणादिपूर्वकं हि  
विद्याफलम् “श्रोतव्यो मन्तव्यो  
निदिध्यासितव्यः” ( बृ० उ०  
२ । ४ । ५ ) इत्यादिश्रुत्यन्त-  
रेभ्यः ।

इस प्रकरणके सम्बन्ध और  
प्रयोजनका ज्ञान करानेके लिये  
श्रुतिने स्वयं ही ‘ब्रह्मविदाप्नोति परम्’  
इत्यादि वाक्यसे आरम्भमें ही इसका  
प्रयोजन बतला दिया है; क्योंकि  
सम्बन्ध और प्रयोजनका ज्ञान ही  
जानेपर ही पुरुष विद्याके श्रवण,  
ग्रहण, धारण और अभ्यासके लिये  
प्रवृत्त हुआ करता है । “श्रोतव्यो  
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” इत्यादि  
दूसरी श्रुतियोंसे यह भी निश्चय  
होता ही है कि विद्याका फल  
श्रवणादिपूर्वक होता है ।

ब्रह्मविदाप्नोति परम् । तदेषाम्युक्ता । सत्यं ज्ञान-  
मनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् ।  
सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ।  
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः ।  
वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या  
ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुषः । स वा एष  
पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः ।  
अयमुत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा ।  
तदप्येष श्लोको भवति ॥ १ ॥

ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता है । उसके विषयमें यह  
[ श्रुति ] कही गयी है—‘ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है ।’ जो पुरुष उसे  
बुद्धिरूप परम आकाशमें निहित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्मरूपसे एक  
साय ही सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता है । उस इस आत्मासे ही  
आकाश उत्पन्न हुआ । आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल,

जलते पृथिवी, पृथिवीसे ओपधियों, ओपधियोंसे अन्न और अन्नसे पुरुष उत्पन्न हुआ। वह यह पुरुष अन्न एवं रसमय ही है। उसका यह [ शिर ] ही शिर है, यह [ दक्षिण बाहु ] ही दक्षिण पक्ष है, यह [ वाम बाहु ] वाम पक्ष है, यह [ शरीरका मध्यभाग ] आत्मा है और यह [ नीचेका भाग ] पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषयमें ही यह श्लोक है ॥ १ ॥

ब्रह्मविद्ब्रह्मेति वक्ष्यमाणलक्षणं

ब्रह्मविदो बृहत्तमत्वाद्ब्रह्म त-

ब्रह्मप्राप्तिनिरूपणम् द्वेष्टि विज्ञानातीति

ब्रह्मविदाप्नोति परं निरतिशयं

तदेव ब्रह्म परम् । न ह्यन्यस्य

विज्ञानादन्यस्य प्राप्तिः । स्पष्टं

च श्रुत्यन्तरं ब्रह्मप्राप्तिमेव ब्रह्म-

विदो दर्शयति "स यो ह वै

तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति"

(मु० उ० ३।२।९) इत्यादि ।

ननु सर्वगतं सर्वस्यात्मभूतं

ब्रह्म वक्ष्यति । अतो नाप्यम् ।

प्राप्तिश्चान्यस्यान्येन परिच्छिन्नस्य

च परिच्छिन्नेन दृष्टा । अपरि-

च्छिन्नं सर्वात्मकं च ब्रह्मेत्यतः

परिच्छिन्नवदनात्मवच्च तस्याप्ति-

रनुपपन्ना ।

‘ब्रह्मवित्’—ब्रह्म, जिसका उल्लेख

आगे कहा जायगा और जो

सबसे बड़ा होनेके कारण ‘ब्रह्म’

कहलाता है, उसे जो जानता है

उसका नाम ‘ब्रह्मवित्’ है, वह

ब्रह्मवित् उस परम-निरतिशय ब्रह्म-

को ही ‘आप्नोति’—प्राप्त कर लेता

है, क्योंकि अन्यके विज्ञानसे किसी

अन्यकी प्राप्ति नहीं हुआ करती ।

“वह, जो कि निश्चय ही उस परब्रह्म-

को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता

है” यह एक दूसरी श्रुति ब्रह्मवेत्ता-

को स्पष्टतया ब्रह्मकी ही प्राप्ति होना

प्रदर्शित करती है ।

शङ्का—ब्रह्म सर्वगत और सबका

आत्मा है—ऐसा आगे कहेंगे, इसलिये

वह प्राप्तन्य नहीं हो सकता । प्राप्ति

तो अन्य परिच्छिन्न पदार्थकी किमी

अन्य परिच्छिन्न पदार्थद्वारा ही होती

देखी गयी है । किन्तु ब्रह्म तो

अपरिच्छिन्न और सर्वात्मक है,

इसलिये परिच्छिन्न और अनात्म-

पदार्थके समान उसकी प्राप्ति होनी

असम्भव है ।

नायं दोषः; कथम् ? दर्श-  
नादर्शनापेक्षत्वाद्ब्रह्मण आप्त्य-  
नाप्त्योः । परमार्थतो ब्रह्मरूप-  
स्यापि सतोऽस्य जीवस्य भूत-  
मात्राकृतवाह्यपरिच्छिन्नान्नमया-  
द्यात्मदर्शिनस्तदासक्तचेतसः प्र-  
कृतसंख्यापूरणस्यात्मनोऽव्यव-  
हितस्यापि बाह्यसंख्येयविषया-  
सक्तचित्ततया स्वरूपाभावदर्शन-  
वत्परमार्थब्रह्मस्वरूपाभावदर्शन-  
लक्षणयाविद्ययान्नमयादीन्वाह्या-  
ननात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्न-  
त्वादन्नमयाद्यनात्मभ्यो नान्यो-  
ऽहमस्मीत्यभिमन्यते । एवमविद्य-  
यान्मभूतमपि ब्रह्मानाप्तं स्यात् ।

समाधान—यह कोई दोषकी  
बात नहीं है; किस प्रकार नहीं  
है ? क्योंकि ब्रह्मकी प्राप्ति और  
अप्राप्ति तो उसके साक्षात्कार और  
असाक्षात्कारकी अपेक्षासे हैं । जिस  
प्रकार [ दशम पुरुषके लिये ]  
प्रकृत ( दशम ) संख्याकी पूर्ति  
करनेवाला अपना-आप\* सर्वथा  
अव्यवहित होनेपर भी संख्या करने  
योग्य बाह्य विषयोंमें आसक्तचित्त  
रहनेके कारण वह अपने स्वरूपका  
अभाव देखता है उसी प्रकार पञ्च-  
भूत तन्मात्राओंसे उत्पन्न हुए बाह्य  
परिच्छिन्न अन्नमय कांशदिमें आत्म-  
भाव देखनेवाला यह जीव परमार्थतः  
ब्रह्मस्वरूप होनेपर भी उनमें आसक्त  
हो जाता है और अपने परमार्थ  
ब्रह्मस्वरूपका अभाव देखनास्वरूप  
अविद्यामें अन्नमय कांश आदि बाह्य  
अनात्माओंको आत्मस्वरूपसे देखने-  
के कारण 'मैं अन्नमय आदि  
अनात्माओंमें भिन्न नहीं हूँ' ऐसा  
अभिमान करने लगता है । इसी प्रकार  
अपना आत्मा होनेपर भी अविद्यावश  
ब्रह्म अप्राप्त ही है ।

\* इत विषयमें यह दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि एक बार दश मनुष्य यात्रा  
कर रहे थे । रास्तेमें एक नदी पड़ी । जब उमें पार कर वे उनके दूरे तटपर  
पहुँचे तो यह जाननेके लिये कि हममेंसे कोई यह तो नहीं गया अपनेको गिनने  
लगे । उनमेंसे जो भी गिनना आरम्भ करता वह अपनेको छोड़कर गैर नौको  
ही गिनता । इस प्रकार एककी कमी रहनेके कारण वे यह समझकर कि हममेंसे  
एक आदमी नदीमें यह गया है विचल हो रहे थे । इतनेहीमें एक बुद्धिमान्

तस्यैवमविद्यवानाप्तब्रह्मस्व-  
रूपस्य प्रकृतसंख्यापूरणस्यात्म-  
नोऽविद्यवानाप्तस्य सतः केन-  
चित्स्मारितस्य पुनस्तस्यैव वि-  
द्ययासिर्था तथा श्रुत्युपदिष्टस्य  
सर्वात्मब्रह्मण आत्मत्वदर्शनेन  
विद्यया तदाप्तिरुपपद्यत एव ।

ब्रह्मविदानोति परमिति वाक्य

उक्तस्य वाक्य  
तर्जनीका सूत्रभूतम् । सर्वस्य  
बल्लथर्थस्य ब्रह्म-

विदानोति परमित्यनेन वाक्येन  
वैद्यतया सूत्रितस्य ब्रह्मणोऽनि-  
र्धारितस्वरूपविशेषस्य सर्वतो  
व्यावृत्तस्वरूपविशेषमर्पणसम-  
र्थस्य लक्षणस्याविशेषेण चोक्तवेद-  
नस्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाणलक्षणस्य

जिस प्रकार प्रकृत ( दशम )  
सत्याको पूर्ण करनेवाला अपना-आप  
अविद्यावश अप्राप्त रहता है और फिर  
किसीके द्वारा स्मरण करा दिये जाने-  
पर विद्याद्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती  
है उसी प्रकार अविद्यावश जिसके  
ब्रह्मस्वरूपकी उपलब्धि नहीं होती  
उस सबके आत्मभूत श्रुत्युपदिष्ट  
ब्रह्मकी आत्मदर्शनरूप विद्याके द्वारा  
प्राप्ति होनी उचित ही है ।

‘ब्रह्मविदानोति परम्’ यह वाक्य  
सूत्रभूत है । जो सम्पूर्ण बल्लिके  
अर्थका विषय है, जिसका ‘ब्रह्मविदा-  
नोति परम्’ इस वाक्यद्वारा ज्ञातय-  
रूपसे सूत्रन उल्लेख किया गया  
है, उस ब्रह्मके ऐसे लक्षणका-  
जिसके विशेष रूपका निश्चय नहीं  
किया गया है और जो सम्पूर्ण  
यन्तुओंसे व्यावृत्त स्वरूपविशेषका  
ज्ञान करानेमें समर्थ है-वर्णन करते  
हुए स्वरूपका निश्चय करानेके लिये  
तथा जिसके ज्ञानका सामान्यरूपसे  
वर्णन कर दिया गया है उस आगे  
कहे जानेवाले लक्षणोंसे युक्त ब्रह्मको

पुरुष उधर आ निकल । उनसे सत्र वृत्तान्त जानकर उन्हें एक लाइनमें सड़ा  
किया और हाथमें डंडा लेकर एक, दो, तीन - इस प्रकार गिनते हुए हर  
एकके एक एक डंडा लगाकर उन्हें दश होनेका निश्चय करा दिया और  
यह भी दिखाया दिया कि यह दशवाँ पुरुष स्वयं गिननेवाला ही था जो  
दूसरोंमें आसक्तचित्त रहनेके कारण अपनेको भूले हुए था ।

विशेषेण प्रत्यगात्मतयानन्य-  
रूपेण विज्ञेयत्वाय, ब्रह्मविद्याफलं  
च ब्रह्मविदो यत्परब्रह्मप्राप्ति-  
लक्षणमुक्तं स सर्वात्मभावः सर्व-  
संसारधर्मातीतब्रह्मस्वरूपत्वमेव  
नान्यदित्येतत्प्रदर्शनायैषगुदाहि-  
यते-तदेवाभ्युक्तेति ।

तत्तस्मिन्नेव ब्राह्मणवाक्यो-  
क्तेऽर्थ एषगभ्युक्ताम्नाता । सत्यं  
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति ब्रह्मणो लक्ष-  
णार्थं वाक्यम् । सत्यादीनि हि  
त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि  
विशेष्यस्य ब्रह्मणः । विशेष्यं  
ब्रह्म विवक्षितत्वाद्देद्यतया ।  
वेद्यत्वेन यतो ब्रह्म प्राधान्येन  
विवक्षितं तस्माद्विशेष्यं विज्ञेयम् ।  
अतः अस्माद् विशेषणविशेष्य-  
त्वादेव सत्यादीनि एक-  
विभक्त्यन्तानि पदानि समाना-  
धिकरणानि । सत्यादि-

विशेषतः 'अपना अन्तरात्मा होनेसे  
अनन्यरूपसे जाननेयोग्य है, ऐसा  
प्रतिपादन करनेके लिये और यह  
दिखलानेके लिये कि-ब्रह्मवेत्ताको जो  
परमात्माकी प्राप्तिरूप ब्रह्मविद्याका  
फल बतलाया गया है वह सर्वात्मभाव  
सम्पूर्ण सांसारिक धर्मोंसे अतीत  
ब्रह्मस्वरूपता ही है-और कुछ नहीं  
है-'तदेवाभ्युक्ता' यह ऋचा कही  
जाती है ।

तत्-उस ब्राह्मणवाक्यद्वारा  
बतलाये हुए अर्थमें ही [ सत्यं ज्ञान-  
मनन्तं ब्रह्म ] यह ऋचा कही गयी  
है । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' यह  
वाक्य ब्रह्मका लक्षण करनेके लिये  
है । 'सत्य' आदि तीन पद विशेष्य  
ब्रह्मके विशेषण बतलानेके लिये हैं ।  
वेद्यरूपसे विवक्षित ( बतलाये जाने-  
को इष्ट ) होनेके कारण ब्रह्म  
विशेष्य है । क्योंकि ब्रह्म प्रधानतया  
वेद्यरूपसे ( ज्ञानके विषयरूपसे )  
विवक्षित है; इसलिये उसे विशेष्य  
समझना चाहिये । अतः इस  
विशेषण-विशेष्यभावके कारण एक  
ही विभक्तिवाले 'सत्य' आदि तीनों  
पद समानाधिकरण हैं । सत्य आदि

मिस्त्रिमिर्विशेषणैर्विशेष्यमाणं ब्रह्म  
विशेष्यान्तरेभ्यो निर्धार्यते । एवं  
हि तज्ज्ञानं भवति यदन्येभ्यो  
निर्धारितम् । यथा लोके नीलं  
महत्सुगन्ध्युत्पलमिति ।

ननु विशेष्यं विशेषणान्तरं

निर्विशेष्यम्

व्यभिचरद्विशेष्यते ।

विशेष्यान्तरे

यथा नीलं रक्तं

आश्लेष

चोत्पलमिति । यदा ह्यनेकानि  
द्रव्याण्येकजातीयान्यनेकविशेषण-  
योगीनि च तदा विशेषणस्यार्थ-  
वश्वम् । न ह्येकस्मिन्नेव वस्तुनि  
विशेषणान्तरायोगात् । यथामा-  
त्रेण आदित्य इति, तथैकमेव च  
ब्रह्म न ब्रह्मान्तराणि येभ्यो  
विशेष्येत नीलोत्पलवत् ।

न; लक्षणार्थत्वाद्विशेषणा-

ब्रह्मविशेषणानां

नाम् । नायं दोषः;

तदलक्षणार्थत्वम्

कक्षात् ? यस्मात्त-

क्षणार्थप्रधानानि विशेषणानि न

तीन विशेषणोंसे विशेषित होनेवाला  
ब्रह्म अन्य विशेष्योंसे पृथग्रूपसे निश्चय  
क्रिया जाता है । जिसका अन्य पदार्थों-  
से पृथग्रूपसे निश्चय किया गया है  
उसका इसी प्रकार ज्ञान हुआ करता  
है. जैसे लोकमें 'नील' विशाल और  
सुगन्धित कमल [—ऐसा कहकर ऐसे  
कमलका अन्य कमलोंसे पृथग्रूपसे  
निश्चय किया जाता है ] ।

शङ्का—अन्य विशेषणोंका व्यावर्तन  
करनेपर ही कोई विशेष विशेषित  
हुआ करता है, जैसे—नील अथवा  
लाल कमल । जिस समय अनेकद्रव्य  
एक ही जातिके और अनेक विशेषणों-  
की योग्यतावाले होने हैं तभी  
विशेषणोंकी सार्थकता होती है । एक  
ही वस्तुमें, किमी अन्य विशेषणका  
सम्बन्ध न हो सकनेके कारण,  
विशेषणकी सार्थकता नहीं होती ।  
जिस प्रकार यह सूर्य एक है उसीप्रकार  
ब्रह्म भी एक ही है, उसके सिवा अन्य  
ब्रह्म हैं ही नहीं, जिनसे कि नील  
कमलके समान उसकी विशेषणा  
बतलायी जाय ।

समाधान—ऐसा कहना ठीक  
नहीं है, क्योंकि ये विशेषण लक्षणके  
टिये हैं । [ अब इस मूलरूप वाक्य-  
की ही व्याख्या करते हैं— ] यह  
दोष नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो  
सकता ? क्योंकि ये विशेषण लक्षणार्थ-



विशेषणप्रधानान्येव । कः पुनर्लक्षणलक्ष्ययोर्विशेषणविशेष्ययोर्वा विशेष इति ? उच्यते; समानजातीयेभ्य एव निवर्तकानि विशेषणानि विशेष्यस्य । लक्षणं तु सर्वत एव यथावकाशप्रदात्राकाशमिति । लक्षणार्थं च वाक्यमित्यद्योचाम ।

सत्यादिशब्दा न परस्परं सत्यमित्यस्य संबध्यन्ते परार्थ-  
त्वात् त्वात् । विशेष्यार्था हि ते । अत एकैको विशेषणशब्दः परस्परं निरपेक्षो ब्रह्मशब्देन संबध्यते सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्मानन्तं ब्रह्मेति ।

सत्यमिति यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम् । यद्रूपेण निश्चितं यत्तद्रूपं व्यभि-

प्रधान हैं, केवल विशेषणप्रधान ही नहीं हैं । किन्तु लक्षण-लक्ष्य तथा विशेषण-विशेष्यमें विशेषता ( अन्तर ) क्या है ? सो बतलाते हैं—विशेषण तो अपने विशेष्यका उसके सजातीय पदार्थोंसे ही व्यावर्तन करनेवाले होते हैं, किन्तु लक्षण उसे सर्भसे व्यावृत्त कर देता है; जिस प्रकार अवकाश देनेवाला 'आकाश' होता है—इस वाक्यमें है । \* यह हम पहले ही कह चुके हैं कि यह वाक्य [ आत्माका ] लक्षण करनेके लिये है ।

सत्यादि शब्द परार्थ ( दूसरेके लिये ) होनेके कारण परस्पर सम्बन्धित नहीं हैं । वे तां विशेष्यके ही लिये हैं । अतः उनमेंसे प्रत्येक विशेषणशब्द परस्पर एक-दूसरेकी अपेक्षा न रखकर ही 'सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म' इस प्रकार 'ब्रह्म' शब्दसे सम्बन्धित है ।

सत्यम्—जो पदार्थ जिस रूपमें निश्चय किया गया है उसमें व्यभिचरित न होनेके कारण वह सत्य कहलाता है । जो पदार्थ जिस रूपमें निश्चित किया गया है उस रूपमें

० इस वाक्यमें 'अवकाश देनेवाला' यह पद उसके सजातीय अन्य मनुष्योंमें तथा विजातीय आत्मा आदिमें भी व्यावृत्त कर देता है ।

चरदन्तमित्युच्यते । अतो वि-  
कारोऽन्तम् । “वाचारम्भणं  
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव  
सत्यम्” (छा० उ० ६।१।४)  
एवं सदेव सत्यमित्यवधारणात् ।  
अतः सत्यं ब्रह्मेति ब्रह्म विका-  
राभिर्वर्तयति ।

अतः कारणत्वं प्राप्तं ब्रह्मणः ।

ज्ञानमित्यस्य कारणस्य च कार-  
तात्पयम् कर्तृत्वं वस्तुत्वान्मृद्व-  
ज्ञानानुत्वाभाव दचिद्रूपता च प्रा-  
निरूपणं च प्राप्त इदमुच्यते  
ज्ञानं ब्रह्मेति । ज्ञानं ज्ञप्तिरव-  
बोधः, भावसाधनो ज्ञानशब्दो  
न तु ज्ञानकर्तृ ब्रह्मविशेषण-  
त्वात्सत्यानन्तत्वात् सह । न  
हि सत्यतानन्तता च ज्ञान-  
कर्तृत्वे सत्युपपद्यते । ज्ञान-  
कर्तृत्वेन हि विक्रियमाण कथं  
सत्यं भवेदनन्तं च । यद्वि न

व्यभिचरित होनेपर वह मिथ्या कहा  
जाता है । इसलिये विकार मिथ्या  
है । ‘विकार केवल वाणीमे आरम्भ  
होनेवाला और नाममात्र है, बस,  
मृत्तिका ही सत्य है’ इस प्रकार  
निश्चय किया जानेंके कारण सत  
ही सत्य है । अतः ‘सत्यं ब्रह्म’  
यह वाक्य ब्रह्मको विकारमात्रसे  
निवृत्त करता है ।

उससे ब्रह्मका कारणत्व प्राप्त  
होता है और वस्तुरूप होनेमे  
कारणमें कारकत्व गहा करता है ।  
अत मृत्तिकाके समान उसकी जड-  
रूपताका प्रसङ्ग उपास्थित हो जाता  
है । इसीसे ‘ज्ञान ब्रह्म’ ऐसा कहा  
है । ‘ज्ञान’ ज्ञप्ति यानी अवबोधको  
कहते हैं । ‘ज्ञान’ शब्द भाववाचक  
है, ‘सत्य’ और ‘अनन्त’ के  
साथ ब्रह्मका विशेषण होनेके कारण  
उसका अर्थ ‘ज्ञानकर्ता’ नहीं हो  
सकता । उसका ज्ञानकर्तृत्व स्वीकार  
करनेपर ब्रह्मकी सत्यता और  
अनन्तता सम्भव नहीं है । ज्ञान-  
कर्तारूपसे विकारको प्राप्त होनेवाला  
होकर ब्रह्म सत्य और अनन्त कैसे  
हो सकता है ? जो किसीसे भी

कुतञ्चित्प्रविभज्यते तदनन्तम् ।

ज्ञानकर्तृत्वे च ज्ञेयज्ञानाभ्यां

प्रविभक्तमित्यनन्तता न स्यात् ।

“यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा

अथ यत्रान्यद्विजानाति तदल्पम्”

(छा० उ० ७।२४।१) इति

श्रुत्यन्तरात् ।

नान्यद्विजानातीति विशेष-

प्रतिषेधादात्मानं विजानातीति

चेन्न; भूमलक्षणविधिपरत्वाद्वा-

क्यस्य । यत्र नान्यत्पश्यतीत्यादि

भूमौ लक्षणविधिपरं वाक्यम् ।

यथा प्रसिद्धमेवान्योऽन्यत्पश्य-

तीत्येतदुपादाय यत्र तन्नास्ति

स भूमेति भूमस्वरूपं तत्र ज्ञाप्य-

ते । अन्यग्रहणस्य प्राप्तप्रतिषेधार्थ-

त्वाच्च स्वात्मनि क्रियास्तित्वपरं

वाक्यम् । स्वात्मनि च भेदा-

विभक्त नहीं होता वही अनन्त हो

सकता है । ज्ञानकर्ता होनेपर तो

वह ज्ञेय और ज्ञानसे विभक्त होगा;

इसलिये उसकी अनन्तता सिद्ध नहीं

हो सकेगी । “जहाँ किसी दूसरेको

नहीं जानता वह भूमा है और जहाँ

किसी दूसरेको जानता है वह अल्प

है” इस एक दूसरी श्रुतिसे यही

सिद्ध होता है ।

इस श्रुतिमें ‘दूसरेको नहीं

जानता’ इस प्रकार विशेषका

प्रतिषेध होनेके कारण वह स्वयं

अपनेको ही जानता है—ऐसी यदि

कोई शङ्का करे तो ठीक नहीं;

क्योंकि यह वाक्य भूमाके लक्षणका

विधान करनेमें प्रवृत्त है । ‘यत्र

नान्यत्पश्यति’ इत्यादि वाक्य भूमाके

लक्षणका विधान करनेमें तत्पर है ।

अन्य अन्यको देखता है—इस लोक-

प्रसिद्ध वस्तुस्थितिको स्वीकार कर

‘जहाँ ऐसा नहीं है वह भूमा है’—इस

प्रकार उसके द्वारा भूमाके स्वरूपका

बोध कराया जाता है । ‘अन्य’

शब्दका ग्रहण तब यथाप्राप्त द्वैतका

प्रतिषेध करनेके लिये है; अतः यह

वाक्य अपनेमें क्रियाका अस्तित्व

प्रतिपादन करनेके लिये नहीं है ।

और स्वात्ममें तो भेदका अभाव

होनेके कारण उसका विज्ञान होना

भावाद्विज्ञानानुपपत्तिः । आत्म-  
नश्च विज्ञेयत्वे ज्ञात्रभाप्रसङ्गः;  
ज्ञेयत्वेनैव विनियुक्तत्वान् ।

एक एवात्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातृ-  
त्वेन चाभ्यधा भवतीति चेत् ?

न युगपदनंशत्वात् । न हि  
निरवयवस्य युगपज्ज्ञेयज्ञातृत्वो-  
पपत्तिः । आत्मनश्च घटादिवद्विज्ञे-  
यत्वे ज्ञानोपदेशानर्थक्यम् । न  
हि घटादिवत्प्रसिद्धस्य ज्ञानोप-  
देशोऽर्थवान् । तस्माज्ज्ञातृत्वे  
सति आनन्त्यानुपपत्तिः ।  
सन्मात्रत्वं चानुपपन्नं ज्ञान-  
कर्तृत्वादिविशेषवशे सति । स-  
न्मात्रत्वं च सत्यत्वम्, "तत्स-  
त्यम्" ( छा० उ० ६।८।१६ )  
इति श्रुत्यन्तरात् । तस्मा-  
त्सत्यानन्तशब्दाभ्यां सह विशेष-

सम्भव ही नहीं है । आत्माका  
विज्ञेयत्व स्वीकार करनेपर तो ज्ञाताके  
अभावका प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता  
है, क्योंकि वह तो विज्ञेयरूपसे ही  
विनियुक्त (प्रयुक्त) हो चुका है ।  
[ अब उसे ज्ञाता कैसे माना जाय ? ]

शङ्का—एक ही आत्मा ज्ञेय और  
ज्ञाता दोनों प्रकारसे हो सकता है—  
ऐसा मानें तो ?

समाधान—नहीं, वह अशरहित  
होनेके कारण एक साथ उभयरूप  
नहीं हो सकता । निरवयव ब्रह्मका  
एक साथ ज्ञेय और ज्ञाता होना  
सम्भव नहीं है । इसके सिवा यदि  
आत्मा घटादिके समान विज्ञेय हो  
तो ज्ञानके उपदेशकी व्यर्थता हो  
जायगी । जो वस्तु घटादिके समान  
प्रसिद्ध है उसके ज्ञानका उपदेश  
सार्थक नहीं हो सकता । अतः  
उसका ज्ञातृत्व माननेपर उसका  
अनन्तता नहीं रह सकती । ज्ञान  
कर्तृत्वादि विशेषसे युक्त होनेपर  
उसका सन्मात्रत्व भी सम्भव नहीं  
है । और "वह सत्य है" इस एक  
अन्य श्रुतिसे उसका सत्यरूप होना  
ही सन्मात्रत्व है । अतः 'सत्य' और  
'अनन्त' शब्दोंके साथ विशेष-

षणत्वेन ज्ञानशब्दस्य प्रयोगा-  
द्भावसाधनो ज्ञानशब्दः । ज्ञानं  
ब्रह्मेति कर्तृत्वादिकारकनिवृत्त्यर्थं  
मृदादिवदधिद्रूपतानिवृत्त्यर्थं च  
प्रयुज्यते ।

ज्ञानं ब्रह्मेतिवचनात्प्राप्तमन्त-  
गनन्तमित्यस्य वचनम् । लौकिकस्य  
निमित्तः ज्ञानस्यान्तवत्त्वदर्श-  
नात् । अतस्तन्निवृत्त्यर्थमाह—  
अनन्तमिति ।

सत्यादीनामनृतादिधर्मनिवृत्ति-  
अज्ञानः शून्यार्थ- परत्वादिशेष्यस्य  
त्वमाशङ्क्यते ब्रह्मण उत्पलादि-  
चदप्रसिद्धत्वात् “मृगतृष्णांमसि  
स्नातः स्वपुष्पकृतशेखरः ।  
एष बन्ध्यासुतो याति शशभृङ्ग-  
घनुर्धरः” इतिवच्छून्यार्थतेव  
प्राप्ता, सत्यादिवाक्यस्येति चेत् ?

न; लक्षणार्थत्वात् । विशे-  
षणत्वेऽपि सत्यादीनां लक्षणार्थ-

रूपसे 'ज्ञान' शब्दका प्रयोग किया  
जानेके कारण वह भाववाचक है ।  
अतः 'ज्ञानं ब्रह्म' इस विशेषणका उसके  
कर्तृत्वादि कारकोंकी निवृत्तिके लिये  
तथा मृत्तिका आदिके समान उसकी  
जडरूपताकी निवृत्तिके लिये प्रयोग  
किया जाता है ।

'ज्ञानं ब्रह्म' ऐसा कहनेसे ब्रह्मका  
अन्तवत्त्व प्राप्त होता है; क्योंकि  
लौकिक ज्ञान अन्तवान् ही देखा  
गया है । अतः उसकी निवृत्ति-  
के लिये 'अनन्तम्' ऐसा कहा  
है ।

शङ्का—सत्यादि शब्द तो  
अनृतादि धर्मोंकी निवृत्तिके लिये हैं  
और उनका विशेष्य ब्रह्म कमल  
आदिके समान प्रसिद्ध नहीं है; अतः  
“मृगतृष्णाके जलमें स्नान करके  
शिरपर आकाशकुसुमका मुकुट  
धारण किये तथा हाथमें शशशृङ्गका  
धनुष लिये यह बन्ध्याका पुत्र जा  
रहा है” इस उक्तिके समान इस  
'सत्यं ज्ञानम्' इत्यादि वाक्यकी  
शून्यार्थता ही प्राप्त होती है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि वे  
[ सत्यादि ] लक्षण करनेके लिये हैं ।

प्राधान्यमित्यवोचाम । शून्ये हि  
 लक्ष्येऽनर्थकं लक्षणवचनं लक्षणा-  
 र्थत्वान्मन्यामहे न शून्यार्थतेति ।  
 विशेषणार्थत्वेऽपि च सत्यादीनां  
 स्वार्थापरित्याग एव ।  
 शून्यार्थत्वे हि सत्यादि-  
 शब्दानां विशेष्यनियन्तृत्वानुप-  
 पत्तिः । सत्याद्यर्थैरर्थवन्त्वे तु  
 तद्विपरीतधर्मवद्भूयो विशेष्येभ्यो  
 ब्रह्मणो विशेष्यस्य नियन्तृत्वमुप-  
 पद्यते । ब्रह्मशब्दोऽपि स्वार्थेनार्थ-  
 वानेव । तत्रानन्तशब्दोऽन्तःप्र-  
 प्रतिषेधद्वारेण विशेषणम् । सत्य-  
 ज्ञानशब्दां तु स्वार्थसमर्पणेनैव  
 विशेषणे भवतः ।

“तस्माद्वा एतस्मादात्मनः” इति

ब्रह्मण्येवात्मशब्दप्रयोगाद्देदितु-

सत्यादि शब्द विशेषण होनेपर भी  
 उनका प्रधान प्रयोजन लक्षणके लिये  
 होना ही है—यह हम पहले ही कह  
 चुके हैं । यदि लक्ष्य शून्य हो तब  
 तो उसका लक्षण बतलाना भी व्यर्थ  
 ही होगा । अतः लक्षणार्थ होनेके  
 कारण उनकी शून्यार्थता नहीं है—  
 ऐसा हम मानते हैं । विशेषणके  
 लिये होनेपर भी सत्यादि शब्दके  
 अपने अर्थका त्याग तो होता ही  
 नहीं है । यदि सत्यादि शब्दोंकी  
 शून्यार्थता हो तो वे अपने विशेष्यके  
 नियन्ता हैं—ऐसा नहीं माना जा  
 सकता । सत्यादि अर्थसे अर्थवान्  
 होनेपर ही उनके द्वारा अपनेसे विपरीत  
 धर्मजाले विशेष्यसे अपने विशेष्य ब्रह्म-  
 का नियन्तृत्व बन सकता है । ‘ब्रह्म’  
 शब्द भी अपने अर्थसे अर्थवान् ही  
 है । उन [ सत्यादि तीन शब्दों ] में  
 ‘अनन्त’ शब्द उसके अन्तःत्वका  
 प्रतिषेध करनेके द्वारा उसका विशेषण  
 होता है तथा ‘सत्य’ और ‘ज्ञान’  
 शब्द तो अपने अर्थके समर्पणद्वारा  
 ही उसके विशेषण होते हैं ।

शङ्का—“उस इस आत्मासे आकाश  
 उत्पन्न हुआ” इस श्रुतिमें ‘आत्मा’  
 शब्दका प्रयोग ब्रह्मके ही लिये

रात्मैव ब्रह्म । “एतमानन्दमयमा-  
त्मानमुपसंक्रामति” ( तै० उ०  
२।८।५) इति चात्मतां दर्शयति ।  
तत्प्रवेशाच्च; “तत्सृष्ट्वा तदेवानु-  
प्राविशत्” ( तै० उ० २।६।१ )  
इति च तस्यैव जीवरूपेण शरीर-  
प्रवेशं दर्शयति । अतो वेदितुः  
स्वरूपं ब्रह्म ।

एवं तद्धात्मत्वाज्ज्ञानकर्तृ-  
त्वम् । आत्मा ज्ञातेति हि  
प्रसिद्धम् । “सोऽकामयत” ( तै०  
उ० २।६।१ ) इति च कामिनां  
ज्ञानकर्तृत्वाज्ज्ञप्तिर्ब्रह्मेत्ययुक्तम् ।

अनित्यत्वप्रसङ्गाच्च । यदि  
नाम ज्ञप्तिर्ज्ञानमिति भावरूपता  
ब्रह्मणस्तथाऽनित्यत्वं प्रसज्येत  
पारतन्त्र्यं च । धात्वर्थानां  
कारकापेक्षत्वात् । ज्ञानं च

क्रिया जानेके कारण ब्रह्म  
जाननेवालेका आत्मा ही है । “इस  
आनन्दमय आत्माको प्राप्त हो जाता  
है” इस वाक्यसे श्रुति उसकी  
आत्मता दिखलाती है तथा उसके  
प्रवेश करनेसे भी [ उसका आत्मत्व  
सिद्ध होता है ] । “उसे रचकर वह  
उसीमें प्रविष्ट हो गया” ऐसा कहकर  
श्रुति उसीका जीवरूपसे शरीरमें  
प्रवेश होना दिखलाती है । अतः  
ब्रह्म जाननेवालेका स्वरूप ही है ।

इस प्रकार आत्मा होनेसे तो  
उसे ज्ञानका कर्तृत्व सिद्ध होता है ।  
‘आत्मा ज्ञाता है’ यह बात तो  
प्रसिद्ध ही है । “उसने कामना की”  
इस श्रुतिसे कामना करनेवालेके  
ज्ञानकर्तृत्वकी सिद्धि होती है । अतः  
ब्रह्मका ज्ञानकर्तृत्व निश्चित होनेके  
कारण ‘ब्रह्म ज्ञप्तिमात्र है’ ऐसा कहना  
अनुचित है ।

इसके सिवा ऐसा माननेसे  
अनित्यत्वका प्रसङ्ग भी उपस्थित  
होता है । यदि ‘ज्ञान ज्ञप्तिको कहते  
हैं’ इस व्युत्पत्तिके अनुसार ब्रह्मकी  
भावरूपता मानी जाय तो भी  
उसके अनित्यत्व और पारतन्त्र्यका  
प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है; क्योंकि  
धातुओंके अर्थ कारकोंकी अपेक्षावाले

धात्वर्थोऽतोऽस्यानित्यत्वं पर-  
तन्त्रता च ।

न, स्वरूपाव्यतिरेकेण कार्य-

नञ्चिरमन्त्रम्  
तोपचारात् । आ-  
त्मनः स्वरूपं ज्ञप्तिर्न

ततो व्यतिरिच्यतेऽतो नित्यैव ।

तथापि बुद्धेरुपाधिलक्षणायाश्च-

क्षुरादिद्वारैर्विषयकारेण परिणा-

मिभ्या ये शब्दाद्याकारावमासाः

त आत्मविज्ञानस्य विषयभूता

उत्पद्यमाना एवात्मविज्ञानेन

व्याप्ता उत्पद्यन्ते । तस्मादात्म-

विज्ञानावमासाश्च ते विज्ञान-

शब्दवाच्याश्च धात्वर्थभूता

आत्मन एव धर्मा विक्रियारूपा

इत्यग्निवेकिभिः परिकल्प्यन्ते ।

यत्तु यद्ब्रह्मणो विज्ञानं तत्

सवितृप्रकाशश्चदग्न्युष्णवच्च ब्रह्म-

स्वरूपाव्यतिरिक्तं स्वरूपमेव तत्;

दुआ करते हैं । ज्ञान भी धातुका  
अर्थ है; अतः इसका भी अनित्यता  
और परतन्त्रता सिद्ध होती है ।

समाधान-ऐसी बात नहीं है;

क्योंकि ज्ञान ब्रह्मके स्वरूपमें अभिन्न  
है, इस कारण उसका कार्यत्व केवल  
उपचारेसे है । आत्माका स्वरूप जो

‘ज्ञप्ति’ है वह उससे व्यतिरिक्त  
नहीं है । अतः वह ( ज्ञप्ति ) नित्या  
ही है । तथापि चक्षु आदिके द्वारा

विषयरूपमें परिणत होनेवाली  
उपाधिरूप बुद्धिकी जो शब्दादिरूप  
प्रतीतियाँ हैं वे आत्मविज्ञानकी

विषयभूत होकर उत्पन्न होती हुई  
आत्मविज्ञानसे व्याप्त ही उत्पन्न

होती हैं [ अर्थात् अपनी उत्पत्तिके  
समय उन प्रतीतियोंमें तो आत्म-

विज्ञानसे प्रकाशित होनेकी योग्यता  
रहती है और आत्मविज्ञान उन्हें

प्रकाशित करता रहता है ] ।  
अतः वे धातुओंकी अर्थभूत

एव ‘विज्ञान’ शब्दवाच्य आत्म-  
विज्ञानकी प्रतीतियाँ आत्माका ही

निकाररूप धर्म हैं-ऐसी अविवेकियों-  
द्वारा कल्पना की जाती है ।

किन्तु उस ब्रह्मका जो विज्ञान  
है वह सूर्यके प्रकाश तथा अग्निकी

उष्णताके समान ब्रह्मके स्वरूपमें  
भिन्न नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप

भिन्न नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप



न तत्कारणान्तरसव्यपेक्षम् ।  
नित्यस्वरूपत्वात् । सर्वभावानां च  
तेनाविमक्तदेशकालत्वात् काला-  
काशादिकारणत्वाच्च निरतिशय-  
सूक्ष्मत्वाच्च । न तस्यान्यदविज्ञेयं  
सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टं भूतं  
भवद्भविष्यद्वास्ति । तस्मात्सर्वज्ञं  
तद्ब्रह्म ।

मन्त्रवर्णाच्च—“अपाणिपादो  
जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स  
शृणोत्यकर्णः । स वेत्ति वेद्यं न  
च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरउग्रं  
पुरुषं महान्तम्” ( श्वे० उ० ३ ।  
१९ ) इति । “न हि विज्ञातुर्वि-  
ज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविना-  
शित्वान्न तु तद्वितीयमस्ति”  
( बृ० उ० ४ । ३ । ३० ) इत्यादि  
श्रुतेश्च । विज्ञातृस्वरूपाव्यतिरेका-  
त्करणादिनिमित्तानपेक्षत्वाच्च ब्र-  
ह्मणो ज्ञानस्वरूपत्वेऽपि नित्यत्व-

ही है; उसे किसी अन्य कारणकी  
अपेक्षा नहीं है; क्योंकि वह नित्य-  
स्वरूप है । तथा उस ब्रह्मसे सम्पूर्ण  
भावपर्यायके देश-काल अभिन्न है,  
और वह काल तथा आकाशादि-  
का भी कारण एवं निरतिशय सूक्ष्म  
है; अतः ऐसी कोई सूक्ष्म, व्यवहित  
( व्यवधानवाली ), विप्रकृष्ट ( दूर )  
तथा भूत, भविष्यत् या वर्तमान  
वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा जानी  
न जाती हो; इसलिये वह ब्रह्म  
सर्वज्ञ है ।

“वह बिना हाथ-पाँवके ही वेगसे  
चलने और ग्रहण करनेवाला है, बिना  
नेत्रके ही देखता है और बिना  
कानके ही सुनता है । वह सम्पूर्ण वेद्य-  
मात्रको जानता है, उसे जाननेशला  
और कोई नहीं है, उसे सर्वप्रथम परम-  
पुरुष कहा गया है ।” इस मन्त्रवर्ण-  
से तथा “अविनाशी होनेके कारण  
विज्ञाताके ज्ञानका कभी लोप नहीं  
होता और उससे भिन्न कोई दूसरा  
भी नहीं है [ जो उसे देखे ]”  
इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही सिद्ध  
होना है । अपने विज्ञातृस्वरूपसे  
अभिन्न तथा इन्द्रियादि साधनोंकी  
अपेक्षासे रहित होनेके कारण ज्ञान-  
स्वरूप होनेपर भी ब्रह्मज्ञान नित्यत्व

प्रसिद्धिरतो नैव धात्वर्थस्तद-  
क्रियारूपत्वात् ।

अत एव च न ज्ञानकर्तृ,  
तस्मादेव च न ज्ञानशब्दवाच्य-  
मपि तद्ब्रह्म । तथापि तदाभास-  
वाचकेन बुद्धिधर्मविषयेण ज्ञान-  
शब्देन उल्लेख्यते न तूच्यते ।  
शब्दप्रवृत्तिहेतुजात्यादिधर्मरहित-  
त्वात् । तथा सत्यशब्देनापि । सर्व-  
विशेषप्रत्यस्तमितस्वरूपत्वाद्ब्रह्मणो  
चाद्यसत्तासामान्यविषयेण सत्य-  
शब्देन लक्ष्यते सत्यं ब्रह्मेति न  
तु सत्यशब्दवाच्यमेव ब्रह्म ।

एवं मत्यादिशब्दा इतरेतर-  
संनिधावन्योन्यनियम्यनियाम-  
काः मन्तः मत्यादिशब्दवाच्या-  
त्तन्निवर्तका ब्रह्मणो लक्षणार्थाश्च  
भवन्तीत्यतः सिद्धम् "यतो वाचो  
निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा मह"

भली प्रकार सिद्ध ही है । अत  
क्रियारूप न होनेके कारण वह  
( ज्ञान ) धातुका अर्थ भी नहीं है ।

इसीलिये वह ज्ञानकर्ता भी नहीं  
है और इसीमे वह ब्रह्म 'ज्ञान'  
शब्दका वाच्य भी नहीं है । तो भी  
ज्ञानाभासके वाचक तथा बुद्धि-  
के धर्मविषयक 'ज्ञान' शब्दसे वह  
लक्षित होता है-कहा नहीं जाता,  
क्योंकि वह शब्दको प्रवृत्तिके हेतु-  
भूत जाति आदि धर्मोंसे रहित है ।  
इसी प्रकार 'सत्य' शब्दसे भी  
[उसको लक्षित ही किया जा सकता  
है] । ब्रह्मका स्वरूप सम्पूर्ण विशेषणों-  
से शून्य है, अत वह सामान्यत  
सत्ता ही जिसका विषय-अर्थ है  
ऐसे 'सत्य' शब्दसे 'सत्य ब्रह्म' इस  
प्रकार केवल लक्षित होता है-ब्रह्म  
'सत्य' शब्दका वाच्य ही नहीं है ।

इस प्रकार ये सत्यादि शब्द  
एक दूसरेको सन्निधिमे एक-दूसरेके  
नियम्य और नियामक होकर  
सत्यादि शब्दोंके वाच्यार्थसे ब्रह्मको  
अलग रखनेवाले और उसका लक्षण  
करनेमें उपयोगी होते हैं । अत  
"जहाँसे मनके सहित वाणी उमे

( तै० उ० २।४।१ ) “अ-  
निरुक्तेऽनिलयने” ( तै० उ० २।  
७।१ ) इति चावाच्यत्वं  
नीलोत्पलवदवाक्यार्थत्वं च  
ब्रह्मणः ।

तद्यथाव्याख्यातं ब्रह्म यो वेद

गुहाशब्दार्थ- विजानाति निहितं  
निर्वचनम् स्थितं गुहायाम् ।

गूहतेः संवरणार्थस्य निगूढा  
अस्यां ज्ञानज्ञेयज्ञातृपदार्था इति  
गुहा बुद्धिः । गूढावस्थां भोगा-  
पवर्गों पुरुषार्थाविति वा तस्यां  
परमे प्रकृष्टे व्योमन्व्योमन्याका-  
शेऽव्याकृताख्ये । तद्धि परमं  
व्योम “एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्गी-  
काशः” ( बृ० उ० ३।८।११ )  
इत्यक्षरसंनिकर्षात् । गुहायां

न पाकर लौट आती है” “न कहने  
योग्य और अनाश्रितमें” इत्यादि  
श्रुतियोंके अनुसार ब्रह्मका सत्यादि  
शब्दोंका अवाच्यत्व और नील-  
कमलके समान अवाक्यार्थत्व सिद्ध  
होता है ।\*

उपर्युक्त प्रकारसे व्याख्या किये  
द्वए उस ब्रह्मको जो पुरुष गुहामें  
निहित ( छिपा हुआ ) जानता  
है । संवरण अर्थात् आच्छादन अर्थ-  
वाले ‘गूह्’ धातुसे ‘गुहा’ शब्द  
निष्पन्न होता है; इस ( गुहा ) में  
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञातृ पदार्थ निगूढ  
( छिपे हुए ) हैं इसलिये ‘गुहा’  
बुद्धिका नाम है । अथवा उसमें  
भोग और अपवर्ग—ये पुरुषार्थ निगूढ  
अवस्थामें स्थित हैं; अतः गुहा है ।  
उसके भीतर परम—प्रकृष्ट व्योम—  
आकाशमें अर्थात् अव्याकृताकाशमें,  
क्योंकि “हे गार्गी ! निश्चय इस  
अक्षरमें ही आकाश [ अंतर्प्रोत है ]”  
इस श्रुतिके अनुसार अक्षरकी  
सन्निधिमें हानेसे यह अव्याकृताकाश

• तात्पर्य यह है कि वाच्य-वाचक-भाव ब्रह्मका बोध करानेमें समर्थ नहीं  
हो सकता; अतः ब्रह्म इन शब्दोंका वाच्य नहीं हो सकता और सम्पूर्ण ईतकी  
निश्चितके अधिष्ठानरूपसे लक्षित होनेके कारण यह नीलकमल आदिके समान  
गुण-गुणीरूप संवर्गमूलक वाक्योंका भी अर्थ नहीं हो सकता ।

व्योम्नीति वा सामानाधिकरण्या-  
दव्याकृताकाशमेव गुहा । तत्रा-  
पि निगूढाः सर्वे पदार्थास्त्रिपु  
कालेषु कारणत्वात्सूक्ष्मतरत्वा-  
च्च । तस्मिन्नन्तर्निहितं ब्रह्म ।

हार्दमेव तु परमं व्योमेति  
न्याय्यं विज्ञानाङ्गत्वेनोपासनाङ्ग-  
त्वेन व्योम्नो विश्वितत्वात् ।  
“यो वै स बहिर्धा पुरुषादा-  
काशः” ( छा० उ० ३ । १२ ।  
७ ) “यो वै सोऽन्तःपुरुष  
आकाशः” ( छा० उ० ३ । १२ ।  
८ ) “योऽयमन्तर्हृदय आकाशः”  
( छा० उ० ३ । १२ । ९ )  
इति श्रुत्यन्तरात्प्रसिद्धं हार्दस्य  
व्योम्नः परमत्वम् । तस्मिन्हार्दे  
व्योम्नि वा बुद्धिर्गुहा तस्यां  
निहितं ब्रह्म तद्वृत्त्या विविक्त-  
तयोपलभ्यत इति । न ह्यन्यथा  
विशिष्टदेशकालसंबन्धोऽस्ति ब्र-  
ह्मणः सर्वगतत्वान्निर्निशेषत्वाच्च ।

ही परमाकाश है । अथवा 'गुहाया  
व्योम्नि' इस प्रकार इन दोनों पदों-  
का सामानाधिकरण्य होनेके कारण  
आकाशको ही गुहा कहा गया है,  
क्योंकि सबका कारण और सूक्ष्मतर  
होनेके कारण उसमें भी तीनों  
कालोंमें सारे पदार्थ छिपे हुए हैं ।  
उसीके भीतर ब्रह्म भी स्थित है ।

परन्तु युक्तियुक्त तो यही है कि  
हृदयाकाश ही परमाकाश है, क्योंकि  
उस आकाशको विज्ञानाङ्ग यानी  
उपासनाके अङ्गरूपसे बतलाना यहाँ  
इष्ट है “जो आकाश इस [ शरीर-  
सङ्ग ] पुरुषसे बाहर है” “जो  
आकाश इस पुरुषके भीतर है” “जो  
यह आकाश हृदयके भीतर है” इस  
प्रकार एक अन्य श्रुतिसे हृदयाकाश-  
का परमत्व प्रसिद्ध है । उस हृदया-  
काशमें जो बुद्धिरूप गुहा है उसमें  
ब्रह्म निहित है, अर्थात् उस ( बुद्धि-  
वृत्ति ) से वह व्यावृत्त ( पृथक् )  
रूपसे स्पष्टतया उपलब्ध होता है,  
अन्यथा ब्रह्मका किसी भी विशेष  
देश या कालमें सम्बन्ध नहीं है,  
क्योंकि वह सर्वगत और निर्बिधेय है ।

स एवं ब्रह्म विज्ञानन्किमि-

मग्राचिद

त्याह—अश्नुते भुङ्क्ते

ऐ.वयम्

सर्वान्निरवशिष्टान्का-

मान्भोगानित्यर्थः । किमसदादि-

वत्पुत्रस्वर्गादीन्पर्यायेण नेत्याह ।

सह युगपदेकक्षणोपारूढानेव

एकयोपलब्ध्या सवितृप्रकाशवत्

नित्यया ब्रह्मस्वरूपाव्यतिरिक्तया

यामवांचाम मत्स्यं ज्ञानमनन्त-

मिति । एतत्तदुच्यते—ब्रह्मणा

सहेति ।

ब्रह्मभूता विद्वान्ब्रह्मस्वरूपं-

णैव सर्वान्कामान्सहाश्नुते, न

यथोपाधिकृतेन स्वरूपेणात्मना

जलसूर्यकादिवत्प्रतिविम्बभूतेन

सांसारिकेण धर्मादिनिमित्तापे-

क्षांश्चक्षुरादिकरणापेक्षांश्च कामान्

पर्यायेणाश्नुते लोकः; कथं तर्हि ?

यथोक्तेन प्रकारेण सर्वज्ञेन सर्व-

वह इस प्रकार ब्रह्मको जानने-

वाला क्या करता है ? इसपर श्रुति

कहती है—वह सम्पूर्ण अर्थात् निः-

शेष कामनाओं यानी इच्छित भोगों-

को प्राप्त कर लेता है अर्थात् उन्हें

भोगता है । तो क्या वह हमारे-

तुम्हारे समान पुत्र एवं स्वर्गादि

भोगोंको क्रमसे भोगता है ? इसपर

श्रुति कहती है—नहीं, उन्हें एक

साथ भोगता है । वह एक ही क्षणमें

बुद्धिबृत्तिपर आरूढ़ हुए सम्पूर्ण

भोगोंको सूर्यके प्रकाशके समान

नित्य तथा ब्रह्मस्वरूपसे अभिन्न एक

ही उपलब्धिके द्वारा, जिसका हमने

‘सत्यं ज्ञानमनन्तम्’ ऐसा निरूपण

किया है, भोगता है । ‘ब्रह्मणा

सह सर्वान्कामान्सनुते’ इस वाक्यमें

यही अर्थ कहा गया है ।

ब्रह्मभूत विद्वान् ब्रह्मस्वरूपसे

ही एक साथ सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त

कर लेता है । अर्थात् दूसरे लोग

जिस प्रकार जलमें प्रतिबिम्बित

सूर्यके समान अपने औपाधिक और

संसारी आत्माके द्वारा धर्मादि

निमित्तकी अपेक्षावाले तथा चक्षु

आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षासे युक्त

सम्पूर्ण भोगोंको क्रमशः भोगते हैं

उस प्रकार उन्हें नहीं भोगता । तो

फिर कैसे भोगता है ? वह उपर्युक्त

गतेन सर्वात्मना नित्यब्रह्मात्म-  
स्वरूपेण धर्मादिनिमित्तानपेक्षां-  
श्रक्षुरादिकरणनिरपेक्षांश्च सर्वा-  
न्कामान्सहैवाश्नुत इत्यर्थः ।

विपश्चिता मेधाविना सर्वज्ञेन ।  
तद्वि वैपश्चित्यं यन्मर्वज्ञत्वं तेन  
मर्वज्ञस्वरूपेण ब्रह्मणाश्नुत इति ।  
इतिशब्दो मन्त्रपरिसमाप्त्यर्थः ।

मर्म एव उल्लेख्यो ब्रह्मविदा-  
प्नोति परमिति ब्राह्मणवाक्येन  
सूत्रितः । म च सूत्रितोऽर्थः  
मक्षेपतो मन्त्रेण व्याख्यातः ।  
पुनस्तस्यैव विस्तरेणार्थनिर्णयः  
कर्तव्य इत्युत्तरस्तद्वृत्तिस्थानीयो  
ग्रन्थ आरम्भते तस्माद्वा एतस्मा-  
दित्यादिः ।

तत्र च सत्यं ज्ञानमनन्तं  
ब्रह्मेत्युक्तं मन्त्रादौ  
सत्यं ज्ञानमनन्तं  
ब्रह्मेति सीमाव्यते  
तत्कथं सत्यं ज्ञान-  
मनन्तं चेत्यत आह । तत्र  
त्रिविधं ज्ञानन्त्य देशतः कालतो  
वस्तुतश्चेति । तद्यथा देशतो-  
ऽनन्त आकाशः । न हि देशतस्तस्य

प्रकारसे सर्वज्ञ सर्वगत सर्वात्मक  
एव नित्यब्रह्मात्मस्वरूपसे, धर्मादि  
निमित्तकी अपेक्षासे रहित तथा  
चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भी निरपेक्ष  
सम्पूर्ण भोगोंको एक साथ ही प्राप्त  
कर लेता है—यह इसका तात्पर्य  
है । विपश्चित्—मेधावी अर्थात् सर्वज्ञ  
ब्रह्मरूपसे । ब्रह्मका जो सर्वज्ञत्व है  
वही उसको विपश्चित्त ( विद्वत्ता ) है ।  
उस सर्वज्ञत्वरूप ब्रह्मरूपसे ही वह  
उन्हें भोगता है । मूलमें 'इति' शब्द  
मन्त्रकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है।

'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' इस ब्राह्मण-  
वाक्यद्वारा इस सम्पूर्ण बरलीका अर्थ  
सूत्ररूपसे कह दिया है । उन  
सूत्रमूल अर्थकी ही मन्त्रद्वारा संक्षेप-  
में व्याख्या कर दी गयी है । अब  
फिर उसीका अर्थ विस्तारसे निर्णय  
करना है—इसीलिये उसका वृत्तिरूप  
'तस्माद्वा एतस्मात्' इत्यादि आगेका  
ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है ।

उस मन्त्रमें सबसे पहले 'सत्यं  
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ऐसा कहा है । वह  
सत्य, ज्ञान और अनन्त किम प्रकार  
है ? सी बतलाते हैं—अनन्तता  
तीन प्रकारकी है—देशसे, कालमें  
और वस्तुसे । उनमें जैसे आकाश  
देशत अनन्त है । उसका देशमें

परिच्छेदोऽस्ति । न तु काल-  
तथानन्त्यं वस्तुतथाकाशस्य ।  
कस्मात्कार्यत्वात् । नैवं ब्रह्मण  
आकाशवत्कालतोऽप्यन्तवत्त्वम-  
कार्यत्वात् । कार्यं हि वस्तु  
कालेन परिच्छिद्यते । अकार्य  
च ब्रह्म । तस्मात्कालतोऽस्या-  
नन्त्यम् ।

तथा वस्तुतः । कथं पुनर्वस्तुत  
आनन्त्यं सर्वानन्त्यत्वात् । भिन्नं हि  
वस्तु वस्त्वन्तरस्यान्तो भवति,  
वस्त्वन्तरबुद्धिर्हि प्रसक्ताद्वस्त्व-  
न्तराभिवर्तते । यतो यस्य बुद्धे-  
र्विनिवृत्तिः स तस्यान्तः । तद्यथा  
गोत्वबुद्धिरश्वत्वादिनिवर्तत इति  
अश्वत्यान्तं गोत्वमित्यन्तवदेव  
भवति । स चान्तो भिन्नेषु वस्तुषु  
दृष्टः । नैवं ब्रह्मणो भेदः । अतो  
वस्तुतोऽप्यनन्त्यम् ।

परिच्छेद नहीं है । किन्तु कालसे  
और वस्तुसे आकाशकी अनन्तता  
नहीं है । क्यों नहीं है ? क्योंकि वह  
कार्य है । किन्तु आकाशके समान  
किसीका कार्य न होनेके कारण  
ब्रह्मका इस प्रकार कालसे भी  
अन्तवत्त्व नहीं है । जो वस्तु किसी-  
का कार्य होती है वही कालसे  
परिच्छिन्न होती है । और ब्रह्म  
किसीका कार्य नहीं है, इसलिये  
उसकी कालसे अनन्तता है ।

इसी प्रकार वह वस्तुमें भी  
अनन्त है । वस्तुसे उसकी अनन्तता  
किस प्रकार है ? क्योंकि वह सबसे  
अभिन्न है । भिन्न वस्तु ही किसी  
अन्य भिन्न वस्तुका अन्त हुआ  
करती है; क्योंकि किसी भिन्न वस्तुमें  
गयी हुई बुद्धि ही किसी अन्य प्रसक्त  
वस्तुसे निवृत्त की जाती है । जिस  
[ पदार्थसम्बन्धिनी ] बुद्धिकी जिस  
पदार्थसे निवृत्ति होनी है वही उस  
पदार्थका अन्त है । जिस प्रकार  
गोत्वबुद्धि अश्वत्वबुद्धिसे निवृत्त होती  
है, अतः गोत्वका अन्त अश्वत्व हुआ,  
इसलिये वह अन्तवान् ही है और  
उसका वह अन्त भिन्न पदार्थोंमें ही  
देखा जाता है । किन्तु ब्रह्मका ऐसा  
कोई भेद नहीं है । अतः वस्तुमें  
भी उसकी अनन्तता है ।

कथं पुनः सर्वानन्यत्वं ब्रह्मण  
 मन्वा. मावात्म्य इत्युच्यते—सर्व-  
 निरूप्यते वस्तुकारणत्वात् ।  
 सर्वेषां हि वस्तूनां कालाकाशा-  
 दीनां कारणं ब्रह्म । कार्यापेक्षया  
 वस्तुतोऽन्तवत्त्वमिति चेन्न;  
 अनृतत्वात्कार्यवस्तुनः । न हि  
 कारणव्यतिरेकेण कार्यं नाम  
 वस्तुतोऽस्ति यतः कारणबुद्धि-  
 र्विनिवर्तेत । “वाचारम्भणं त्रि-  
 कारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव  
 मत्यम्” ( छा० उ० ६ । १ ।  
 ४ ) एवं मदेव सत्यमिति श्रुत्य-  
 न्तरात् ।

तस्मादाकाशादिकारणत्वाद्दे-  
 शतत्तावदनन्तं ब्रह्म । आकाशो  
 ह्यनन्त इति प्रसिद्धं देशतः,  
 तस्येदं कारणं तस्मात्प्रसिद्धं देशत  
 आत्मन आनन्त्यम् । न ह्यसर्व-  
 गतात्सर्वगतमुत्पद्यमानं लोके  
 किञ्चिद् दृश्यते । अतो निरति-  
 शयमात्मन आनन्त्यं देशतस्तथा-

किन्तु ब्रह्मकी सवसे अभिन्नत्व  
 किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं—  
 क्योंकि वह सम्पूर्ण वस्तुओंका  
 कारण है—ब्रह्म काल-आकाश आदि  
 सभी वस्तुओंका कारण है । यदि  
 कहो कि अपने कार्यकी अपेक्षासे  
 तो उसका वस्तुसे अन्तवत्त्व  
 हो ही जायगा, तो ऐसा कहना  
 ठीक नहीं, क्योंकि कार्यरूप वस्तु  
 तो मिथ्या है—वस्तुतः कारणसे भिन्न  
 कार्य है ही नहीं जिससे कि कारण-  
 बुद्धिकी निवृत्ति हो “वाणीसे आरम्भ  
 होनेवाला विकार केवल नाममात्र  
 है, मृत्तिका ही सत्य है” इसी  
 प्रकार “सत् ही सत्य है”—ऐसा  
 एक अन्य श्रुतिसे भी सिद्ध होता है ।

अत आकाशादिका कारण  
 होनेसे ब्रह्म देशसे भी अनन्त है ।  
 आकाश देशत अनन्त है—यह तो  
 प्रसिद्ध ही है, और यह उसका  
 कारण है, अत आत्माका देशत  
 अनन्तत्व सिद्ध ही है, क्योंकि  
 लोकमें असर्वगत वस्तुसे कोई सर्वगत  
 वस्तु उत्पन्न होती नहीं देखी जाती ।  
 इसलिये आत्माका देशत अनन्तत्व  
 निरतिशय है [ अर्थात् उसने ब्रह्म  
 और कोई नहीं है ] । इसी प्रकार



कार्यत्वात्कालतः, तद्विन्नवस्त्व-  
न्तराभावाच्च वस्तुतः । अत एव  
निरतिशयसत्यत्वम् ।

तस्मादिति मूलवाक्यसूत्रितं

ब्रह्म परामृश्यते ।

सूत्रिकमः

एतस्मादिति मन्त्र-

वाक्येनानन्तरं यथालक्षितम् ।  
यद्ब्रह्मादीं ब्राह्मणवाक्येन सूत्रितं  
यच्च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्य-  
नन्तरमेव लक्षितं तस्मादेतस्मा-  
द्ब्रह्मण आत्मन आत्म-  
शब्दवाच्यात् । आत्मा हि  
तत्सर्वस्य “तत्सत्यं स आत्मा”  
( छा० उ० ६ । ८-१६ ) इति  
श्रुत्यन्तरादतो ब्रह्मात्मा । तस्मा-  
देतस्माद्ब्रह्मण आत्मस्वरूपादाका-  
शः संभूतः समुत्पन्नः ।

आकाशो नाम शब्दगुणोऽव-

काशकरो मूर्तद्रव्याणाम् । तस्माद्

किसीका कार्य न होनेके कारण वह  
कालतः और उससे भिन्न पदार्थका  
सर्वथा अभाव होनेके कारण वस्तुतः  
भी अनन्त है । इसलिये आत्माका  
सबसे बड़कर सत्यत्व है ।\*

[ मन्त्रमें ] ‘तस्मात्’ ( उससे )

इस पदद्वारा मूलवाक्यमेंसे सूत्र-  
रूपसे कहे हुए ‘ब्रह्म’ पदका  
परामर्श किया जाता है । तथा इसके  
अनन्तर ‘एतस्मात्’ इत्यादि मन्त्र-  
वाक्यसे भी पूर्वनिर्दिष्ट ब्रह्मका ही  
उल्लेख किया गया है । [ तात्पर्य यह  
है— ] जिस ब्रह्मका पहले ब्राह्मण-  
वाक्यद्वारा सूत्ररूपसे उल्लेख किया  
गया है और जो उसके पश्चात्  
‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इस प्रकार  
लक्षित किया गया है उस इस ब्रह्म  
—आत्मासे, अर्थात् ‘आत्मा’ शब्द-  
वाच्य ब्रह्मसे—क्योंकि ‘तत् सत्यं स  
आत्मा’ इत्यादि एक अन्य श्रुतिके  
अनुसार वह सबका आत्मा है; अनः  
यहाँ ब्रह्म ही आत्मा है—उस इस  
आत्मस्वरूप ब्रह्मसे आकाश संभूत—  
उत्पन्न हुआ ।

जो शब्द-गुणवाला और समस्त  
मूर्त पदार्थोंको अवकाश देनेवाला है  
उसे ‘आकाश’ कहते हैं । उस

\* क्योंकि जो वस्तु अनन्त होती है वही सत्य होती है, परिच्छिन्न पदार्थ  
कभी सत्य नहीं हो सकता ।

आकाशात्स्वेन स्पर्शगुणेन पूर्वेण  
 च कारणगुणेन शब्देन द्विगुणो  
 वायुः सम्भूत इत्यनुवर्तते ।  
 वायोश्च स्वेन रूपगुणेन पूर्वाभ्यां  
 च त्रिगुणोऽग्निः संभूतः । अग्नेः  
 स्वेन रसगुणेन पूर्वैश्च त्रिमिश्रतु-  
 गुणा आपः संभूताः । अद्भ्यः  
 स्वेन गन्धगुणेन पूर्वैश्चतुर्मिः  
 पञ्चगुणा पृथिवी संभूता । पृथि-  
 व्या ओषधयः । ओषधीभ्यो-  
 ऽन्नम् । अन्नाद्रेतोरूपेण परिणतात्  
 पुरुषः शिरःपाण्याद्याकृतिमान् ।

म वा एष पुरुषोऽन्नरसमयो-  
 ऽन्नरसविकारः । पुरुषाकृति-  
 भावितं हि सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः  
 संभूतं रेतो बीजम्; तस्माद्यो  
 जायते सोऽपि तथा पुरुषाकृतिरेव  
 स्यात् । सर्वजातिषु जायमानानां

आकाशसे अपने गुण 'स्पर्श' और  
 अपने पूर्ववर्ती आकाशके गुण  
 'शब्द' से युक्त दो गुणवाला वायु  
 उत्पन्न हुआ । यहाँ प्रथम वाक्यके  
 'सम्भूत' ( उत्पन्न हुआ ) इस  
 क्रिया पदकी [ सर्वत्र ] अनुवृत्ति की  
 जाती है । वायुमें अपने गुण 'रूप'  
 और पहले दो गुणोंके सहित तीन  
 गुणवाला अग्नि उत्पन्न हुआ । तथा  
 अग्निसे अपने गुण 'रस' और  
 पहले तीन गुणोंके सहित चार  
 गुणवाला जल हुआ । और जलमें  
 अपने गुण 'गन्ध' और पहले चार  
 गुणोंके सहित पाँच गुणवाली पृथिवी  
 उत्पन्न हुई । पृथिवीसे ओषधियाँ,  
 ओषधियोंसे अन्न और वीर्यरूपमें  
 परिणत हुए अन्नसे शिर तथा हाथ-  
 पाँजरूप आकृतिवाला पुरुष उत्पन्न  
 हुआ ।

वह यह पुरुष अन्नरसमय अर्थात्  
 अन्न और रसका विकार है ।  
 पुरुषाकारसे भावित [ अर्थात् पुरुष-  
 के आकारकी वासनासे युक्त ] तथा  
 उसके सम्पूर्ण अङ्गोंसे उत्पन्न हुआ  
 तेजोरूप जो शुक्र है वह उसका  
 बीज है । उससे जो उत्पन्न होता  
 है वह भी उसीके समान पुरुषाकार  
 ही होता है, क्योंकि सभी जातियोंमें  
 उत्पन्न होनेवाले देहोंमें पित्तके

जनकाकृतिनियमदर्शनात् ।

सर्वेषामप्यन्नरसविकारत्वे ब्र-  
ह्मवैश्वत्वे चाविशिष्टे कस्मात्पुरुष  
एव गृह्यते ?

प्राधान्यात् ।

किं पुनः प्राधान्यम् ?

कर्मज्ञानाधिकारः । पुरुष एव

कर्म पुरुषस्य हि शक्तत्वाद-  
प्राधान्यम् र्थित्वादपर्युदस्त-

त्वाच्च कर्मज्ञानयोरधिक्रियते—

“पुरुषे त्वेवाविस्तरामात्मा स

हि ब्रह्मानेन संपन्नतमो विज्ञातं

वदति विज्ञातं पश्यति वेद

श्चस्तनं वेद लोकालोकौ मर्त्ये-

नामृतमीक्षतीत्येवं संपन्नः ।

अथेतरेषां पशूनामशनायापिपासे

एषामिविज्ञानम् ।” इत्यादि-

श्रुत्यन्तरदर्शनात् ।

समान आकृति होनेका नियम देखा  
जाता है ।

शङ्का—सृष्टिमें सभी शरीर समान-  
रूपसे अन्न और रसके विकार  
तथा ब्रह्माके वंशमें उत्पन्न हुए हैं;  
फिर यहाँ पुरुषको ही क्यों ग्रहण  
किया गया है ?

समाधान—प्रधानताके कारण ।

शङ्का—उसकी प्रधानता क्या है ?

समाधान—कर्म और ज्ञानका

अधिकार ही उसकी प्रधानता है ।

[ कर्म और ज्ञानके साधनमें ]

समर्थ, [ उनके फलकी ] इच्छावाला

और उससे उदासीन न होनेके

कारण पुरुष ही कर्म और ज्ञानका

अधिकारी है । “पुरुषमें ही आत्माका

पूर्णतया आविर्भाव हुआ है; वही

प्रकृत ज्ञानसे सबसे अधिक सम्पन्न

है । वह जानी-बूझी बात कहता है,

जाने-बूझे पदार्थोंको देखता है, वह

कल होनेवाली बात भी जान सकता

है, उसे उत्तम और अधम लोकोंका

ज्ञान है तथा वह कर्म-ज्ञानरूप

नश्वर साधनके द्वारा अमर पदकी

इच्छा करता है—इस प्रकार वह

विवेकसम्पन्न है । उसके सिवा

अन्य पशुओंका तो केवल भूख-

प्यासका ही विशेष ज्ञान होता है”

ऐसी एक दूसरी श्रुति देखनेसे भी

[ पुरुषकी प्रधानता सिद्ध होती है ] ।

स हि पुरुष इह विद्ययान्तर-  
तमं ब्रह्म संक्रामयितुमिष्टः । तस्य  
च बाह्याकारविशेषेष्वनात्मस्वा-  
त्मभाविता बुद्धिरनालम्ब्य विशेषं  
कंचित्सहसान्तरतमप्रत्यगात्म-  
विषया निरालम्बना च कर्तु-  
मशक्येति दृष्टशरीरात्मसामान्य-  
कल्पनया शाखाचन्द्रनिदर्शन-  
वदन्तः प्रवेशयन्नाह—

तस्येदमेव शिरः । तस्यास्य

पश्चात्तमनात्र पुरुषस्यान्नरसमय-  
मयस्य निरूपणम् स्पेदमेव शिरः

प्रसिद्धम् । प्राणमयादिष्वशिरमां  
शिरस्त्वदर्शनादिहापि तत्प्रसङ्गो  
मा भूदितिदमेव शिर इत्युच्यते ।  
एवं पक्षादिषु योजना । अयं

उस पुरुषको ही यहाँ ( इस  
वल्लीमें ) विद्याके द्वारा सबकी अपेक्षा  
अन्तरतम ब्रह्मके पास ले जाना  
अभीष्ट है । किन्तु उमकी बुद्धि,  
जो बाह्याकार विशेषरूप अनात्म-  
पदार्थमें आत्मभावना किये हुए है,  
किसी विशेष आलम्बनके बिना  
एकाएक सबसे अन्तरतम प्रत्य-  
गात्मसम्बन्धिनी तथा निरालम्बना  
की जानी असम्भव है, अत इस  
दिखलायी देनेवाले शरीररूप आत्मा-  
की समानताकी कल्पनासे शाखा-  
चन्द्र दृष्टान्तके समान उसका  
भीतरकी ओर प्रवेश कराकर श्रुति  
कहती है—

उसका यह [ शिर ] ही शिर है ।

उस इस अन्नरसमय पुरुषका यह  
प्रसिद्ध शिर ही [ शिर है ] ।  
[ अगले अनुवाकमें ] प्राणमय आदि  
शिररहित कोशोंमें भी शिरस्त्व देखा  
जानेके कारण यहाँ भी वही बात  
न समझी जाय [ अर्थात् इस अन्नमय  
कोशको भी वस्तुतः शिररहित न  
समझा जाय ] इसलिये 'यह प्रसिद्ध  
शिर ही उसका शिर है'—ऐसा कहा  
जाता है । इसी प्रकार पक्षादिके  
विषयमें लगा लेना चाहिये । पूर्वाभि-

दक्षिणो बाहुः पूर्वामिमुखस्य  
 दक्षिणः पक्षः । अयं सव्यो बाहु-  
 रुत्तरः पक्षः । अयं मध्यमो देह-  
 आग आत्माङ्गानाम् । “मध्यं  
 ह्येवामङ्गानामात्मा” इति श्रुतेः ।  
 इदमिति नामेरधस्ताद्यदङ्गं  
 तत्पुच्छं प्रतिष्ठा । प्रतितिष्ठत्यन-  
 येति प्रतिष्ठा पुच्छमिव पुच्छम्  
 अधोलम्बनसामान्याद्यथा गोः  
 पुच्छम् ।

एतत्प्रकृत्योत्तरेषां प्राणमया-  
 दीनां रूपकत्वसिद्धिः, मूपानिषि-  
 क्तद्रुतताप्रतिमावत् । तदप्येप  
 श्लोको भवति । तत्तस्मिन्नेवार्थे  
 ब्राह्मणोक्तेऽन्नमयात्मप्रकाशक  
 एष श्लोको मन्त्रो भवति ॥ १ ॥

मुख व्यक्तिका यह दक्षिण [ दक्षिण  
 दिशाकी ओरका ] बाहु दक्षिण  
 पक्ष है, यह वाम बाहु उत्तर पक्ष  
 है तथा यह देहका मध्यभाग अङ्गों-  
 का आत्मा है, जैसा कि “मध्यभाग  
 ही इन अङ्गोंका आत्मा है” इस  
 श्रुतिसे प्रमाणित होता है । और  
 यह जो नाभिसे नीचेका अङ्ग है  
 वही पुच्छ—प्रतिष्ठा है । इसके  
 द्वारा वह स्थित होता है, इसलिये यह  
 उसकी प्रतिष्ठा है । नीचेकी ओर  
 लटकनेमें समानता होनेके कारण  
 वह पुच्छके समान पुच्छ है, जैसे  
 कि गौकी पूँछ ।

इस अन्नमय कोशसे आरम्भ  
 करके ही सौँचेमें डाले हुए पिघले  
 तँबिकी प्रतिमाके समान आगेके  
 प्राणमय आदि कोशोंके रूपकत्वकी  
 सिद्धि होती है । उसके विषयमें ही  
 यह श्लोक है, अर्थात् अन्नमय  
 आत्माको प्रकाशित करनेवाले उस  
 ब्राह्मणोक्त अर्थमें ही यह श्लोक  
 अर्थात् मन्त्र है ॥ १ ॥

इति ब्राह्मणानन्दचल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

## द्वितीय अनुवाक

अन्नकी महिमा तथा प्राणमय कोशका वर्णन

अन्नाद्द्वै प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च पृथिवीर-  
श्रिताः । अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अथैनदपि यन्त्य-  
न्ततः अन्नरहि भूताना ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वोपधमुच्यते ।  
सर्वं वै तेऽन्नमाप्नुवन्ति येऽन्नं ब्रह्मोपासते । अन्नरहि  
भूतानां ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वोपधमुच्यते । अन्नाद्भूतानि  
जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते । अद्यतेऽत्ति च भूतानि ।  
तस्मादन्नं तदुच्यत इति । तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयाद-  
न्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैव पूर्णः । स वा एव  
पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वय पुरुषविधः ।  
तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान  
उत्तरः पक्षः । आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा ।  
तदप्येव श्लोको भवति ॥ १ ॥

अन्नसे ही प्रजा उत्पन्न होती है । जो कुछ प्रजा पृथिवीको आश्रित  
करके स्थित है वह सब अन्नसे ही उत्पन्न होती है, फिर वह अन्नसे ही  
जीवित रहती है और अन्तमें उसीमें लीन हो जाती है, क्योंकि अन्न  
ही प्राणिभोंका ज्येष्ठ ( अन्न—पहले उत्पन्न होनेवाला ) है । इसीमे  
वह सर्वोपध कहा जाता है । जो लोग 'अन्न ही ब्रह्म है' इस प्रकार  
उपासना करते हैं वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं । अन्न ही  
प्राणियोंमें बड़ा है, इसलिये वह सर्वोपध कहलाता है । अन्नमे ही प्राणी  
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्नमे ही वृद्धिको प्राप्त होने हैं । अन्न

प्राणियोंद्वारा खाया जाता है और वह भी उन्हींको खाता है । इसीसे वह 'अन्न' कहा जाता है । उस इस अन्नरसमय पिण्डसे, उसके भीतर रहनेवाला दूसरा शरीर प्राणमय है । उसके द्वारा यह ( अन्नमय कोश ) परिपूर्ण है । वह यह ( प्राणमय कोश ) भी पुरुषाकार ही है । उस ( अन्नमय कोश ) की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है । उसका प्राण ही शिर है । व्यान दक्षिण पक्ष है । अपान उत्तर पक्ष है । आकाश आत्मा ( मध्यभाग ) है और पृथिवी पुच्छ—प्रतिष्ठा है । उसके विषयमें ही यह श्लोक है ॥ १ ॥

अन्नाद्द्रसादिभावपरिणतात्,  
 अन्नमयोपासन- वा इति स्मरणार्थः,  
 प्रजः स्यावरजङ्ग-  
 माः प्रजायन्ते । याः काश्चा-  
 विशिष्टाः पृथिवीं श्रिताः पृथि-  
 वीमाश्रितास्ताः सर्वा अन्नादेव  
 प्रजायन्ते । अथो अपि जाता  
 अन्नेनैव जीवन्ति प्राणान्धार-  
 यन्ति वर्धन्त इत्यर्थः । अथाप्ये-  
 नदन्नमपियन्त्यपिगच्छन्ति ।  
 अविशुद्धः प्रतिशुद्धार्थे ।  
 अन्नं प्रति प्रलीयन्त इत्यर्थः ।  
 अन्ततोऽन्ते जीवनलक्षणाया  
 वृत्तेः परिसमाप्तौ ।

कस्मात् ? अन्नं हि यस्माद्  
 भूतानां प्राणिनां ज्येष्ठं प्रथमजम् ।  
 अन्नमयादीनां हीतरेषां भूतानां

रसादिरूपमें परिणत हुए अन्नसे ही स्थावर-जङ्गमरूप प्रजा उत्पन्न होती है । 'वै' यह निपात स्मरणके अर्थमें है । जो कुछ प्रजा अविशेष भावसे पृथिवीकां आश्रित किये हुए है वह सब अन्नसे ही उत्पन्न होती है । और फिर उत्पन्न होनेपर वह अन्नसे ही जीवित रहती—प्राण धारण करती अर्थात् वृद्धिको प्राप्त हांती है । और अन्तमें—जीवनरूप वृत्तिकी समाप्ति हांनेपर वह अन्नमें ही लीन हो जाती है । [ 'अपियन्ति' इसमें ] 'अपि' शब्द 'प्रति' के अर्थमें है । अर्थात् वह अन्नके प्रति ही लीन हो जाती है ।

इसका कारण क्या है ? क्योंकि अन्न ही प्राणियोंका ज्येष्ठ यानी अप्रज है । अन्नमय आदि जो इतर प्राणी हैं उनका कारण अन्न ही है ।

कारणमन्नमतोऽन्नप्रमया अन्न-  
जीवना अन्नप्रलयाश्च सर्वाः प्रजाः।  
यस्माच्चैवं तस्मात्सर्वोपधं सर्व-  
प्राणिनां देहदाहप्रशमनमन्न-  
मुच्यते ।

अन्नब्रह्मविदः फलमुच्यते—

सर्वं वै ते समस्तमन्नजात-  
माप्नुवन्ति । के ? येऽन्नं ब्रह्म  
यथोक्तमुपासते । कथम् ? अन्नजो-  
ऽन्नात्मान्नप्रलयोऽहं तस्मादन्नं  
ब्रह्मेति ।

कृनः पुनः सर्वान्नप्राप्तिफल-  
मन्नात्मोपामनमित्युच्यते । अन्नं  
हि भूतानां ज्येष्ठम् । भूतेभ्यः  
पूर्वं निष्पन्नन्वाज्ज्येष्ठं हि यस्मा-  
त्तस्मात्सर्वोपधमुच्यते । तस्मादुप-  
पन्ना सर्वान्नात्मोपामकस्य सर्वा-  
न्नप्राप्तिः । अन्नाद्भूतानि जायन्ते ।

इसलिये सम्पूर्ण प्रजा अन्नमे उत्पन्न  
होनेवाली, अन्नके द्वारा जीवित  
रहनेवाली और अन्नमें ही लीन हो  
जानेवाली है । क्योंकि ऐसी बात  
है, इसलिये अन्न सर्वोपध—सम्पूर्ण  
प्राणियोंके देहके सन्तापको शान्त  
करनेवाला कहा जाता है ।

अन्नरूप ब्रह्मकी उपासना करने-  
वालेका [ प्राप्तव्य ] फल बतलाया  
जाता है—वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न-  
ममूहको प्राप्त कर लेते हैं । कौन ?  
जो उपर्युक्त अन्नकी ही ब्रह्मरूपसे  
उपासना करते हैं । किस प्रकार  
[ उपासना करते हैं ] ? इस तरह कि  
में अन्नसे उत्पन्न, अन्नस्वरूप और  
अन्नमें ही लीन हो जानेवाले हैं,  
इसलिये अन्न ब्रह्म है ।

‘अन्न ही आत्मा है’ इस प्रकारकी  
उपासना किस प्रकार सम्पूर्ण अन्नकी  
प्राप्तिरूप फलवाली है, सो बतलाते  
हैं—अन्न ही प्राणियोंका ज्येष्ठ है—  
प्राणियोंसे पहले उत्पन्न होनेके  
कारण, क्योंकि वह उनसे ज्येष्ठ है ।  
इसलिये वह सर्वोपध कहा जाता है ।  
अतः सम्पूर्ण अन्नकी आत्मारूपसे  
उपासना करनेवालेके लिये सम्पूर्ण  
अन्नकी प्राप्ति उचित ही है । अन्नमे  
प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न



जातान्यन्नेन वर्धन्त इत्युपसंहा-  
रार्थं पुनर्वचनम् ।

इदानीमन्ननिर्वचनमुच्यते—

अन्नशब्द-  
निर्वचनम्

अद्यते भुज्यते चैव  
यद्भूतैरन्नमत्ति च

भूतानि स्वयं तस्माद्भूतैर्भु-  
ज्यमानत्वाद्भूतभोक्त्वत्वाच्चान्नं  
तदुच्यते । इतिशब्दः प्रथमकोश-  
परिसमाप्त्यर्थः ।

अन्नमयादिभ्य आनन्दमया-

अन्नमयकोश-  
निराग्नः

न्तेभ्य आत्मभ्यो-  
ऽभ्यन्तरतमं ब्रह्म

विद्यया प्रत्यगात्मत्वेन दिदर्श-  
यिषुः शास्त्रमविद्याकृतपञ्चकोशा-  
पनयेनानेकतुपकोद्रववितुपी-  
करणेनैव तदन्तर्गततण्डुलान्  
प्रस्तौति तस्माद्वा एतस्मादन्नरस-  
मयादित्यादि ।

तस्मादेतस्माद्यथोक्तादन्नरस-

प्राग्मयकोश-  
निर्वचनम्

मयात्पिण्डान्यां  
व्यतिरिक्तोऽन्तरो-

ऽभ्यन्तर आत्मा पिण्डवदेव मिथ्या

होनेपर अन्नसे ही वृद्धिको प्राप्त होते  
हैं—यह पुनरुक्ति उपासनाके  
उपसंहारके लिये है ।

अत्र 'अन्न' शब्दकी व्युत्पत्ति  
कही जाती है—जो प्राणियोंद्वारा  
'अद्यते'—खाया जाता है और जो  
स्वयं भी प्राणियोंको 'अत्ति' खाता  
है, इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंका भोज्य  
और उनका भोक्ता होनेके कारण  
भी वह 'अन्न' कहा जाता है ।  
इस वाक्यमें 'इति' शब्द प्रथम  
कोशके विवरणकी परिसमाप्तिके  
लिये है ।

अनेक तुपाओवाले धानोंको  
तुपरहित करके जिस प्रकार चावल  
निकाल लिये जाते हैं उसी प्रकार  
अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश-  
पर्यन्त सम्पूर्ण शरीरोंकी अपेक्षा  
आन्तरतम ब्रह्मको विद्याके द्वारा अपने  
प्रत्यगात्मरूपसे दिखलानेकी इच्छा-  
वाला शास्त्र अविद्याकल्पित पाँच  
कोशोंका बाध करता हुआ 'तस्माद्वा  
एतस्मादन्नरसमयात्' इत्यादि वाक्य-  
से आरम्भ करता है—

उस इस पूर्वोक्त अन्नरसमय  
पिण्डसे अन्य यानी पृथक् और  
उसके भीतर रहनेवाला आत्मा, जो  
अन्नरसमय पिण्डके समान मिथ्या  
ही आमारूपसे कल्पना किया हुआ

परिकल्पित आत्मत्वेन प्राणमयः  
प्राणो वायुस्तन्मयस्तत्प्रायः । तेन  
प्राणमयेनान्नरसमय आत्मैष पूर्णो  
वायुनेत्र दृतिः । स वा एष प्राण-  
मय आत्मा पुरुषविध एव पुरुषा-  
कार एव, शिरःपक्षादिभिः ।

किं स्वत एव, नेत्याह ।

प्रसिद्धं तावदन्नरस-

प्राणमयस्य

पुरुषविधन्वम

मयस्यात्मनः पुरुष-

विधत्वम् । तस्यान्नरसमयस्य पुरुष-  
विधता पुरुषाकारतामनु अयं  
प्राणमयः पुरुषविधो मूषानिषिक्त-  
प्रतिमावन्न स्वत एव । एवं पूर्वस्य  
पूर्वस्य पुरुषविधतामनुत्तरोत्तरः  
पुरुषविधो भवति पूर्वः पूर्व-  
श्चोत्तरोत्तरेण पूर्णः ।

कथं पुनः पुरुषविधतास्य  
इत्थुच्यते । तस्य प्राणमयस्य प्राण  
एव शिरः । प्राणमयस्य वायु-  
विकारस्य प्राणो मुखनासिका-  
निःसरणो वृत्तिविशेषः शिर एव

है, प्राणमय है । प्राण—वायु उससे  
युक्त अर्थात् तत्प्राय [ यानी उसमें  
प्राणकी ही प्रधानता है ] । जिस  
प्रकार वायुसे धौंरुनी भरी रहती है  
उसी प्रकार उस प्राणमयमे यह  
अन्नरसमय शरीर भरा हुआ है ।  
वह यह प्राणमय आत्मा पुरुषविध  
अर्थात् शिर और पक्षादिके कारण  
पुरुषाकार ही है ।

क्या वह स्वत ही पुरुषाकार  
है ? इसपर कहते हैं—नहीं,  
अन्नरसमय शरीरकी पुरुषाकारता तो  
प्रसिद्ध ही है, उस अन्नरसमय-  
की पुरुषविधता—पुरुषाकारताके  
अनुसार मॉचिमें ढली हुई प्रतिमाके  
समान यह प्राणमय कोश भी  
पुरुषाकार है—स्वत, ही पुरुषाकार  
नहीं है । इसी प्रकार पूर्व-पूर्वकी  
पुरुषाकारता है और उसके अनुसार  
पीछे-पीछेका कोश भी पुरुषाकार है,  
तथा पूर्व-पूर्व कोश पीछे-पीछेके  
कोशसे पूर्ण ( भरा हुआ ) है ।

इसकी पुरुषाकारता किस प्रकार  
है ? सो बतलायी जाती है—उस  
प्राणमयका प्राण ही शिर है ।  
वायुके विकाररूप प्राणमय कोशका  
मुख और नासिकासे निकलनेवाला  
प्राण, जो मुख्य प्राणकी वृत्तिविशेष  
है, श्रुतिके बचनानुसार शिररूपसे ही

परिकल्प्यते वचनात् । सर्वत्र  
वचनादेव पक्षादिकल्पना ।  
व्यानो व्यानवृत्तिर्दक्षिणः पक्षः ।  
अपान उत्तरः पक्षः । आकाश  
आत्मा । य आकाशस्यो वृत्ति-  
विशेषः समानाख्यः स आत्मेवा-  
त्मा; प्राणवृत्त्यधिकारात् ।  
मध्यस्थत्वादितराः पर्यन्ता वृत्ती-  
रपेक्ष्यात्मा । “मध्यं ह्येवामङ्गा-  
नामात्मा” इति श्रुतिप्रसिद्धं  
मध्यमस्यस्यात्मत्वम् ।

पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा ।  
पृथिवीति पृथिवीदेवताध्यात्मि-  
कस्य प्राणस्य धारयित्री स्थिति-  
हेतुत्वात् । “सैषा पुरुषस्यापान-  
मवष्टम्य” (प्र० उ० ३ । ८) इति हि  
श्रुत्यन्तरम् । अन्यथोदानवृत्त्यो-  
र्ध्वगमनं गुरुत्वाच्च पतनं वा  
न्याच्छरीरस्यातस्मात्पृथिवी देवता  
पुच्छं प्रतिष्ठा प्राणमयस्यात्मनः ।  
तत्तस्मिन्नेवार्थे प्राणमयात्मविषय  
एष श्लोको भवति ॥ १ ॥

कल्पना किया जाता है । इसके  
सिवा आगे भी श्रुतिके वचनानुसार  
ही पक्ष आदिकी कल्पना की गयी  
है । व्यान अर्थात् व्यान नामकी  
वृत्ति दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर  
पक्ष है, आकाश आत्मा है । यहाँ  
प्राण-वृत्तिका अधिकार होनेके कारण  
[ ‘आकाश’ शब्दसे ] आकाशमें  
स्थित जो समानसंज्ञक प्राणकी  
वृत्ति है वही आत्मा है । अपने  
आसपासकी अन्य सब वृत्तियोंकी  
अपेक्षा मध्यवर्तिनी होनेके कारण  
वह आत्मा है । “इन अङ्गोंका मध्य  
आत्मा है” इस श्रुतिके मध्यवर्ती अङ्ग-  
का आत्मत्व प्रसिद्ध ही है ।

पृथिवीपुच्छ—प्रतिष्ठा है । ‘पृथिवी’  
इस शब्दसे पृथिवीकी अधिष्ठात्री  
देवी समझनी चाहिये; क्योंकि  
स्थितिकी हेतुभूत होनेसे वही  
आध्यात्मिक प्राणको भी धारण  
करनेवाली है । इस विषयमें “वह  
पृथिवी-देवता पुरुषके अपानको  
आश्रय करके” इत्यादि एक दूसरी  
श्रुति भी है । अन्यथा प्राणकी  
उदानवृत्तिसे या तो शरीर ऊपरका  
उड़ जाता अथवा गुरुतावश गिर  
पड़ता । अतः पृथिवी-देवता ही  
प्राणमयशरीरकी पुच्छ—प्रतिष्ठा है ।  
उसी अर्थमें अर्थात् प्राणमय आत्माके  
विषयमें ही यह श्लोक प्रसिद्ध है ॥ १ ॥

इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यां द्वितीयोऽनुयाकः ॥ २ ॥

## तृतीय अनुवाक

प्राणकी महिमा और मनोमय कोशका वर्णन

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च ये ।  
प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सर्वायुपमुच्यते । सर्वमेव  
त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूता-  
नामायुः । तस्मात्सर्वायुपमुच्यत इति । तस्यैष एव  
शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मात्प्राणमयाद-  
न्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैष पूर्णः । स वा  
एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुष-  
विधः । तस्य यजुरेव शिरः । ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः  
पक्षः । आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा ।  
तदप्येष श्लोको भवति ॥ १ ॥

देवगण प्राणके अनुगामी होकर प्राणन-क्रिया करते हैं तथा जो मनुष्य और पशु आदि हैं [ वे भी प्राणन-क्रियामे ही चेष्टवान् होते हैं ] । प्राण ही प्राणियोंकी आयु ( जीवन ) है । इसीलिये वह 'सर्वायुष' कहलाता है । जो प्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना करते हैं वे पूर्ण आयुको प्राप्त होते हैं । प्राण ही प्राणियोंकी आयु है । इसलिये वह 'सर्वायुष' कहलाता है । उस पूर्वोक्त ( अन्नमय कोश ) का यही देहस्थित आत्मा है । उस इस प्राणमय कोशसे दूसरा इसके भीतर रहनेवाला आत्मा मनोमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह [ मनोमय कोश ] भी पुरुषाकार ही है । उस ( प्राणमय कोश ) की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है । यजु. ही उसका शिर है, ऋक् दक्षिण पक्ष है,

साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अथर्वाङ्गिरस पुच्छ—  
प्रतिश्र है । उसके विषयमें ही यह श्लोक है ॥ १ ॥

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति ।

प्राणस्त्व देवा अग्न्यादयः

प्राधान्यम् प्राणं वाय्वात्मानं

प्राणनशक्तिमन्तमनु तदात्म-  
भूताः सन्तः प्राणन्ति प्राणन-  
कर्म कुर्वन्ति प्राणनक्रियया  
क्रियावन्तो भवन्ति । अध्यात्मा-  
धिकाराद्देवा इन्द्रियाणि प्राणमनु  
प्राणन्ति मुख्यप्राणमनु चेष्टन्त  
इति वा । तथा मनुष्याः पशुश्च  
ये ते प्राणनकर्मणैव चेष्टावन्तो  
भवन्ति ।

अतश्च नान्नमयेनैव परिच्छि-

न्नेनात्मनात्मवन्तः प्राणिनः ।

किं तर्हि ? तदन्तर्गतेन प्राणमये-

नापि साधारणेनैव सर्वपिण्ड-

ध्यापिनात्मवन्तो मनुष्यादयः ।

एवं मनोमयादिभिः पूर्वपूर्वव्या-

पिभिरुत्तरोत्तरैः स्रद्धमैरानन्दम-

यान्तराकाशादिभूतारब्धैरविद्या-

कृतैरात्मवन्तः सर्वे प्राणिनः ।

तथा स्वामाविकेनाप्याकाशादि-

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति—अग्नि  
आदि देवगण प्राणनशक्तिमान् वायु-  
रूप प्राणके अनुगामी होकर अर्थात्  
तद्रूप होकर प्राणन-क्रिया करते  
हैं; यानी प्राणन-क्रियासे क्रियावान्  
होते हैं । अथवा यहाँ अध्यात्म-  
सम्बन्धी प्रकरण होनेसे [ यह  
समझना चाहिये कि ] देव अर्थात्  
इन्द्रियों प्राणके पीछे प्राणन करती  
यानी मुख्य प्राणकी अनुगामिनी  
होकर चेष्टा करती हैं । तथा जो  
भी मनुष्य और पशु आदि हैं वे ही  
प्राणन-क्रियासे ही चेष्टावान् होते हैं ।

इससे जाना जाता है कि प्राणी  
केवल परिच्छिन्नरूप अन्नमय कोशसे  
ही आत्मवान् नहीं हैं । तो क्या  
है ? वे मनुष्यादि जीव उसके  
अन्तर्गते सम्पूर्ण पिण्डमें व्याप्त  
साधारण प्राणमय कोशसे भी  
आत्मवान् हैं । इस प्रकार पूर्व-पूर्व  
कोशमें व्याप्त मनोमयसे लेकर  
आनन्दमय कोशपर्यन्त, आकाशादि  
भूतोसे होनेवाले अविद्याकृत कोशों-  
से सम्पूर्ण प्राणी आत्मवान् हैं ।  
इसी प्रकार वे स्वभावसे ही

कारणेन नित्येनाविकृतेन सर्व-  
गतेन सत्यज्ञानानन्तलक्षणैः  
पञ्चकोशातिगेन सर्वात्मनात्म-  
वन्तः । स हि परमार्थत आत्मा  
सर्वेषामित्येतदप्यर्थादुक्तं भवति ।

प्राणं देवा अनु प्राणन्तीत्युक्तं  
तत्कस्मादित्याह । प्राणो हि  
यस्माद्भूतानां प्राणिनामायुर्जीव-  
नम् । “यावद्धयस्मिञ्शरीरे प्राणो  
वसति तावदायुः” ( काँ० उ०  
३ । २ ) इति श्रुत्यन्तरात् ।  
तस्मात्सर्वायुषम् । सर्वेषामायुः  
सर्वायुः सर्वायुरेव सर्वायुषमित्यु-  
च्यते । प्राणापगमे मरणप्रसिद्धेः ।  
प्रसिद्धं हि लोके सर्वायुष्य  
प्राणस्य ।

अतोऽस्माद्ब्रह्मादसाधारणाद-  
प्राणोपात्मन-  
फलम् न्नमयादात्मनोऽप-  
कम्यान्तः साधा-  
रणं प्राणमयमात्मानं ब्रह्मोपासतं  
येऽहमसि प्राणः सर्वभूताना-

आकाशादिके कारण, नित्य,  
निर्विकार, सर्वगत, सत्य, ज्ञान एवं  
अनन्तरूप, पञ्चकोशातीत सर्वात्मासे  
भी आत्मवान् हैं । वही परमार्थत  
सबका आत्मा है—यह बात भी  
इस वाक्यके तात्पर्यसे कह ही दी  
गयी है ।

देवगण प्राणके पीछे प्राणन-  
क्रिया करते हैं—ऐसा पहले कहा  
गया । ऐसा क्यों है ? सो बतलाते  
हैं—क्योंकि प्राण ही प्राणियोंका  
आयु—जीवन है । “जबतक इस  
शरीरमें प्राण रहता है तभीतक  
आयु है” इस एक अन्य श्रुतिसे भी  
यही सिद्ध होता है । इसीलिये वह  
‘सर्वायुष’ है । स्वकी आयुका नाम  
‘सर्वायु’ है, ‘सर्वायु’ ही ‘सर्वायुष’  
कहा जाता है, क्योंकि प्राण-प्राण-  
के अनन्तर मृत्यु हो जाना प्रसिद्ध  
ही है । प्राणका सर्वायु होना तो  
लोकमें प्रसिद्ध ही है ।

अत जो लोग इस वाक्य  
असाधारण ( व्यावृत्तरूप ) अन्नमय  
कोशसे आत्मयुद्धिको हटाकर इसके  
अन्तर्बर्ती और साधारण [ सम्पूर्ण  
इन्द्रियोंमें अनुगत ] प्राणमय कोश-  
को भी प्राण सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा

मात्मायुर्जीवनहेतुत्वादिति ते  
सर्वमेवायुरसिँह्लोकेयन्ति, नाप-  
मृत्युना म्रियन्ते प्राक्प्राप्तादायुष  
इत्यर्थः । शतं वर्षाणीति तु युक्तं  
“सर्वमायुरेति” ( छा० उ० २ ।  
११-२०, ४ । ११-१३ ) इति  
श्रुतिप्रसिद्धेः ।

किं कारणं प्राणो हि भूता-  
नामायुस्तस्मात्सर्वायुषमुच्यत इति ।  
यो यद्गुणकं ब्रह्मोपास्ते स तद्-  
गुणभाग्भवतीति विद्याफलप्राप्ते-  
र्हेत्वर्थं पुनर्वचनं प्राणो हीत्यादि ।  
तस्य पूर्वस्वान्नमयस्यैव एव  
शरीरेऽन्नमये भवः शरीर  
आत्मा । कः ? य एष प्राणमयः ।

तस्माद्वा एतस्मादित्युक्तार्थ-  
मनोमयस्यैव- मन्यत् । अन्यो-  
निर्यन्तम्- ऽन्तर आत्मा मनो-  
मयः । मन इति संकल्पाद्यात्म-  
कमन्तःकरणं तन्मयो मनोमयो

और उनके जीवनका कारण होनेसे  
उनकी आयु हैं’ इस प्रकार ब्रह्मरूपसे  
उपासना करते हैं वे इस लोकमें  
पूर्ण आयुको प्राप्त होते हैं । अर्थात्  
प्रारब्धवश प्राप्त हुई आयुसे पूर्व  
अपमृत्युसे नहीं मरते । “पूर्ण आयु-  
को प्राप्त होता है” ऐसी श्रुति-प्रसिद्धि  
होनेके कारण यहाँ [ ‘सर्वायु’  
शब्दसे ] सौ वर्ष समझने चाहिये ।

[ प्राणको सर्वायु समझनेका ]  
क्या कारण है ? क्योंकि प्राण ही  
प्राणियोंकी आयु है इसलिये वह,  
‘सर्वायुष’ कहा जाता है । जो  
व्यक्ति जैसे गुणवाले ब्रह्मकी उपासना  
करता है वह उसी प्रकारके गुणका  
भागी होता है—इस प्रकार विद्याके  
फलकी प्राप्तिके इस हेतुको प्रदर्शित  
करनेके लिये ‘प्राणो हि भूताना-  
मायुः’ इत्यादि वाक्यकी पुनरुक्ति की  
गयी है । यहाँ उस पूर्वकथित  
अन्नमय कोशका शरीर—अन्नमय  
शरीरमें रहनेवाला आत्मा है । कौन ?  
जो कि यह प्राणमय है ।

‘तस्माद्वा एतस्मात्’ इत्यादि शेष  
पदोंका अर्थ पहले कह चुके हैं ।  
दूसरा अन्तर-आत्मा मनोमय है ।  
संकल्प-विकल्पात्मक अन्तःकरणका  
नाम मन है; जो तद्रूप हो उसे  
मनोमय कहते हैं; जैसे [ अन्नरूप

यथान्नमयः । सोऽयं प्राणमय-  
स्याभ्यन्तर आत्मा । तस्य यजु-  
रेव शिरः । यजुस्त्वित्यनियताक्षर-  
पादावसानो मन्त्रविशेषस्तज्जा-  
तीयवचनो यजुःशब्दस्तस्य  
शिरस्त्वं प्राधान्यात् । प्राधान्यं च  
यागादौ संनिपत्योपकारकत्वात् ।  
यजुषा हि हविर्दीयते स्वाहाका-  
रादिना ।

वाचनिकी वा शिरआदि-  
कल्पना सर्वत्र । मनसो हि  
स्यानप्रयत्ननादस्वरवर्णपदवाक्य-  
विषया तत्संकल्पात्मिका  
तद्भाविता वृत्तिः श्रोत्रादिकरण-  
द्वारा यजुःमंकेतविशिष्टा यजुः

होनेके कारण ] अन्नमय कहा गया  
है । वह इस प्राणमयका अन्तर्वर्ती  
आत्मा है । उसका यजु. ही शिर  
है । जिनमें अक्षरोंका कोई नियम  
नहीं है ऐसे पादोंमें समाप्त होनेवाले  
मन्त्रविशेषका नाम यजु है । उस  
जातिके मन्त्रोंका वाचक 'यजु'  
शब्द है । उसे प्रधानताके कारण  
शिर कहा गया है । यागादिमें  
सनिपत्य उपकारक\* होनेके कारण  
यजु-मन्त्रोंकी प्रधानता है, क्योंकि  
स्वाहा आदिके द्वारा यजुर्मन्त्रोंसे ही  
हवि दी जाती है ।

अथवा इन सब प्रसंगोंमें शिर  
आदिकी कल्पना श्रुतिवाक्यसे ही  
समझनी चाहिये । अक्षरोंके  
[उच्चारणके] स्थान, [आन्तरिक] प्रयत्न,  
[उससे उत्पन्न हुआ] नाद, [उदात्तादि]  
स्वर, [अकारादि] वर्ण, [उनसे रचे हुए]  
पद और [पदोंके समूहरूप] वाक्यसे  
सम्बन्ध रखनेवाली तथा उन्हींके  
संकल्प और भावसे युक्त जो श्रवणादि  
इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होनेवाली  
'यजु' सकेतविशिष्ट मनकी वृत्ति है

\* यज्ञाङ्ग दो प्रकारके होते हैं—एक सनिपत्य उपकारक और दूसरे  
आरात् उपकारक । उनमें जो अङ्ग स्वाहात् अपना परम्परासे प्रधान यागके  
कलेवरकी पूर्ति कर उसके द्वारा अपूर्वकी उत्पत्तिमें उपयोगी होते हैं वे सनिपत्य  
उपकारक कहलाते हैं । यजुर्मन्त्र भी यागशरीरको निष्पन्न करनेवाले होनेसे  
सनिपत्य उपकारक हैं ।



इत्युच्यते । एवमृगेवं साम  
च ।

एवं च मनोवृत्तित्वे मन्त्राणां  
वृत्तिरेवावर्त्यत इति मानसो जप  
उपपद्यते । अन्यथाविषयत्वान्म-  
न्त्रो नावर्तयितुं शक्यो घटादि-  
वदिति मानसो जपो नोपपद्यते ।  
मन्त्रावृत्तिश्च चोद्यते बहुशः  
कर्मसु ।

वही 'यजुः' कही जाती है । इस प्रकार 'ऋक्' और ऐसे ही 'साम' को भी समझना चाहिये ।\*

इस प्रकार मन्त्रोंके मनोवृत्तिरूप होनेपर ही उस वृत्तिका आवर्तन करनेसे उनका मानसिक जप किया जाना ठीक हो सकता है । अन्यथा घटादिके समान मनके विषय न होनेके कारण तो मन्त्रोंकी आवृत्ति भी नहीं की जा सकती थी और उस अवस्थामें मानसिक जप होना सम्भव ही नहीं था । किन्तु मन्त्रोंकी आवृत्तिका तो बहुत-से कर्मोंमें विधान किया ही गया है [ इससे उसकी असम्भावना तो सिद्ध हो नहीं सकती ] ।

ॐ 'यजुः' आदि शब्दोंसे यजुर्वेद आदि ही समझे जाते हैं । परन्तु यहाँ जो उन्हें मनोमय कोशके शिर आदि रूपसे वतलाया गया है उसमें यह शंका होती है कि उनका उससे ऐसा क्या सम्बन्ध है जो वे उसके अङ्गरूपसे वतलाये गये हैं ? इस वाक्यमें भगवान् भाष्यकारने उसी बातको स्पष्ट किया है । इसका तात्पर्य यह है कि यजुः, साम अथवा ऋक् आदि मन्त्रोंके उच्चारणमें सबसे पहले अन्यान्य शब्दोंके उच्चारणके समान मनका ही व्यापार होता है । पहले कण्ठ अथवा तालु आदि स्थानोंसे जठराग्निद्वारा प्रेरित वायुका आघात होता है, उससे अस्फुट नादकी उत्पत्ति होती है; फिर क्रमशः स्वर और अकारादि वर्ण अभिव्यक्त होते हैं । वर्णोंके संयोगसे पद और पदसमूहसे वाक्यकी रचना होती है । इस प्रकार मानसिक सङ्कल्प और भावसे ही यजुः आदि मन्त्र अभिव्यक्त होकर श्रोत्रेन्द्रियसे ग्रहण किये जाते हैं । अतः मनोवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाले होनेके कारण ही यहाँ यजुर्विषयक मनोवृत्तिको 'यजुः', ऋग्विषयक वृत्तिको 'ऋक्' और सामविषयक वृत्तिको 'साम' कहा गया है; तथा इस प्रकारकी यजुर्वृत्ति ही मनोमय कोशकी शीर्षस्थानीय है ।

अक्षरविषयस्मृत्यावृत्त्या

मन्त्रावृत्तिः स्यादिति चेत् ?

न; मुख्यार्थासंभवात् । “त्रिः

प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्” इति

ऋगावृत्तिः श्रूयते । तत्रर्चो-

ऽविषयत्वे तद्विषयस्मृत्यावृत्त्या

मन्त्रावृत्तौ च क्रियमाणायाम्

“त्रिः प्रथमामन्वाह” इति ऋगा-

वृत्तिर्मुख्योऽर्थोदितः परित्यक्तः

स्यात् । तस्मान्मनोवृत्त्युपाधि-

परिच्छिन्नं मनोवृत्तिनिष्ठमात्म-

चैतन्यमनादिनिधन यजुःशब्द-

वाच्यमात्मविज्ञान मन्त्रा इति ।

एवं च नित्यत्वोपपत्तिर्वेदानाम् ।

अन्यथा विषयत्वे रूपादि-

वदनित्यत्वं च स्थान्निष्ठ-

क्तम् । “सर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति

शङ्का—मन्त्रके अक्षरोंको विषय करनेवाली स्मृतिकी आवृत्ति होनेसे मन्त्रकी भी आवृत्ति हो सकती है— यदि ऐसा मानें तो ?

समाधान—नहीं, क्योंकि [ ऐसा माननेसे जपका विधान करनेवाली श्रुतिना ] मुख्य अर्थ असम्भव हो जायगा । “तीन बार प्रथम ऋक्की आवृत्ति करनी चाहिये और तीन बार अन्तिम ऋक्का अन्वाह्यान ( आवर्तन ) करे” इस प्रकार ऋक्की आवृत्तिके विषयमें श्रुतिकी आज्ञा है । ऐसी अवस्थामें मन्त्रमय ऋक् तो मनका विषय नहीं है, अतः मन्त्रकी आवृत्तिके स्थानमें यदि केवल उसकी स्मृतिका ही आवर्तन किया जाय तो “तीन बार प्रथम ऋक्की आवृत्ति करनी चाहिये” इस श्रुतिकी मुख्य अर्थ छूट जाता है । अतः यह समझना चाहिये कि मनोवृत्तिरूप उपाधिसे परिच्छिन्न मनोवृत्तिस्थित जो अनादि-अनन्त आत्मचैतन्य यजुः शब्दवाच्य आत्मविज्ञान है वह यजुर्मन्त्र है । इसी प्रकार वेदोंकी नित्यता भी सिद्ध हो सकती है, नहीं तो इन्द्रियोंके विषय होने-पर तो रूपादिके समान उनकी भी अनित्यता ही सिद्ध होगी; और ऐसा होना ठीक नहीं है । “जिसमें समस्त

स मानसीन आत्मा” इति च  
 श्रुतिर्नित्यात्मनैकत्वं ब्रुवत्यृगा-  
 दीनां नित्यत्वे समञ्जसा स्यात् ।  
 “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्य-  
 स्सिन्देवा अधि विश्वे निपेदुः”  
 ( इवे० उ० ४ । ८ ) इति च  
 अन्त्रवर्णः ।

आदेशोऽत्र ब्राह्मणसु; अति-  
 द्रष्टव्यविशेषानतिदिशतीति । अथ-  
 र्वाङ्गिरसा च दृष्टा मन्त्रा ब्राह्मणं  
 च शान्तिकर्षाष्टिकादिप्रतिष्ठा-  
 हेतुकर्मप्रधानत्वात्पृच्छं प्रतिष्ठा ।  
 तदप्येष श्लोको भवति मनो-  
 भयात्मप्रकाशकः पूर्ववत् ॥ १ ॥

वेद एकरूप हो जाते हैं वह मनरूप  
 उपाधिमें स्थित आत्मा है” यह नित्य  
 आत्माके साथ ऋगादिका एकत्व  
 बतलानेवाली श्रुति भी उनका  
 नित्यत्व सिद्ध होनेपर ही सार्थक  
 हो सकती है । इस सम्बन्धमें  
 “जिसमें सम्पूर्ण देव स्थित हैं उस  
 अक्षर और परब्रह्मरूप आकाशमें  
 ही ऋचाएँ तादात्म्यभावसे व्यवस्थित  
 हैं” ऐसा मन्त्रवर्ण भी है ।

‘आदेश आत्मा’ इस वाक्यमें  
 ‘आदेश’ शब्द ब्राह्मणका वाचक  
 है; क्योंकि वेदोंका ब्राह्मणभाग ही  
 कर्त्तव्यविशेषोंका आदेश ( उपदेश )  
 देता है । अथर्वाङ्गिरस ऋषिके  
 साक्षात्कार किये हुए मन्त्र और  
 ब्राह्मण ही पृच्छ—प्रतिष्ठा हैं, क्योंकि  
 उनमें शान्ति और पुष्टिका स्थितिके  
 हेतुभूत कर्मोंकी प्रधानता है ।  
 पूर्ववत् इस विषयमें ही—मनोमय  
 आत्माका प्रकाश करनेवाला ही  
 यह श्लोक है ॥ १ ॥

इति ब्रह्मानन्दवल्क्यां तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

## चतुर्थ अनुवाक

मनोमय कोशकी महिमा तथा विज्ञानमय कोशका वर्णन

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह ।  
 आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कदाचनेति । तस्यैष  
 एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मा-  
 न्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनैष पूर्णः ।  
 स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं  
 पुरुषविधः । तस्य श्रद्धैव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्षः ।  
 सत्यमुत्तरः पक्षः । योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा ।  
 तदप्येष श्लोको भवति ॥ १ ॥

जहाँसे मनके सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है उस ब्रह्मानन्दको जाननेवाला पुरुष कभी भयको प्राप्त नहीं होता । यह जो [ मनोमय शरीर ] है वही उस अपने पूर्ववर्ती [ प्राणमय कोश ] का शारीरिक आत्मा है । उस इस मनोमयसे दूसरा इसका अन्तर-आत्मा विज्ञानमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह विज्ञानमय भी पुरुषाकार ही है । उस [ मनोमय ] की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है । उसका श्रद्धा ही शिर है । ऋत दक्षिण पक्ष है । सत्य उत्तर पक्ष है । योग आत्मा ( मध्यभाग ) है और महत्तत्त्व पुच्छ-प्रतिष्ठा है । उसके विषयमें ही यह श्लोक है ॥ १ ॥

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य | जहाँसे मनके सहित वाणी उसे  
 मनसा सहेत्यादि । तस्य पूर्वस्य | न पाकर लौट आती है-इत्यादि  
 प्राणमयस्यैव एवात्मा शरीरः | [ अर्थ स्पष्ट ही है ] उस पूर्व-  
 कथित प्राणमयका ' यही शरीर

शरीरे प्राणमये भवः शरीरः  
कः ? य एष मनोमयः । तस्माद्वा  
एतस्मादित्यादि पूर्ववत् । अ-  
न्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयो  
मनोमयस्याभ्यन्तरो विज्ञानमयः ।

मनोमयो वेदात्मोक्तः । वे-  
दार्थविषया बुद्धिनिश्चयात्मिका  
विज्ञानं तच्चाध्यवसायलक्षणम-  
न्तःकरणस्य धर्मः । तन्मयो  
निश्चयविज्ञानैः प्रमाणस्वरूपैर्नि-  
र्वर्तित आत्मा विज्ञानमयः ।  
प्रमाणविज्ञानपूर्वको हि यज्ञादि-  
स्तायते । यज्ञादिहेतुत्वं च  
वक्ष्यति श्लोकेन ।

निश्चयविज्ञानवतो हि कर्तव्ये-  
ष्वर्थेषु पूर्वं श्रद्धोत्पद्यते । सा  
सर्वकर्तव्यानां प्राथम्याच्छिर इव  
शिरः । ऋतसत्ये यथाव्या-  
ख्याते एव । योगो युक्तिः

अर्थात् प्राणमय शरीरमें रहनेवाला  
आत्मा है । कौन ? यह जो मनोमय  
है । 'तस्माद्वा एतस्मात्' इत्यादि  
वाक्यका अर्थ - पूर्ववत् समझना  
चाहिये । उस इस मनोमयसे दूसरा  
इसका अन्तर आत्मा विज्ञानमय है  
अर्थात् मनोमय कोशके भीतर  
विज्ञानमय कोश है ।

मनोमय कोश वेदरूप बतलाया  
गया था । वेदोंके अर्थके विषयमें  
जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसीका  
नाम विज्ञान है । और वह अन्तः-  
करणका अध्यवसायरूप धर्म है ।  
तन्मय अर्थात् प्रमाणस्वरूप निश्चय  
विज्ञानसे ( निश्चयात्मिका बुद्धिसे )  
निष्पन्न होनेवाला आत्मा विज्ञानमय  
है, क्योंकि प्रमाणके विज्ञानपूर्वक  
ही यज्ञादिका विस्तार किया जाता  
है । विज्ञान यज्ञादिका हेतु है—  
यह बात श्रुति आगे चलकर मन्त्र-  
द्वारा बतलायेगी ।

निश्चयात्मिका बुद्धिसम्पन्न पुरुष-  
को सबसे पहले कर्तव्यकर्ममें श्रद्धा  
ही उत्पन्न होती है । अतः सम्पूर्ण  
कर्मोंमें प्रथम होनेके कारण वह  
शिरके समान उस विज्ञानमयका  
शिर है । ऋत और सत्यका अर्थ  
पहले ( शीघ्रावली, नवम अनुवाकमें )  
की हुई व्याख्याके ही समान है ।

समाधानम्, आत्मैवात्मा ।  
 आत्मवतो हि युक्तस्य समाधान-  
 वतोऽङ्गानीव श्रद्धादीनि यथार्थ-  
 प्रतिपत्तिश्रमाणि भवन्ति ।  
 तस्मात्समाधानं योग आत्मा  
 विज्ञानमयस्य । महः पुच्छं प्रतिष्ठा  
 मह इति महत्त्वं प्रथमजम् ।  
 “महद्यक्षं प्रथमजं वेद” (वृ० उ०  
 ५।४।१) इति श्रुत्यन्तरात् ।  
 पुच्छं प्रतिष्ठा कारणत्वात् ।  
 कारणं हि कार्याणां प्रतिष्ठा ।  
 यथा वृक्षरीरुधां पृथिवी । सर्व-  
 बुद्धिविज्ञानानां च महत्त्वं  
 कारणम् । तेन तद्विज्ञानमयस्या-  
 त्मनः प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको  
 भवति पूर्ववत् । यथाश्रमयादी-  
 नां ब्राह्मणोक्तानां प्रकाशकाः  
 श्लोका एव विज्ञानमयस्यापि ॥१॥

योग-युक्ति अर्थात् समाधान ही  
 आत्माके समान उसका आत्मा है ।  
 युक्त अर्थात् समाधानसम्पन्न  
 आत्मवान् पुरुषके ही अङ्गादिके  
 समान श्रद्धा आदि साधन यथार्थ  
 ज्ञानकी प्राप्तिमें समर्थ होते हैं ।  
 अतः समाधान यानी योग ही  
 विज्ञानमय कोशका आत्मा है और  
 मह उसकी पुच्छ—प्रतिष्ठा है ।  
 “प्रथम उत्पन्न हुए महान् यक्ष  
 ( पूजनीय ) का जानता है” इस  
 एक अन्य श्रुतिके अनुसार ‘मह.’  
 यह महत्त्वका नाम है । वही  
 [ विज्ञानमयका ] कारण होनेसे  
 उसकी पुच्छ—प्रतिष्ठा है, क्योंकि  
 कारण ही कार्यवर्गकी प्रतिष्ठा  
 ( आश्रय ) हुआ करता है, जैसे कि  
 वृक्ष और लता-मुल्मादिकी प्रतिष्ठा  
 पृथिवी है । महत्त्वं ही बुद्धिके सम्पूर्ण  
 विज्ञानोंका कारण है । इसलिये वह  
 विज्ञानमय आत्माकी प्रतिष्ठा है ।  
 पूर्ववत् उसके विषयमें ही यह श्लोक  
 है अर्थात् जैसे पहले श्लोक ब्राह्मणोक्त  
 अन्नमय आदिके प्रकाशक हैं उसी  
 प्रकार यह विज्ञानमयका भी प्रकाशक  
 श्लोक है ॥ १ ॥

इति ब्रह्मानन्दबल्ल्यां चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

## पञ्चम अनुवाक

विज्ञानकी महिमा तथा आनन्दमय कोशका वर्णन

विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च ।  
विज्ञानं देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म  
चेद्वेद । तस्मान्नेन्न प्रमाद्यति । शरीरे पाप्मनो हित्वा ।  
सर्वान्कामान्समश्नुत इति । तस्यैष एव शारीर आत्मा  
यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर  
आत्मानन्दमयः । तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव ।  
तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव शिरः ।  
मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द  
आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ॥१॥

विज्ञान ( विज्ञानवान् पुरुष ) यज्ञका विस्तार करता है और वही  
कर्मांका भी विस्तार करता है । सम्पूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान-ब्रह्मकी उपासना  
करते हैं । यदि साधक 'विज्ञान ब्रह्म है' ऐसा जान जाय और फिर  
उससे प्रमाद न करे तो अपने शरीरके सारे पापोंको त्यागकर वह समस्त  
कामनाओं ( भोगों ) को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है । यह जो विज्ञानमय  
है वही उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीरका आत्मा है । उस इस  
विज्ञानमयसे दूसरा इसका अन्तर्वर्ती आत्मा आनन्दमय है । उस  
आनन्दमयके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह आनन्दमय भी पुरुषाकार ही  
है । उस ( विज्ञानमय ) की पुरुषाकारताके समान ही यह पुरुषाकार  
है । उसका प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष  
है, आनन्द आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ-प्रतिष्ठा है । उसके विषयमें ही  
यह श्लोक है ॥ १ ॥

विज्ञानं यज्ञं तनुते । विज्ञान-  
 विज्ञानमयो- चान्हि यज्ञं तनोति  
 पासनम् श्रद्धादिपूर्वकम् ।  
 अतो विज्ञानस्य कर्तृत्वं तनुत  
 इति कर्माणि च तनुते । यस्मा-  
 द्विज्ञानकर्तृकं सर्वं तस्माद्युक्तं  
 विज्ञानमय आत्मा ब्रह्मेति ।  
 किं च विज्ञानं ब्रह्म सर्वे देवा  
 इन्द्रादयो ज्येष्ठं प्रथमजत्वात्सर्व-  
 प्रवृत्तीनां वा तत्पूर्वकत्वात्प्रथमजं  
 विज्ञानं ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति  
 तस्मिन्विज्ञानमये ब्रह्मण्यभि-  
 मानं कृत्योपासत इत्यर्थः ।  
 तस्मात्ते महतो ब्रह्मण उपा-  
 सनाज्ज्ञानैश्वर्यवन्तो भवन्ति ।

तच्च विज्ञानं ब्रह्म चेद्यदि वेद  
 विजानाति न केवलं वेदैव तस्मा-  
 द्ब्रह्मणश्चेन्न प्रमाद्यति बाह्येष्वेवा-  
 नात्मस्वात्मभावितत्वात्प्राप्तं वि-  
 ज्ञानमये ब्रह्मण्यात्मभावनायाः

विज्ञान यज्ञका विस्तार करता  
 है अर्थात् विज्ञानवान् पुरुष ही  
 श्रद्धादिपूर्वक यज्ञका अनुष्ठान करता  
 है । अत यज्ञानुष्ठानमें विज्ञानका  
 कर्तृत्व है और तनुते—इसका भाव  
 यह है कि वही कर्मोंका भी  
 विस्तार करता है । इस प्रकार  
 क्योंकि सब कुछ विज्ञानका ही  
 किया हुआ है इसलिये 'विज्ञानमय  
 आत्मा ब्रह्म है' ऐसा कहना ठीक  
 ही है । यही नहीं, इन्द्रादि सम्पूर्ण  
 देवगण विज्ञानब्रह्मकी, जो सबसे  
 पहले उत्पन्न होनेवाला होनेसे  
 ज्येष्ठ है अथवा समस्त वृत्तियों  
 विज्ञानपूर्वक होनेके कारण जो  
 प्रथमोत्पन्न है, उस विज्ञानरूप ब्रह्मकी  
 उपासना अर्थात् ध्यान करते हैं ।  
 तात्पर्य यह है कि वे उस विज्ञानमय  
 ब्रह्ममें अभिमान करके उसकी  
 उपासना करते हैं । अतः वे उस  
 महद्ब्रह्मकी उपासना करनेसे ज्ञान  
 और ऐश्वर्यसम्पन्न होते हैं ।

उस विज्ञानरूप ब्रह्ममें यदि  
 जान ले—केवल जान ही न ले बल्कि  
 यदि उससे प्रमाद भी न करे, बाह्य  
 अनात्मपदार्थोंमें आत्मबुद्धि की  
 हुई है, उसके कारण विज्ञानमय  
 ब्रह्ममें की हुई आत्मभावनासे प्रमाद



प्रमदनं तन्नित्यर्थमुच्यते तस्मा-  
च्चेन्न प्रमाद्यतीति, अन्नमयादिष्वा-  
त्मभावं हित्वा केवले विज्ञान-  
मये ब्रह्मण्यात्मत्वं भावयन्नास्ते  
चेदित्यर्थः ।

ततः किं सादित्युच्यते—

विज्ञानब्रह्मो- शरीरे पाप्मनो  
पापनफल्म् हित्वा । शरीराभि-  
माननिमित्ता हि सर्वे पाप्मानः  
तेषां च विज्ञानमये ब्रह्मण्यात्माभि-  
मानान्निमित्तापाये हानमुपपद्यते,  
छत्रापाय इच्छयापायः ।

तस्माच्छरीराभिमाननिमित्तान्  
सर्वान्पाप्मनः शरीरप्रभवाञ्छरीर  
एव हित्वा विज्ञानमयब्रह्मस्वरू-  
पापन्नस्तत्स्थान्सर्वान्कामान्विज्ञा-  
नमयेनैवात्मना समश्नुते सम्य-  
ग्भुङ्क्त इत्यर्थः ।

तस्य पूर्वस्य मनोमयस्यात्मैप

मानस्य  
कार्पात्मनः-

एव शरीरे मनोमये

मयः शरीरः । कः ?

य एव विज्ञानमयः । तस्माद्वा

होना सम्भव है; उसकी निवृत्तिके  
लिये कहते हैं—(यदि उससे प्रमाद  
न करे) इत्यादि । तात्पर्य यह है  
कि यदि अन्नमय आदिमें आत्मभाव-  
को छोड़कर केवल विज्ञानमय ब्रह्ममें  
ही आत्मत्वको भावना करके स्थित  
रहे—

तो क्या होगा ? इसपर कहते  
हैं—शरीरके पापोंको त्यागकर,  
सम्पूर्ण पाप शरीराभिमानके कारण  
ही होनेवाले हैं; विज्ञानमय ब्रह्ममें  
आत्मत्वका अभिमान करनेसे निमित्त-  
का क्षय हो जानेपर उनका भी  
क्षय होना उचित ही है, जिस  
प्रकार कि छातेके हटा लिये जानेपर  
छायाकी भी निवृत्ति हो जाती है ।  
अतः शरीराभिमानके कारण होने-  
वाले शरीरजनित सम्पूर्ण पापोंको  
शरीरहीमें त्यागकर विज्ञानमय ब्रह्म-  
स्वरूपको प्राप्त हुआ साधक उसमें  
स्थित सारे भोगोंको विज्ञानमय  
स्वरूपसे ही सम्यक्प्रकारसे प्राप्त  
कर लेता है अर्थात् उनका पूर्णतया  
उपभोग करता है ।

उस पूर्वकथित मनोमयका शरीर—

मनोमय शरीरमें रहनेवाला आत्मा  
भी यही है । कौन ? यह जो  
विज्ञानमय है । 'तस्माद्वा एस्मतात्'

एतस्मादित्युक्तार्थम् । आनन्द-  
मय इति कार्यात्मप्रतीतिरधि-  
कारान्मयट्शब्दाच्च । अन्नादि-  
मया हि कार्यात्मानो भौतिका  
इहाधिकृताः । तदधिकारपतित-  
श्चायमानन्दमयः, मयट् चात्र वि-  
कारार्थे दृष्टो यथान्नमय इत्यत्र ।  
तस्मात्कार्यात्मानन्दमयः प्रत्ये-  
तव्यः ।

संक्रमणाच्च; आनन्दमयमा-  
त्मानमुपसंक्रामतीति वक्ष्यति ।  
कार्यात्मनां च संक्रमणमनात्मनां  
दृष्टम् । संक्रमणकर्मत्वेन चा-  
नन्दमय आत्मा श्रूयते । यथान्न-  
मयमात्मानमुपसंक्रामतीति । न  
चात्मन एवोपसंक्रमणम् । अधि-  
कारनिरोधादसंभवाच्च । न ह्या-

इत्यादि वाक्यका अर्थ पहले कहा  
जा चुका है । 'आनन्दमय' इस  
शब्दसे कार्यात्माकी प्रतीति होती  
है, क्योंकि यहाँ उसीका अधिकार  
( प्रसङ्ग ) है और आनन्दके साथ  
'मयट्' शब्दका प्रयोग किया गया  
है । यहाँ अन्नमय आदि भौतिक  
कार्यात्माओंका अधिकार है, उन्हींके  
अन्तर्गत यह आनन्दमय भी है ।  
'मयट्' प्रत्यय भी यहाँ विकारके  
अर्थमें देखा गया है, जैसा कि  
'अन्नमय' इस शब्दमें है । अतः  
आनन्दमय कार्यात्मा है—ऐसा  
जानना चाहिये ।

संक्रमणके कारण भी यही बात  
सिद्ध होती है । 'यह आनन्दमय  
आत्माके प्रति संक्रमण करता है  
[ अर्थात् आनन्दमय आत्माको प्राप्त  
होता है ]' ऐसा आगे ( अष्टम  
अनुवाकमें ) कहेंगे । अन्नमयादि  
अनात्मा कार्यात्माओंका ही संक्रमण  
होना देखा गया है । और संक्रमणके  
कर्मरूपसे आनन्दमय आत्माका  
श्रवण होता है, जैसे कि 'यह  
अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण  
( गमन ) करता है' [ इस वाक्यमें  
देखा जाता है ] । स्वयं आत्माका  
ही संक्रमण होना सम्भव है नहीं,  
क्योंकि इसमें उस प्रसङ्गमें निरोध  
आता है और ऐसा होना सम्भव  
भी नहीं है । आत्माका आत्माको

त्मनैवात्मन उपसंक्रमणं संभवति । स्वात्मनि भेदाभावात् ।  
आत्मभूतं च ब्रह्म सङ्क्रमितुः ।  
शिरआदिकल्पनानुपपत्तेश्च ।

न हि यथोक्तलक्षण आकाशादिकारणेऽकार्यपतिते शिरआद्यवयरूपकल्पनोपपद्यते । “अदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयने” (तै० उ० २ । ७ । १ ) “अस्थूलमनणु” ( वृ० उ० ३ । ८ । ८ ) “नेति नेत्यात्मा” ( वृ० उ० ३ । ९ । २६ ) इत्यादिविशेषापोहश्रुतिभ्यश्च ।

मन्त्रोदाहरणानुपपत्तेश्च । न हि प्रियशिरआद्यवयवविशिष्टे प्रत्यक्षतोऽनुभूयमान आनन्दमय आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्मेत्याशङ्काभावात् “असन्नेव संभवति । असद्ब्रह्मेति वेद चेत्” ( तै० उ० २ । ६ । १ ) इति

ही प्राप्त होना कभी सम्भव नहीं है; क्योंकि अपने आत्मामें भेदका सर्वथा अभाव है और ब्रह्म भी संक्रमण करनेवालेका आत्मा ही है ।

[ आत्मामें ] शिर आदिकी कल्पना असम्भव होनेके कारण भी [ आनन्दमय कार्यात्मा ही है ] । आकाशादिके कारण और कार्यवर्गके अन्तर्गत न आनेवाले उपर्युक्त लक्षणविशिष्ट आत्मामें शिर आदि अवयवरूप कल्पनाका होना संगत नहीं है । आत्मामें विशेष धर्मोका बाध करनेवाली “अदृश्य, अशरीर, अनिर्वचनीय और अनाश्रयमें” “स्थूल और सूक्ष्मसे रहित” “आत्मा यह नहीं है यह नहीं है” इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही बात सिद्ध होती है ।

[ आनन्दमयको यदि आत्मा माना जाय तो ] आगे कहे हुए मन्त्रका उदाहरण देना भी नहीं बनता । शिर आदि अवयवोंसे युक्त आनन्दमय आत्मारूप ब्रह्मके प्रत्यक्ष अनुभव होनेपर तो ऐसी शंका ही नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है, जिससे कि [ उस शंकाकी निवृत्तिके लिये ] “जो पुरुष, ब्रह्म नहीं है—ऐसा जानता है वह असद्ब्रह्म

मन्त्रोदाहरणमुपपद्यते । ब्रह्म पुच्छं  
प्रतिष्ठेत्यपि चानुपपन्नं पृथग्-  
ग्रहणः प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम् ।  
तस्मात्कार्यपतित एवानन्दमयो  
न पर एवात्मा ।

आनन्द इति विद्याकर्मणोः

आनन्दमयकोश फलं तद्विकार आ-  
प्रतिष्ठादनम् नन्दमयः । स च

विज्ञानमयादान्तरः । यज्ञा-

दिहेतोर्विज्ञानमयादस्यान्तरत्व-

श्रुतेः । ज्ञानकर्मणोर्हि फलं

मोक्षत्रयत्वादान्तरतमं स्यात् ।

आन्तरतमश्चानन्दमय आत्मा

पूर्वेभ्यः । विद्याकर्मणोः प्रिया-

द्यथन्त्याश्च । प्रियादिप्रयुक्ते हि

विद्याकर्मणी । तस्मात्प्रियादीनां

फलरूपाणामात्मसंनिकर्षाद्वि-

ज्ञानमयस्याभ्यन्तरत्वमुपपद्यते ।

प्रियादिवासनानिर्घृतो ज्ञानन्द-

ही है" इस मन्त्रका उल्लेख संगत  
हो सके । तथा 'ब्रह्म पुच्छ-प्रतिष्ठा  
है' इस वाक्यके अनुसार प्रतिष्ठा-  
रूपसे ब्रह्मको पृथक् ग्रहण करना  
भी नहीं बन सकता । अतः यह  
आनन्दमय कार्यवर्गके अन्तर्गत ही  
है—परमात्मा नहीं है ।

'आनन्द' यह उपासना और  
कर्मका फल है, उसका विचार  
आनन्दमय कहलाता है । वह  
विज्ञानमय कोशसे आंतर है, क्योंकि  
श्रुतिके द्वारा वह यज्ञादिके कारणभूत  
विज्ञानमयकी अपेक्षा आन्तर बतलाया  
गया है । उपासना और कर्मका फल  
भोक्ताके ही लिये है, इसलिये वह  
सबसे आन्तरतम होना चाहिये, सं-  
पूर्वोक्त सब कोशोंकी अपेक्षा  
आनन्दमय आत्मा आन्तरतम है ही,  
क्योंकि विद्या और कर्म भी  
[ प्रधानतया ] प्रिय आदिके ही लिये  
हैं । प्रिय आदिकी प्राप्तिके उद्देश्यसे  
ही उपासना और कर्मका अनुष्ठान  
किया जाता है, अतः उनके फलरूप  
प्रिय आदिका आत्मासे सान्निध्य  
हानेके कारण विज्ञानमयकी अपेक्षा  
इस ( आनन्दमय कोश ) का  
आन्तरतम होना उचित ही है ।  
प्रिय आदिकी वासनासे निष्पन्न

मयो विज्ञानमयाश्रितः स्वप्न उप-  
लभ्यते ।

तस्यानन्दमयस्यात्मन इष्ट-

आनन्दमयस्य पुत्रादिदर्शनजं प्रियं  
पुत्रविषयत्वम् शिर इव शिरः  
प्राधान्यात् । मोद इति प्रिय-  
लाभनिमित्तो हर्षः । स एव च  
प्रकृष्टो हर्षः प्रमोदः । आनन्द  
इति सुखसामान्यमात्मा प्रिया-  
दीनां सुखावयवानाम् । तेष्वनु-  
स्यूतत्वात् ।

आनन्द इति परं ब्रह्म । तद्वि-  
शुभकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने  
पुत्रमित्रादिविषयविशेषोपाधाव-  
न्तःकरणवृत्तिविशेषे तमसा प्र-  
च्छाद्यमाने प्रसन्नेऽभिन्वज्यते ।  
तद्विषयसुखमिति प्रसिद्धं लोके ।  
तद्वृत्तिविशेषप्रत्युपस्थापकस्य क-  
र्मणोऽनवस्थितत्वात्सुखस्य क्षणि-  
कत्वम् । तद्यदान्तःकरणं तपसा  
तमोग्नेन विद्यया ब्रह्मचर्येण श्रद्धया

हुआ यह आनन्दमय स्वप्नावस्थामें  
विज्ञानमयके अधीन ही उपलब्ध  
होता है ।

उस आनन्दमय आत्माका पुत्रादि  
इष्ट पदार्थके दर्शनसे होनेवाला  
प्रिय ही प्रधानताके कारण शिरके  
समान शिर है । प्रिय पदार्थकी  
प्राप्तिसे होनेवाला हर्ष 'मोद'  
कहलाता है; वही हर्ष प्रकृष्ट  
( अतिशय ) होनेपर 'प्रमोद' कहा  
जाता है । 'आनन्द' सामान्य  
सुखका नाम है; वह सुखके  
अवयवभूत प्रिय आदिका आत्मा है;  
क्योंकि उसीमें वे सब अनुस्यूत हैं ।

'आनन्द' यह परब्रह्मका ही  
वाचक है । वही शुभकर्मद्वारा  
प्रस्तुत किये हुए पुत्र-मित्रादि विशेष  
विषय ही जिसकी उपाधि हैं उस  
सुप्रसन्न अन्तःकरणकी वृत्तिविशेष-  
में, जब कि वह तमोगुणमें आच्छादित  
नहीं होता, अभिव्यक्त होता है ।  
यह लोकमें विषय-सुख नामसे प्रसिद्ध  
है । उस वृत्तिविशेषको प्रस्तुत  
करनेवाले कर्मके अस्थिर होनेके  
कारण उस सुखकी भी क्षणिकता  
है । अतः जिस समय अन्तःकरण  
तमोगुणको नष्ट करनेवाले तप,  
उपासना, ब्रह्मचर्य और श्रद्धाके द्वारा

च निर्मलत्वमापद्यते याप्रद्याव-  
चाप्रचावद्विगित्ते प्रसन्नेऽन्तः-  
करण आनन्दविशेष उत्कृष्यते  
त्रिपुलीभवति । वक्ष्यति च—  
“रसो वै सः । रमश्छेवायं  
लब्ध्वानन्दी भवति । एष छेवान-  
न्दयाति” ( तै० उ० २ । ७ ।  
१ ) “एतस्यैवानन्दस्यान्यानि  
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” ( बृ०  
उ० ४ । ३ । ३२ ) इति च  
श्रुत्यन्तरात् । एवं च कामोप-  
शमोत्कर्षापेक्षया शतगुणोत्तरो-  
त्तरोत्कर्ष आनन्दस्य वक्ष्यते ।

एवं चोत्कृष्यमाणस्यानन्द-  
मयस्यात्मनः परमार्थब्रह्मविज्ञाना-  
पेक्षया ब्रह्म परमेव । यत्प्रकृतं  
सत्यज्ञानानन्तलक्षणम्, यस्य  
च प्रतिपच्यर्थं पश्चान्नादिमयाः  
कोशा उपन्यस्ताः, यच्च तेभ्य  
आभ्यन्तरम्, येन च ते सर्व  
आत्मवन्तः, तद्ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ।

जितना-जितना निर्मलताको प्राप्त  
होना है उतने उतने ही क्षुब्ध और  
प्रसन्न हुए उस अन्त करणमें विशेष  
आनन्दका उत्कर्ष होता है अर्थात्  
वह बहुत बढ़ जाता है । यही बात  
“वह रस ही है, इस रसको पाकर  
ही पुरुष आनन्दी हो जाता है ।  
यह रस ही सबको आनन्दित करता  
है ।” इस प्रकार आगे कहेंगे,  
तथा “इस आनन्दके अशमात्रके  
आश्रय ही सब प्राणी जीवित रहते  
हैं” इस अन्य श्रुतिसे भी यही बात  
सिद्ध होती है । इसी प्रकार काम-  
शान्तिके उत्कर्षकी अपेक्षा आगे-  
आगेके आनन्दका सौ-सौ गुना  
उत्कर्ष आगे बतलाया जायगा ।

इस प्रकार परमार्थ ब्रह्मके विज्ञान-  
की अपेक्षासे क्रमश उत्कर्षको प्राप्त  
होनेवाले आनन्दमय आत्माकी  
अपेक्षा ब्रह्म पर ही है । जो प्रकृत  
ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप है,  
जिसकी प्राप्तिके लिये अन्नमय आदि  
पाँच कोशोंका उपन्यास किया गया  
है, जो उन सबकी अपेक्षा अन्तर्वर्ती  
है, और जिसके द्वारा वे सब  
आत्मवान् हैं—वह ब्रह्म ही उस  
आनन्दमयकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है ।

तदेव च सर्वस्याविद्यापरि-  
 कल्पितस्य द्वैतस्यावसानभूत-  
 मद्वैतं ब्रह्म प्रतिष्ठा आनन्द-  
 मयस्य । एकत्वावसानत्वात् ।  
 अस्ति तदेकमविद्याकल्पितस्य  
 द्वैतस्यावसानभूतमद्वैतं ब्रह्म  
 प्रतिष्ठा पुच्छम् । तदेतस्मिन्नप्यर्थ  
 एष श्लोको भवति ॥ १ ॥

अविद्याद्वारा कल्पना किये हुए  
 सम्पूर्ण द्वैतका निषेधावधिभूत वह  
 अद्वैत ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है;  
 क्योंकि आनन्दमयका पर्यवसान भी  
 एकत्वमें ही होता है । अविद्या-  
 परिकल्पित द्वैतका अवसानभूत वह  
 एक और अद्वितीय ब्रह्म उसकी  
 प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है । उस इसी  
 अर्थमें यह श्लोक है ॥ १ ॥

इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥



## षष्ठ अनुवाक

ब्रह्मको सत् और असत् जाननेवालोंका भेद, ब्रह्मज्ञ और अब्रह्मज्ञकी  
ब्रह्मप्राप्तिके विषयमें ज्ञाना तथा सम्पूर्ण प्रपञ्चरूपसे  
ब्रह्मके स्थित होनेका निरूपण

असन्नेव स भवति । असद्ब्रह्मेति वेद चेत् । अस्ति  
ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति । तस्यैव एव  
शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । अथातोऽनुप्रश्नाः । उता-  
विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छती ३ । आहो विद्वान-  
नमु लोकं प्रेत्य कश्चित्समश्नुता ३ उ । सोऽकामयत ।  
बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा  
इदं सर्वमसृजत यदिदं किंच । तत्सृष्ट्वा तदेवानु-  
प्राविशत् । तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत् । निरुक्तं  
चानिरुक्त च । निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चावि-  
ज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् । यदिदं किंच ।  
तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येव श्लोको भवति ॥ १ ॥

यदि पुरुष 'ब्रह्म असत् है' ऐसा जानता है तो वह स्वयं भी असत्  
ही हो जाता है । और यदि ऐसा जानता है कि 'ब्रह्म है' तो [ ब्रह्मवेत्ता-  
जन ] उसे सत् समझते हैं । उस पूर्वकथित ( विज्ञानमय ) का यह  
जो [ आनन्दमय ] है शरीर-स्थित आत्मा है । अब ( आचार्यका ऐसा  
उपदेश सुननेके अनन्तर शिष्यके ) ये अनुप्रश्न हैं—क्या कोई अविद्वान्  
पुरुष भी इस शरीरको छोड़नेके अनन्तर परमात्माको प्राप्त हो सकता  
है ? अथवा कोई विद्वान् भी इस शरीरको छोड़नेके अनन्तर परमात्माको



प्राप्त होता है या नहीं ! [ इन प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये आचार्य भूमिका ब्रँधते हैं—] उस परमात्माने कामना की 'मैं बहुत हो जाऊँ अर्थात् मैं उत्पन्न हो जाऊँ ।' अतः उसने तप किया । उसने तप करके ही यह जो कुछ है इस सबकी रचना की । इसे रचकर वह इसीमें अनुप्रविष्ट हो गया । इसमें अनुप्रवेश कर वह सत्यस्वरूप परमात्मा मूर्त्त-अमूर्त्त, [ देशकालादि परिच्छिन्नरूपसे ] कहे जानेयोग्य और न कहे जानेयोग्य, आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं व्यावहारिक सत्य-असत्य-रूप हों गया । यह जो कुछ है उसे ब्रह्मवेत्ता लोग 'सत्य' इस नामसे पुकारते हैं । उसके विषयमें ही यह श्लोक है ॥ १ ॥

असन्नेवासत्सम एव यथा-

सन्न पुरुषार्थसंबन्धे  
सदसदादिभेदः  
न्ध्येवं स भवति

अपुरुषार्थसंबन्धी । कोऽसौ ?

योऽसदविद्यमानं ब्रह्मेति वेद

विजानाति चेद्यदि । तद्विपर्ययेण

यत्सर्वविकल्पास्पदं सर्वप्रवृत्ति-

बीजं सर्वविशेषप्रत्यस्तमितमध्य-

स्ति तद्ब्रह्मेति वेद चेत् ।

कुतः पुनराशङ्का तन्नास्तित्वे ?

व्यवहारातीतत्वं ब्रह्मण इति

ब्रूमः । व्यवहारविषये हि वाचा-

जिस प्रकार असत् (अविद्यमान) पदार्थ पुरुषार्थसे सम्बन्ध रखनेवाला नहीं होता उसी प्रकार वह भी असत्—असत्के समान ही पुरुषार्थसे सम्बन्ध नहीं रखनेवाला हों जाता है—वह कौन ? जो 'ब्रह्म असत्—अविद्यमान है' ऐसा जानता है । 'चेत्' शब्दका अर्थ 'यदि' है । इसके विपरीत 'जो तत्त्व सम्पूर्ण विकल्पोंका आश्रय, समस्त प्रवृत्तियोंका बीजरूप और सम्पूर्ण विशेषोंसे रहित भी है वही ब्रह्म है' ऐसा यदि कोई जानता है [ तो उसे ब्रह्मवेत्तालोग सद्रूप समझते हैं इस प्रकार इसका आगेके वाक्यने सम्बन्ध है ] ।

किन्तु ब्रह्मके अस्तित्वाभावके विषयमें शंका क्यों की जाती है ? [ इसपर ] हमारा यह कथन है कि ब्रह्म व्यवहारसे परे है । [ इसीलिये ] व्यवहारके विषयमूलक पदार्थों-

रम्भणमात्रेऽस्तित्वमाविता बुद्धि-

स्तद्विपरीते व्यवहारातीते नास्ति-

त्वमपि प्रतिपद्यते । यथा घटा-

दिव्यवहारविषयतयोपपन्नः सं-

स्तद्विपरीतोऽभन्निति प्रसिद्धम् ।

एवं तत्सामान्यादिहापि साद्रस-

णो नास्तित्वप्रत्याशङ्का । तस्मा-

दुच्यते-अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेदेति ।

किं पुनः स्यात्तदस्तीति वि-

जानतस्त्वदाह-सन्तं विद्यमान-

ब्रह्मस्वरूपेण परमार्थसदात्मापन्न-

मेनमेवंविदं विदुर्ब्रह्मविदस्तत-

स्तस्मादास्तित्ववेदानान्सोऽन्येषां

ब्रह्मवद्विज्ञेयो भवतीत्यर्थः ।

अथवा यो नास्ति ब्रह्मेति

मन्यते स सर्वस्यैव सन्मार्गस्य

वर्णाश्रमादिव्यवस्थालक्षणस्याध-

में ही, जो कि केवल बाणीसे ही

उच्चारण किये जानेवाले हैं, अस्तित्व-

की भावनासे भाविन हुई बुद्धि

उनसे विपरीत व्यवहारातीत पदार्थों-

में अस्तित्वका भी अनुभव नहीं

करती, जैसे कि [ जल लयना आदि ]

व्यवहारके विषयरूपसे उत्पन्न हुआ

घट आदि पदार्थ 'सत्' और उससे

विपरीत [ वन्व्यापुत्रादि ] 'असत्'

होता है-इस प्रकार प्रसिद्ध है ।

उसी प्रकार उसकी समानताके

कारण यहाँ भी ब्रह्मके अविद्यमानत्व-

के विषयमें शंका हो सकती है ।

इसीलिये कहा है-ब्रह्म है-ऐसा

यदि कोई जानता है' इत्यादि ।

नित्तु 'वह ( ब्रह्म ) है' ऐसा

जाननेवाले पुरुषको क्या फल मिलता

है ? इसपर कहते हैं-ब्रह्मवेत्तालोग

इस प्रकार जाननेवाले इस पुरुषको

सत्-विद्यमान अर्थात् ब्रह्मरूपसे

परमार्थ स्वरूपको प्राप्त हुआ

समझते हैं । तात्पर्य यह है कि इस

कारणसे ब्रह्मके अस्तित्वका जाननेके

कारण वह दूसरोंके लिये ब्रह्मके

समान जाननेयोग्य हो जाता है ।

अथवा जो पुरुष ब्रह्म नहीं

है' ऐसा मानता है, वह अश्रद्धालु

होनेके कारण, वर्णाश्रमादि व्यवस्था-

रूप सारे ही शुभमार्गका,

इधान्तया नास्तित्वं प्रतिपद्यते-  
ऽब्रह्मप्रतिपत्त्यर्थत्वात्तस्य । अतो  
नास्तिकः सोऽसन्नसाधुरुच्यते  
लोके । तद्विपरीतः सन्योऽस्ति  
ब्रह्मेति चेद्रेदं स तद्ब्रह्मप्रतिपत्ति-  
हेतुं सन्मार्गं वर्णाश्रमादिव्यव-  
स्थालक्षणं श्रद्धान्तया यथा-  
वत्प्रतिपद्यते यस्मात्ततस्तस्मात्  
सन्तं साधुमार्गम्यमेनं विदुः  
साधवः तस्मादस्तीत्येव ब्रह्म  
प्रतिपत्तव्यमिति वाक्यार्थः ।

तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्यैव  
एव शरीरे विज्ञानमये भवः  
शरीर आत्मा । कोऽसौ ? य एष  
आनन्दमयः । तं प्रति नास्त्या-  
शङ्का नास्तित्वे । अपोदसर्व-  
विशेषत्वात्तु ब्रह्मणो नास्तित्वं  
प्रत्याशङ्का युक्ता । सर्वसामा-  
न्याच्च ब्रह्मणः । यस्मादेवमत-  
स्तस्मात् अथानन्तरं श्रोतुः  
शिष्यस्यानुप्रश्ना आचार्योक्तिमनु-  
गते प्रश्ना अनुप्रश्नाः ।

असत्त्व प्रतिपादन करता है;  
क्योंकि वह भी ब्रह्मकी प्रातिके ही  
लिये है । अतः वह नास्तिक लोकमें  
असत्-असाधु कहा जाता है ।  
इसके विपरीत जो पुरुष 'ब्रह्म है'  
ऐसा जानता है वह 'सत्' है;  
क्योंकि वह उस ब्रह्मकी प्रातिके  
हेतुभूत वर्णाश्रमादिके व्यवस्थारूप  
सन्मार्गको श्रद्धापूर्वक ठीक-ठीक  
जानता है । इसीलिये साधुजगत् उसे  
सत् यानी शुभ मार्गमें स्थित जानते  
हैं । अतः 'ब्रह्म है' ऐसा ही  
जानना चाहिये—यह इस वाक्यका  
अर्थ है ।

उस विज्ञानमयका यही शरीर—  
विज्ञानमय शरीरमें रहनेवाला आत्मा  
है । वह कौन ? यह जो आनन्दमय  
है उसके नास्तित्वमें तो कुछ भी  
शंका नहीं है । किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण  
विशेषणोंसे रहित है इसलिये उसके  
अस्तित्वके अभावमें शंका होना  
उचित ही है । इसके सिवा ब्रह्मकी  
सबके साथ समानता होनेके कारण  
भी [ ऐसी शंका हो ही सकती है ] ।  
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये अब -  
इसके अनन्तर श्रवण करनेवाले  
शिष्यके अनुप्रश्न हैं । आचार्यकी  
इस उक्तिके पश्चात् किये जानेवाले  
ये प्रश्न—अनुप्रश्न हैं—

मामान्यं हि ब्रह्माकाशादि-  
 विददविद्वद्भेदेन कारणत्वाद्विदुषो-  
 ब्रह्मप्राप्तावाशेष ऽविदुषश्च । तस्माद-  
 विदुषोऽपि ब्रह्मप्राप्तिराशङ्क्यते-  
 उत अपि अविद्वानसुं लोकं  
 परमात्मानमितः प्रेत्य कश्चन,  
 चनशब्दोऽप्यर्थे, अविद्वानपि  
 गच्छति प्राप्नोति किं वा न गच्छ-  
 तीति द्वितीयोऽपि प्रश्नो द्रष्ट-  
 व्योऽनुप्रश्ना इति बहुवचनात् ।  
 विद्वांसं प्रत्यन्यौ प्रश्नौ । यद्य-  
 विद्वान्तामामान्यं कारणमपि ब्रह्म  
 न गच्छति ततो विदुषोऽपि  
 ब्रह्मागमनमाशङ्क्यते । अतस्तं  
 प्रति प्रश्न आहो विद्वानिति ।  
 उकारं च वक्ष्यमाणमघस्तादप-  
 कृष्य तकारं च पूर्व-  
 स्मादुतशब्दाद्व्यामज्याहो इत्ये-  
 तस्मात्पूर्वमुतशब्दं सयोज्य  
 पृच्छति—उताहो विद्वानिति ।

आकाशादिका कारण होनेसे  
 ब्रह्म विद्वान् और अविद्वान् दोनों-  
 हीके लिये समान है । इससे  
 अविद्वान्को भी ब्रह्मकी प्राप्ति होती  
 है—ऐसी आशका की जाती है—  
 क्या कोई अविद्वान् पुरुष भी इस  
 शरीरको छोड़नेके अनन्तर इस लोक  
 अर्थात् परमात्माको प्राप्त हो जाता  
 है ?—'कश्चन' में 'चन' शब्द 'अपि  
 (भी)' के अर्थमें है । 'अथवा  
 नहीं होता ?' यह इसके साथ  
 दूसरा प्रश्न भी समझना चाहिये,  
 क्योंकि यहाँ 'अनुप्रश्ना' ऐसा बहु-  
 वचनका प्रयोग किया गया है ।

अन्य दो प्रश्न विद्वान्के विषयमें  
 हैं—ब्रह्म सबका साधारण कारण है,  
 तब भी यदि अविद्वान् उसे प्राप्त  
 नहीं होता तो विद्वान्के भी ब्रह्ममें  
 प्राप्त न होनेकी आशका होती है,  
 अतः उसके उद्देश्यसे पूछा जाता  
 है—'क्या विद्वान् भी' आदि ।  
 [ मूल मन्त्रमें ] आगे कहे जानेवाले  
 'उ' को आगेसे खींचकर और  
 पूर्वोक्त 'उत' शब्दसे उसमें 'त'  
 जोड़कर 'आहो' इस शब्दके पहले  
 'उत' शब्द जोड़कर 'उताहो विद्वान्'  
 इत्यादि प्रकारसे पूछना है—क्या

विद्वान्ब्रह्मविदपि कश्चिदितः प्रे-  
त्यामुं लोकं समश्नुते प्राप्नोति  
समश्नुते उ इत्येवंस्थिते,  
अयादेशे यलोपे च कृते-  
ऽकारस्य प्लुतिः समश्नुता ३ उ  
इति । विद्वान्समश्नुतेऽमुं  
लोकम् । किं वा यथाविद्वानेवं  
विद्वानपि न समश्नुत इत्यपरः  
प्रश्नः ।

द्वावेव वा प्रश्नौ चिद्वदविद्व-  
द्विपर्यौ । बहुवचनं तु सामर्थ्य-  
प्राप्तप्रश्नान्तरापेक्षया घटते ।  
'असद्ब्रह्मेति वेद चेत् । अस्ति  
ब्रह्मेति चेद्वेद' इति श्रवणादस्ति  
नास्तीति संशयस्ततोऽर्थप्राप्तः कि-  
मस्ति नास्तीति प्रथमोऽनुप्रश्नः ।  
ब्रह्मणोऽपक्षपातित्वाद् विद्वान्  
गच्छति न गच्छतीति द्वितीयः ।  
ब्रह्मणः समत्वेऽप्यविदुष इव

कोई विद्वान् अर्थात् ब्रह्मवेत्ता भी  
इस शरीरको छोड़कर इस लोकको  
प्राप्त कर लेता है ? यहाँ मूलमें  
'समश्नुते उ' ऐसा पद था । उसमें  
'अय्' आदेश करके [ 'लोपः  
शाकल्यस्य' इस सूत्रके अनुसार  
'य्' का लोप करनेपर 'समश्नुत उ'  
ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है । फिर  
'त' के अकारको प्लुत करनेपर  
'समश्नुता ३ उ' ऐसा पाठ हुआ  
है । विद्वान् इस लोकको प्राप्त होता  
है ? अथवा अविद्वान्के समान  
विद्वान् भी उसे प्राप्त नहीं होता ?  
यह एक अन्य प्रश्न है ।

अथवा विद्वान् और अविद्वान्से  
सम्बन्धित ये केवल दो ही प्रश्न हैं ।  
इनकी सामर्थ्यसे प्राप्त एक और  
प्रश्नकी अपेक्षासे ही बहुवचन हो  
गया है । 'ब्रह्म असत् है—यदि  
ऐसा जानता है' तथा 'ब्रह्म है—  
यदि ऐसा जानता है' ऐसी श्रुति  
होनेसे 'ब्रह्म है या नहीं' ऐसा  
सन्देह होता है । अतः 'ब्रह्म है या  
नहीं' यह अर्थतः प्राप्त पहला अनु-  
प्रश्न है । और ब्रह्म पक्षपाती है नहीं,  
इसलिये 'अविद्वान् उसे प्राप्त होता  
है या नहीं ?' यह दूसरा अनुप्रश्न  
है तथा ब्रह्म समान है, इसलिये

विदुषोऽप्यगमनमाशङ्क्यते किं  
विद्वान्समश्नुते न समश्नुत इति  
तृतीयोऽनुप्रश्नः ।

एतेषां प्रतिवचनार्थमुत्तरग्रन्थ

आरम्भ्यते । तत्रा-  
रूपत्वस्थापनम् स्तित्वमेव तावदु-

च्यते । यच्चोक्तम् 'सत्य ज्ञान-  
मनन्तं ब्रह्म' इति तच्च कथं  
सत्यत्वमित्येतद्वक्तव्यमितीदमु-  
च्यते सचोक्त्यैव सत्यत्वमुच्यते ।  
उक्तं हि "सदेव सत्यम्" इति ।  
तस्मात्सचोक्त्यैव सत्यत्वमुच्य-  
ते । कथमेतमर्थतावगम्यतेऽस्य  
ग्रन्थस्य शब्दानुगमात् । अने-  
नैव ह्यर्थेनान्वितान्पुत्रराणि  
वाक्यानि "तत्सत्यमित्याच-  
क्षते" ( तै० उ० २ । ६ । १ )  
"यदेव आकाश आनन्दो न  
स्यात्" ( तै० उ० २ । ७ । १ )  
इत्यादीनि ।

अविद्वान्के समान विद्वान्की भी  
ब्रह्मप्राप्तिके विषयमें 'विद्वान् उसे प्राप्त  
होता है या नहीं ?' ऐसी शका की  
जाती है । यह तीसरा अनुप्रश्न है ।

आगेका ग्रन्थ इन प्रश्नोंका उत्तर  
देनेके लिये ही आरम्भ किया जाता  
है । उममें सबसे पहले ब्रह्मके  
अस्तित्वका ही वर्णन किया जाता  
है । 'ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है'  
ऐसा जो पहले कह चुके हैं, सो  
वह ब्रह्मकी सत्यता किस प्रकार  
है—यह बतलाना चाहिये । इस-  
पर कहते हैं—उसकी सत्ता  
बतलानेसे ही उसके सत्यत्वका भी  
प्रतिपादन हो जाता है । "सत् ही  
सत्य है" ऐसा अन्यत्र कहा भी  
है । अतः उसकी सत्ता बतलानेमें  
ही उमका सत्यत्व भी बतला  
दिया जाता है । किन्तु इस प्रश्न-  
का भी यहाँ तात्पर्य है—यह कैसे  
जाना गया ? इसपर कहते हैं—  
शब्दोंके अनुगमन ( अभिप्राय ) से,  
क्योंकि "वह सत्य है—ऐसा कहते  
हैं" "यदि यह आनन्दमय आकाश  
न होता" आदि आगेके वाक्य भी  
इसी अर्थसे युक्त हैं ।

तत्रासदेव ब्रह्मेत्याशङ्क्यते ।  
 कस्मात् ? यदस्ति तद्विशेषतो  
 गृह्यते यथा घटादि । यन्नास्ति  
 तन्नोपलभ्यते यथा शशविपाणा-  
 दि । तथा नोपलभ्यते ब्रह्म ।  
 तस्माद्विशेषतोऽग्रहणान्नास्तीति ।

तत्र; आकाशादिकारणत्वा-  
 द्ब्रह्मणः । न नास्ति ब्रह्म । कस्मा-  
 दाकाशादि हि सर्वं कार्यं ब्रह्मणो  
 जातं गृह्यते । यस्माच्च जायते  
 किञ्चित्तदस्तीति दृष्टं लोके; यथा  
 घटाङ्कुरादिकारणं मृत्तृजादि ।  
 तस्मादाकाशादिकारणत्वादस्ति  
 ब्रह्म ।

न चासतो जातं किञ्चिद्  
 गृह्यते लोके कार्यम् । असत्त्वेन्ना-  
 मरूपादि कार्यं निरात्मकत्वा-

इसमें यह आशंका की जाती है  
 कि ब्रह्म असत् ही है । ऐसा क्यों  
 है ? क्योंकि जो वस्तु होती है वह  
 विशेषरूपसे उपलब्ध हुआ करती  
 है; जैसे कि घट आदि । और जो  
 नहीं होती उसकी उपलब्धि भी नहीं  
 होती; जैसे—शशशृंगादि । इसी  
 प्रकार ब्रह्मकी भी उपलब्धि नहीं  
 होती । अतः विशेषरूपसे ग्रहण न  
 किया जानेके कारण वह है ही नहीं ।

ऐसी बात नहीं है; क्योंकि ब्रह्म  
 आकाशादिका कारण है । ब्रह्म नहीं  
 है—ऐसी बात नहीं है । क्यों नहीं  
 है ? क्योंकि ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ  
 आकाशादि सम्पूर्ण कार्यवर्ग  
 देखनेमें आता है । जिससे किसी  
 वस्तुका जन्म होता है वह पदार्थ  
 होता ही है—ऐसा लोकमें देखा गया  
 है; जैसे कि घट और अङ्कुरादिके  
 कारण मृत्तिका एवं बीज आदि ।  
 अतः आकाशादिका कारण हानसे  
 ब्रह्म है ही ।

लोकमें असत्से उत्पन्न हुआ  
 कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता ।  
 यदि नाम-रूपादि कार्यवर्ग असत्से  
 उत्पन्न हुआ होता तो वह निराधार

न्नोपलभ्येत । उपलभ्यते तु;  
तस्मादस्ति ब्रह्म । असत्त्वेत्कार्यं  
गृह्यमाणमप्यमदन्वितमेव तत्  
स्यात् । न चैवम्; तस्मादस्ति  
ब्रह्म तत्र । “कथमसत्तः सज्जायेत”  
( छा० उ० ६ । २ । २ ) इति  
श्रुत्यन्तरममतः सज्जन्मासंभव-  
मन्याचष्टे न्यायतः । तस्मात्सदेव  
ब्रह्मेति युक्तम् ।

तद्यदि मृद्भीजादिवत्कारणं  
स्यादचेतन तर्हि ?

न, कामयितृत्वात् । न हि

ब्रह्मणश्चित्स्वरूपत्वं-कामयित्रचेतनमस्ति

विवेचनम् लोके । सर्वज्ञ हि

ब्रह्मेत्यर्वाचाम । अतः कामयि-  
तृत्वोपपत्तिः ।

होनेके कारण ग्रहण ही नहीं किया  
जा सकता था । किन्तु वह ग्रहण  
किया ही जाता है, इसलिये ब्रह्म है  
ही । यदि यह कार्यवर्ग असत्से  
उत्पन्न हुआ होता तो ग्रहण किये  
जानेपर भी असदात्मक ही ग्रहण  
किया जाता । किन्तु ऐसी बात है  
नहीं । इसलिये ब्रह्म है ही । इसी  
सम्बन्धमें “अमत्से सत् कैसे उत्पन्न  
हो सकता है” ऐसी एक अन्य  
श्रुतिने युक्तिपूर्वक असत्से सत्का  
जन्म होना असंभव बनलया है ।  
इसलिये ब्रह्म सत् ही है—यही मत  
ठीक है ।

शङ्का—यदि ब्रह्म मृत्तिका और  
बीज आदिके समान [ जगत्का  
उपादान ] कारण है तो वह अचेतन  
होना चाहिये ।

समाधान—नहीं, क्योंकि वह  
कामना करनेवाला है । लोकमें कोई  
भी कामना करनेवाला अचेतन नहीं  
हुआ करता । ब्रह्म सर्वज्ञ है—यह  
हम पहले कह चुके हैं । अतः  
उसका कामना करना भी युक्त  
ही है ।



कामयितृत्वादसदादिवदना-

सकाममिति चेत् ?

न, स्वातन्त्र्यात् । यथान्यान्

परवशीकृत्य कामादिदोषाः

प्रवर्तयन्ति न तथा ब्रह्मणः

प्रवर्तकाः कामाः । कथं तर्हि

सत्यज्ञानलक्षणाः स्वात्मभूतत्वा-

द्विशुद्धा न तैर्ब्रह्म प्रवर्त्यते ।

तेषां तु तत्प्रवर्तकं ब्रह्म प्राणि-

कर्मापेक्षया । तस्मात्स्वातन्त्र्यं

कामेषु ब्रह्मणः । अतो नानास-

कामं ब्रह्म ।

साधनान्तरानपेक्षत्वाच्च । किं

च यथान्येषामनात्मभूता धर्मा-

दिनिमित्तापेक्षाः कामाः स्वात्म-

व्यतिरिक्तकार्यकरणसाधनान्त-

रापेक्षाश्च न तथा ब्रह्मणो निमि-

शङ्का—कामना करनेवाला होनेसे तो वह हमारी-तुम्हारी तरह अनास-काम (अपूर्ण कामनावाला) सिद्ध होगा ।

समाधान—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह स्वतन्त्र है । जिस प्रकार काम आदि दोष अन्य जीवोंको विवश करके प्रवृत्त करते हैं उस प्रकार वे ब्रह्मके प्रवर्तक नहीं हैं । तो वे कसे हैं ? वे सत्य-ज्ञान-स्वरूप एवं स्वात्मभूत होनेके कारण विशुद्ध हैं । उनके द्वारा ब्रह्म प्रवृत्त नहीं किया जाता; बल्कि जीवोंके प्रारब्ध-कर्मोंकी अपेक्षासे वह ब्रह्म ही उनका प्रवर्तक है । अतः कामनाओंके करनेमें ब्रह्मकी स्वतन्त्रता है । इसलिये ब्रह्म अनास-काम नहीं है ।

किन्हीं अन्य साधनोंकी अपेक्षा-वाला न होनेसे भी कामनाओंके विषयमें ब्रह्मकी स्वतन्त्रता है । जिस प्रकार धर्मादि कारणोंकी अपेक्षा रखनेवाली अन्य जीवोंकी अनात्मभूत कामनाएँ अपने आत्मासे अतिरिक्त देह और इन्द्रियरूप अन्य साधनोंकी अपेक्षावाली होती हैं उस प्रकार ब्रह्मको निमित्त आदिकी अपेक्षा

त्ताद्यपेक्षत्वम् । किं तर्हि स्वात्म-  
नोऽनन्याः ।

तदेतदाह सोऽकामयत स

ब्रह्मणो

आत्मा यन्मादाकाशः

बहुभवनसङ्ख्य

संभूतोऽकामयत

कामितवान् । कथम् ? बहु स्यां

बहु प्रभूतं स्या भवेयम् । कथमे-

कस्यार्थान्तराननुप्रवेशे बहुत्वं

स्यादित्युच्यते । प्रजायेयोत्पद्येय ।

न हि पुत्रोत्पत्त्येवार्थान्तरविषयं

बहुमवनम्, कथं तर्हि ? आत्म-

स्थानामिव्यक्तनामरूपामिव्य-

क्त्या । यदात्मस्थे अनभि-

व्यक्ते नामरूपे व्याक्रियेते तदा

नामरूपे आत्मस्वरूपापरित्यागे-

नैव ब्रह्मणाप्रविभक्तदेशकाले

सर्वाविस्थासु व्याक्रियेते तदा

तन्नामरूपव्याकरणं ब्रह्मणो बहु-

भवनम् । नान्यथा निरवयवस्य

ब्रह्मणो बहुत्वापत्तिरुपपद्यतेऽल्प-

नहीं होती । तो ब्रह्मकी कामनाएँ  
कैसी होती हैं ? वे स्वात्मामे  
अभिन्न होती हैं ।

उसीके विषयमें श्रुति कहती है—

उसने कामना की—उस आत्माने,

जिससे कि आकाश उत्पन्न हुआ

है, कामना की । किस प्रकार

कामना की ? मैं बहुत—अधिरू

रूपमें हो जाऊँ । अन्य पदार्थमें प्रवेश

किये बिना ही एक वस्तुकी बहुलता

कैसे हो सकती है ? इसपर कहते

हैं—'प्रजायेय' अर्थात् उत्पन्न होऊँ ।

यह ब्रह्मका बहुत होना पुत्रकी

उत्पत्तिके समान अन्य वस्तुविषयक

नहीं है । तो फिर कैसा है ? अपने-

में अव्यक्तरूपसे स्थित नाम-रूपोंकी

अभिव्यक्तिके द्वारा ही [ यह अनेक

रूप होना है ] । जिस समय

आत्मामें स्थित अव्यक्त नाम आर

रूपोंका व्यक्त किया जाता है उस

समय वे अपने स्वरूपका त्याग किये

बिना ही समस्त अत्रस्याओंमें ब्रह्मसे

अभिन्न देश और कालमें ही व्यक्त

किये जाते हैं । यह नाम-रूपका

व्यक्त करना ही ब्रह्मका बहुत होना  
है । इसके सिवा आर किसी प्रकार  
निरवयव ब्रह्मका बहुत अपना अन्य  
होना सम्भव नहीं है, जिस प्रकार

त्वं वा । यथाकाशस्याल्पत्वं बहु-  
त्वं च वस्त्वन्तरकृतमेव । अतस्त-  
द्द्वारेणैवात्मा बहु भवति ।

न आत्मनोऽन्यदनात्मभूतं  
तत्प्रविमक्तदेशकालं सूक्ष्मं व्यव-  
हितं विप्रकृष्टं भूतं भवद्भविष्यद्वा  
वस्तु विद्यते । अतो नामरूपे  
सर्वास्थे ब्रह्मणैवात्मवती, न  
ब्रह्म तदात्मकम् । ते तत्प्रत्या-  
ख्यानं न स्त एवेति तदात्मके  
उच्येते । ताभ्यां चोपाधिभ्यां  
ज्ञातृज्ञेयज्ञानशब्दार्थादिसर्वसं-  
व्यवहारभाग्ब्रह्म ।

न आत्मैवकामः संस्तपो-  
ऽतप्यत । तप इति ज्ञानमुच्यते ।  
“यस्य ज्ञानमयं तपः” (सु० उ०  
१ । १ । ८) इति श्रुत्यन्तरात् ।  
आप्तकामत्वाच्चेतरस्यासंभव एव  
तपसः । तत्तपोऽतप्यत तप्तवान् ।

कि आकाशका अल्पत्व और बहुतव  
भी अन्य वस्तुके ही अधीन है  
[ उसी प्रकार ब्रह्मका भी है ] । अतः  
उन ( नाम-रूपों ) के द्वारा ही ब्रह्म  
बहुत हो जाता है ।

आत्मासे भिन्न अनात्मभूत तथा  
उससे भिन्न देश-कालमें रहनेवाली  
कोई भी सूक्ष्म, व्यवहित ( ओटवाली ),  
दूरस्थ, अथवा भूत, वर्तमान या भविष्य-  
कालीन वस्तु नहीं है । अतः सम्पूर्ण  
अवस्थाओंसे सम्बन्धित नाम और  
रूप ब्रह्ममे ही आत्मवान् हैं, किन्तु  
ब्रह्म तद्रूप नहीं है । ब्रह्मका निषेध  
करनेपर वे रह ही नहीं सकते,  
इसीसे वे तद्रूप कहे जाते हैं । उन  
उपाधियोसे ही ब्रह्म ज्ञाता, ज्ञेय और  
ज्ञान-इन शब्दोंका तथा इनके अर्थ  
आदि सब प्रकारके व्यवहारका पात्र  
बनता है ।

उस आत्माने ऐसी कामनावाला  
होकर तप किया । ‘तप’ शब्दसे  
यहाँ ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि  
“जिसका ज्ञानरूप तप है” इस अन्य  
श्रुतिसे सिद्ध होता है । आप्तकाम  
होनेके कारण आत्माके लिये अन्य  
तप तो असम्भव ही है । ‘उसने  
तप किया’ इसका तात्पर्य यह है

सृज्यमानजगद्रचनादिविषयामा-  
लोचनामकरोदात्मेत्यर्थः ।

स एवमालोच्य तपस्तप्त्वा  
प्राणिकर्मादिनिमित्तानुरूपमिदं  
सर्वं जगद्देशतः कालतो नाम्ना  
रूपेण च यथानुभवं सर्वैः  
प्राणिभिः सर्वावस्थैरनुभूयमानम-  
सृजत सृष्टवान् । यदिदं किं च  
यत्किं चेदमविशिष्टम् । तदिदं  
जगत्सृष्ट्वा किमकरोदित्युच्यते-  
तदेव सृष्टं जगदनुप्राविशदिति ।

तत्रैतच्चिन्त्यं कथमनुप्राविश-  
तस्य जगदनु- दिति । किं यः  
प्रवेश स्रष्टा स तेनैवात्म-  
नानुप्राविशदुतान्येनेति, किं ता-  
वद्युक्तम् क्त्वाप्रत्ययश्रवणाद्यः  
स्रष्टा स एवानुप्राविशदिति ।

किं आत्माने रचे जानेवाले जगत्को  
रचना आदिके विषयमें आलोचना की।

इस प्रकार आलोचना अर्थात् तप  
करके उसने प्राणियोंके कर्मादि  
निमित्तोंके अनुरूप इस सम्पूर्ण  
जगत्को रचा, जो देश, काल,  
नाम और रूपसे यथानुभव सारी  
अवस्थाओंमें स्थित सभी प्राणियोंद्वारा  
अनुभव किया जाता है । यह जो  
कुछ है अर्थात् सामान्यरूपसे यह  
जो कुछ जगत् है इसे रचकर उसने  
क्या किया, सो बतलाते हैं—वह उस  
रचे हुए जगत्में ही अनुप्रविष्ट  
हो गया ।

अब यहाँ यह विचारना है कि  
उसने किस प्रकार अनुप्रवेश किया !  
जो स्रष्टा था, क्या उसने स्वस्वरूपसे  
ही अनुप्रवेश किया अथवा किसी  
और रूपसे ? इनमें कौन-सा पक्ष  
समीचीन है ? श्रुतिमें [ 'सृष्ट्वा' इस  
क्रियामें ] 'क्त्वा' प्रत्यय होनेसे तो  
यही ठीक जान पड़ता है कि जो स्रष्टा  
था उसीने पीछे प्रवेश भी किया ।\*

\* 'क्त्वा' प्रत्यय पूर्वकालिक क्रियामें हुआ करता है । हिन्दीमें इसी  
अर्थमें 'कर' या 'के' प्रत्यय होता है, जैसे— रामने श्यामको बुलाकर [ या  
बुलाके ] घमकाया ।' इसमें यह नियम होता है कि पूर्वकालिक क्रिया और  
मुख्य क्रियाका कर्ता एक ही होता है, जैसे कि उपर्युक्त वाक्यमें पूर्वकालिक  
क्रिया 'बुलाकर' तथा मुख्य क्रिया 'घमकाया' इन दोनोंका कर्ता 'राम' ही है ।

ननु न युक्तं मृद्वच्चेत्कारणं  
 ब्रह्म तदात्मकत्वात्कार्यस्य । कार-  
 णमेव हि कार्योत्पत्त्या परिणत-  
 मित्यतोऽप्रविष्ट इव कार्योत्पत्ते-  
 रूर्ध्वं पृथक्कारणस्य पुनः प्रवेशो-  
 ऽनुपपन्नः । न हि घटपरिणाम-  
 व्यतिरेकेण मृदो घटे प्रवेशो-  
 ऽस्ति । यथा घटे चूर्णात्मना  
 मृदोऽनुप्रवेश एवमन्येनात्मना  
 नामरूपकार्योऽनुप्रवेश आत्मन इति  
 चेच्छ्रुत्पन्तराच्च “अनेन जीवेना-  
 त्मानानुप्रविश्य” ( छा० उ० ६ ।  
 ३ । २ ) इति ।

नैवं युक्तमेकत्वाद्ब्रह्मणः । मृ-  
 दात्मनस्त्वनेकत्वात्सावयवत्वाच्च  
 युक्तो घटे मृदश्चूर्णात्मनानु-  
 प्रवेशः । मृदश्चूर्णस्याप्रविष्टदेश-  
 वत्त्वाच्च । न त्वात्मन एकत्वे

पूर्व०—यदि ब्रह्म मृत्तिकामें  
 समान जगत्का कारण है तो  
 उसका कार्य तद्रूप होनेके कारण  
 उसमें उसका प्रवेश करना सम्भव  
 नहीं है । क्योंकि कारण ही कार्यरूप-  
 से परिणत हुआ करता है, अतः  
 किसी अन्य पदार्थके समान पहले  
 बिना प्रवेश किये कार्यकी उत्पत्तिके  
 अनन्तर उसमें कारणका पुनः प्रवेश  
 करना सर्वथा असम्भव है । घटरूप-  
 में परिणत होनेके सिवा मृत्तिकाका  
 घटमें और कोई प्रवेश नहीं हुआ  
 करता । हाँ, जिस प्रकार घटमें चूर्ण  
 ( बाढ़ ) रूपसे मृत्तिकाका अनु-  
 प्रवेश होता है उसी प्रकार किसी  
 अन्य रूपसे आत्माका नाम-रूपकार्यमें  
 भी अनुप्रवेश हो सकता है; जैसा  
 कि “इस जीवरूपसे अनुप्रवेश करके”  
 इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है  
 —यदि ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसा मानना उचित  
 नहीं है; क्योंकि ब्रह्म तो एक ही  
 है । मृत्तिकारूप कारण तो अनेक  
 और सावयव होनेके कारण उसका  
 घटमें चूर्णरूपसे अनुप्रवेश करना भी  
 सम्भव है; क्योंकि मृत्तिकामें चूर्णका  
 उस देशमें प्रवेश नहीं है; किन्तु  
 आत्मा तो एक है; अतः उसके

इसी प्रकार ‘अनुप्राविशत्’ और ‘चष्टा’ इन दोनों क्रियाओंका कर्ता भी ब्रह्म ही होना चाहिये ।

सति निरवयवत्वादप्रविष्टदेशा-  
भावाच्च प्रवेश उपपद्यते । कथं  
तर्हि प्रवेशः स्यात् ? युक्तश्च प्रवेशः  
श्रुतत्वात्तदेवानुप्राविशदिति ।

सावयवमेवास्तु तर्हि । साव-  
यवत्वान्मुखे हस्तप्रवेशवन्नाम-  
रूपकार्ये जीवात्मनानुप्रवेशो युक्त  
एवेति चेत् ?

नाशून्यदेशत्वात् । न हि  
कार्यात्मना परिणतस्य नाम-  
रूपकार्यदेशव्यतिरेकेणात्मशून्यः  
प्रदेशोऽस्ति यं प्रविशेज्जीवात्मना ।  
कारणमेव चेत्प्रविशेज्जीवात्मन्वं  
जघ्नाद्यर्था घटो मृत्प्रवेशे घटत्वं  
जहाति । तदेवानुप्राविशदिति  
च श्रुतेर्न कारणानुप्रवेशो युक्तः

निरवयव और उमसे अप्रविष्ट देशका  
अभाव होनेके कारण उसका प्रवेश  
करना सम्भव नहीं है । तो फिर उसका  
प्रवेश कैसे होना चाहिये ? तथा  
उसका प्रवेश होना उचित ही है,  
क्योंकि 'उसीमें अनुप्रविष्ट हो गया'  
ऐसी श्रुति है ।

पूर्व०—तत्र तां ब्रह्म सावयव ही  
होना चाहिये । उस अवस्थामें,  
सावयव होनेके कारण मुखमें हाथका  
प्रवेश होनेके समान उसका नाम-रूप  
कार्यमें जीवरूपसे प्रवेश होना ठीक  
ही होगा—यदि ऐसा करें तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि उससे  
शून्य कोई देश नहीं है । कार्य-  
रूपमें परिणत हुए ब्रह्मका नाम रूप  
कार्यके देशसे अतिरिक्त और कोई  
अपनेसे शून्य देश नहीं है, जिसमें  
उसका जीवरूपसे प्रवेश करना  
सम्भव हो । और यदि यह मानो  
कि जीवात्माने कारणमें ही प्रवेश  
किया तब तो वह अपने जीवत्वको  
ही त्याग देगा, जिस प्रकार कि  
घड मृत्तिकामें प्रवेश करनेपर  
अपना घटत्व त्याग देता है । तथा  
'उसीमें अनुप्रविष्ट हो गया' इस  
श्रुतिसे भी कारणमें अनुप्रवेश करना  
सम्भव नहीं है ।

कार्यान्तरमेव स्यादिति चेत् ?  
तदेवानुप्राविशदिति जीवात्मरूपं  
कार्यं नामरूपपरिणतं कार्यान्तर-  
मेवापद्यत इति चेत् ?

न; विरोधात् । न हि घटो  
घटान्तरमापद्यते । व्यतिरेक-

श्रुतिविरोधाच्च । जीवस्य नाम-  
रूपकार्यव्यतिरेकानुवादिन्यः

श्रुतयो विरुध्येरन् । तदापत्तौ

मोक्षसंभवाच्च । न हि यतो

मुच्यमानस्तदेवापद्यते । न हि

शृङ्खलापत्तिर्बद्धस्य तस्करादेः ।

बाह्यान्तर्भेदेन परिणतमिति

चेत्तदेव कारणं ब्रह्म शरीराद्या-

धारत्वेन तदन्तर्जावात्मनाधेय-

त्वेन च परिणतमिति चेत् ?

पूर्व०—किसी अन्य कार्यमें ही प्रवेश किया—यदि ऐसा मानें तो ? अर्थात् 'तदेवानुप्राविशत्'— इस श्रुतिके अनुसार जीवात्मारूप कार्य नाम-रूपमें परिणत हुए किसी अन्य कार्यको ही प्राप्त हो जाता है—यदि ऐसी बात हो तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि इससे विरोध उपस्थित होता है । एक घड़ा किसी दूसरे घड़ेमें लीन नहीं हो जाता । इसके सिवा [ ऐसा मानने-से ] व्यतिरेक श्रुतिसे विरोध भी होता है । [ यदि ऐसा मानेंगे तो ] जीव नाम-रूपात्मक कार्यसे व्यति-रिक्त ( भिन्न ) है—ऐसा अनुवाद करनेवाली श्रुतियोंसे विरोध हो जायगा और ऐसा हानेपर उसका मोक्ष होना भी असम्भव होगा । क्योंकि जो जिससे छूटनेवाला होता है वह उसीको प्राप्त नहीं हुआ करता; \* जंजीरसे बँधे हुए चोर आदिका जंजीररूप हो जाना सम्भव नहीं है ।

पूर्व०—वही बाह्य और आन्तरके भेदसे परिणत हो गया, अर्थात् वह कारणरूप ब्रह्म ही शरीरादि आधाररूपसे बाह्य और आवेय जीवरूपसे उसका अन्तर्वर्ती हो गया—यदि ऐसा मानें तो ?

\* अर्थात् जीवको तो नाम-रूपात्मक कार्यसे मुक्त होना इष्ट है, फिर वह उसीको क्यों प्राप्त होगा ?

न; वहिःष्टस्य प्रवेशोपपत्तेः। न  
हि यो यस्यान्तःस्थः स एव  
तत्प्रविष्ट उच्यते । वहिःष्टस्यानु-  
प्रवेशः स्यात्प्रवेशशब्दार्थस्यैवं  
दृष्टत्वात् । यथा गृहं कृत्वा  
प्राविशदिति ।

जलसूर्यकादिप्रतिबिम्बवत्प्र-  
वेशः स्यादिति चेन्न; अपरिच्छि-  
न्नत्वादमूर्तत्वाच्च । परिच्छिन्नस्य  
मूर्तस्यान्यस्यान्यत्र प्रसादस्व-  
भावके जलाद्गौ सूर्यकादिप्रतिवि-  
म्बोदयः स्यात् । न त्वात्मनः,  
अमूर्तत्वादाकाशादिकारणस्या-  
त्मनो व्यापकत्वात् । तद्विप्रकृष्ट-  
देशप्रतिबिम्बाधाग्वस्त्वन्तरामा-  
वाच्च प्रतिबिम्बवत्प्रवेशो न  
युक्तः ।

एवं तर्हि नैवास्ति प्रवेशो न  
च शत्यन्तरमुपलभामहे 'तदे-

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्रवेश  
बाहर रहनेवाले पदार्थका ही हो  
सकता है । जो जिसके भीतर  
स्थित है वह उसमें प्रविष्ट हुआ  
नहीं कहा जाता । अनुप्रवेश  
तो बाहर रहनेवाले पदार्थका ही  
हो सकता है, क्योंकि 'प्रवेश'  
शब्दका अर्थ ऐसा ही देखा गया  
है, जैसे कि 'घर बनाकर उसमें  
प्रवेश किया' इस वाक्यमें ।

यदि कही कि जलमें सूर्यके  
प्रतिबिम्ब आदिके समान उसका  
प्रवेश हो सकता है, तो ऐसा  
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म  
अपरिच्छिन्न और अमूर्त है । परि-  
च्छिन्न और मूर्तरूप अन्य पदार्थोंका  
ही स्वच्छस्वभाव जल आदि अन्य  
पदार्थोंमें सूर्यकादिरूप प्रतिबिम्ब  
पदा करता है, किन्तु आत्माका  
प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता, क्योंकि  
वह अमूर्त है तथा आकाशादिका  
कारणरूप आत्मा व्यापक भी है ।  
उससे दूर देशमें स्थित प्रतिबिम्बकी  
आधारमूल अन्य वस्तुका अभाव  
होनेसे भी उसका प्रतिबिम्बके समान  
प्रवेश होना सम्भव नहीं है ।

पूर्व०-तब तो आत्माका प्रवेश  
होता ही नहीं-इसके सिवा  
'तदेवानुप्राविशत्' इस श्रुतिकी और



वानुप्राविशत्' इति श्रुतेः । श्रुतिथ नोऽतीन्द्रियविषये विज्ञानोत्पत्तौ निमित्तम् । न चास्माद्वाक्याद्यत्नवतामपि विज्ञानमुत्पद्यते । हन्त तर्ह्यनर्थकत्वादपोह्यमेतद्वाक्यम् 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' इति ।

न, अन्यार्थत्वात् । किमर्थमस्थाने चर्चा । प्रकृतो ह्यन्यो विवक्षितोऽस्य वाक्यस्यार्थोऽस्ति स सर्तव्यः । "ब्रह्मविदानोति परम्" ( तै० उ० २।१।१ ) "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" ( तै० उ० २।१।१ ) "यो वेदनिहितं गुहायाम्" ( तै० उ० २।१।१ ) इति तद्विज्ञानं च विवक्षितं प्रकृतं च तत् । ब्रह्मस्वरूपानुगमाय चाकाशाद्यन्नमयान्तं कार्यं प्रदर्शितं ब्रह्मानुगमधारण्यः । तत्रात्ममयादात्मनोऽन्योऽन्तर आत्मा प्राण-

कोई गति दिखायी नहीं देती । हमारे ( मीमांसकोंके ) सिद्धान्तानुसार इन्द्रियातीत विषयोंका ज्ञान होनेमें श्रुति ही कारण है । किन्तु इस वाक्यसे बहुत यत्न करनेपर भी किसी प्रकारका ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । अतः खेद है कि 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' यह वाक्य अर्थशून्य होनेके कारण त्यागने ही योग्य है ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है; क्योंकि इस वाक्यका अर्थ अन्य ही है । इस प्रकार अप्रासङ्गिक चर्चाक्यों करते हो ? इस प्रसंगमें इस वाक्यको और ही अर्थ कहना अभीष्ट है । उसीको स्मरण करना चाहिये । "ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता है" "ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है" "जो उसे बुद्धिरूप गुहामें छिपा हुआ जानता है" इत्यादि वाक्योंद्वारा जिसका निरूपण किया गया है उस ब्रह्मका ही विज्ञान यहाँ बतलाना अभीष्ट है और उसीका यहाँ प्रसङ्ग भी है । ब्रह्मके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ही आकाशासे लेकर अन्नमयकोशपर्यन्त सम्पूर्ण कार्यवर्ग दिखलाया गया है तथा ब्रह्मानुभवका प्रसङ्ग भी चल ही रहा है । उसमें अन्नमय आत्मासे भिन्न दूसरा अन्तरात्मा प्राणमय है,

मयस्तदन्तर्मनोमयो विज्ञानमय  
इति विज्ञानगुहायां प्रवेशितस्तत्र  
चानन्दमयो विशिष्ट आत्मा  
प्रदर्शितः ।

अतः परमानन्दमयलिङ्गाधि-  
गमद्वारेणानन्दविबृद्धयवसान  
आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा सर्व-  
विकल्पास्पदा निर्विकल्पोऽस्वा-  
भेन गुहायामधिगन्तव्य इति  
तत्प्रवेशः प्रकल्प्यते । न ह्यन्य-  
त्रोपलभ्यते ब्रह्म निर्विशेषत्वात् ।  
विशेषसंबन्धो ह्युपलब्धिहेतु-  
र्दृष्टः, यथा राहोश्चन्द्रार्कविशिष्ट-  
संबन्धः । एवमन्तःकरणगुहात्म-  
संबन्धो ब्रह्मण उपलब्धिहेतुः ।  
संनिरुपादिवमासात्सकृत्वाद्यान्तः-  
करणस्य ।

उसका अन्तर्धर्ता मनोमय और फिर  
विज्ञानमय है । इस प्रकार आत्माका  
विज्ञानगुहामें प्रवेश करा दिया गया  
है और वहाँ आनन्दमय ऐसे विशिष्ट  
आत्माको प्रदर्शित किया गया है ।

इसके आगे आनन्दमय—इस  
लिङ्गके ज्ञानद्वारा आनन्दके उत्कर्ष-  
का अवसानभूत आत्मा जो सम्पूर्ण  
विकल्पका आश्रयभूत एव निर्विकल्प  
ब्रह्म है तथा [ आनन्दमय कोशस्थी ]  
पुच्छ प्रतिष्ठा है, वह इस गुहामें ही  
अनुमन किये जाने योग्य है—  
इसलिये उसके प्रवेशकी कल्पना  
की गयी है । निर्विशेष होनेके कारण  
ब्रह्म [ बुद्धिरूप गुहाके सिवा ] और  
कहाँ उपलब्ध नहीं होता; क्योंकि  
विशेषका सम्बन्ध ही उपलब्धिमें हेतु  
देखा गया है, जिस प्रकार कि राहु-  
की उपलब्धिमें चन्द्रमा अथवा सूर्य-  
रूप विशेषका सम्बन्ध । इस प्रकार  
अन्त करणरूप गुहा और आत्मा-  
का सम्बन्ध ही ब्रह्मकी उपलब्धिमें  
हेतु है, क्योंकि अन्त करण उपलब्धि  
समीपवर्ती और प्रकाशरूप\* है ।

❖ जिस प्रकार अन्धकार और प्रकाश दोनों ही जड़ हैं, तथापि प्रकाश  
अन्धकाररूप आवरणको दूर करनेमें समर्थ है, इसी प्रकार यद्यपि अज्ञान और  
जन्त-करण दोनों ही समानरूपसे जड़ हैं तो भी प्रत्यय ( विभिन्नप्रतीतियोंके )  
रूपमें परिणत हुआ अन्त-करण अज्ञानका नाश करनेमें समर्थ है और इस  
प्रकार वह आत्माका प्रकाशक ( ज्ञान करानेवाला ) है । इसी बातको आगेके  
भागमें स्पष्ट करते हैं ।

यथा चालोकविशिष्टा घटा-  
दुपलब्धिरेवं बुद्धिप्रत्ययालोक-  
विशिष्टात्मोपलब्धिः स्यात्तस्मा-  
दुपलब्धिहेतौ गुहायां निहित-  
मिति प्रकृतमेव । तद्वृत्तिस्त्रा-  
नीये त्विह पुनस्तत्सृष्ट्वा तदेवा-  
नुप्राविशदित्युच्यते ।

तदेवेदमाकाशादिकारणं कार्यं  
सृष्ट्वा तदनुप्राविष्टमिवान्तर्गुहायां  
बुद्धौ द्रष्टृ श्रोतृ मन्त्रं विज्ञात्रित्येवं  
विशेषवदुपलभ्यते । स एव तस्य  
प्रवेशस्तस्मादस्ति तत्कारणं ब्रह्म ।  
अतोऽस्तित्वादस्तीत्येवोपलब्धव्यं  
चत् ।

तत्कार्यमनुप्राविश्य, किम् ?  
सच्च मूर्तं त्यच्चामूर्त-  
मभवत् । मूर्तामूर्ते  
लव्याकृतनामरूपे आत्मस्थे  
अन्तर्गतैनात्मना व्याक्रियेते  
व्याकृते मूर्तामूर्तशब्दवाच्ये । ते

जिस प्रकार कि प्रकाशयुक्त  
घटादिकी उपलब्धि होती है उसी  
प्रकार बुद्धिके प्रत्ययरूप प्रकाशसे  
युक्त आत्माका अनुभव होता है ।  
अतः उपलब्धिकी हेतुभूत गुहामें  
वह निहित है—इसी बातका यह  
प्रसङ्ग है । उसकी वृत्ति (व्याख्या)  
के रूपमें ही श्रुतिद्वारा 'उसे रचकर  
वह पीछेसे उसीमें प्रवेश कर गया'  
ऐसा कहा गया है ।

इस प्रकार इस कार्यवर्गको  
रचकर इसमें अनुप्राविष्ट-सा हुआ  
आकाशादिका कारणरूप वह ब्रह्म  
ही बुद्धिरूप गुहामें द्रष्टा, श्रोता,  
मन्त्रा और विज्ञाता—ऐसा सविशेष  
रूप-सा जान पड़ता है । यहाँ  
उसका प्रवेश करना है । अतः  
वह ब्रह्म कारण है; इसलिये उसका  
अस्तित्व होनेके कारण उसे 'है'  
इस प्रकार ही ग्रहण करना चाहिये ।

उसने कार्यमें अनुप्रावेश करके  
फिर क्या किया ? वह सत्—मूर्त  
और असत्—अमूर्त हां गया । जिन-  
के नाम और रूपकी अभिव्यक्ति  
नहीं हुई है, वे मूर्त और अमूर्त तो  
आत्मामें ही रहते हैं । उन 'मूर्त'  
एवं 'अमूर्त' शब्दवाच्य पदार्थोंको  
उनका अन्तर्गता आत्मा केवल  
अभिव्यक्त कर देता है । उनके

आत्मना त्वप्रविमक्तदेशकाले  
इति कृत्वात्मा ते अभवदित्यु-  
च्यते ।

किं च निरुक्तं चानिरुक्तं च ।  
निरुक्तं नाम निष्कृष्य समाना-  
समानजातीयेभ्यो देशकाल-  
विशिष्टतयेदं तदित्युक्तमनिरुक्तं  
तद्विपरीतं निरुक्तानिरुक्ते अपि  
मूर्तामूर्तयोरेव विशेषणे । यथा  
सच्च त्यच्च प्रत्यक्षपरोक्षे, तथा  
निलयनं चानिलयनं च । निल-  
यनं नीडमाश्रयो मूर्तस्यैव धर्मः ।  
अनिलयनं तद्विपरीतममूर्तस्यैव  
धर्मः ।

त्यदनिरुक्तानिलयनान्यमूर्त-  
धर्मत्वेऽपि न्याकृतविषयाण्येव ।  
सर्गोत्तरकालमावश्रवणात् । त्य-  
दिति प्राणाद्यनिरुक्तं तदेवानि-  
लयनं च । अतो विशेषणान्य-

देश और काल आत्मासे अभिन्न हैं  
—इसीलिये 'आत्मा ही मूर्त और  
अमूर्त हुआ' ऐसा कहा जाता है ।

तथा वही निरुक्त और अनिरुक्त  
भी हुआ । निरुक्त उसे कहते हैं  
जिसे सजातीय और विजातीय  
पदार्थोंसे अलग करके देश-काल-  
विशिष्टरूपसे 'वह यह है' ऐसा  
कहा जाय । इससे विपरीत लक्षणों-  
वालेको 'अनिरुक्त' कहते हैं ।  
निरुक्त और अनिरुक्त भी मूर्त और  
अमूर्तके ही विशेषण हैं । जिस  
प्रकार 'सत्' और 'त्यत्' क्रमशः  
'प्रत्यक्ष' और 'परोक्ष' को कहते हैं  
उसी प्रकार 'निलयन' और 'अनि-  
लयन' भी समझने चाहिये ।  
निलयन—नीड अर्थात् आश्रय  
मूर्तका ही धर्म है और उससे  
विपरीत अनिलयन अमूर्तका ही  
धर्म है ।

त्यत्, अनिरुक्त और अनिलयन—  
ये अमूर्तके धर्म होनेपर भी व्याकृत  
( व्यक्त ) से ही सम्बन्ध रखनेवाले  
हैं, क्योंकि इनकी सत्ता सृष्टिके  
अनन्तर ही सुनी गयी है । त्यत्-  
यह प्राणादि अनिरुक्तका नाम है,  
वही अनिलयन भी है । अत ये

मूर्तस्य व्याकृतविषयाण्येवैतानि ।

विज्ञानं चेतनमविज्ञानं तद्रहितमचेतनं पाषाणादि सत्यं च व्यवहारविषयमधिकारान्न परमार्थसत्यम् । एकमेव हि परमार्थसत्यं ब्रह्म । इह पुनर्व्यवहारविषयमापेक्षिकं सत्यम्, मृगतृष्णिकाद्यनृतापेक्षयोदकादि सत्यमुच्यते । अनृतं च तद्विपरीतम् । किं पुनः ? एतत्सर्वमभवत्, सत्यं परमार्थसत्यम् । किं पुनस्तत् ? ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति प्रकृतत्वात् ।

यस्मात्सत्त्वदादिकं मूर्तामूर्तधर्मजातं यत्किंचेदं सर्वमविशिष्टं विकारजातमेकमेव सच्छब्दवाच्यं ब्रह्मामवत्तद्व्यतिरेकेणामावाचामरूपविकारस्य, तस्मात्तद्ब्रह्म सत्यमित्याचक्षते ब्रह्मविदः ।

अस्ति नास्तीत्यनुप्रश्नः प्रकृतस्तस्य प्रतिवचनविषय एतदुक्त-

अमूर्तके विशेषण व्याकृतविषयक ही है ।

विज्ञान यानी चेतन, अविज्ञान—उससे रहित अचेतन पाषाणादि और सत्य—व्यवहारसम्बन्धी सत्य; क्योंकि यहाँ व्यवहारका ही प्रसंग है, परमार्थ सत्य नहीं, परमार्थ सत्य तो एकमात्र ब्रह्म ही है, यहाँ तो केवल व्यवहारविषयक आपेक्षिक सत्यसे ही तात्पर्य है, जैसे कि मृगतृष्णा आदि असत्यकी अपेक्षासे जल आदिको सत्य कहा जाता है तथा अनृत—उस ( व्यावहारिक सत्य ) से विपरीत । सो फिर क्या ? ये सब वह सत्य—परमार्थ सत्य ही हो गया ? वह परमार्थ सत्य है क्या ? वह ब्रह्म है, क्योंकि 'ब्रह्म सत्य, ज्ञान एवं अनन्त है' इस प्रकार उसीका प्रकरण है ।

क्योंकि सत्-स्यत् आदि जो कुछ मूर्त-अमूर्त धर्मजात है वह सामान्य-रूपसे सारा ही विकार एकमात्र 'सत्' शब्दवाच्य ब्रह्म ही हुआ है—क्योंकि उससे भिन्न नाम-रूप विकारका सर्वथा अभाव है—इसलिये ब्रह्मवादीलोग उस ब्रह्मको 'सत्य' ऐसा कहकर पुकारते हैं ।

'ब्रह्म है या नहीं' इस अनुप्रश्नका यहाँ प्रसंग था । उसके उत्तरमें यह

मात्माकाशमपत बहु स्वामिति । स  
 यथाकामं चाकाशादिकार्यं सच्य-  
 दादिलक्षणं सुप्ता तदक्षु प्रविश्य  
 पश्यञ्ज्युषन्मन्त्रानो विज्ञानन्  
 बहुभवत्तस्मात्तदेवेदमाकाशादि-  
 कारणं कार्यस्य परमे व्योमन्  
 इदयमुहायां निहितं तत्प्रत्ययाव-  
 भासविशेषेणोपलभ्यमानमस्ति  
 इत्येवं विजानीयादित्युक्तं भवति ।

तदेतस्मिन्नर्थे ब्राह्मणोक्त एष  
 श्लोको मन्त्रो भवति । यथा  
 पूर्वेषु अन्नमयाद्यात्मप्रकाशकाः  
 पञ्चस्वप्नेवं सर्वान्तरतमात्मास्ति-  
 त्वप्रकाशकोऽपि मन्त्रः कार्य-  
 द्वारेण भवति ॥ १ ॥

कहा गया था—‘आत्माने कामना की  
 कि मैं बहुत हो जाऊँ’ । वह अपनी  
 कामनाके अनुसार सत् तत् आदि  
 लक्षणोंवाले आकाशादि कार्यवर्गको  
 रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो द्रष्टा,  
 श्रोता, मन्ता और विज्ञातारूपसे  
 बहुत हो गया । अत आकाशादि-  
 के कारण, कार्यवर्गमें स्थित,  
 परमाकाशके भीतर बुद्धिरूप गुह्यमें  
 छिपे हुए और उसके कर्ता-भोक्तादि-  
 रूप जो प्रत्ययावभास हैं उनके द्वारा  
 विशेषरूपसे उपलब्ध होनेवाले उस  
 ब्रह्मको ही ‘वह है’ इस प्रकार जाने-  
 ऐसा कहा गया ।

उस इस ब्राह्मणोक्त अर्थमें ही  
 यह श्लोक यानी मन्त्र है । जिस  
 प्रकार पूर्वोक्त पाँच पर्यायोंमें अन्नमय  
 आदि क्षेत्रोंके प्रकाशक श्लोक थे  
 उसी प्रकार सबकी अपेक्षा आन्तरतम  
 आत्माके अस्तित्वको उसके कार्यद्वारा  
 प्रकाशित करनेवाला भी यह मन्त्र  
 है ॥ १ ॥

इति ब्रह्मानन्दवल्गुं पद्योऽनुवाकः ॥ ६ ॥



## सप्तम अनुवाक

ब्रह्मकी सुरुतता एवं आनन्दरूपताका तथा ब्रह्मवेत्तार्का

अभयप्राप्तिका वर्णन

असद्वा इदमग्र आसीत् । ततो वै सदजायत । तदात्मानं स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति । यद्वै तत्सुकृतं रमां वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति । को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् । एष ह्येवानन्दयाति । यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति । यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य । तदप्येष श्लोको भवति ॥ १ ॥

पहले यह [ जगत् ] असत् ( अव्याकृत ब्रह्मरूप ) ही था । उसीसे सत् ( नाम-रूपात्मक व्यक्त ) की उत्पत्ति हुई । उस असत्से स्वयं अपनेको ही [ नाम-रूपात्मक जगद्रूपसे ] रचा । इसलिये वह सुकृत ( स्वयं रचा हुआ ) कहा जाता है । वह जो प्रतिष्ठ सुकृत है सो निश्चय रस ही है । इस रसको पाकर पुरुष आनन्दी हो जाता है । यदि हृदयाकाशमें स्थित यह आनन्द ( आनन्दस्वरूप आत्मा ) न होता तो कौन व्यक्ति अपान-क्रिया करता और कौन प्राणन-क्रिया करता ? यही तो उन्हें आनन्दित करता है । जिस समय यह साधक इस अदृश्य अशरीर, अनिर्वाच्य और निराधार ब्रह्ममें अभय-स्थिति प्राप्त करता है उस

समय यह अमयको प्राप्त हो जाता है, और जब यह इसमें घोडा-सा भी भेद करता है तो इसे मय प्राप्त होता है । वह ब्रह्म ही भेददर्शी विद्वान्को लिये मयरूप है । इसी अर्थमें यह श्लोक है ॥ १ ॥

असद्वा इदमग्र आसीत् ।

असदिति व्याकृत-  
नामरूपविशेषविप-  
रीतरूपमव्याकृतं  
ब्रह्मोच्यते । न पुनरत्यन्तमेवा-  
सत् । न असतः सज्जन्मास्ति  
इदमिति नामरूपविशेषवद्व्याकृतं  
जगदग्रे पूर्वं प्रागुत्पत्तेर्ब्रह्मैवास्-  
च्छब्दवाच्यमासीत्, ततोऽसतो  
वै सत्प्रविभक्तनामरूपविशेष-  
मजायतोत्पन्नम् ।

किं ततः प्रविभक्तं कार्यमिति  
पितुरिव पुत्रः, नेत्याह । तदस-  
च्छब्दवाच्यं स्वयमेवात्मानमेवा-  
कुरुत् कृतम् । यस्मादेवं तस्मा-  
द्ब्रह्मैव सुकृतं स्वयंकर्तुच्यते ।  
स्वयंकर्तुं ब्रह्मेति प्रसिद्धं लोके  
सर्वकारणत्वात् ।

पहले यह [ जगत् ] असत् ही  
था । 'असत्' इस शब्दसे, जिनके  
नाम-रूप व्यक्त हो गये हैं उन  
विशेष पदार्थोंसे विपरीत स्वभाववाला  
अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता है ।  
इसमें [ वन्द्यापुत्रादि ] अत्यन्त  
असत् पदार्थ बतलाये जाने अभीष्ट  
नहीं हैं, क्योंकि असत्से मत्वा  
जन्म नहीं हो सकता । 'इदम्'  
अर्थात् नाम-रूप विशेषसे युक्त  
व्याकृत जगत् अग्रे—पहले अर्थात्  
उत्पत्तिसे पूर्व 'असत्' शब्दवाच्य  
ब्रह्म ही था । उस असत्से ही  
सत् यानी जिसके नामरूपका  
विभाग हो गया है उस विशेषकी  
उत्पत्ति हुई ।

तो क्या पितासे पुत्रके समान  
यह कार्यवर्ग उस [ ब्रह्म ] से विभिन्न  
है ? इसपर श्रुति कहती है—नहीं,  
उस 'असत्' शब्दवाच्य ब्रह्मने स्वयं  
अपनेको ही रचा । क्योंकि ऐसी  
वात है इसलिये वह ब्रह्म ही सुकृत  
अर्थात् स्वयं कर्ता कहा जाता है,  
सबका कारण होनेसे ब्रह्म स्वयं कर्ता  
है—यह बात लोकमें प्रसिद्ध है ।



यस्माद्वा स्वयमकरोत्सर्वं  
 सर्वात्मना तस्मात्पुण्यरूपेणापि  
 तदेव ब्रह्म कारणं सुकृतमुच्यते ।  
 सर्वथापि तु फलसंबन्धादि-  
 कारणं सुकृतशब्दवाच्यं प्रसिद्धं  
 लोके । यदि पुण्यं यदि वान्यत्सा  
 प्रसिद्धिनित्ये चेतनवत्कारणे  
 सत्युपपद्यते । तस्मादस्ति तद्ब्रह्म  
 सुकृतप्रसिद्धेः । इतश्चास्ति ।  
 कुतः ? रसत्वात् । कुतो रसत्व-  
 प्रसिद्धिर्ब्रह्मण इत्यत आह—

यद्वै तत्सुकृतम् । रसो वै

सः । रसो नाम  
 तृप्तिहेतुरानन्दकरो  
 मधुराम्लादिः प्रसिद्धो लोके  
 रसमेवायं लब्ध्वा प्राप्यानन्दी  
 सुखी भवति । नासत आनन्द-  
 हेतुत्वं दृष्टं लोके । वासानन्द-  
 साधनरहिता अप्यनीहा निरेपणा

अथवा, क्योंकि सर्वरूप होने-  
 से ब्रह्मने स्वयं ही इस सम्पूर्ण  
 जगत्की रचना की है, इसलिये  
 पुण्यरूपसे भी उसका कारणरूप  
 वह ब्रह्म 'सुकृत' कहा जाता है ।  
 लोकमें जो कार्य [ पुण्य अथवा  
 पाप ] किसी भी प्रकारसे फलके  
 सम्बन्धादिका कारण होता है वही  
 'सुकृत' शब्दके वाच्यरूपसे प्रसिद्ध  
 होता है । वह प्रसिद्धि चाहे पुण्य-  
 रूपा हो और चाहे पापरूपा किसी  
 नित्य और सचेतन कारणके होनेपर  
 ही हो सकती है । अतः उस  
 सुकृतरूप प्रसिद्धिकी सत्ता होनेसे  
 यह सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म है ।  
 ब्रह्म इसलिये भी है; किस लिये ? रस-  
 स्वरूप होनेके कारण । ब्रह्मकी  
 रसस्वरूपताकी प्रसिद्धि किस कारण-  
 से है—इसपर श्रुति कहती है—

जो भी वह प्रसिद्ध सुकृत है वह  
 निश्चय रस ही है । खट्टा-मीठा  
 आदि तृप्तिदायक और आनन्दप्रद  
 पदार्थ लोकमें 'रस' नामसे प्रसिद्ध  
 है ही । इस रसको ही पाकर पुरुष  
 आनन्दी अर्थात् सुखी हो जाता है ।  
 लोकमें किसी असत् पदार्थकी  
 आनन्दहेतुता कभी नहीं देखी गयी ।  
 ब्रह्मनिष्ठ निरीद और निरपेक्ष विद्वान्  
 वाद्यसुखके साधनसे रहित होनेपर

ब्राह्मणा वाद्यरसलाभादिव सा-  
नन्दा दृश्यन्ते विद्वांसः; नूनं  
ब्रह्मोव रसस्तेषाम् । तस्मादस्ति  
तत्तेषामानन्दकारणं रसवद्ब्रह्म ।

इतश्चास्ति, कुतः ? प्राणनादि-  
क्रियादर्शनात् । अयमपि हि  
पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणित्थ-  
पानेनापानिति । एवं वायवीया  
ऐन्द्रियकाश्च चेष्टासंहतैः कार्य-  
करणैर्निर्गत्यमाना दृश्यन्ते ।  
तच्चैकार्थवृत्तित्वेन संहननं नान्त-  
रेण चेतनमसंहतं संभवति ।  
अन्यत्रादर्शनात् ।

तदाह—तद्यदि एष आकाशे  
परमे व्योम्नि गुहायां निहित  
आनन्दो न स्यान्न भवेत्को ह्येव  
लोकेऽन्यादपानचेष्टां कुर्यादि-  
त्यर्थः । कः प्राण्यात्प्राणनं वा  
कुर्यात्तस्मादस्ति तद्ब्रह्म यदर्थाः

भी वाद्य रसके लाभसे आनन्दित  
होनेके समान आनन्दयुक्त देखे जाते  
हैं । निश्चय उनका रस ब्रह्म ही है ।  
अत रसके समान उनके आनन्दका  
कारणरूप वह ब्रह्म है ही ।

इसलिये भी ब्रह्म है, किसलिये ?  
प्राणनादि क्रियाके देखे जानेसे ।  
जीविन पुरुषका यह पिण्ड भी प्राणकी  
सहायतासे प्राणन करता है और  
अपान वायुके द्वारा अपानक्रिया  
करता है । इसी प्रकार सघातको  
प्राप्त हुए इन शरीर और इन्द्रियोंके  
द्वारा निष्पन्न होती हुई और भी  
वायु और इन्द्रियसम्बन्धिनी चेष्टाएँ  
देखी जाती हैं । वह वायु आदि  
अचेतन पदार्थोंका एक ही उद्देश्यकी  
सिद्धिके लिये परस्पर सहत ( अनु-  
कूल ) होना किमी असहत ( किसी-  
से भी न मिले हुए ) चेतनके बिना  
नहीं हो सकता; क्योंकि और कहीं  
ऐसा देखा नहीं जाता ।

इसी बातको श्रुति कहती है—  
यदि आकाश—परमकाश अर्थात्  
बुद्धिरूप गुहामे ठिपा हुआ यह  
आनन्द न होता तो लोकमें कौन  
अपान-क्रिया करता और कौन  
प्राणन कर सकता, इसलिये वह  
ब्रह्म है ही, जिसके लिये कि शरीर

कार्यकरणप्राणनादिचेष्टास्तत्कृत  
एव चानन्दो लोकस्य ।

कुतः ? एष ह्येव पर आत्मा  
आनन्दयात्यानन्दयति सुखयति  
लोकं धर्मानुरूपम् । स एवात्मा-  
नन्दरूपोऽविद्यया परिच्छिन्नो  
विभाव्यते प्राणिभिरित्यर्थः ।  
अयामभयहेतुश्चाद्विद्वद्विदुषोरस्ति  
तद्ब्रह्म । सद्ब्रह्मस्त्वाश्रयणेन ह्यभयं  
भवति । नासद्ब्रह्मस्त्वाश्रयणेन  
भयनिवृत्तिरुपपद्यते ।

कथमभयहेतुत्वमित्युच्यते—

यदा ह्येव यस्मादेव  
हेतुत्वम् साधक एतस्मिन्न-

क्षणि किंविशिष्टेऽदृश्ये दृश्यं नाम  
द्रष्टव्यं विकारो दर्शनार्थत्वाद्भि-  
कारस्य । न दृश्यमदृश्यमविकार  
इत्यर्थः । एतस्मिन्नदृश्येऽविकारे-  
ऽविषयभूते अनात्म्येऽशरीरे ।  
अस्माददृश्यं तस्मादनात्म्यं

और, इन्द्रियकी प्राणन आदि चेष्टाएँ  
हो रही हैं; और उसीका किया हुआ  
लोकका आनन्द भी है ।

ऐसा क्यों है ? क्योंकि यह  
परमात्मा ही लोकको उसके धर्मा-  
नुसार आनन्दित—सुखी करता है ।  
तात्पर्य यह है कि वह आनन्दरूप  
शात्मा ही प्राणियोंद्वारा अविद्यासे  
परिच्छिन्न भावना किया जाता है ।  
अविद्वान्के भय और विद्वान्के  
अभयका कारण होनेसे भी ब्रह्म है,  
क्योंकि किसी सत्य पदार्थके आश्रयसे  
ही अभय हुआ करता है, असद्ब्रह्मके  
आश्रयसे भयकी निवृत्ति होनी सम्भव  
नहीं है ।

ब्रह्मका अभयहेतुत्व किस प्रकार  
है, सो बतलाया जाता है—क्योंकि  
जिस समय भी यह साधक इस  
ब्रह्ममें [ प्रतिष्ठा—स्थिति अर्थात्  
आत्मभाव प्राप्त कर लेता है । ]  
किन विशेषणोंमें युक्त ब्रह्ममें ?  
अदृश्यमें—दृश्य देखे जानेवाले अर्थात्  
विकारका नाम है; क्योंकि विकार  
देखे जानेके ही लिये है; जो दृश्य न  
हो उसे अदृश्य अर्थात् अविकार  
कहते हैं । इस अदृश्य—अविकारी  
अर्थात् अविषयभूत, अनात्म्य—अ-  
शरीरमें । क्योंकि वह अदृश्य है  
इसलिये अशरीर भी है और क्योंकि

यस्मादनात्म्यं तस्मादनिरुक्तम् ।  
 विशेषो हि निरुच्यते विशेषश्च  
 विकारः । अविकारं च ब्रह्म,  
 सर्वविकारहेतुत्वात्तस्मादनिरुक्तम् ।  
 यत एवं तस्मादनिलयनं  
 निलयनं नीड आश्रयो न  
 निलयनमनिलयनमनाधारं तस्मि-  
 न्नेतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्ते-  
 ऽनिलयने सर्वकार्यधर्मविलक्षणे  
 ब्रह्मणीति वाक्यार्थः । अभयमिति  
 क्रियाविशेषणम् । अभयामिति वा  
 लिङ्गान्तरं परिणम्यते । प्रतिष्ठां  
 स्थितिमात्मभावं विन्दते लभते ।  
 अथ तदा स तस्मिन्नानात्वस्य  
 भयहेतोरविद्याकृतस्यादर्शनाद-  
 भय गतो भवति ।

स्वरूपप्रतिष्ठो ह्यसौ यदा

भवति तदा नान्यत्पश्यति ना-

अशरीर है इसलिये अनिरुक्त है ।  
 निरूपण विशेषका ही किया जाता  
 है और विशेष विकार ही होता है,  
 किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण विकारका कारण  
 होनेसे स्वयं अविकार ही है, इसलिये  
 वह अनिरुक्त है । क्योंकि ऐसा है  
 इसलिये वह अनिलयन है, निलयन  
 आश्रयको कहते हैं, जिसका निलयन  
 न हो वह अनिलयन यानी अनाश्रय  
 है । उस इस अदृश्य, अनात्म्य,  
 अनिरुक्त और अनिलयन अर्थात्  
 सम्पूर्ण कार्यधर्मोंसे विलक्षण ब्रह्ममें  
 अभय प्रतिष्ठा—स्थिति यानी आत्म-  
 भावको प्राप्त करता है । उस समय  
 उसमें भयके हेतुभूत ज्ञानात्मको न  
 देखनेके कारण अभयको प्राप्त हो  
 जाता है । मूलमें 'अभयम्' यह  
 क्रियाविशेषण है\* अथवा इसे  
 'अभयम्' इस प्रकार अन्य ( स्त्री )  
 लिङ्गके रूपमें परिणत कर लेना  
 चाहिये ।

जिस समय यह अपने स्वरूपमें

स्थित हो जाता है उस समय यह

\* अर्थात् अभयरूपसे प्रतिष्ठा—स्थिति यानी आत्मभाव प्राप्त कर लेता है ।

न्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति ।  
 अन्यस्य ह्यन्यतो भयं भवति  
 नात्मन एवात्मनो भयं युक्तम् ।  
 तस्मादात्मैवात्मनोऽभयकारणम् ।  
 सर्वतो हि निर्भया ब्राह्मणा  
 दृश्यन्ते सत्सु भयहेतुषु तच्चा-  
 युक्तमसति भयत्राणे ब्रह्मणि ।  
 तस्मात्तेषामभयदर्शनादस्ति तद-  
 भयकारणं ब्रह्मेति ।

न तो और कुछ देखता है, न और  
 कुछ सुनता है और न और कुछ  
 जानता ही है । अन्यको ही अन्यसे  
 भय हुआ करता है, आत्मासे आत्मा-  
 को भय होना सम्भव नहीं है ।  
 अतः आत्मा ही आत्माके अभयका  
 कारण है । ब्राह्मण लोग ( ब्रह्मनिष्ठ  
 पुरुष ) भयके कारणोंके रहते हुए  
 भी सब ओरसे निर्भय दिखायी देते  
 हैं । किन्तु भयसे रक्षा करनेवाले  
 ब्रह्मके न होनेपर ऐसा हांन  
 असम्भव था । अतः उन्हें निर्भय  
 देखनेसे यह सिद्ध हांता है कि  
 अभयका हेतुभूत ब्रह्म है ही ।

कदासावभयं गतो भवति  
 भेददर्शनमेव साधको यदा ना-  
 भयहेतुः न्यत्प्रश्यत्यात्मनि  
 चान्तरं भेदं न कुरुते तदाभयं  
 गतो भवतीत्यभिप्रायः । यदा  
 पुनरविद्यावस्थायां हि यस्मा-  
 देषांऽविद्यावानविद्यया प्रत्युप-  
 स्थापितं वस्तु तैमिरिकद्वितीय-  
 चन्द्रवत्प्रश्यत्यात्मनि चैतस्मिन्  
 ब्रह्मणि उदपि, अरमल्पमप्यन्तरं  
 छिद्रं भेददर्शनं कुरुते । भेददर्शन-

यह साधक कत्र अभयका प्राप्त  
 होता है ? [ ऐसा प्रश्न होनेपर  
 कहते हैं—] जिस समय यह अन्य  
 कुछ नहीं देखता और अपने आत्मामे  
 किसी प्रकारका अन्तर-भेद नहीं  
 करता उस समय ही यह अभयका  
 प्राप्त होता है—यह इसका तात्पर्य  
 है । किन्तु जिस समय अविद्यावस्था-  
 में यह अविद्याप्रस्त जीव तिमिरोगी-  
 को दिखायी देनेवाले दूसरे चन्द्रमाके  
 समान अविद्याद्वारा प्रस्तुत किये हुए  
 पदार्थको देखता है तथा इस आत्मा  
 यानी ब्रह्ममें थोड़ा-सा भी अन्तर—  
 छिद्र अर्थात् भेददर्शन करता है—

मेव हि भयकारणमल्पमपि भेदं पश्यतीत्यर्थः । अथ तस्माद्भेददर्शनाद्भेतोरस्य भेददर्शिन आत्मनो भयं भवति । तस्मादात्मैवात्मनो भयकारणमविदुषः ।

तदेतदाह । तद्ब्रह्म त्वेव भयं भेददर्शिनो विदुष ईश्वरोऽन्यो मत्तोऽहमन्यः संसारी इत्येवं विदुषो भेददृष्टमीश्वराख्यं तदेव ब्रह्माल्पमप्यन्तरं कुर्वतो भयं भवत्येकत्वेनामन्यानस्य । तस्माद्विद्वानप्यविद्वानेवासां योऽप्येकमभिन्नमात्मतत्त्वं न पश्यति ।

उच्छेदहेतुदर्शनाद्बुच्छेद्या-  
भिमतस्य भयं भवति । अनु-  
च्छेद्यो ह्यच्छेदहेतुस्तत्रासत्युच्छेद-  
हेताबुच्छेद्ये न तद्दर्शनकार्यं भयं

भेददर्शन ही भयका कारण है, अत तात्पर्य यह है कि यदि यह थोड़ा-सा भी भेद देखता है—तो उस आत्माके भेददर्शनरूप कारणसे उसे भय होता है । अत. अज्ञानीके लिये आत्मा ही आत्माके भयका कारण है ।

यहाँ श्रुति इसी बातको कहती है—भेददर्शी विद्वान्के लिये वह ब्रह्म ही भयरूप है । मुझसे भिन्न ईश्वर और है तथा मैं संसारी जीव और हूँ इस प्रकार उसमें थोड़ा-सा भी अन्तर करनेवाले उसे एकरूपसे न माननेवाले विद्वान् ( भेदज्ञानी ) के लिये वह भेदरूपसे देखा गया ईश्वरसङ्गरु ब्रह्म ही भयरूप हो जाता है । अत जो पुरुष एक अभिन्न आत्मतत्त्वको नहीं देखता वह विद्वान् होनेपर भी अविद्वान् ही है ।

अपनेको उच्छेद्य ( नाशवान् ) माननेवालेको ही उच्छेदका कारण देखनेसे भय हुआ करता है । उच्छेदका कारण तो अनुच्छेद्य ( अविनाशी ) ही होता है । अत यदि कोई उच्छेदका कारण न होता तो उच्छेद्य पदार्थोंमें उसके देखनेसे

युक्तम् । सर्वं च जगद्भयवद्  
 दृश्यते । तस्माज्जगतो भयदर्श-  
 नाद्भयते नूनं तदस्ति भयकारण-  
 मुच्छेदहेतुरनुच्छेद्यात्मकं यतो  
 जगद्भिभेतीति । तदेतस्मिन्नप्यर्थ  
 एष श्लोको भवति ॥ १ ॥

होनेवाला भय सम्भव नहीं था ।  
 किन्तु सारा ही संसार भययुक्त  
 देखा जाता है । अतः जगत्को  
 भय होता देखनेसे जाना जाता है  
 कि उसके भयका कारण उच्छेदका  
 हेतुभूत किन्तु स्वयं अनुच्छेदरूप  
 ब्रह्म है, जिससे कि जगत् भय  
 मानता है । इसी अर्थमें यह श्लोक  
 भी है ॥ १ ॥

इति ब्रह्मानन्दवल्लीयां सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥



## अष्टम अनुवाक

ब्रह्मानन्दके निरतिशयत्वकी मीमासा

भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मा-  
दग्निश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धावति पञ्चम इति । सैपानन्दस्य  
मीमांसा भवति । युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो  
दृढिष्ठो बलिष्ठस्तस्येय पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् ।  
स एको मानुष आनन्दः । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः ॥१॥

स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य  
चाकामहतस्य । ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः ।  
स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामह-  
तस्य । ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः पितृणां  
चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।  
ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एक  
आजानजानां देवानामानन्दः ॥२॥

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमाजानजानां  
देवानामानन्दाः । स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ।  
ये कर्मणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।  
ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । स एको देवा-



नामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं  
देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥ ३ ॥

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्या-  
नन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाका-  
महतस्य । ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजा-  
पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं  
प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य  
चाकामहतस्य ॥ ४ ॥

इसके भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य उदय होता है  
तथा इसीके भयसे अग्नि, इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है । अब यह  
[ इस ब्रह्मके ] आनन्दकी मीमांसा है—साधु स्वभाववाला नवयुवक,  
वेद पढ़ा हुआ, अत्यन्त आशावान् [ कभी निराश न होनेवाला ] तथा  
अत्यन्त दृढ़ और बलिष्ठ हो एवं उसीकी यह धन-धान्यसे पूर्ण सम्पूर्ण  
पृथिवी भी हो । [ उसका जो आनन्द है ] वह एक मानुष आनन्द है;  
ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं ॥ १ ॥ वही मनुष्य-गन्धर्वोंका एक  
आनन्द है तथा वह अकामहत ( जो कामनासे पीड़ित नहीं है उस )  
श्रोत्रियको भी प्राप्त है । मनुष्य-गन्धर्वोंके जो सौ आनन्द हैं वही  
देवगन्धर्वोंका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है ।  
देवगन्धर्वोंके जो सौ आनन्द हैं वही नित्यलोकमें रहनेवाले पितृगणका  
एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । चिचलोक-  
निवासी पितृगणके जो सौ आनन्द हैं वही आजानज देवताओंका एक  
आनन्द है ॥ २ ॥ और वह अकामहत श्रोत्रियोंको भी प्राप्त है । आजानज  
देवताओंके जो सौ आनन्द हैं वही कर्मदेव देवताओंका, जो कि  
[ अग्निहोत्रादि ] कर्म करके देवत्वको प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है और

वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । कर्मदेव देवताओंके जो सा आनन्द हैं वही देवताओंका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । देवताओंके जो सौ आनन्द हैं वही इन्द्रका एक आनन्द है ॥ ३ ॥ तथा वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । इन्द्रके जो सौ आनन्द हैं वही वृहस्पतिका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियका भी प्राप्त है । वृहस्पतिके जो सौ आनन्द हैं वही प्रजापतिका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । प्रजापतिके जो सौ आनन्द हैं वही ब्रह्माका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है ॥ ४ ॥

भीषा भयेनास्माद्वातः पयते ।

भीषोदेति सूर्यः

भयानुशामनम्

भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च

मृत्युर्धावति पञ्चम इति । वाता-

दयो हि महार्हाः स्वयमीश्वराः

सन्तः पवनादिकार्येष्वायामबहु-

लेषु नियताः प्रवर्तन्ते । तद्युक्तं

प्रशास्तरि सति; यस्मान्नियमेन

तेषां प्रवर्तनम् । तस्मादस्ति भय-

कारणं तेषां प्रशास्तु ब्रह्म ।

यतस्ते भृत्या इव राज्ञोऽस्मा-

द्ब्रह्मणो भयेन प्रवर्तन्ते । तच्च

भयकारणमानन्दं ब्रह्म ।

इसकी भीति अर्थात् भयसे वायु चलता है, इसीकी भीतिसे सूर्य उदित होता है और इसके भयसे ही अग्नि, इन्द्र तथा पाँचवों मृत्यु दौडता है । वायु आदि देवगण परमपूजनीय और स्वयं समर्थ होने-पर भी अत्यन्त श्रमसाध्य चलने आदिके कार्यमें नियमानुसार प्रवृत्त हो रहे हैं । यह वात उनका कोई शासक होनेपर ही सम्भव है । क्योंकि उनकी नियमसे प्रवृत्ति होनी है इसलिये उनके भयका कारण और उनपर शासन करनेवाला ब्रह्म है । जिस प्रकार राजाके भयसे सेवक लोग अपने-अपने कामोंमें लगे रहते हैं उसी प्रकार वे इस ब्रह्मके भयसे प्रवृत्त होते हैं, वह उनके भयका कारण ब्रह्म आनन्दस्वरूप है ।

• पूर्वोक्त वायु आदिके क्रमसे गणना किये जानेपर पाँचवाँ होनेके कारण मृत्युको पाँचवाँ कहा है ।

तस्यास्य ब्रह्मण आनन्दस्यैषा  
मीमांसा विचारणा  
ब्रह्मानन्द-  
लोचनम् भवति । किमान-  
न्दस्य मीमांस्यमित्युच्यते ।  
किमानन्दो विषयविषयिसंबन्ध-  
जनितो लौकिकानन्दवदाहोस्वित्  
स्वाभाविक इत्येवमेवानन्दस्य  
मीमांसा ।

तत्र लौकिक आनन्दो बाह्या-  
ध्यात्मिकसाधनसंपत्तिनिमित्त  
उत्कृष्टः । स य एष निर्दिश्यते  
ब्रह्मानन्दानुगमार्थम् । अनेन हि  
प्रसिद्धेनानन्देन व्यावृत्तविषय  
बुद्धिगम्य आनन्दोऽनुगन्तुं  
शक्यते ।

लौकिकोऽप्यानन्दो ब्रह्मानन्द-  
स्यैव मात्रा अविद्यया तिरस्क्रिय-  
माणे विज्ञान उत्कृष्यमाणायां  
चाविद्यायां ब्रह्मादिभिः कर्म-  
वशाद्यथाविज्ञानं विषयादिसा-  
धनसंबन्धवशाच्च विभाव्यमानश्च  
लोकेऽनवस्थितो लौकिकः संप-

उस इस ब्रह्मके आनन्दकी यह  
मीमांसा—विचारणा है । उस  
आनन्दकी क्या बात विचारणीय है,  
इसपर कहते हैं—'क्या वह  
आनन्द लौकिक सुखकी भाँति  
विषय और विषयको ग्रहण करने-  
वालेके सम्बन्धसे होनेवाला है अथवा  
स्वाभाविक ही है ?' इस प्रकार यही  
उस आनन्दकी मीमांसा है ।

उसमें जो लौकिक आनन्द बाह्य  
और शारीरिक साधन-सम्पत्तिके  
कारण उत्कृष्ट गिना जाता है  
ब्रह्मानन्दके ज्ञानके लिये यहाँ  
उसीका निर्देश किया जाता है ।  
इस प्रसिद्ध आनन्दके द्वारा ही  
जिसकी बुद्धि विषयोंसे हटी हुई  
है उस ब्रह्मवेत्ताको अनुभव होनेवाले  
आनन्दका ज्ञान हो सकता है ।

लौकिक आनन्द भी ब्रह्मानन्दका  
ही अंश है । अविद्यासे विज्ञानके  
तिरस्कृत हो जानेपर और अविद्याका  
उत्कर्ष होनेपर प्राक्तन कर्मवश  
विषयादि साधनोंके सम्बन्धमें ब्रह्म  
आदि जीवोंद्वारा अपने-अपने विज्ञाना-  
नुसार भावना किया जानेंके कारण  
ही वह लोकमें अस्थिर और लौकिक

धते । स एवाविद्याकामकर्माप-  
कर्षेण मनुष्यगन्धर्वाद्युत्तरोत्तर-  
भूमिष्वकामहतविद्वच्छ्रोत्रियप्र-  
त्यक्षो विभाव्यते शतगुणोत्तरो-  
त्तरोत्कर्षेण यावद्विरण्यगर्मस्य  
ब्रह्मण आनन्द इति । निरस्ते  
त्वविद्याकृते विषयविषयिविभागे  
विश्रया स्वाभाविकः परिपूर्ण  
एक आनन्दोऽद्वैतो मगतीत्येत-  
मर्थं विभावयिष्यन्नाह ।

युवा प्रथमवयाः साधुयुवेति  
साधुश्चासौ युवा चेति यूना  
विशेषणम् । युवाप्यसाधुर्मरति  
साधुरप्ययुवातो विशेषणं युवा  
स्यात्साधुयुवेति । अध्यायको-  
ऽधीतवेदः । आशिष्ठ आशान्तु-  
तमः । दृढिष्ठो दृढतमः । बलिष्ठो  
बलवत्तमः । एवमाध्यात्मिक-  
साधनसंपन्नः । तस्येयं पृथिव्युर्वी

आनन्द हो जाता है । कामनाओंमें  
पराभूत न होनेवाले विद्वान् श्रोत्रिय-  
को प्रत्यक्ष अनुभव होनेवाला वह  
ब्रह्मानन्द ही मनुष्य-गन्धर्व आदि  
आगे-आगेकी भूमियोंमें हिरण्यगर्म-  
पर्यन्त अविद्या, कामना और कर्मका  
हास होनेसे उत्तरोत्तर सौ-सौ गुने  
उत्कर्षसे आविर्भूत होता है । तथा  
विद्याद्वारा अविद्याजनित विषय-विषयि-  
विभागके निवृत्त हो जानेपर वह  
स्वाभाविक परिपूर्ण एक और अद्वैत  
आनन्द हो जाता है—इसी अर्थका  
समझानेके लिये श्रुति कहती है—

जो युवा अर्थात् पूर्ववयस्क,  
साधुयुवा अर्थात् जो साधु भी हो और  
युवा भी—इस प्रकार साधुयुवा  
शब्द 'युवा' का विशेषण है, लंकेमें  
युवा भी असाधु हो सकता है और  
साधु भी अयुवा ही सकता है,  
इसीलिये 'जो युवा हो—साधुयुवा  
हो' इस प्रकार विशेषणरूपसे कहा है ।  
तथा अध्यायक—वेद पढ़ा हुआ,  
आशिष्ठ—अत्यन्त आशान्तु,  
दृढिष्ठ—अत्यन्त दृढ़ और बलिष्ठ—  
अति बलवान् हो, इस प्रकार जो  
इन आप्यात्मिक साधनोंसे सम्पन्न  
हो; और उसीकी, यह धनसे अर्थात्

सर्वा वित्तस्य वित्तेनोपमोगमाध-  
नेन दृष्टार्थेनादृष्टार्थेन च कर्म-  
साधनेन संपन्ना पूर्णा राजा  
पृथिवीपतिरित्यर्थः । तस्य च य  
आनन्दः स एको मानुषो मनु-  
ष्याणां प्रकृष्ट एक आनन्दः ।

ते ये शतं मानुषा आनन्दाः  
स एकां मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः ।  
मानुषानन्दाच्छतगुणेनोत्कृष्टो  
मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दो भवति ।  
मनुष्याः सन्तः कर्मविद्याविशेषा-  
द्गन्धर्वत्वं प्राप्ता मनुष्यगन्धर्वाः ।  
ते ह्यन्तर्धानादिशक्तिसंपन्नाः  
सूक्ष्मकार्यकरणाः । तस्मात्प्रति-  
घाताल्पत्वं तेषां द्वन्द्वप्रतिघात-  
शक्तिसाधनसंपत्तिश्च । ततो-  
ऽप्रतिहन्यमानस्य प्रतीकारवृत्तो  
मनुष्यगन्धर्वस्य स्वाच्चित्तप्रसादः ।  
तत्प्रसादविशेषात्सुखविशेषाभि-

उपभोगके साधनसे तथा लौकिक  
और पारलौकिक कर्मके साधनसे  
सम्पन्न सम्पूर्ण पृथिवी हो—अर्थात्  
जो राजा यानी पृथिवीपति हो;  
उसका जो आनन्द है वह एक  
मानुष आनन्द यानी मनुष्योंका  
एक प्रकृष्ट आनन्द है ।

ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं  
वही मनुष्य-गन्धर्वोंका एक आनन्द  
है । मानुष आनन्दसे मनुष्य-गन्धर्वों-  
का आनन्द सौ गुना उत्कृष्ट होता  
है । जो पहले मनुष्य होकर फिर  
कर्म और उपासनाकी विशेषतासे  
गन्धर्वत्वको प्राप्त हुए हैं वे मनुष्य-  
गन्धर्व कहलाते हैं । वे अन्तर्धानादि-  
की शक्तिसे सम्पन्न यथा सूक्ष्म-शरीर  
और इन्द्रियोंसे युक्त होते हैं, इसलिये  
उन्हें [ शीतोष्णादि द्वन्द्वोंका ] थोड़ा  
प्रतिघात होता है तथा वे  
द्वन्द्वोंका सामना करनेवाले सामर्थ्य  
और साधनसे सम्पन्न होते हैं ।  
अतः उस शीतोष्णादि द्वन्द्वमे  
प्रतिहत न होनेवाले तथा [ उसका  
आघात होने ] उसका प्रतीकार  
करनेमें समर्थ मनुष्यगन्धर्वको चित्त-  
प्रसाद प्राप्त होता है और उस  
प्रसादविशेषसे उसके सुखविशेषकी

व्यक्तिः । एवं पूर्वस्याः पूर्वस्या  
भूमेरुत्तरस्यामुत्तरस्यां भूमौ  
प्रसादविशेषतः शतगुणेनानन्दो-  
त्कर्ष उपपद्यते ।

प्रथमं त्वकामहताग्रहणं मनु-  
प्यविषयभोगक्रामानमिहतस्य  
श्रोत्रियस्य मनुष्यानन्दाच्छत-  
गुणेनानन्दोत्कर्षो मनुष्यगन्धर्वेण  
तुल्यो वक्तव्य इत्येवमर्थम् ।  
माधुषुशाध्यायक इति श्रोत्रिय-  
त्तशृजिनत्वे गृह्येते । ते क्षत्रि-  
शिष्टे सर्वत्र । अकामहतत्वं तु  
विषयोत्कर्षापकर्षतः सुखोत्कर्षा-  
पकर्षाय विशेष्यते । अतोऽकाम-  
हतग्रहणम्, तद्विशेषतः शतगुण-

अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार  
पूर्व-पूर्व भूमि की अपेक्षा आगे-आगे-  
की भूमि में प्रसाद की विशेषता होने-  
से सौ-सौ गुने आनन्द का उत्कर्ष  
होना सम्भव ही है ।

[ आगे के सब वाक्यों के साथ  
रहनेवाला ] 'श्रोत्रियस्य चाकामह-  
तस्य' यह वाक्य पहले [ मानुष  
आनन्द के साथ ] इसलिये ग्रहण  
नहीं किया गया कि विषय-भोग  
और कामनाओं से व्याकुल न रहने-  
वाले श्रोत्रिय के आनन्द का उत्कर्ष  
मानुष आनन्द की अपेक्षा सौ गुना  
अर्थात् मनुष्यगन्धर्व के आनन्द के  
तुल्य बतलाना है । श्रुति में 'साधु-  
युवा' और 'अध्यायक' ये दो विशेषण  
[ सार्वभौम राजा का ] श्रोत्रियत्व  
और निष्पापत्व प्रदर्शित करने के  
लिये ग्रहण किये जाते हैं । इन्हें  
आगे भी सबके साथ समान भाव से  
समझना चाहिये । विषय के उत्कर्ष  
और अपकर्ष से सुख का भी उत्कर्ष  
और अपकर्ष होता है [ किन्तु  
कामनारहित पुरुष के लिये सुख का  
उत्कर्ष या अपकर्ष हुआ नहीं  
करता ] इसीलिये अकामहतत्व की  
विशेषता है । और इमी में  
'अकामहत' पद ग्रहण किया गया  
है । अतः उससे विशिष्ट पुरुष के

सुखोत्कर्षोपलब्धेरकामहतत्वस्य  
परमानन्दप्राप्तिसाधनत्वविधाना-  
र्थम् । व्याख्यातमन्यत् ।

देवगन्धर्वा जातित एव ।  
चिरलोकलोकानामिति पितृणां  
विशेषणम् । चिरकालस्थायी  
लोकों येषां पितृणां ते चिर-  
लोकलोक इति । आजान इति  
देवलोकस्तस्मिन्नाजाने जाता आ-  
जानजा देवाः सार्तकर्मविशेषता  
देवस्थानेषु जाताः ।

कर्मदेवा ये वैदिकेन कर्मणा-  
प्रिहोत्रादिना केवलेन देवान-  
पिपन्ति । देवा इति त्रयस्त्रिंश-  
द्धविर्भुजः । इन्द्रस्तेषां स्वामी  
तस्याचार्यो बृहस्पतिः । प्रजा-  
पतिर्विराट् । त्रैलोक्यशरीरो ब्रह्मा  
समष्टिव्यष्टिरूपः संसारमण्डल-  
व्यापी ।

यत्रैत आनन्दभेदा एकतां  
गच्छन्ति धर्मश्च तन्निमित्तो ज्ञानं

सुखका सौगुना उत्कर्ष देखा जाता  
है; अतः अकामहतत्वकां परमानन्द-  
की प्राप्तिका साधन बतलनेके लिये  
'अकामहत' विशेषण ग्रहण किया  
है और सत्रकी व्याख्या पहले की  
जा चुकी है ।

देवगन्धर्व—जो जन्मसे ही गन्धर्व  
हों 'चिरलोकलोकानाम्' ( चिरस्थायी  
लोकमें रहनेवाले ) यह पितृगणका  
विशेषण है । जिन पितृगणका  
चिरस्थायी लोक है वे चिरलोक-  
लोक कहे जाने हैं । 'आजान'  
देवलोकका नाम है. उस आजानमें  
जो उत्पन्न हुए हैं वे देवगण  
'आजानज' हैं, जो कि स्मार्त कर्म-  
विशेषके कारण देवस्थानमें उत्पन्न  
हुर हैं ।

जो केवल अग्निहोत्रादि वैदिक  
कर्मसे देवभावको प्राप्त हुए हैं वे  
'कर्मदेव' कहलाते हैं । जो तैत्तिरीय  
देवगण यज्ञमें हविर्भाग लेनेवाले हैं  
वे ही यहाँ 'देव' शब्दसे कहे गये हैं ।  
उनका स्वामी इन्द्र है और इन्द्रका  
गुरु बृहस्पति है । 'प्रजापति' का  
अर्थ विराट् है, तथा त्रैलोक्यशरीर-  
धारी ब्रह्मा है जो समष्टि-व्यष्टिरूप  
और समस्त संसारमण्डलमें व्याप्त है ।

जहाँ ये आनन्दके भेद एकताको  
प्राप्त होते हैं [ अर्थात् एक  
ही गिने जाते हैं ] तथा जहाँ

च तद्विषयमकामहतत्वं च नि-  
रतिशयं यत्र स एष हिरण्यगर्भो  
ब्रह्मा, तस्यैव आनन्दः श्रोत्रि-  
येणावृजिनेनाकामहतेन च सर्वतः  
प्रत्यक्षमुपलभ्यते । तस्मादेतानि  
त्रीणि साधनानीत्यवगम्यते ।  
तत्र श्रोत्रियत्वावृजिनत्वे  
नियते अकामहतत्वं तत्कृष्यत  
इति प्रकृतसाधनतावगम्यते ।

तस्याकामहतत्वप्ररूपतश्चोपल-  
भ्यमानः श्रोत्रियप्रत्यक्षो ब्रह्मण  
आनन्दो यस्य परमानन्दस्य  
मात्रैरुद्देशः । “एतस्यैवानन्द-  
स्यान्यानि भूतानि मात्रामुप-  
जीवन्ति” ( वृ० उ० ४ । ३ ।  
३२ ) इति श्रुत्यन्तरात् । स एष  
आनन्दो यस्य मात्राः समुद्राम्भस  
इव विप्रुषः प्रविमक्ता यत्रैकतां

उससे होनेवाले धर्म एवं ज्ञान तथा  
तद्विषयक अकामहतत्व सबमे बड़े  
हुए हैं वह यह हिरण्यगर्भ ही ब्रह्मा  
है उसका यह आनन्द श्रोत्रिय,  
निष्पाप और अकामहत पुरुषद्वारा  
सर्वत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जाता  
है । इससे यह जाना जाता है कि  
[ निष्पापत्व, अकामहतत्व और  
श्रोत्रियत्व ] ये तीन उसके साधन  
हैं । इनमें श्रोत्रियत्व और निष्पापत्व  
तां नियत ( न्यूनाधिक न होनेवाले )  
धर्म हैं किन्तु अकामहतत्वका  
उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है, इसलिये  
यह प्रकृत-साधनरूपमे जाना  
जाता है ।

उस अकामहतत्वके प्ररूपसे  
उपलब्ध होनेवाला तथा श्रोत्रियको  
प्रत्यक्ष अनुभव होनेवाला वह ब्रह्माका  
आनन्द जिस परमानन्दकी मात्रा  
अर्थात् केवल एकदेशमात्र है, जैसा  
कि “इस आनन्दके लेशसे ही अन्य  
प्राणी जीवित रहते हैं” इस अन्य  
श्रुतिमे सिद्ध होता है, वह यह  
हिरण्यगर्भका आनन्द, जिस-  
की मात्राएँ ( लेशमात्र आनन्द )  
समुद्रके जलकी बूँदोंके समान  
विभक्त हो पुन उसमें एकत्वको



गताः स एष परमानन्दः स्वा-  
भाविकोऽद्वैतत्वादानन्दानन्दि-  
नोश्चाविभागोऽत्र ॥ १-४ ॥

प्राप्त हुई हैं वही अद्वैतरूप होने-  
से स्वाभाविक परमानन्द है । इसमें  
आनन्द और आनन्दीका अभेद  
है ॥ १-४ ॥

ब्रह्मात्मैक्य-दृष्टिका उपसंहार

तदेतन्मीमांसाफलमुपसंहियते-

अब इस मीमांसाके फलका  
उपसंहार किया जाता है—

स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य  
एवंविदस्माल्लोकात्प्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति ।  
एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं मनोमयमात्मान-  
मुपसंक्रामति । एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति । एत-  
मानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तदप्येष श्लोको  
भवति ॥ ५ ॥

वह, जो कि इस पुरुष ( पञ्चकोशात्मक देह ) में है और जो  
यह आदित्यके अन्तर्गत है, एक है । वह, जो इस प्रकार जाननेवाला है,  
इस लोक ( दृष्ट और अदृष्ट विषयसमूह ) से निवृत्त होकर इस अन्नमय  
आत्माको प्राप्त होता है [ अर्थात् विषयसमूहको अन्नमय कोशमे पृथक्  
नहीं देखना ] । इसी प्रकार वह इस प्राणमय आत्माको प्राप्त होता है,  
इस मनोमय आत्माको प्राप्त होता है, इस विज्ञानमय आत्माको प्राप्त  
होता है एवं इस आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है । उसीके विषयमें  
यह श्लोक है ॥ ५ ॥

यो गुहायां निहितः परमे

जो आकाशमे लेकर अन्नमय  
कोशपर्यन्त कार्यकी रचना करके  
उसमें अनुप्रविष्ट हुआ परमाकाशके  
भीतर बुद्धिरूप गुहामें स्थित है

व्याम्न्याकाशादि-  
कार्यं सृष्ट्वान्नमया-

न्तं तदेवानुप्रविष्टः स य इति निर्दिश्यते । कोऽसौ ? अयं पुरुषे, यश्चासावादित्ये यः परमानन्दः श्रोत्रियप्रत्यक्षो निर्दिष्टो घस्यैकदेशं व्रक्षादीनि भूतानि सुखा-र्हाण्युपजीयन्ति स यश्चासावादित्य इति निर्दिश्यते । स एको भिन्नप्रदेशस्थघटाकाशैकत्वत् ।

ननु तन्निर्देशे स यश्चायं पुरुष इत्यभिधेयत्वोऽध्यात्म न युक्तो निर्देशः यश्चायं दक्षिणे-ऽक्षविति तु युक्तः, प्रसिद्धत्वात् ।

न, पराधिकारात् । परो ह्यात्मात्राधिकृतोऽदृश्येऽनात्म्ये भीषासादावः परते सैषानन्दस्य भीषासेति । न ह्यरुम्मादप्रकृतौ

उसीका 'स य' ( वह जो ) इन पदोंद्वारा निर्देश किया जाता है । वह कौन है ? जाँ इस पुरुषमें है और जाँ श्रोत्रियके लिये प्रत्यक्ष बतलाया हुआ परमानन्द आदित्यमें है, जिसके एक देशके आद्यमें ही सुखके पात्रोभूत व्रक्षा आदि जीव जीवन धारण करते हैं उसी आनन्द-को 'स यश्चासावादित्ये' इन पदों-द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है । भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाश और महाकाशके एकत्वके ममान [ उन दोनों संपाधियोंमें स्थित ] वह आनन्द एक है ।

नङ्ग-किन्तु उस आनन्दका निर्देश करनेमें 'वह जो इस पुरुषमें है' इस प्रकार सामान्यरूपसे अध्यात्म पुरुषका निर्देश करना उचित नहीं है, बल्कि 'जो इस दक्षिण नेत्रमें है' इस प्रकार कइना ही उचित है; क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध है ।

समाधान-नहीं, क्योंकि यहाँपर आत्माका अधिकरण है । 'अदृश्ये-ऽनात्म्ये' 'भीषासादान पवते' तथा 'सैषानन्दस्य मीषामा' आदि वाक्यों-के अनुसार यहाँ परमात्माका ही प्रकरण है । अतः जिसका कोई प्रसङ्ग नहीं है उस [ दक्षिणनेत्रस्य

युक्तो निर्देष्टुम् । परमात्मविज्ञानं  
च विवक्षितम् । तस्मात्पर एव  
निर्दिश्यते 'स एकः' इति ।

नन्वानन्दस्य मीमांसा प्रकृता  
तस्या अपि फलमुपसंहर्तव्यम् ।  
अभिन्नः स्वाभाविक आनन्दः  
परमात्मैव न विषयविषयि-  
संबन्धजनित इति ।

ननु तदनु रूप एवायं निर्देशः  
'स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये  
स एकः' इति भिन्नाधिकरणस्य-  
विशेषोपमर्देन ।

नन्वेवमप्यादित्यविशेषग्रहण-  
मनर्थकम् ।

नानथकम्, उत्कर्षापकर्षा-  
पोहार्थत्वात् । द्वैतस्य हि मूर्ता-  
मूर्तलक्षणस्य पर उत्कर्षः सवि-  
त्रम्यन्तर्गतः स चेत्पुरुषगत-

पुरुष ] का अकस्मात् निर्देश करना  
उचित नहीं है । यहाँ परमात्माका  
विज्ञान वर्णन करना ही अभीष्ट है;  
इसलिये 'वह एक है' इस वाक्यसे  
परमात्माका ही निर्देश किया  
जाता है ।

शङ्का—यहाँ तो आनन्दकी  
मीमांसाका प्रकरण है, इसलिये  
उसके फलका उपसंहार भी करना  
ही चाहिये; क्योंकि अखण्ड  
और स्वाभाविक आनन्द परमात्मा  
ही है, वह विषय और विषयीके  
सम्बन्धसे होनेवाला आनन्द नहीं है ।

मध्यस्थ—'जो आनन्द इस पुरुषमें  
है और जो इस आदित्यमें है वह  
एक है' इस प्रकार भिन्न आश्रयोंमें  
स्थित विशेषका निराकरण करके  
जो निर्देश किया गया है वह तो  
इस प्रसंगके अनुरूप ही है ।

शङ्का—किन्तु, इस प्रकार भी  
'आदित्य' इस विशेष पदार्थका ग्रहण  
करना व्यर्थ ही है

समाधान—उत्कर्ष और अपकर्षका  
निषेध करनेके लिये होनेके कारण  
यह व्यर्थ नहीं है । मूर्त और अमूर्तरूप  
द्वैतका परम उत्कर्ष सूर्यके अन्तर्गत  
है; वह यदि पुरुषगत विशेषके बाध-

विशेषोपमर्देन परमानन्दमपेक्ष्य  
समो भवति न कश्चिदुत्कर्षोऽप-  
कर्षो वा तां गतिं गतस्येत्यभयं  
प्रतिष्ठां विन्दत इत्युपपन्नम् ।

अन्ति नास्तीत्यनुप्रश्नो व्या-  
द्वितीयानुप्रश्न रख्यातः । कार्यरस-  
विचार लामप्राणनामयप्र-  
तिष्ठाभयदर्शनोपपत्तिभ्योऽस्त्येव  
तदाकाशादिकारणं ब्रह्मेत्यपा-  
कृतोऽनुप्रश्न एकः । द्वावन्पाव-  
नुप्रश्नौ विद्वद्विदुषोर्ब्रह्मप्राप्त्य-  
प्राप्तिविषयौ तत्र विद्वान्समश्नुते  
न समश्नुत इत्यनुप्रश्नोऽन्त्यस्त-  
दपाकरणायोच्यते । मध्यमोऽनु-  
प्रश्नोऽन्त्यापाकरणादेवापाकृत  
इति तदपाकरणाय न यत्यते ।

स यः कश्चिदेवं यथोक्तं ब्रह्म  
उत्सृज्योत्कर्षापकर्षमद्वैतं सत्यं  
ज्ञानमनन्तमसीत्येवं वेत्ती-

द्वारा परमानन्दकी अपेक्षा उसके  
तुल्य ही सिद्ध होता है तो उस  
गतिको प्राप्त हुए पुरुषका कोई  
उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं रहता और  
वह निर्भय स्थितिको प्राप्त कर लेता  
है, अतः यह कथन उचित ही है ।

ब्रह्म है या नहीं—इस अनुप्रश्नकी  
व्याख्या कर दी गयी । कार्यरूप  
रसकी प्राप्ति, प्राणन, अभय-प्रतिष्ठा  
और भयदर्शन आदि युक्तियोंसे वह  
आकाशादिका कारणरूप ब्रह्म है  
ही—इस प्रकार एक अनुप्रश्नका  
निराकरण किया गया । दूसरे दो  
अनुप्रश्न विद्वान् और अविद्वान्की  
ब्रह्मप्राप्ति और ब्रह्मकी अप्राप्तिके  
विषयमें हैं । उनमें अन्तिम अनुप्रश्न  
यही है कि 'विद्वान् ब्रह्मको प्राप्त  
होता है या नहीं ?' उसका निरा-  
करण करनेके लिये कहा जाता है ।  
मध्यम अनुप्रश्नका निराकरण तो  
अन्तिमके निराकरणसे ही हो  
जायगा, इसलिये उसके निराकरणका  
यत्न नहीं किया जाता ।

इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और  
अपकर्षको त्यागकर 'मैं ही उपर्युक्त  
सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप अद्वैत ब्रह्म  
हूँ' ऐसा जानता है वह एवंविद

त्येवंवित् । एवंशब्दस्य प्रकृत-  
परामर्शार्थत्वात् । स किम् ?  
अस्माल्लोकात्प्रेत्य दृष्टादृष्टेष्टवि-  
षयसमुदायो ह्ययं लोकस्तस्मा-  
ल्लोकात्प्रेत्य प्रत्यावृत्त्य निरपेक्षो  
भूत्वैतं यथाव्याख्यातमन्नमय-  
मात्मानमुपसंक्रामति । विषयजात-  
मन्नमयात्पिण्डात्मनो व्यतिरिक्तं  
न पश्यति । सर्वं स्थूलभूतमन्न-  
मयमात्मानं पश्यतीत्यर्थः ।

ततोऽभ्यन्तरमेतं प्राणमयं  
सर्वान्नमयात्मस्थमविमक्तम् ।  
अथैतं मनोमयं विज्ञानमयमा-  
नन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति ।  
अथादृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिल-  
यनेऽमयं प्रतिष्ठां विन्दते ।

तत्रैतच्चिन्त्यम् । कोऽयमेवं-  
दतीत्यानुप्रदन्-  
विचारः वित्कथं वा संक्राम-  
तीति । किं परस्मा-  
दात्मनोऽन्यः संक्रमणकर्ता प्रवि-  
मक्त उत स एवेति ।

(इस प्रकार जाननेवाला) है; क्योंकि  
'एवम्' शब्द प्रसंगमें आये हुए पदार्थ-  
का परामर्श ( निर्देश ) करनेके  
लिये हुआ करता है । वह एवंवित्  
क्या [ करता है ] ? इस लोकसे  
जाकर—दृष्ट और अदृष्ट इष्ट विषयों-  
का समुदाय ही यह लोक है, उस  
इस लोकसे प्रेत्य—प्रत्यावर्तन करके  
( लौटकर ) अर्थात् उससे निरपेक्ष  
होकर इस ऊपर व्याख्या किये हुए  
अन्नमय आत्माको प्राप्त होता है ।  
अर्थात् वह विषयसमूहको अन्नमय  
शरीरसे भिन्न नहीं देखता; तात्पर्य  
यह है कि सम्पूर्ण स्थूल भूतवर्गको  
अन्नमय शरीर ही समझता है ।

उसके भीतर वह सम्पूर्ण अन्नमय  
कोशोंमें स्थित विभागहीन प्राणमय  
आत्माको देखता है । और फिर  
क्रमशः इस मनोमय, विज्ञानमय और  
आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है ।  
तत्पश्चात् वह इस अदृश्य, अशरीर,  
अनिर्बचनीय और अनाश्रय आत्मामें  
अभयस्थिति प्राप्त कर लेता है ।

अब यहाँ यह विचारना है कि  
यह इस प्रकार जाननेवाला है कौन ?  
और यह किस प्रकार संक्रमण करता  
है ? वह संक्रमणकर्ता परमात्मासे  
भिन्न है अथवा स्वयं वही है ।

किं ततः ?

यद्यन्यः स्याच्छ्रुतिविरोधः ।  
 “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्”  
 ( तै० उ० २ । ६ । १ ) “अ-  
 न्योऽसावन्योऽहमस्मीति । न स  
 वेद” ( बृ० उ० १ । ४ । १० )  
 “एकमेवाद्वितीयम्” ( छा० उ०  
 ६ । २ । १ ) “तच्चमसि”  
 ( छा० उ० ६ । ८-१६ ) इति ।  
 अथ स एव, आनन्दमयमात्मानमु-  
 पसंक्रामतीति कर्मकर्तृत्वानुप-  
 पत्तिः, परस्यैव च संसारित्वं  
 पराभावो वा ।

यद्युभयथा प्राप्तो दोषो न  
 परिहर्तुं शक्यत इति व्यर्था  
 चिन्ता । अथान्यतरसिन्पक्षे  
 दोषाप्राप्तिस्त्वृतीये वा पक्षेऽदुष्टे  
 स एव शास्त्रार्थ इति व्यर्थैव  
 चिन्ता ।

न; तन्निर्धारणार्थत्वात् । सत्यं

पूर्व०—इस विचारमे लाभ  
 क्या है ?

सिद्धान्ती—यदि वह उसमे भिन्न  
 है तो “उसे रचकर उसीमें अनुप्रविष्ट  
 हो गया” “यह अन्य है और मैं  
 अन्य हूँ—इस प्रकार जो कहता है  
 वह नहीं जानता” “एक ही  
 अद्वितीय” “तू वह है” इत्यादि  
 श्रुतियोंसे विरोध हागा । और यदि  
 वह स्वय ही आनन्दमय आत्माको  
 प्राप्त होता है तो उस [ एक ही ]  
 में कर्म और कर्तापन दोनोंका होना  
 असम्भव है, तथा परमात्माको ही  
 ससारित्वकी प्राप्ति अथवा उसके  
 परमात्मत्वका अभाव सिद्ध होता है ।

पूर्व०—यदि दोनों ही अवस्थाओं-  
 में प्राप्त होनेवाले दोषका परिहार  
 नहीं किया जा सकता तो उसका  
 विचार करना व्यर्थ है और यदि  
 किसी एक पक्षको स्वीकार कर लेनेमें  
 दोषकी प्राप्ति नहीं होती अथवा  
 कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उमें  
 ही शास्त्रका आशय समझना चाहिये ।  
 ऐसी अवस्थामें भी विचार करना  
 व्यर्थ ही होगा ।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि यह  
 उसका निश्चय करनेके लिये है ।

प्राप्तो दापो न शक्यः परिहर्तु-  
मन्यतरस्मिंस्तृतीये वा पक्षेऽदुष्टे-  
ऽवधृते व्यर्था चिन्ता स्यान्न तु  
सोऽवधृत इति तदवधारणार्थ-  
त्वादर्थवत्येवैषा चिन्ता ।

सत्यमर्थवती चिन्ता शास्त्रा-  
र्थावधारणार्थत्वात् । चिन्तयसि  
च त्वं न तु निर्णेप्यसि,

किं न निर्णेतव्यमिति वेद-  
वचनम् ?

न ।

कथं तर्हि ?

बहुप्रतिपक्षत्वात् । एकत्ववादी  
त्वम्, वेदार्थपरत्वात्, बहवो हि  
नानात्ववादिनो वेदवाहास्त्व-  
त्प्रतिपक्षाः । अतो ममाशङ्कां न  
निर्णेप्यसीति ।

एतदेव मे स्वस्त्ययनं यन्मा-

यह ठीक है कि इस प्रकार प्राप्त होनेवाला दोष निवृत्त नहीं किया जा सकता तथा उपर्युक्त दोनों पक्षोंमेंसे किसी एकका अथवा किसी तीसरे निर्दोष पक्षका निश्चय हो जानेपर भी यह विचार व्यर्थ ही होगा । किन्तु उस पक्षका निश्चय तो नहीं हुआ है; अतः उसका निश्चय करनेके लिये होनेके कारण यह विचार सार्थक ही है ।

पूर्व०—शास्त्रके तात्पर्यका निश्चय करनेके लिये होनेसे तो सचमुच यह विचार सार्थक है, परन्तु तू तो केवल विचार ही करता है, निर्णय तो कुछ करेगा नहीं ।

सिद्धान्ती—निर्णय नहीं करना चाहिये—ऐसा क्या कोई वेदवाक्य है ?

पूर्व०—नहीं ।

सिद्धान्ती—तो फिर निर्णय क्यों नहीं होगा ?

पूर्व०—क्योंकि तेरा प्रतिपक्ष बहुत है । वेदार्थपरायण होनेके कारण तू तो एकत्ववादी है किन्तु तेरे प्रतिपक्षी वेदवाह्य नानात्ववादी बहुत हैं । इसलिये मुझे सन्देह है कि तू मेरी शङ्काका निर्णय नहीं कर सकेगा ।

सिद्धान्ती—तुने जो मुझे बहुत-से

मेकयोगिनमनेकयोगिवहुप्रतिप-  
क्षमात्थ । अतो जेष्यामि सर्वान्;  
आरमे च चिन्ताम् ।

स एव तु स्यात्तद्भाष्यस्य वि-  
वक्षितत्वात् । तद्विज्ञानेन परमा-  
त्मभावो ह्यत्र विवक्षितो ब्रह्म-  
विदामोति परमिति । न ह्यन्य-  
स्यान्यमावापचिरुपपद्यते । ननु  
तस्यापि तद्भाषापचिरनुपपन्नैव ?  
न; अविद्याकृततादात्म्यापो-  
हार्थत्वात् । या हि ब्रह्मविद्यया  
स्वात्मप्राप्तिरुपदिश्यते साविद्या-  
कृतस्यान्नादिविशेषात्मन आत्म-  
त्वेनाध्यारोपितस्यानात्मनोऽपो-  
हार्था ।

कथमेवमर्थतावगम्यते ?

अनेकत्ववादी प्रतिपक्षियोंसे युक्त  
एकत्ववादी बतलाया है—यही बड़े  
मङ्गलकी बात है । अतः अब मैं  
सबको जीत लूँगा, ले, मैं विचार  
आरम्भ करता हूँ ।

वह सक्रमणकर्ता परमात्मा ही  
है, क्योंकि यहाँ जीवको परमात्म-  
भावकी प्राप्ति बतलानी अभीष्ट है ।  
'ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता  
है' इस वाक्यके अनुसार यहाँ ब्रह्म-  
विज्ञानसे परमात्मभावकी प्राप्ति होती  
है—यही प्रतिपादन करना इष्ट है ।  
किसी अन्य पदार्थका अन्य पदार्थ-  
भावको प्राप्त होना सम्भव नहीं है ।  
यदि कहो कि उसका स्वयं अपने  
स्वरूपको प्राप्त होना भी असम्भव  
ही है, तो ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि यह कथन केवल अविद्यासे  
आरोपित अनात्मपदार्थोंका निषेध  
करनेके लिये ही है । [ तात्पर्य यह  
है कि ] ब्रह्मविद्याके द्वारा जो  
अपने आत्मस्वरूपकी प्राप्तिका  
उपदेश किया जाता है वह अविद्या-  
कृत अन्नमयादि कोशरूप विशेषात्मा-  
का अर्थात् आत्मभावसे आरोपित  
किये हुए अनात्माका निषेध करनेके  
लिये ही है ।

पूर्व०—उसका इस प्रयोजनके  
लिये होना कैसे जाना जाता है ?



विद्यामात्रोपदेशात् । विद्या-  
याश्च दृष्टं कार्यमविद्यानिवृत्ति-  
स्तच्चेह विद्यामात्रमात्मप्राप्तौ  
साधनमुपदिश्यते ।

मार्गविज्ञानोपदेशवदिति चे-  
त्तदात्मत्वे विद्यामात्रसाधनोप-  
देशोऽहेतुः । कस्मात् ? देशान्तर-  
प्राप्तौ मार्गविज्ञानोपदेशदर्श-  
नात् । न हि ग्राम एव गन्तेति  
चेत् ?

न, वैधर्म्यात् । तत्र हि ग्राम-  
विषयं विज्ञानं नोपदिश्यते ।  
तत्प्राप्तिमार्गविषयमेवोपदिश्यते

सिद्धान्ती—केवल ज्ञानका ही  
उपदेश किया जानेके कारण ।  
अज्ञानकी निवृत्ति—यह ज्ञानका  
प्रत्यक्ष कार्य है, और यहाँ आत्माकी  
प्राप्तिमें वह ज्ञान ही साधन बतलाया  
गया है ।

पूर्व०—यदि वह मार्गविज्ञानके  
उपदेशके समान हो तो ? [ अब  
इसीकी व्याख्या करते हैं—] केवल  
ज्ञानका ही साधनरूपसे उपदेश  
किया जाना उसकी परमात्मरूपतामें  
कारण नहीं हो सकता । ऐसा  
क्यों है ? क्योंकि देशान्तरकी प्राप्तिके  
लिये भी मार्गविज्ञानका उपदेश होता  
देखा गया है । ऐसी अवस्थामें ग्राम  
ही गमन करनेवाला नहीं हुआ  
करता—ऐसा माने तो ?

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक नहीं  
क्योंकि वे दोनों समान धर्मत्राले नहीं  
हैं । \* [ तुमने जो दृष्टान्त दिया है ]  
उसमें ग्रामविषयक विज्ञानका उपदेश  
नहीं दिया जाता, केवल उसकी  
प्राप्तिके मार्गसे सम्बन्धित विज्ञान-

\* ग्रामको जानेवाले और ब्रह्मको प्राप्त होनेवालेमें बड़ा अन्तर है । इसके  
शिवा ग्रामको जानेवालेको जो मार्गके विज्ञानका उपदेश किया जाता है उसमें  
यह नहीं कहा जाता कि 'तू असुक ग्राम है' परन्तु ब्रह्मज्ञानका उपदेश तो 'तू  
ब्रह्म है' इस अमेदस्यक वाक्यसे ही किया जाता है ।

विज्ञानम् । न तथेह ब्रह्मविज्ञान  
व्यतिरेकेण साधनान्तरविषयं  
विज्ञानमुपदिश्यते ।

उक्तकर्मादिसाधनापेक्षं ब्रह्म-  
विज्ञानं परप्राप्तौ साधनमुप-  
दिश्यत इति चेन्न; नित्य-  
त्वान्मोक्षस्येत्यादिना प्रत्युक्त-  
त्वात् । श्रुतिश्च तत्सृष्ट्वा तदेवा-  
नुप्राविशदिति कार्यस्यस्य तदा-  
त्मत्वं दर्शयति । अभयप्रतिष्ठोप-  
पत्तेश्च । यदि हि विद्यावान्स्वा-  
त्मनोऽन्यन्न पश्यति ततोऽभयं  
प्रतिष्ठां चिन्दत इति स्थाङ्गपहेतोः  
परस्यान्यस्याभावात् । अन्यस्य  
चाविद्याकृतत्वे विद्ययावस्तुत्व-  
दर्शनोपपत्तिस्तद्वि द्वितीयस्य

का ही उपदेश किया जाता है ।  
उसके समान इस प्रसङ्गमें ब्रह्म-  
विज्ञानसे भिन्न किसी अन्य साधन-  
सम्बन्धी विज्ञानका उपदेश नहीं  
किया जाता ।

यदि कहो कि [ पूर्वकाण्डमें ]  
कहे हुए कर्मकी अपेक्षावाला ब्रह्मज्ञान  
परमात्माकी प्राप्तिमें साधनरूपसे  
उपदेश किया जाता है, तो ऐसी  
बात भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष  
नित्य है—इत्यादि हेतुओंसे इसका  
पहले ही निराकरण किया जा चुका  
है । 'उसे रचकर वह उसीमें अनु-  
प्रविष्ट हो गया' यह श्रुति भी कार्य-  
में स्थित आत्माका परमात्मत्व प्रदर्शित  
करती है । अभय-प्रतिष्ठाकी उपपत्ति-  
के कारण भी [ उनका अभेद ही  
मानना चाहिये ] । यदि ज्ञानी अपनेमें  
भिन्न किसी औरको नहीं देखता  
तो वह अभयस्थितिको प्राप्त कर  
लेता है—ऐसा कहा जा सकता  
है, क्योंकि उस अवस्थामें मयके  
हेतुमूल अन्य पदार्थकी सत्ता नहीं  
रहती । अन्य पदार्थ [ अर्थात्  
द्वैत ] के अविद्याकृत होनेपर  
ही विद्याके द्वारा उसके अवस्तुत्व-  
दर्शनकी उपपत्ति हो सकती  
है । [ भ्रान्तिवश प्रतीत होनेवाले ]

चन्द्रस्य सत्त्वं यदतैमिरिकेण  
क्षुब्धता न गृह्यते ।

नैवं न गृह्यत इति चेत् ?

न, सुषुप्तसमाहितयोर-  
ग्रहणात् ।

सुषुप्तेऽग्रहणमन्यासक्तवदिति  
चेत् ?

न, सर्वाग्रहणात् । जाग्रत्स्वप्न-  
योरन्यस्य ग्रहणात्सत्त्वमेवेति  
चेन्न; अविद्याकृतत्वाजाग्र-  
त्स्वप्नयोः; यदन्यग्रहणं जाग्रत्स्वप्न-  
योस्तदविद्याकृतमविद्याभावेऽभा-  
वात् ।

सुषुप्तेऽग्रहणमप्यविद्याकृत-  
मिति चेत् ?

द्वितीय चन्द्रमाकी वास्तविकता  
यही है कि वह तिमिररोगरहित  
नेत्रोंवाले पुरुषद्वारा ग्रहण नहीं  
किया जाता ।

पूर्व०—परन्तु द्वैतका ग्रहण न  
होता हो—ऐसी बात तो है नहीं ।

सिद्धान्ती—ऐसा मत कहो;  
क्योंकि सोये हुए और समाधिस्थ  
पुरुषको उसका ग्रहण नहीं होता ।

पूर्व०—किन्तु सुषुप्तिमें जो द्वैतका  
अग्रहण है वह तो विषयान्तरमें  
आसक्तचित्त पुरुषके अग्रहणके  
समान है ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि उस  
समय तो सभी पदार्थोंका अग्रहण  
है [ फिर वह अन्यासक्तचित्त कैसे  
कहा जा सकता है ? ] यदि कहो  
कि जाग्रत् और स्वप्नावस्थामें अन्य  
पदार्थोंका ग्रहण होनेसे उनकी सत्ता  
है ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं;  
क्योंकि जाग्रत् और स्वप्न अविद्या-  
कृत हैं । जाग्रत् और स्वप्नमें जो अन्य  
पदार्थका ग्रहण है वह अविद्याके  
कारण है; क्योंकि अविद्याकी निवृत्ति  
होनेपर उसका अभाव हो जाता है ?

पूर्व०—सुषुप्तिमें जो अग्रहण है  
वह भी तो अविद्याके ही कारण है ।

न, स्वामाविकत्वात् । द्रव्य-

वस्तुनन्तात्त्विक-

विशेषरूपयो-

निर्वचनम्

स्य हि तत्त्वमविक्रि-

या परानपेक्षत्वात् ।

विक्रिया न तत्त्वं

परापेक्षत्वात् । न हि कारकापेक्षं

वस्तुनस्तत्त्वम् । सतो विशेषः

कारकापेक्षः, विशेषश्च विक्रिया ।

जाग्रत्स्वप्नयोश्च ग्रहणं विशेषः ।

यद्वि यस्य नान्यापेक्षं स्वरूपं

तत्त्वस्य तत्त्वम्, यदन्यापेक्षं न

तत्त्वम्, अन्यामावेऽभावात् ।

तस्मात्स्वामाविकत्वाज्जाग्रत्स्वप्न-

वन्न मुषुप्ते विशेषः ।

येषां पुनरीकरोऽन्य आत्मनः

नेददृष्टे-

कार्यं चान्यत्तेषां

भयहेतुत्वम्

मयानिवृत्तिर्मयस्या-

न्यनिमित्तत्वात् । सतधान्यस्यात्म-

हानानुपपत्तिः । न चासत आ-

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि वह तो स्वामाविक है । द्रव्यका तात्त्विक स्वरूप तो विकार न होना ही है,

क्योंकि उसे दूसरेकी अपेक्षा नहीं होती । दूसरेकी अपेक्षावाला होनेके कारण विकार तत्त्व नहीं है । जो

कर्ता, कर्म, कारण आदि कारकोंकी अपेक्षावाला होता है वह वस्तुका तत्त्व नहीं होता । विद्यमान वस्तुका

विशेष रूप कारकोंकी अपेक्षावाला होता है, और विशेष ही विकार होता है । जाग्रत् और स्वप्नका जो

ग्रहण है वह भी विशेष ही है । जिसका जो रूप अन्यकी अपेक्षासे रहित होता है वही उसका तत्त्व

होता है और जो अन्यकी अपेक्षा-वाला होता है वह तत्त्व नहीं होता,

क्योंकि उस अन्यका अभाव होनेपर उसका भी अभाव हो जाता है ।

अतः [सुषुप्तावस्था] स्वामाविक होनेके कारण उस समय जाग्रत् और स्वप्न-

के समान विशेषकी सत्ता नहीं है ।

किन्तु जिनके मतमें ईश्वर आत्मा-

से भिन्न है और उसका कार्यरूप यह जगत् भी भिन्न है उनके भयकी

निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भय दूसरेके ही कारण हुआ करता

है । अन्य पदार्थ यदि सत् होगा तब तो उसके स्वरूपका अभाव

नहीं हो सकता और यदि असत्

होता तो उसके स्वरूपका अभाव नहीं हो सकता और यदि असत्

त्मलाभः । सापेक्षस्यान्यस्य भय-  
हेतुत्वमिति चेन्न, तस्यापि तुल्य-  
त्वात् । यदधर्माद्यनुसहायीभूतं  
नित्यमनित्यं वा निमित्तमपेक्ष्या-  
न्यद्भयकारणं स्यात्तस्यापि तथा-  
भूतस्यात्महानाभावाद्भयानिवृत्तिः  
आत्महाने वा सदसत्तोरितरेत-  
रापत्तौ सर्वत्रानाश्वास एव ।

एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य

ज्ञानाज्ञानयो- संसारस्य अविद्या-  
नात्मधर्मत्वम् कल्पितत्वाददोषः ।

तैमिरिकदृष्टस्य हि द्वितीयचन्द्र-

स्य नात्मलामो नाशो वास्ति ।

विद्याविद्ययोस्तद्गर्भत्वमिति चेन्न

प्रत्यक्षत्वात् । विवेकाविवेकौ

होगा तो उसके स्वरूपकी सिद्धि  
ही नहीं हो सकती । यदि कहो  
कि दूसरा ( ईश्वर ) तो [ हमारे  
धर्माधर्म आदिकी ] अपेक्षासे ही  
भयका कारण है, तो ऐसा कहना  
भी ठीक नहीं; क्योंकि वह [ सापेक्ष  
ईश्वर ] भी वैसा ही है । जो कोई  
[ ईश्वरादि ] दूसरा पदार्थ नित्य या  
अनित्य अधर्मादिरूप सहायक निमित्त-  
की अपेक्षासे भयका कारण होता  
है, यथार्थ होनेके कारण उसके  
स्वरूपका भी अभाव न होनेसे  
उसके भयकी निवृत्ति नहीं हो सकती;  
और यदि उसके स्वरूपका अभाव  
माना जाय तो सत् और असत्को  
इतरेतरत्व [ अर्थात् सत्को असत्त्व  
और असत्को सत्त्व ] की प्राप्ति  
होनेसे कहीं विश्वास ही नहीं किया  
जा सकता ।

परन्तु एकत्वपक्ष स्वीकार करने-  
पर तो सारा संसार अपने कारणके  
सहित अविद्याकल्पित होनेके कारण  
कोई दोष ही नहीं आता । तिमिर  
रोगके कारण देखे गये द्वितीय  
चन्द्रमाके स्वरूपकी न तो प्राप्ति ही  
होती है और न नाश ही । यदि  
कहो कि ज्ञान और अज्ञान तो  
आत्माके ही धर्म हैं [ इसलिये उनके  
कारण आत्माका विकार होता होगा ]  
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि  
वे तो प्रत्यक्ष ( आत्माके दृश्य ) हैं ।

रूपादिघटप्रत्यक्षानुपलभ्येते अन्तः-  
करणस्थौ । न हि रूपस्य  
प्रत्यक्षस्य सतो द्रष्टृधर्मत्वम् ।  
अविद्या च स्वानुभवेन रूप्यते  
मूढोऽहमविविक्तं मम विज्ञान-  
मिति ।

तथा विद्याविवेकोऽनुभूयते ।  
उपदिशन्ति चान्येभ्य आत्मनो  
विद्याम् । तथा चान्येऽवधारयन्ति ।  
तस्मान्नामरूपपक्षस्यैव विद्याविद्ये  
नामरूपे च नात्मधर्मौ । “नाम-  
रूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा  
तद्ब्रह्म” ( छा० उ० ८ । १४ ।  
१ ) इति श्रुत्यन्तरात् । ते च  
पुनर्नामरूपे भवितर्यहोरात्रे इव  
कल्पिते न परमार्थतो विद्यमाने ।  
अभेदे “एतमानन्दमयमा-  
न्मानमुपसंक्रामति” ( तै० उ०  
२ । ८ । ५ ) इति कर्मकर्तृत्वा-  
नुपपत्तिरिति चेत् ?

रूप आदि विषयोंके समान अन्तः-  
करणमें स्थित विवेक और अविवेक  
प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं । प्रत्यक्ष  
उपलब्ध होनेवाला रूप द्रष्टाका धर्म  
नहीं हो सकता । ‘मैं मूढ़ हूँ, मेरी  
बुद्धि मलिन है’ इस प्रकार अविद्या  
मी अपने अनुभवके द्वारा निरूपण  
की जाती है ।

इसी प्रकार विद्याका पार्यङ्ग्य भी  
अनुभव किया जाता है । बुद्धिमान्  
लोग दूसरोंको अपने ज्ञानका उपदेश  
किया करते हैं । तथा दूसरे लोग  
भी उसका निश्चय करते हैं । अतः  
विद्या और अविद्या नाम-रूप पक्षके  
ही हैं, तथा नाम और रूप आत्माके  
धर्म नहीं हैं, जैसा कि “जो नाम  
और रूपका निर्वाह करनेवाला है  
तथा जिसके भीतर वे ( नाम  
और रूप ) रहते हैं, वह ब्रह्म है”  
इस अन्य श्रुतिमें सिद्ध होना है ।  
वे नाम-रूप भी मूर्ध्नि दिन और  
रात्रिके समान कल्पित ही हैं,  
वस्तुतः विद्यमान नहीं हैं ।

पूर्व०—किन्तु [ ईश्वर और जीवका ]  
अभेद माननेपर तो “वह इस  
आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है”  
इस श्रुतिमें जो [ पुरुषका ] कर्तृत्व और  
[ आनन्दमय आत्माका ] कर्मत्व बताया  
है वह उपपन्न नहीं होता ?

न; विज्ञानमात्रत्वात्संक्रमण-

क्रमणशब्द-  
तात्पर्यम्

स्य । न जल्लूकादि-  
वत्संक्रमणमिहोप-

दिश्यते, किं तर्हि ? विज्ञानमात्रं

संक्रमणश्रुतेरर्थः ।

ननु मुख्यमेव संक्रमणं श्रूयत

उपसंक्रामतीति चेत् ?

न; अन्नमयेऽदर्शनात् । न

ह्यन्नमयमुपसंक्रामतो बाह्यादस्मा-

ल्लोकाजल्लूकावत्संक्रमणं दृश्यते-  
ऽन्यथा वा ।

मनोमयस्य बहिर्निर्गतस्य

विज्ञानमयस्य वा पुनः प्रत्या-

वृत्त्यात्मसंक्रमणमिति चेत् ?

न; स्वात्मनि क्रियाविरोधा-

दन्योऽन्नमयमन्यमुपसंक्रामतीति

प्रकृत्य मनोमयो विज्ञानमयो वा

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि पुरुष-  
का संक्रमण तो केवल विज्ञानमात्र  
है । यहाँ जोक आदिके संक्रमणके  
समान पुरुषके संक्रमणका उपदेश  
नहीं किया जाता । तो कैसा ?  
इस संक्रमण-श्रुतिका अर्थ तो केवल  
विज्ञानमात्र है ।\*

पूर्व०—‘उपसंक्रामति’ इस पदसे  
यहाँ मुख्य संक्रमण ( समीप जाना )  
ही अभिप्रेत हो तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि अन्नमयमें  
मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता—  
अन्नमयको उपसंक्रमण करनेवालेका  
जोकके समान इस बाह्य जगत्से  
अथवा किसी और प्रकारसे संक्रमण  
नहीं देखा जाता ।

पूर्व०—बाहर [निकलकर विषयोंमें]  
गये हुए मनोमय अथवा विज्ञानमय  
कोशोंका तो वहाँसे पुनः लौटनेपर  
अपनी ओर होना संक्रमण ही  
सकता है ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि इससे  
अपनेमें ही अपनी क्रिया होना—  
यह विरोध उपस्थित होता है ।  
अन्नमयसे भिन्न पुरुष अपनेसे भिन्न  
अन्नमयको प्राप्त होता है—इस प्रकार

७ अर्थात् यहाँ ‘संक्रमण’ शब्दका अर्थ ‘जाना’ या ‘प्रदुर्गन्ना’ नहीं बल्कि  
जानना है ।

स्वात्मानमेवोपसंक्रामतीति वि-  
रोधः स्यात् । तथा नानन्दमय-  
स्वात्मसंक्रमणमुपपद्यते । तस्मान्न  
प्राप्तिः संक्रमणं नाप्यन्नमयादी-  
नामन्यतमकर्तृकम् । पारिशेष्याद-  
न्नमयाद्यानन्दमयान्तात्मच्यति-  
रिक्तकर्तृकं ज्ञानमात्रं च संक्रमण-  
मुपपद्यते ।

ज्ञानमात्रत्वे चानन्दमयान्तः-

स्यस्यैव सर्वान्तरस्याकाशाद्यन्न-  
मयान्तं कार्यं सृष्ट्वानुप्रविष्टस्य  
हृदयगुहामिसंवन्यादन्नमयादि-  
ष्वनात्मस्वात्मविभ्रमः सक्रमणे-  
नात्मविवेकविज्ञानोत्पत्त्या विन-  
श्यति । तदेतस्मिन्नाविद्याविभ्रम-  
नाशे संक्रमणशब्द उपचर्यते न  
हान्यथा सर्वगतस्यात्मनः संक्र-

प्रकरणका आरम्भ करके अब 'मनो-  
मय अथवा विज्ञानमय अपनेको  
ही प्राप्त होता है' ऐसा कहनेमें  
उससे विरोध आता है । इसी प्रकार  
आनन्दमयका भी अपनेको प्राप्त  
होना सम्भव नहीं है, अतः प्राप्तिका  
नाम सक्रमण नहीं है और न वह  
अन्नमयादिमेंसे किसीके द्वारा किया  
जाता है । फलतः आत्मासे भिन्न  
अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश-  
पर्यन्त जिसका कर्ता है वह ज्ञानमात्र  
ही संक्रमण होना सम्भव है ।

इस प्रकार 'सक्रमण' शब्दका  
अर्थ ज्ञानमात्र होनेपर ही आनन्दमय  
कोशके भीतर स्थित सर्वान्तर तथा  
आकाशसे लेकर अन्नमयकोशपर्यन्त  
कार्यवर्गको रचकर उसमें अनुप्रविष्ट  
हुए आत्माका जो हृदयगुहाके  
सम्बन्धसे अन्नमय आदि अनात्मार्थों-  
में आत्मत्वका भ्रम है वह सक्रमण-  
स्वरूप विवेक ज्ञानकी उत्पत्तिसे नष्ट  
हो जाता है । अतः इस अविद्यारूप  
भ्रमके नाशमें ही सक्रमण शब्दका  
उपचार ( गौणरूप ) से प्रयोग  
किया गया है, इसके सिवा किसी और  
प्रकार सर्वगत आत्माका सक्रमण  
होना सम्भव नहीं है ।



वस्तुन्तरामावाच्च । न च  
 स्वात्मन एव संक्रमणम् । न हि  
 जलूकात्मानमेव संक्रामति ।  
 तस्मात्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति  
 यथोक्तलक्षणात्मप्रतिपत्त्यर्थमेव  
 बहुभवनसर्गप्रवेशरसलाभाभय-  
 संक्रमणादि परिकल्प्यते ब्रह्मणि  
 सर्वव्यवहारविषये; न तु परमार्थतो  
 निर्विकल्पे ब्रह्मणि कश्चिदपि  
 विकल्प उपपद्यते ।

तमेतं निर्विकल्पमात्मानमेवं-  
 क्रमेणोपसंक्रम्य विदित्वा न  
 विभेति कुतश्चनाभयं प्रतिष्ठां  
 विन्दत इत्येतस्मिन्नर्थेऽप्येष श्लो-  
 को भवति । सर्वस्यैवास्य प्रक-  
 रणस्यानन्दबल्ल्यर्थस्य संक्षेपतः  
 प्रकाशनायैव मन्त्रो भवति ॥५॥

आत्मासे भिन्न अन्य वस्तुका  
 अभाव होनेसे भी [ उसका किसीके  
 प्रति जानारूप संक्रमण नहीं हो  
 सकता ] । अपना अपनेको ही  
 प्राप्त होना तो सम्भव नहीं है ।  
 जोंक अपने प्रति ही संक्रमण (गमन)  
 नहीं करती । अतः 'ब्रह्म सत्यस्वरूप,  
 ज्ञानस्वरूप और अनन्त है' इस  
 पूर्वोक्त लक्षणवाले आत्माके ज्ञानके  
 लिये ही सम्पूर्ण व्यवहारके आधार-  
 भूत ब्रह्ममें अनेक होना, सृष्टिमें  
 अनुप्रवेश करना, आनन्दकी प्राप्ति,  
 अभय और संक्रमणादिकी कल्पना  
 की गयी है; परमार्थतः तो निर्विकल्प  
 ब्रह्ममें कोई विकल्प होना सम्भव  
 है नहीं ।

इस प्रकार क्रमशः उस इस  
 निर्विकल्प आत्माके प्रति उपसंक्रमण-  
 कर अर्थात् उसे जानकर साधक  
 किसीसे भयभीत नहीं होता । वह  
 अभयस्थिति प्राप्त कर लेता है । इसी  
 अर्थमें यह श्लोक भी है । इस  
 सम्पूर्ण प्रकरणके अर्थात् आनन्द-  
 बलीके अर्थको संक्षेपसे प्रकाशित  
 करनेके लिये ही यह मन्त्र है ॥५॥

इति ब्रह्मानन्दबल्ल्यामष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

## नवम अनुवाक

ब्रह्मानन्दका अनुभव करनेवाले विद्वान्की अभयप्राप्ति

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।  
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चनेति । एतद्दह  
वाच न तपति । किमहंसाधु नाकरवम् । किमहं पाप-  
मकरवमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मानं स्पृणुते ।  
उभे ह्येवैष एते आत्मानं स्पृणुते । य एवं वेद । इत्युप-  
निषत् ॥ १ ॥

जहाँसे मनके सहित वाणी उसे प्राप्त न करके लौट आती है उस  
ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला किसीसे भी भयभीत नहीं होता । उस  
विद्वान्को, मैंने शुभ क्यों नहीं किया, पापकर्म क्यों कर डाला—इस  
प्रकारकी चिन्ता सन्तप्त नहीं करती । उन्हें [ ये पाप और पुण्य ही  
तापके कारण हैं—] इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान् अपने आत्माको  
प्रसन्न अथवा सवल करता है उसे ये दोनों आत्मस्वरूप ही दिखायी  
देते हैं । [ वह कौन है ? ] जो इस प्रकार [ पूर्वोक्त अद्वैत आनन्दस्वरूप  
ब्रह्मको ] जानता है । ऐसी यह उपनिषद् ( रहस्यविद्या ) है ॥ १ ॥

यतो यस्मान्निर्विकल्पाद्यथोक्त- | जिस पूर्वोक्त लक्षणोंवाले  
लक्षणाद्ब्रह्मानन्दादात्मनो वाचो- | निर्विकल्प अद्वयानन्दरूप आत्माके  
| पाससे द्रव्यादि सविकल्प वस्तुओंको  
| प्रकाशित करनेवाला वाक्य—  
अभिधानानि द्रव्यादिसविकल्प- | अभिधान, जो वस्तुत्वमें [ ब्रह्मक-

वस्तुविषयाणि वस्तुसामान्या-  
 न्निर्विकल्पेऽद्वयेऽपि ब्रह्मणि प्रयो-  
 क्तृभिः प्रकाशनाय प्रयुज्यमाना-  
 न्यप्राप्याप्रकाश्यैव निवर्तन्ते  
 स्वसामर्थ्याद्दीयन्ते—

मन इति प्रत्ययो विज्ञानम् ।  
 तच्च यत्राभिधानं प्रवृत्तमतीन्द्रि-  
 येऽप्यर्थे तदर्थे च प्रवर्तते प्रका-  
 शनाय । यत्र च विज्ञानं तत्र  
 वाचः प्रवृत्तिः । तस्मात्सहैव  
 वाङ्मनसयोरभिधानप्रत्यययोः  
 प्रवृत्तिः सर्वत्र ।

तस्माद्ब्रह्मप्रकाशनाय सर्वथा  
 प्रयोक्तृभिः प्रयुज्यमाना अपि  
 वाचो यस्मादप्रत्ययविषयादन-  
 भिधेयाद्दृश्यादिविशेषणात्महैव  
 मनसा विज्ञानेन सर्वप्रकाशन-  
 समर्थेन निवर्तन्ते तं ब्रह्मण आ-  
 नन्दं श्रोत्रियस्यावृजिनस्याक्तामह-

अन्य सविकल्प वस्तुओंके ] समान  
 समझनेके कारण वक्ताओंद्वारा, ब्रह्म-  
 के निर्विकल्प और अद्वैत होनेपर  
 भी, उसका निर्देश करनेके लिये  
 प्रयोग किया जाता है, उसे न  
 पाकर अर्थात् उसे प्रकाशित किये  
 बिना ही लौट आता है—अपनी  
 सामर्थ्यसे च्युत हो जाता है—

[ 'मनसा सह' ( मनके सहित )  
 इस पदसमूहमें ] 'मन' शब्द प्रत्यय  
 अर्थात् विज्ञानका वाचक है । वह,  
 जहाँ-कहाँ अतीन्द्रिय पदार्थोंमें भी  
 शब्दकी प्रवृत्ति होती है वहीं उसे  
 प्रकाशित करनेके लिये प्रवृत्त हुआ  
 करता है । जहाँ-कहाँ भी विज्ञान  
 है वहीं वाणीकी भी प्रवृत्ति है ।  
 अतः अभिधान और प्रत्ययरूप  
 वाणी और मनकी सर्वत्र साथ-साथ  
 ही प्रवृत्ति होती है ।

इसलिये वक्ताओंद्वारा सर्वथा  
 ब्रह्मका प्रकाश करनेके लिये ही  
 प्रयोग की हुई वाणी, जिस प्रतीतिके  
 अविषयभूत, अकथनीय, अदृश्य और  
 निर्विशेष ब्रह्मके पाससे मन अर्थात्  
 सबको प्रकाशित करनेमें समर्थ  
 विज्ञानके सहित लौट आती है उस  
 ब्रह्मके आनन्दको—श्रोत्रिय निष्पाप

तस्य सर्वेषणाभिनिर्मुक्तस्यात्मभूतं  
विषयविषयिसंबन्धविनिर्मुक्तं  
स्वाभाविक नित्यमविमत्तं पर-  
मानन्दं ब्रह्मणा विद्वान्यथोक्तेन  
विधिना न विभेति कुतश्चन  
निमित्ताभावात् ।

न हि तस्माद्विदुषोऽन्यद्वस्त्व-  
न्तरमस्ति भिन्नं यतो विभेति ।  
अविद्यया यदोदरमन्तरं कुरुते,  
अथ तस्य भय भवतीति ह्युक्तम् ।  
विदुषश्चाविद्याकार्यस्य तैमिरिक-  
दृष्टद्वितीयचन्द्रवज्राशाद्वयनिमि-  
त्तस्य न विभेति कुतश्चेति  
युज्यते ।

मनामये चांदाहृतो मन्त्रां  
मनसो ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वात् ।  
तत्र ब्रह्मत्वमध्यारोप्य तत्स्तु-  
त्यर्थं न विभेति कराचनेति  
भयमात्रं प्रतिषिद्धमिहाद्वैतविषये  
न विभेति कुतश्चेति भयनिमि-  
त्तमेव प्रतिषिध्यते ।

अज्ञानमहत् और सब प्रकारकी  
एषणाओंमें मुक्त साधकके आत्मभूत,  
विषय-विषयी सम्बन्धसे रहित,  
स्वाभाविक, नित्य और अविमत्त  
ऐसे ब्रह्मके उत्कृष्ट आनन्दको पूर्वोक्त  
विधिसे जाननेवाला पुरुष कोई  
भयका निमित्त न रहनेके कारण  
किसीसे भयभीत नहीं होता ।

उस विद्वानसे भिन्न कोई दूसरी  
वस्तु ही नहीं है जिससे कि उसे भय  
है । अविद्यावश जब थोड़ा-सा भी  
अन्तर करता है तभी जीवको भय  
होता है—ऐसा कहा ही गया है ।  
अतः तिमिररांगीके देखे हुए द्वितीय  
चन्द्रमाके समान विद्वान्के अविद्या-  
के कार्यभूत भयके निमित्तका नाश  
हो जानेके कारण यह किसीसे नहीं  
डरता—ऐसा कहना ठीक ही है ।

मनामय कोशके प्रकरणमें यह  
मन्त्र उदाहरणके लिये दिया गया  
था, क्योंकि मन ब्रह्मविज्ञानका  
साधन है । उसमें ब्रह्मत्वका आरोप  
करके उसकी स्तुतिके लिये ही भय  
कभी नहीं डरता? इस वाक्यमें उसके  
भयमात्रका प्रतिषेध किया गया था ।  
यहाँ अद्वैतप्रकरणमें वह किसीसे  
नहीं डरता, इस प्रकार भयके  
निमित्तका ही प्रतिषेध किया जाता है ।

नन्वस्ति भयनिमित्तं साध्व-  
करणं पापक्रिया च ?

नैवम्; कथमित्युच्यते—एतं  
यथोक्तमेवंविदम्, ह यावेत्यव-  
धारणार्थो, न तपति नोद्वेज-  
यति न संतापयति । कथं पुनः  
साध्वकरणं पापक्रिया च न  
तपतीत्युच्यते । किं कस्मात्साधु  
शोभनं कर्म नाकरवं न कृतवा-  
नसीति पश्चात्संतापो भवत्या-  
सन्ने मरणकाले । तथा किं  
कस्मात्पापं प्रतिषिद्धं कर्माकरवं  
कृतवानस्मीति च नरकपतनादि-  
दुःखभयात्तापो भवति । ते एते  
साध्वकरणपापक्रिये एवमेनं न  
तपतो यथाविद्वांसं तपतः ।

कस्मात्पुनर्विद्वांसं न तपत  
इत्युच्यते—स य एवंविद्वानेते  
साध्वसाधुनी तापहेतु इत्यात्मानं  
स्पृणुते प्रीणयति बलयति वा

शङ्का—किन्तु शुभ कर्मका न  
करना और पापकर्म करना यह तो  
भयका कारण है ही ?

समाधान—ऐसी बात नहीं है ।  
किस प्रकार नहीं है सो बतलाया  
जाता है—इस पूर्वोक्तको अर्थात् इस  
प्रकार जाननेवालेको वह तप्त—उद्विग्न  
अर्थात् सन्तप्त नहीं करता । मूलमें  
'ह' और 'वाव' ये निश्चयार्थक  
निपात हैं । वह पुण्यका न करना  
और पापक्रिया उसे किस प्रकार  
ताप नहीं देते ? इसपर कहते हैं—  
'मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया'  
ऐसा पश्चात्ताप मरणकाल समीप  
आनेपर हुआ करता है तथा 'मैंने  
पाप यानी प्रतिषिद्ध कर्म क्यों  
किया' ऐसा दुःख नरकपात आदि-  
के भयसे होता है । ये पुण्यका न  
करना और पापका करना इस  
विद्वान्को इस प्रकार सन्तप्त नहीं  
करते जैसे कि वे अविद्वान्को किया  
करते हैं ।

वे विद्वान्को क्यों सन्तप्त नहीं  
करते ? सो बतलाया जाता है—ये  
पाप-पुण्य ही तापके हेतु हैं—इस  
प्रकार जाननेवाला जो विद्वान्  
आत्माको प्रसन्न अथवा सन्न करता

परमात्मभावेनोभे पश्यतीत्यर्थः ।

उभे पुण्यपापे हि यस्मादेवमेव

विद्वानेते आत्मानमात्मरूपेणैव

पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण

शून्ये कृत्वात्मानं सृष्टुत एव ।

को य एषं वेद यथोक्तमद्वैत-

मानन्दं ब्रह्म वेद तस्मात्परमात्मेन

दृष्टे पुण्यपापं निर्धारे अतापके

जन्मान्तरारम्भके न भवतः ।

इतीधमेवं यथोक्तास्त्वा बल्ल्या

ब्रह्मविद्योपनिषत्सर्वाभ्यां विद्या-

भ्यः परमरहस्यं दर्शितमित्यर्थः ।

परं श्रेयोऽस्या निपण्णमिति ॥ १ ॥

है अर्थात् इन दोनोंको परमात्मभाव-

से देखता है [ उभे ये पाप-पुण्य

सन्तक नहीं करते ] । क्योंकि ये

पाप-पुण्य दोनों ऐसे हैं [ अर्थात्

आत्मस्वरूप हैं ] अतः यह विद्वान्

इस पाप-पुण्यरूप आत्माको आत्म-

भावनासे ही अपने विशेषरूपसे

शून्य कर आत्माको ही नृत्त करता

है । वह विद्वान् कौन है ? जो इस

प्रकार जानता है अर्थात् पूर्वोक्त

अद्वैत एव आनन्दस्वरूप ब्रह्मको

जानता है । उसके आत्मभावमे

देखे हुए पुण्य-पाप निर्धर्म और

ताप पहुँचानेवाले न होनेसे

जन्मान्तरके आरम्भक नहीं होते ।

इस प्रकार इस बल्ल्यामें, जैसा कि

ऊपर कही गयी है, यह ब्रह्मविद्या-

रूप उपनिषद् है । अर्थात् इसमें

अन्य सब विद्याओंकी अपेक्षा परम

रहस्य प्रदर्शित किया गया है । इस

विद्यामें ही परम श्रेय निहित है ॥१॥

इति ब्रह्मानन्दबल्ल्या नचमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दप्रसादपूज्यपादशिष्य-

श्रीमच्छङ्करभगवत कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये

ब्रह्मानन्दबल्ली समाप्ता ।

# भृगुवल्दी

## प्रथम अनुवाक

भृगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मविद्याविषयक प्रश्न करना तथा वरुणका ब्रह्मोपदेश

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्माकाशा-  
 दिकार्यमन्नमथान्तं  
 सृष्ट्वा तदेवानुप्रविष्टं  
 विशेषवदिवोपलभ्यमानं यस्मा-  
 त्त्समात्सर्वकार्यविलक्षणमदृश्यादि-  
 धर्मकमेवानन्दं तदेवाहमिति  
 विजानीयादनुप्रवेशस्य तदर्थत्वा-  
 त्तस्यैवं विजानतः शुभाशुभे  
 कर्मणी जन्मान्तरारम्भके न  
 भवत इत्येवमानन्दवल्ल्यां विव-  
 क्षितोऽर्थः परिसमाप्ता च ब्रह्म-  
 विद्या । अतः परं ब्रह्मविद्या-  
 साधनं तपो वक्तव्यमन्नादिविष-  
 याणि चांपासनान्यनुक्तानीत्यत

क्योंकि सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्म ही आकाशसे लेकर अन्नमय-पर्यन्त कार्यवर्गको रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हों सविशेष-सा उपलब्ध हो रहा है इसलिये वह सम्पूर्ण कार्यवर्गसे विलक्षण अदृश्यादि धर्म-वाला आनन्द ही है; और वही मैं हूँ—ऐसा जानना चाहिये; क्योंकि उसके अनुप्रवेशका यही उद्देश्य है । इस प्रकार जाननेवाले उस साधकके शुभाशुभ कर्म जन्मान्तरका आरम्भ करनेवाले नहीं होते । आनन्दवल्लीमें यही विषय कहना अभीष्ट था । अथ ब्रह्मवेद्या तो समाप्त हो चुकी । यहाँसे आगे ब्रह्मविद्याके साधन तपका निरूपण करना है तथा जिनका पहले निरूपण नहीं किया गया है उन अन्नादिविषयक उपासनाओंका भी वर्णन करना है; इसीलिये इस

अनुवाकः

इदमारभ्यते—

| प्रकरणका आरम्भ किया जाता है—

भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि  
भगवो ब्रह्मेति । तस्मा एतत्प्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः  
श्रोत्रं मनं वाचमिति । तत्प्रोवाच । यतो वा इमानि  
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्य-  
भिसविगन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद् ब्रह्मेति । स तपो-  
ऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥

वरुणका सुप्रसिद्ध पुत्र भृगु अपने पिता वरुणके पास गया [ और बोला—] 'भगवन् ! मुझे ब्रह्मका बोध कराइये ।' उससे वरुणने यह कहा—'अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाक् [ ये ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं ] ।' फिर उससे कहा—'जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर जिसके आश्रयसे ये जीवित रहते हैं और अन्तमें विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये लीन होते हैं उमे विशेषरूपसे जाननेको इच्छा कर, वही ब्रह्म है ।' तब उस ( भृगु ) ने तप किया और उसने तप करके—॥ १ ॥

आख्यायिका विद्यास्तुतये,  
प्रियाय पुत्राय पित्रोक्तैति—  
भृगुर्वै वारुणिः । वैशब्दः प्रसि-  
द्धानुसारको भृगुरित्येवंनामा  
प्रसिद्धोऽनुसार्थते । वारुणिर्वरु-  
णस्यापत्यं वारुणिर्वरुणं पितरं

पिताने अपने प्रिय पुत्रको इस  
( विद्या ) का उपदेश किया था—  
इस दृष्टिसे यह आख्यायिका पिताकी  
स्तुतिके लिये है । 'भृगुर्वै वारुणि'  
इसमें 'वै' शब्द प्रसिद्धका स्मरण  
करानेवाला है । इससे 'भृगु' इस  
नामसे प्रसिद्ध ऋषिका अनुस्मरण  
कराया जाता है जो वारुणि अर्थात्  
वरुणका पुत्र था । वह ब्रह्मको



ब्रह्म विजिज्ञागुरुपससारोपगत-  
वान्, अधीहि भगवो ब्रह्मेत्य-  
नेन मन्त्रेण । अधीहि अध्यापय  
कथय । स च पिता विधिवदुप-  
सन्नाय तस्मै पुत्रायैतद्वचनं  
श्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं  
मनो वाचमिति ।

अन्नं शरीरं तदभ्यन्तरं च

वसुधोपदिष्ट- प्राणमत्तारमुपल-  
भाप्रसादिदाराणि विधिसाधनानि चक्षुः  
श्रोत्रं मनो वाचमित्येतानि ब्रह्मो-  
पलब्धौ द्वाराण्युक्तवान् उक्त्वा  
च द्वारभूतान्येतान्यन्नादीनि तं  
भृगुं होवाच ब्रह्मणो लक्षणम् ।  
किं तत् ?

यतो यस्माद्वा इमानि ब्रह्मा-  
दीनि स्तम्भपर्यन्तानि  
भूतानि जायन्ते ।

येन जातानि जीवन्ति प्राणा-  
न्धारयन्ति वर्धन्ते । विनाशकाले

जाननेकी इच्छावाला हांकर अपने  
पिता वरुणके पास गया । अर्थात्  
'हे भगवन् ! आप मुझे ब्रह्मका  
उपदेश कीजिये' इस मन्त्रके द्वारा  
[ उसने गुरुपसदन किया ] ।  
'अधीहि' शब्दका अर्थ अध्यापन  
( उपदेश ) कीजिये-कहिये ऐसा  
समझना चाहिये । उस पिताने  
अपने पास विधिपूर्वक आये हुए  
उस पुत्रसे यह वाक्य कहा—'अन्नं  
प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनः वाचम् ।'

'अन्न अर्थात् शरीर उसके भीतर  
अन्न भक्षण करनेवाला प्राण,  
तदनन्तर विषयोंकी उपलब्धिके  
साधनभूत चक्षु, श्रोत्र, मन और  
वाक् ये ब्रह्मकी उपलब्धिमें द्वाररूप  
हैं'—ऐसा उसने कहा । इस  
प्रकार इन द्वारभूत अनादिको  
बतलाकर उसने उस भृगुको ब्रह्मका  
लक्षण बतलाया । वह क्या है ?  
[ सो बतलाते हैं— ]

जिससे ब्रह्मसे लेकर स्तम्भपर्यन्त  
ये सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं,  
जिसके आश्रयसे ये जन्म लेनेके  
अनन्तर जीवित रहने—प्राण धारण  
करते अर्थात् वृद्धिकां प्राप्त होते हैं  
तथा विनाशकाल उपस्थित होनेपर

च यत्प्रयन्ति यद्ब्रह्म प्रतिगच्छन्ति, अभिस्रविशन्ति तादात्म्यमेव प्रतिपद्यन्ते उत्पत्तिस्थितिलयकालेषु यदात्मतां न जहति भूतानि तदेतद्ब्रह्मणो लक्षणम् । तद्ब्रह्म विजिज्ञापस्य विशेषेण ज्ञातुमिच्छस्य । यदेवंलक्षण ब्रह्म तदन्नादिद्वारेण प्रतिपद्यस्वेत्यर्थः । धृत्यन्तरं च—“प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्थान्नं मनसो ये मनो विदुस्ते निचिक्षुर्ब्रह्म पुराणमग्न्यम्” ( वृ० उ० ४ । ४ । १८ ) इति ब्रह्मोपलब्धौ द्वाराण्येतानीति दर्शयति ।

स भृगुर्ब्रह्मोपलब्धिद्वाराणि ब्रह्मोपलब्धये ब्रह्मलक्षणं च श्रुत्या भृगोन्मय पितुस्तपो ब्रह्मोपलब्धिसाधनत्वेनातप्यत तप्तवान् । कुतः पुनरनुपदिष्टस्यैव तपसः साधनत्वप्रतिपत्तिर्भृगोः ?

जिसके प्रति प्रयाण करनेवाले अर्थात् जिस ब्रह्मके प्रति गमन करनेवाले वे जीव उसमें प्रवेश करते—उसके तादात्म्यभावसे प्राप्त हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति, स्थिति और लयकालमें प्राणी जिसकी तद्रूपताका त्याग नहीं करते यही उस ब्रह्मका लक्षण है । वृ० उस ब्रह्मको विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा कर, अर्थात् जा ऐसे लक्षणोंवाला ब्रह्म है, उसे अन्नादिके द्वारा प्राप्त कर । “ब्रह्म प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र, अन्नका अन्न और मनका मन है—ऐसा जा जानते हैं वे उस पुरातन और श्रेष्ठ ब्रह्मको साक्षात् जान सकने हैं” ऐसी एक दूसरी श्रुति भी इस बातको प्रदर्शित करती है कि ये प्राणादि ब्रह्मकी उपलब्धिमें द्वारस्वरूप हैं ।

उस भृगुने अपने पितासे ब्रह्मका उपलब्धिमें द्वार और ब्रह्मका लक्षण सुनकर ब्रह्मसाक्षात्कारके साधनरूपसे तप किया । [ यहाँ प्रश्न होता है कि ] जिसका उपदेश ही नहीं दिया गया था उस तपके [ ब्रह्मप्राप्तिका ] साधन होनेका ज्ञान भृगुको कैसे हुआ ? [ उत्तर—]

सावशेषोक्तेः । अन्नादि ब्रह्मणः

प्रतिपत्तौ द्वारं लक्षणं च यतो

वा इमानीत्याद्युक्तवान् । सावशेषं

हि तत्साक्षाद्ब्रह्मणोऽनिर्देशात् ।

अन्यथा हि स्वरूपेणैव ब्रह्म  
निर्देष्टव्यं जिज्ञासवे पुत्रायेद-  
मित्थंरूपं ब्रह्मेति । न चैवं निर-  
दिशत्किं तर्हि ? सावशेषमेवोक्त-  
वान् । अतोऽवगम्यते नूनं साध-  
नान्तरमप्यपेक्षते पिता ब्रह्म-  
विज्ञानं प्रतीति । तपोविशेषप्रति-  
पत्तिस्तु सर्वसाधकतमत्वात् ।  
सर्वेषां हि नियतसाध्यविषयाणां  
साधनानां तप एव साधकतमं  
साधनमिति हि प्रसिद्धं लोके ।  
तस्मात्पित्रानुपदिष्टमपि ब्रह्म-  
विज्ञानसाधनत्वेन तपः प्रतिपेदे  
भृगुः । तच्च तपो ब्राह्मन्तः-  
करणसमाधानं तद्द्वारकत्वाद्ब्रह्म-

क्योंकि [ उसके पिताका ] कथन  
सावशेष ( जिसमें कुछ कहना शेष  
रह गया हो—ऐसा ) था । वरुणने  
'यतो वा इमानि भूतानि' इत्यादि  
रूपसे अन्नादि ब्रह्मकी प्राप्तिका द्वार  
और लक्षण कहा था । वह सावशेष  
( असम्पूर्ण ) था; क्योंकि उससे  
ब्रह्मका साक्षात् निर्देश नहीं होता ।

नहीं तो, उसे अपने जिज्ञासु  
पुत्रके प्रति 'वह ब्रह्म ऐसा है' इस  
प्रकार उसका स्वरूपसे ही निर्देश  
करना चाहिये था । किन्तु इस  
प्रकार उसने निर्देश किया नहीं है ।  
तो किस प्रकार किया है ? उसने  
उसे सावशेष ही उपदेश किया है ।  
इससे जाना जाता है कि उसके  
पिताको अवश्य ही ब्रह्मज्ञानके प्रति  
किसी अन्य साधनकी भी अपेक्षा  
है । सबसे बड़ा साधन होनेके  
कारण भृगुने तपको ही विशेष  
रूपसे ग्रहण किया । जिनके साध्य  
विषय नियत हैं उन साधनोंमें तप  
ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने-  
वाला साधन है—यह बात लोकमें  
प्रसिद्ध ही है । इसलिये पिताके  
उपदेश न देनेपर भी भृगुने ब्रह्म-  
विज्ञानके साधनरूपसे तपको स्वीकार  
किया । वह तप वाच्य इन्द्रिय  
और अन्तःकरणका समाहित करना

प्रतिपत्तेः । “मनसश्चेन्द्रियाणां  
 च द्वैकाग्र्यं परमं तपः ।  
 तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः  
 पर उच्यते” ( महा० शा० २५० ।  
 ४ ) इति स्मृतेः । स च तपस्त-  
 प्त्वा ॥ १ ॥

ही है, क्योंकि ब्रह्मप्राप्ति उसीके  
 द्वारा होनेवाली है । “मन और  
 इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम तप  
 है । वह सब धर्मोंमें उत्कृष्ट है और  
 वही परम धर्म कहा जाता है”—इस  
 स्मृतिमें यही बात सिद्ध होती है ।  
 उस ऋगुने तप करके—॥ १ ॥

इति भृगुवल्त्या प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

## द्वितीय अनुवाक

अन्न ही ब्रह्म है—ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर  
 भृगुका पुनः ब्रह्मके पास आना और उसके  
 उपदेशसे पुनः तप करना

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् । अन्नाद्यद्येव खल्विमानि  
 भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्नं  
 प्रयन्त्यभिसविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव ब्रह्मण पितर-  
 मुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तः हावाच ।  
 तपसा ब्रह्म विजिज्ञामस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत ।  
 स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥

अन्न ब्रह्म है—ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय अन्नमें ही ये सब  
 प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर अन्नसे ही जीवित रहते हैं तथा  
 प्रयाण करते समय अन्नमें ही लीन होते हैं । ऐसा जानकर वह फिर  
 अपने पिता ब्रह्मके पास आया [ और कहा—] ‘भगवन् ! मुझे ब्रह्मका  
 उपदेश कीजिये ।’ ब्रह्मने उसमें कहा—‘ब्रह्मको तपके द्वारा जाननेकी

इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है ।' तब उसने तप किया और उसने तप करके—॥ १ ॥

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानाद्वि-  
ज्ञातवान् तद्वि यथोक्तलक्षणो-  
पेतम् । कथम् ? अन्नाद्ब्रह्मेव  
खल्विमानि भूतानि जायन्ते,  
अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं  
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तस्मा-  
द्युक्तमन्नस्य ब्रह्मत्वमित्यभि-  
प्रायः । स एवं तपस्तप्त्वान्नं  
ब्रह्मेति विज्ञायान्नलक्षणेनोप-  
पत्त्या च पुनरेव संशयमापन्नो  
चरुणं पितरमुपससार अधीहि  
भगवो ब्रह्मेति ।

कः पुनः संशयहेतुरस्येत्यु-  
च्यते—अन्नस्यात्पत्तिदर्शनात् ।  
तपसः पुनः पुनरुपदेशः साधना-  
तिशयत्वावधारणार्थः । यावद्ब्र-  
ह्मणो लक्षणं निरतिशयं न भवति  
यावच्च जिज्ञासा न निवर्तते  
तावत्तप एव ते साधनम् । तप-

अन्न ब्रह्म है—ऐसा जाना । वही  
उपर्युक्त लक्षणसे युक्त है । सां कैसे ?  
क्योंकि निश्चय अन्नसे ही ये सब  
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर  
अन्नसे ही जीवित रहते हैं तथा  
मरणोन्मुख होनेपर अन्नमें ही लीन  
हो जाते हैं । अतः तात्पर्य यह है  
कि अन्नका ब्रह्मरूप होना ठीक ही  
है । वह इस प्रकार तप करके तथा  
अन्नके लक्षण और युक्तिके द्वारा 'अन्न  
ही ब्रह्म है' ऐसा जानकर फिर भी  
संशयग्रस्त हो पिता बरुणके पास  
आया [ और बोला—] 'भगवन् !  
मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये' ।

परन्तु इसमें उसके संशयका  
कारण क्या था ? सो बतलाया  
जाता है । अन्नकी उत्पत्ति देखनेसे  
[ उसे ऐसा सन्देह हुआ ] । यहाँ  
तपका जो बारम्बार उपदेश किया  
गया है वह उसका प्रधान साधनत्व  
प्रदर्शित करनेके लिये है । अर्थात्  
जबतक ब्रह्मका लक्षण निरतिशय  
न हो जाय और जबतक तेरी  
जिज्ञासा शान्त न हो तबतक तप  
ही तेरे लिये साधन है । तात्पर्य यह

सैव ब्रह्म विजिज्ञासस्वेत्यर्थः । है कि तू तपसे ही ब्रह्मको जाननेकी  
 ऋज्वन्वत् ॥ १ ॥ इच्छा कर । शेष अर्थ सरल है ॥१॥

इति भृगुवल्क्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

## तृतीय अनुवाक

प्राण ही ब्रह्म है—ऐसा जानकर और उसीमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर  
 भृगुका पुनः वरुणके पास जाना और उसके  
 उपदेशमें पुनः तप करना

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् । प्राणाद्ध्येव खल्विमानि  
 भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं  
 प्रयन्त्यभिसविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं  
 पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तः होवाच ।  
 तपमा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपो-  
 ऽत्पथत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥

प्राण ब्रह्म है—ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय प्राणसे ही ये प्राणी  
 उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर प्राणसे ही जीवित रहते हैं और मरणोन्मुख  
 होनेपर प्राणमें ही लीन हो जाते हैं । ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता  
 वरुणके पास आया [ और बोला—] 'भगवन् ! मुझे ब्रह्मका उपदेश  
 कीजिये ।' उससे वरुणने कहा—'तू तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर ।  
 तप ही ब्रह्म है ।' तब उसने तप किया और उसने तप करके—॥ १ ॥

## चतुर्थ अनुवाक

मन ही ब्रह्म है—ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर

भृगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके

उपदेशसे पुनः तप करना

मनो ब्रह्मेति व्यजानात् । मनसो ह्यत्र खल्विदमानि  
भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः  
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव ब्रह्मणं  
पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तः होवाच ।  
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत ।  
स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥

मन ब्रह्म है—ऐसा जाना; क्योंकि निश्चय मनसे ही ये जीव  
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर मनके द्वारा ही जीवित रहते हैं और  
अन्तमें प्रयाण करते हुए मनमें ही लीन हो जाते हैं । ऐसा जानकर  
बहू पितर पिता वरुणके पास गया [ और बोला—] ‘भगवन् ! मुझे  
ब्रह्मका उपदेश कीजिये ।’ वरुणने उससे कहा—‘तू तपसे ब्रह्मका  
नाननेका इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है ।’ तब उसने तप किया और उसने  
तप करके—॥ १ ॥

इति भृगुब्रह्मणं चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

## पञ्चम अनुवाक

विज्ञान ही ब्रह्म है—ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर  
भृगुका पुनः वरुणके पास आना और  
उसके उपदेशसे पुनः तप करना

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् । विज्ञानाद्ब्रह्मेव  
खल्बिमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि  
जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्यभिसविशन्तीति । तद्विज्ञाय  
पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति ।  
तत्सहोवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति ।  
स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥

विज्ञान ब्रह्म है—ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय विज्ञानसे ही ये  
सब जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर विज्ञानसे ही जीवित रहते हैं  
आर फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं । ऐसा  
जानकर वह फिर पिता वरुणके समीप आया [ और बोला—] ‘भगवन् !  
मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये ।’ वरुणने उससे कहा—‘तू तपके द्वारा  
ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर । तप ही ब्रह्म है ।’ तब उसने तप किया  
और तप करके—॥ १ ॥

इति भृगुवल्त्या पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥



## षष्ठ अनुवाक

आनन्द ही ब्रह्म है—ऐसा भृगुका निश्चय करना तथा इस भार्गवी

वारुणी विद्याका महत्त्व और फल

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् । आनन्दाद्ब्रह्मेव  
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि  
जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । सैषा  
भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता । स य  
एवं वेदं प्रतिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्  
भवति, प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान् कीर्त्या ॥ १ ॥

आनन्द ब्रह्म है—ऐसा जाना; क्योंकि आनन्दसे ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर आनन्दके द्वारा ही जीवित रहते हैं और प्रयाण करते समय आनन्दमें ही समा जाते हैं । वह यह भृगुकी जानी हुई और वरुणकी उपदेश की हुई विद्या परमाकाशमें स्थित है । जो ऐसा जानता है वह ब्रह्ममें स्थित होता है; वह अन्नवान् और अन्नका भोक्ता होता है; प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है ॥ १ ॥

<p>एवं तपसा विशुद्धात्मा प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्मलक्षण- मपश्यञ्जनैः शनैरन्तरनुप्रविश्या-</p>	<p>इस प्रकार तपसे शुद्धचित्त हुए भृगुने प्राणादिमें पूर्णतया ब्रह्मका लक्षण न देखकर धीरे-धीरे भीतरकी ओर प्रवेश कर तपस्वरूप साधनके</p>
--	---

न्तरतममानन्दं ब्रह्म विज्ञातवां-  
स्तपसैव साधनेन भृगुः । तस्माद्ब्र-  
ह्मविजिज्ञासुना वाह्यान्तःकरण-  
समाधानलक्षणं परमं तपःसाधन-  
मनुष्ठेयमिति प्रकरणार्थः ।

अधुनाख्यायिकातोऽपसृत्य  
श्रुतिः स्वेन वचनेनाख्यायिका-  
निर्वर्त्यमर्थमावष्टे—सैषा मार्गवी  
भृगुणा विदिता वरुणेन प्रोक्ता  
वारुणी विद्या परमे व्योमन्हृदया-  
काशगुहायां परम आनन्देऽद्वैते  
प्रतिष्ठिता परिसमाप्तान्नमयादात्म-  
नोऽधिप्रवृत्ता । य एवमन्योऽपि  
तपसैव साधनेनानेनैव क्रमेणा-  
नुप्रविश्यानन्दं ब्रह्म वेद स एवं  
विद्याप्रतिष्ठानात्प्रतितिष्ठत्यानन्दे  
परमे ब्रह्मणि ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः ।

दृष्टं च फलं तस्योच्यते—

अन्नवान्प्रभृतमन्नमस्य विद्यत

द्वारा ही सबकी अपेक्षा अन्तरतम  
आनन्दको ब्रह्म जाना । अतः जो  
ब्रह्मको जाननेकी इच्छावाला हो उसे  
साधनरूपसे बाह्य इन्द्रिय और  
अन्तःकरणका समाधानरूप परम  
तप ही करना चाहिये—यह इस  
प्रकरणका तात्पर्य है ।

अब आख्यायिकासे निवृत्त होकर  
श्रुति अपने ही वाक्यसे आख्यायिका-  
से निष्पन्न होनेवाला अर्थ बतलाती  
है—अन्नमय आत्मासे प्रारम्भ हुई  
यह मार्गवी—भृगुकी जानी हुई और  
वारुणी—वरुणकी कही हुई विद्या  
परमाकाशमें—हृदयाकाशस्थित गुहा-  
के भीतर अद्वैत परमानन्दमें प्रतिष्ठित  
है अर्थात् वहीं इसका पर्यवसान  
होता है । इसी प्रकार जो कोई  
दूसरा पुरुष भी इसी क्रमसे तपरूप  
साधनके द्वारा क्रमशः अनुप्रवेश  
करके आनन्दको ब्रह्मरूपसे जानता  
है वह इस प्रकार विद्यामें  
स्थिति लाभ करनेसे आनन्द अर्थात्  
परब्रह्ममें स्थिति प्राप्त करता है, यानी  
ब्रह्म ही हो जाता है ।

अब उसका दृष्ट ( इस लंकेमें  
प्राप्त होनेवाला ) फल बतलाया  
जाता है—अन्नवान्—जिसके पास

इत्यन्नवान् । सत्तामात्रेण तु बहुत-सा अन्न हो उसे अन्नवान्  
 सर्वो ह्यन्नवानिति विधाय कहते हैं । \* अन्नकी सत्तामात्रसे तो  
 विशेषो न स्यात् । एवमन्नमत्ती- सभी अन्नवान् हैं, अतः [ यदि उस  
 त्यन्नादो दीप्ताग्निर्भवतीत्यर्थः । प्रकार अर्थ किया जाय तो ]  
 महान्भवति । केन महत्त्वमित्यत्र विद्यार्थी कोई विशेषता नहीं रहती ।  
 आह—प्रजया पुत्रादिना पशु- इसी प्रकार वह अन्नाद—जो अन्नभक्षण  
 भिर्गवाश्वादिभिर्ब्रह्मवर्चसेन शम- करे यानी दीप्ताग्नि हो जाता है । वह  
 दमज्ञानादिनिमित्तेन तेजसा । महान् हो जाता है । उसका महत्त्व  
 महान्भवति कीर्त्या ख्यात्या किस कारणसे होता है ? इसपर  
 शुभप्रचारनिमित्त्या ॥१॥ कहते हैं—पुत्रादि प्रजा, गौ, अश्व  
 आदि पशु तथा ब्रह्मतेज यानी शम, दम एवं ज्ञानादिके कारण होनेवाले  
 तेजसे तथा कीर्ति यानी शुभाचरणके कारण होनेवाली ख्यातिसे वह  
 महान् हो जाता है ॥ १ ॥

इति भृगुवल्ल्यां पद्योऽनुवाकः ॥ ६ ॥



\* मूलमें केवल 'अन्नवान्' है, भाष्यमें उसका अर्थ 'प्रभूत ( बहुक्ते ) अन्नवाला' किया गया है । इससे यह शंका होती है कि 'प्रभूत' विशेषणका प्रयोग क्यों किया गया । इसीका समाधान करनेके लिये आगेका वाक्य है ।

## सप्तम अनुवाक

अन्नकी निन्दा न करना रूप व्रत तथा शरीर और प्राणरूप अन्न-  
ब्रह्मके उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन

अन्नं न निन्द्यात् । तद्व्रतम् । प्राणो वा अन्नम् ।  
शरीरमन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् । शरीरे प्राणः  
प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्न-  
मन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठिति । अन्नवानन्नादो भवति ।  
महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान्कीर्त्या ॥ १ ॥

अन्नकी निन्दा न करे । यह ब्रह्मज्ञान व्रत है । प्राण ही अन्न है  
और शरीर अन्नाद है । प्राणमें शरीर स्थित है और शरीरमें प्राण स्थित  
है । इस प्रकार [ एक दूसरेके आश्रित होनेसे वे एक दूसरेके अन्न हैं;  
अतः ] ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं । जो इस प्रकार अन्नको  
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित ( प्रख्यात ) होता है, अन्नवान्  
और अन्नमांसा होता है । प्रजा, पशु और ब्रह्मनेत्रके कारण महान् होता  
है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है ॥ १ ॥

किं चान्नेन द्वारभूतेन ब्रह्म	इसके सिवा क्योंकि द्वारभूत
विज्ञातं यस्मात्तस्माद्गुरुमिव	अन्नके द्वारा ही ब्रह्मको जाना है
अन्नं न निन्द्यात्तदस्यैवं ब्रह्म-	इसलिये गुरुके समान अन्नकी भी
निन्दो व्रतमुपदिश्यते । व्रतोप-	निन्दा न करे । इस प्रकार ब्रह्म- वेत्ताके लिये यह व्रत उपदेश किया जाता है । यह व्रतका उपदेश

देशोऽन्नस्तुतये, स्तुतिभावत्वं

चान्नस्य ब्रह्मोपलब्धुपायत्वात् ।

प्राणो वा अन्नम्, शरीरान्त-  
र्भावात्प्राणस्य । यद्यस्यान्तः-  
प्रतिष्ठितं भवति तत्तस्यान्नं भव-  
तीति । शरीरे च प्राणः प्रति-  
ष्ठितस्तस्मात्प्राणोऽन्नं शरीरमन्ना-  
दम् । तथा शरीरमप्यन्नं प्राणो-  
ऽन्नादः । कस्मात् ? प्राणे शरीरं  
प्रतिष्ठितम्; तन्निमित्तत्वाच्छरी-  
रस्थितेः । तस्मात्तदेतदुभयं शरीरं  
प्राणश्चान्नमन्नादश्च । येनान्योन्य-  
स्मिन्प्रतिष्ठितं तेनान्नम् । येना-  
न्योन्यस्य प्रतिष्ठा तेनान्नादः ।  
तस्मात्प्राणः शरीरं चोभयमन्न-  
मन्नादं च ।

स य एवमेतदन्नमन्ने प्रति-  
ष्ठितं वेद प्रतिष्ठित्यन्नान्नादा-  
त्मनैव । किं चान्नवान्नादो भव-  
तीत्यादि पूर्ववत् ॥१॥

अन्नकी स्तुतिके लिये है और अन्नकी  
स्तुतिपात्रता ब्रह्मोपलब्धिका साधन  
होनेके कारण है ।

प्राण ही अन्न है; क्योंकि प्राण  
शरीरके भीतर रहनेवाला है । जो  
जिसके भीतर स्थित रहता है वह  
उसका अन्न हुआ करता है । प्राण  
शरीरमें स्थित है, इसलिये प्राण  
अन्न है और शरीर अन्नाद हैं ।  
इसी प्रकार शरीर भी अन्न है और  
प्राण अन्नाद है; कैसे ?—प्राणमें  
शरीर स्थित है; क्योंकि शरीरकी  
स्थिति प्राणके ही कारण है अतः  
ये दोनों शरीर और प्राण अन्न और  
अन्नाद हैं; क्योंकि वे एक दूसरेमें  
स्थित हैं इसलिये अन्न हैं और  
क्योंकि एक दूसरेके आधार हैं  
इसलिये अन्नाद हैं । अतएव प्राण  
और शरीर दोनों ही अन्न और  
अन्नाद हैं ।

वह जो इस प्रकार अन्नको अन्नमें  
स्थित जानता है, अन्न और अन्नाद-  
रूपसे ही स्थित होता है तथा अन्न-  
वान् और अन्नाद होता है—इत्यादि  
शेष अर्थ पूर्ववत् है ॥१॥

इति ऋगुवल्क्यां सप्तमोऽनुवाकः ॥७॥

## अष्टम अनुवाक

अन्नका त्याग न करना रूप व्रत तथा जल और ज्योतिरूप  
अन्न-ब्रह्मके उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन

अन्नं न परिचक्षीत । तद्व्रतम् । आपो वा अन्नम् ।  
ज्योतिरन्नादम् । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् । ज्योतिष्यापः  
प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने  
प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्  
भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान्कीर्त्या ॥ १ ॥

अन्नका त्याग न करे । यह व्रत है । जल ही अन्न है । ज्योति  
अन्नाद है । जलमें ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योतिमें जल स्थित है ।  
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं । जो इस प्रकार अन्नको  
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नयान् और अन्नाद  
होता है, प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके  
कारण भी महान् होता है ॥ १ ॥

अन्नं न परिचक्षीत न परि-  
हरेत् । तद्व्रतं पूर्ववत्स्तुत्यर्थम् ।  
तदेवं शुभाशुभकल्पनया अपरि-  
हियमाणं स्तुतं महीकृतमन्नं स्यात् ।  
एवं यथोक्तमुत्तरेष्वप्यापो वा  
अन्नमित्यादिषु योजयेत् ॥१॥

अन्नका प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग  
न करे, यह व्रत है—यह कथन  
पूर्ववत् स्तुतिके लिये है । इस  
प्रकार शुभाशुभकी कल्पनासे उपेक्षा  
न किया हुआ अन्न ही यहाँ स्तुति  
एव महिमान्वित किया जाता है ।  
तथा आगेके 'आपो वा अन्नम्'  
इत्यादि वाक्योंमें भी पूर्वोक्त अर्थकी  
ही योजना करनी चाहिये ॥१॥

इति भृगुवल्ल्यामष्टमोऽनुवाकः ॥८॥

## नवम अनुवाक

अन्नसञ्चयरूप व्रत तथा पृथिवी और आकाशरूप अन्न-ब्रह्मके  
उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन

अन्नं बहु कुर्वीत । तद्ब्रतम् । पृथिवी वा अन्नम् ।  
आकाशोऽन्नादः । पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे  
पृथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य  
एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो  
भवति । महान्भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन ।  
महान्कीर्त्या ॥ १ ॥

अन्नको बढ़ावे—यह व्रत है । पृथिवी ही अन्न है । आकाश  
अन्नाद है । पृथिवीमें आकाश स्थित है और आकाशमें पृथिवी स्थित है ।  
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं । जो इस प्रकार अन्नको  
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान् और अन्नाद  
होता है, प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके  
कारण भी महान् होता है ॥ १ ॥

अप्सु ज्योतिरित्यब्ज्योति-  
पारन्नान्नादगुणत्वेनापासकस्या-  
न्नस्य बहुकरणं व्रतम् ॥ १ ॥

पूर्वोक्त 'अप्सु ज्योतिः' आदि  
मन्त्रके अनुसार जल और ज्योतिकी  
अन्न और अन्नाद गुणसे उपासना  
करनेवालेके लिये 'अन्नको बढ़ाना  
व्रत है' [-यह बात इस मन्त्रमें  
कही गयी है ] ॥ १ ॥

इति भृगुबल्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

## दशम अनुवाक

गृहागत अतिथिको भाग्य और अन्न देनेका विधान एव  
उससे प्राप्त होनेवाला फल; तथा प्रकारान्तरसे  
ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन

न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद्ब्रतम् । तस्माद्यथा  
कया च विधया बहून्नं प्राप्नुयात् । आराध्यस्मा अन्न-  
मित्याचक्षते । एतद्वै मुखतोऽन्नं राद्धम् । मुखतोऽस्मा  
अन्नं राध्यते । एतद्वै मध्यतोऽन्नं राद्धम् । मध्यतो-  
ऽस्मा अन्नं राध्यते । एतद्वा अन्ततोऽन्नं राद्धम् ।  
अन्ततोऽस्मा अन्नं राध्यते ॥ १ ॥

य एवं वेद । क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति  
प्राणापानयोः । कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः ।  
विमुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः समाज्ञाः । अथ दैवीः ।  
वृत्तिरिति वृष्टौ । बलमिति विद्युति ॥ २ ॥

यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृत-  
मानन्द इत्युपस्थे । सर्वमित्याकाशे । तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत ।  
प्रतिष्ठावान् भवति । तन्मह इत्युपासीत । महान्  
भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान् भवति ॥ ३ ॥

तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः ।  
तद्ब्रह्मेत्युपासीत । ब्रह्मवान् भवति । तद्ब्रह्मणः परिमर



इत्युपासीत । पर्येणं म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्न्याः । परि  
येऽप्रिया भ्रातृव्याः । स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये  
स एकः ॥ ४ ॥

अपने यहाँ रहनेके लिये आये हुए किसीका भी परित्याग न करे । यह व्रत है । अतः किसी-न-किसी प्रकारसे बहुत-सा अन्न प्राप्त करे; क्योंकि वह ( अन्नोपासक ) उस ( गृहागत अतिथि ) से भौने अन्न तैयार किया है, ऐसा कहता है । जो पुरुष मुखतः ( प्रथम अवस्थामें अथवा मुख्यवृत्तिसे यानी सत्कारपूर्वक ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे मुख्यवृत्तिसे ही अन्नकी प्राप्ति होती है । जो मध्यतः ( मध्यम आयुमें अथवा मध्यम वृत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे मध्यम वृत्तिसे ही अन्नकी प्राप्ति होती है । तथा जो अन्ततः ( अन्तिम अवस्थामें अथवा निकृष्ट वृत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे निकृष्ट वृत्तिसे ही अन्न प्राप्त होता है ॥ १ ॥ जो इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है । अब आगे प्रकारान्तरसे ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन किया जाता है—] ब्रह्म वाणीमें क्षेम ( प्राप्त वस्तुके परिरक्षण ) रूपसे [ स्थित है—इस प्रकार उपासनीय है ], योगक्षेमरूपसे प्राण और अपानमें, कर्मरूपसे हाथोंमें, गतिरूपसे चरणोंमें और त्यागरूपसे पायुमें [ उपासनीय है ], यह मनुष्यसम्बन्धिनी उपासना है । अब देवताओंसे सम्बन्धित उपासना कही जाती है— तृप्तिरूपसे वृष्टिमें, बलरूपसे विद्युत्में ॥ २ ॥ यशरूपसे पशुओंमें, ज्योतिरूपसे नक्षत्रोंमें, पुत्रादि प्रजा, अमृतत्व और आनन्दरूपसे उपस्थमें तथा सर्वरूपसे आकाशमें [ ब्रह्मकी उपासना करे ] । वह ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा ( आधार ) है—इस भावसे उसकी उपासना करे । इससे उपासक प्रतिष्ठावान् होता है । वह महः [ नामक व्याहृति अथवा तेज ] है—इस भावसे उसकी उपासना करे । इससे उपासक महान् होता है । वह मन है—इस प्रकार उपासना करे । इससे उपासक मानवान् ( मनन करनेमें समर्थ ) होता है ॥ ३ ॥ वह नमः है—इस

भात्रसे उसकी उपासना करे । इससे सम्पूर्ण काम्य पदार्थ उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं । वह ब्रह्म है—इस प्रकार उसकी उपासना करे । इससे वह ब्रह्मनिष्ठ होता है । वह ब्रह्मका परिमर ( आकाश ) है—इस प्रकार उसकी उपासना करे । इससे उसमें द्वेष करनेवाले उसके प्रति-पक्षी मर जाते हैं, तथा जो अप्रिय भ्रातृव्य ( भाईके पुत्र ) होते हैं वे भी मर जाते हैं । वह, जो कि इस पुरुषमें है और वह जो इस आदित्यमें है, एक है ॥ ४ ॥

तथा पृथिव्याऋशोपासकस्य

वसतौ वसतिनि-  
आति-योपदेश  
मित्तं कंचन कंचि-  
दपि न प्रत्याचक्षीत वसत्यर्थ-  
मागतं न निवारयेदित्यर्थः ।  
वासे च दत्तेऽवश्यं ह्यशनं दात-  
व्यम् । तस्माद्यथा कया च  
विषया येन केन च प्रकारेण  
बहन्नं प्राप्नुयाद्बहन्नमग्रहं  
कुर्यादित्यर्थः ।

यस्मादन्नवन्तो विद्वांसोऽभ्या-  
गतायान्नार्थिनेऽराधि संसिद्ध-  
मस्मा अन्नमित्याचक्षते न  
नास्तीति प्रत्याख्यानं कुर्वन्ति ।  
तस्माच्च हेतोर्बहन्नं प्राप्नुयादिति  
पूर्वेण संबन्धः । अपि चान्नदा-

तथा पृथिवी और आकाशकी

[ अन्न एव अन्नादरूपसे ] उपासना करनेवालेके यहाँ रहनेके लिये कोई भी आवे उसे उसका परित्याग नहीं करना चाहिये अर्थात् अपने यहाँ निवास करनेके लिये आये हुए किसी भी व्यक्तिका वह निवारण न करे । जब किसीको रहनेका स्थान दिया जाय तो उसे भोजन भी अवश्य देना चाहिये । अतः जिस-किसी भी विधिसे यानी किसी-न-किसी प्रकार बहुत-सा अन्न प्राप्त करे, अर्थात् खूब अन्न-संग्रह करे ।

क्योंकि अन्नवान् उपासकगण अपने यहाँ आये हुए अन्नार्थिसे 'अन्न तैयार है' ऐसा कहते हैं—'अन्न नहीं है' ऐसा कहकर उसका परित्याग नहीं करते । इसलिये भी बहुत-सा अन्न उपार्जन करे—इस प्रकार इसका पूर्ववाक्यसे सम्बन्ध

नस्य माहात्म्यमुच्यते । यथा  
यत्कालं प्रयच्छत्यन्नं तथा  
तत्कालमेव प्रत्युपनमते । कथ-  
मिति तदेतदाह—

एतद्वा अन्नं मुखतो मुख्ये

वृत्तिमेदेनान्न- प्रथमे वयसि मु-

दानस्य फलमेदः ख्यया वा वृत्त्या

यूजापुरःसरमभ्यागतायान्नार्थिने

राद्धं संसिद्धं प्रयच्छतीति वाक्य-

शेषः । तस्य किं फलं स्यादि-

त्युच्यते—मुखतः पूर्वे वयसि

मुख्यया वा वृत्त्यास्मा अन्नादा-

यान्नं राध्यते यथादत्तमुपतिष्ठत

इत्यर्थः । एवं मध्यतो मध्यमे

वयसि मध्यमेन चोपचारेण ।

तथाऽन्ततोऽन्ते वयसि जघन्येन

चोपचारेण परिभवेन तथैवास्मै

राध्यते संसिध्यत्यन्नम् ॥ १ ॥

य एवं वेद य एवमन्नस्य

यथोक्तं माहात्म्यं वेद तदानस्य

च फलम्, तस्य यथोक्तं फल-

मुपनमते ।

है । अत्र अन्नदानका माहात्म्य कहा जाता है—जो पुरुष जिस प्रकार और जिस समय अन्न-दान करता है उसे उसी प्रकार और उसी समय उसकी प्राप्ति होती है । ऐसा किस प्रकार होता है ? सो बतलाते हैं—

जो पुरुष मुखतः—मुख्य—प्रथम अवस्थामें अथवा मुख्य वृत्तिसे यानी सत्कारपूर्वक राद्ध अर्थात् सिद्ध ( पक् ) अन्नको अपने यहाँ आये हुए अन्नार्थी अतिथिको देता है— यहाँ प्रयच्छति ( देता है ) यह क्रियापद वाक्यशेष ( अनुक्त अंश ) है—उसे क्या फल मिलता है, सो बतलाया जाता है—इस अन्नदाताको मुखतः—प्रथम अवस्थामें अथवा मुख्य वृत्तिसे अन्न प्राप्त होता है; अर्थात् जिस प्रकार दिया जाता है उसी प्रकार प्राप्त होता है । इसी प्रकार मध्यतः मध्यम आयुमें अथवा मध्यम वृत्तिसे तथा अन्ततः—अन्तिम आयुमें अथवा निकृष्ट वृत्तिसे यानी तिरस्कारपूर्वक देनेसे इसे उसी प्रकार अन्नकी प्राप्ति होती है ॥१॥

जो इस प्रकार जानता है—जो इस प्रकार अन्नका पूर्वोक्त माहात्म्य और उसके दानका फल जानता है उसे पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है ।

इदानीं ब्रह्मण उपासनप्रकार  
 उच्यते—क्षेम इति  
 ब्रह्मोपासन  
 प्रकारान्तराणि  
 'मानुषा समाजा'  
 वाचि । क्षेमो ना-  
 मोपात्तपरिरक्षणम् ।  
 ब्रह्म वाचि क्षेमरूपेण प्रतिष्ठित-  
 मित्युपास्यम् । योगक्षेम इति,  
 योगोऽनुपात्तस्योपादानम्, तौ  
 हि योगक्षेमां प्राणापानयोः सतो-  
 र्भवतो यद्यपि तथापि न प्राणा-  
 पाननिमित्तावेव किं तर्हि ब्रह्म-  
 निमित्तौ; यस्माद्ब्रह्म योगक्षेमा-  
 त्मना प्राणापानयोः प्रतिष्ठित-  
 मित्युपास्यम् ।

एवमुत्तरेष्वन्येषु तेन तेना-  
 त्मना ब्रह्मोपास्यम् । कर्मणो  
 ब्रह्मनिर्वर्त्यत्वाद्द्वस्तयोः कर्मा-  
 त्मना ब्रह्म प्रतिष्ठितमित्युपा-  
 स्यम् । गतिरिति पादयोः ।  
 विमुक्तिरिति पार्श्वे । इत्येता  
 मानुषीर्मनुष्येषु भवा मानुष्यः

अब ब्रह्मकी उपासनाका [ एक  
 और ] प्रकार बनलाया जाता है—  
 'क्षेम है' इस प्रकार वाणीमें । प्राप्त  
 पदार्थकी रक्षा करनेका नाम 'क्षेम'  
 है । वाणीमें ब्रह्म क्षेमरूपसे स्थित  
 है—इस प्रकार उसकी उपासना  
 करनी चाहिये । 'योगक्षेम' अप्राप्त  
 वस्तुका प्राप्त करना 'योग' कहलाता  
 है । वे योग आर क्षेम यद्यपि  
 बलवान् प्राण और अपानके रहते  
 हुए ही होते हैं, तो भी उनका  
 कारण प्राण एवं अपान ही नहीं  
 है । तो उनका कारण क्या है ?  
 वे ब्रह्मके कारण ही होने हैं । अतः  
 योगक्षेमरूपसे ब्रह्म प्राण और अपान-  
 में स्थित है—इस प्रकार उसकी  
 उपासना करनी चाहिये ।

इसी प्रकार आगेके अन्य पर्यायों-  
 में भी उन-उनके रूपसे ब्रह्मकी ही  
 उपासना करनी चाहिये । कर्म  
 ब्रह्मकी ही प्रेरणासे निष्पन्न होता है,  
 अतः हाथोंमें ब्रह्म कर्मरूपसे स्थित  
 है—इस प्रकार उसकी उपासना  
 करनी चाहिये । चरणोंमें गतिरूपसे  
 और पायुमें विसर्जनरूपसे [ प्रतिष्ठित  
 समझकर उसकी उपासना करे ] ।  
 इस प्रकार यह मानुषी-मनुष्योंमें

समाज्ञाः, आध्यात्मिक्यः समाज्ञा  
ज्ञानानि विज्ञानान्धुपासनानी-  
त्यर्थः ।

अथानन्तरं दैवीदिव्यो देवेषु

देवो समाज्ञा

मयाः समाज्ञा उ-  
च्यन्ते । तृप्तिरिति

वृष्टी । वृष्टेरन्नादिद्वारेण तृप्ति-  
हेतुत्वाद्ब्रह्मैव तृप्त्यात्मना वृष्टौ  
व्यवस्थितमित्युपास्यम् । तथान्येषु  
तेन तेनात्मना ब्रह्मैवोपास्यम् ।  
तथा बलरूपेण विद्युति ॥ २ ॥  
यज्ञोरूपेण पशुषु । ज्योतीरूपेण  
नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतममृतत्व-  
प्राप्तिः पुत्रेण ऋणविमोक्षद्वारेणा-  
नन्दः सुखमित्येतत्सर्वमुपस्थनि-  
मित्तं ब्रह्मैवानेनात्मनोपस्थे प्रति-  
ष्ठितमित्युपास्यम् ।

सर्वं आकाशे प्रतिष्ठितमतो

यत्सर्वमाकाशे तद्ब्रह्मैवेत्युपास्यम् ।

तच्चाकाशं ब्रह्मैव । तस्मात्तत्

रहनेवाली समाज्ञा है, अर्थात् यह  
आध्यात्मिक समाज्ञा—ज्ञान—विज्ञान  
यानी उपासना है—यह इसका  
तात्पर्य है ।

अब इसके पश्चात् दैवी—देव-  
सम्बन्धिनी अर्थात् देवताओंमें होने-  
वाली समाज्ञा कही जाती है । तृप्ति  
इस भावसे वृष्टिमें [ ब्रह्मकी उपासना  
करे ] । अन्नादिके द्वारा वृष्टि-तृप्ति-  
का कारण है । अतः तृप्तिरूपसे  
ब्रह्म ही वृष्टिमें स्थित है—इस प्रकार  
उसकी उपासना करनी चाहिये ।  
इसी प्रकार अन्य पर्यायोंमें भी उन-  
उनके रूपसे ब्रह्मकी ही उपासना  
करनी चाहिये । अर्थात् बलरूपसे  
विद्युतमें ॥ २ ॥ यज्ञरूपसे पशुओंमें,  
ज्योतिरूपसे नक्षत्रोंमें, प्रजाति  
( पुत्रादि प्रजा ) अमृत—अर्थात् पुत्र-  
द्वारा पितृऋणसे मुक्त होनेके द्वारा  
अमृतत्वकी प्राप्ति और आनन्द—सुख  
ये सब उपस्थके निमित्तसे ही  
होनेवाले हैं; अतः इनके रूपसे  
ब्रह्म ही उपस्थमें स्थित है—इस प्रकार  
उसकी उपासना करनी चाहिये ।

सब कुछ आकाशमें ही स्थित  
है । अतः आकाशमें जो कुछ है  
वह सब ब्रह्म ही है—इस प्रकार  
उसकी उपासना करनी चाहिये ।  
तथा वह आकाश भी ब्रह्म ही है ।

सर्वस्य प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठा-  
 गुणोपासनात्प्रतिष्ठावान्भवति ।  
 एवं पूर्वेष्वपि यद्यत्तदधीनं फलं  
 तद्ब्रह्मैव तदुपासनात्तद्ब्रह्मभवतीति  
 द्रष्टव्यम् । श्रुत्यन्तराच्च—“तं  
 यथा यथोपासते तदेव भवति”  
 इति ।

तन्मह इत्युपासीत । महो  
 महत्तु गुणरत्तदुपासीत । महान्  
 भवति । तन्मन इत्युपासीत ।  
 मननं मनः । मानवान्भवति  
 मननमर्थो भवति ॥३॥ तन्म  
 इत्युपासीत । नमनं नमो नमन-  
 गुणरत्तदुपासीत । नम्यन्ते प्रह्वी-  
 भवन्त्यस्मा उपामित्रे कामाः  
 काम्यन्त इति भोग्या विषया  
 इत्यर्थः ।

अत वह सबकी प्रतिष्ठा ( आश्रय )  
 है—इस प्रकार उसकी उपासना करे ।  
 प्रतिष्ठा गुणवान् ब्रह्मकी उपासना  
 करनेमें उपासक प्रतिष्ठावान् होता  
 है । ऐसा ही पूर्व सब पर्यायोंमें  
 समझना चाहिये । जो-जो उसके  
 अधीन फल है वह ब्रह्म ही है ।  
 उसकी उपासनासे पुरुष उसी फलसे  
 युक्त होता है—ऐसा जानना चाहिये ।  
 यही बात “जिस-जिस प्रकार उसकी  
 उपासना करता है वह ( उपासक )  
 वही हो जाता है” इस एक दूसरी  
 श्रुतिसे प्रमाणित होती है ।

वह मह है—इस प्रकार उसकी  
 उपासना करे । मह अर्थात् महत्  
 गुणवाला है—ऐसे भावसे उसकी  
 उपासना करे । इसमें उपासक  
 महान् हो जाता है । वह मन है—  
 इस प्रकार उसकी उपासना करे ।  
 मननका नाम मन है । इससे वह  
 मानवान्—मनमें समर्थ हो जाता है  
 ॥३॥ वह नम है—इस प्रकार उसकी  
 उपासना करे । नमनका नाम 'नमः'  
 है अर्थात् उसे नमन-गुणान् समझ-  
 कर उपासना करे । इससे उस  
 उपासकके प्रति सम्पूर्ण काम—जिनकी  
 कामना की जाय वे भोग्य विषय  
 नत अर्थात् विनम्र हो जाते हैं ।

तद्रहोत्पुपासीत । ब्रह्म परि-  
 वृढतममित्युपासीत । ब्रह्मर्वास्तद्  
 गुणो भवति । तद्रहणः परिमर  
 इत्युपासीत । ब्रह्मणः परिमरः  
 परिम्रियन्तेऽसिन्यश्च देवता  
 विद्युद्दृष्टिश्चन्द्रमा आदि-  
 त्योऽग्निरित्येताः । अतो वायुः  
 परिमरः श्रुत्यन्तरप्रसिद्धेः । स  
 एष एवायं वायुराकाशेनानन्य  
 इत्याकाशो ब्रह्मणः परिमरः  
 तमाकाशं वाय्वात्मानं ब्रह्मणः  
 परिमर इत्युपासीत ।

एनमेवंविदं प्रतिस्पर्धिनी  
 द्विपन्तोऽद्विपन्तोऽपि सपत्ना यतो  
 भवन्त्यतो विशेष्यन्ते द्विपन्तः  
 सपत्ना इति, एनं द्विपन्तः  
 सपत्नास्ते परिम्रियन्ते प्राणाञ्ज-  
 हति । किं च ये चाप्रिया अस्य  
 भ्रातृव्या अद्विपन्तोऽपि ते च  
 परिम्रियन्ते ।

वह ब्रह्म है—इस प्रकार उसकी  
 उपासना करे । ब्रह्म यानी सबसे  
 बड़ा हुआ है—इस प्रकार उपासना  
 करे । इससे वह ब्रह्मवान्—ब्रह्मके-से  
 गुणवाला हो जाता है । वह ब्रह्मका  
 परिमर है—इस प्रकार उसकी  
 उपासना करे । ब्रह्मका परिमर—  
 जिसमें विद्युत्, वृष्टि, चन्द्रमा, आदित्य  
 और अग्नि—ये पाँच देवता मृत्युको  
 प्राप्त होते हैं उसे परिमर कहते हैं;  
 अतः वायु ही परिमर है, जैसे कि  
 [ “वायुर्वाव संवर्गः” इस ] एक  
 अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है । वही  
 यह वायु आकाशसे अभिन्न है, इसलिये  
 आकाश ही ब्रह्मका परिमर है । अतः  
 वायुरूप आकाशकी ‘यह ब्रह्मका  
 परिमर है’ इस भावसे उपासना करे ।

इस प्रकार जाननेवाले इस  
 उपासकके द्वेष करनेवाले प्रतिपक्षी—  
 क्योंकि प्रतिपक्षी द्वेष न करनेवाले  
 भी होते हैं इसलिये यहाँ ‘द्वेष  
 करनेवाले’ यह विशेषण दिया गया  
 है—मर जाते हैं अर्थात् प्राण त्याग  
 देते हैं । तथा इसके जो अप्रिय  
 भ्रातृव्य होते हैं वे, द्वेष करनेवाले  
 न होनेपर भी, मर जाते

‘प्राणो वा अन्नं शरीरमन्ना-  
त्मानोऽन्ना- दम्’ इत्यात्म्याका-  
रित्वम्यापनम् शान्तस्य कार्यम्यै-  
वाचान्नादत्वमुक्तम् ।

उक्तं नाम किं तेन ?

तेनैतन्मिदं भवति—कार्य-  
विषय एव भोज्यभोक्तृत्वकृतः  
संसारो न त्वात्मनीति । आत्मनि  
तु भ्रान्त्योपचर्यते ।

नन्यात्मापि परमात्मनः कार्यं  
वतो युक्तस्तम्य संसार इति ।

न, अमंमाग्नि एव प्रवेश  
श्रुतेः । “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रावि-  
शत्” ( तै० उ० २।६।१ )  
इत्याकाशादिकारणस्य ह्यमंमा-  
ग्नि एव परमात्मनः कार्येऽनु-  
प्रवेशः श्रूयते । तस्मात्कार्यानु-  
प्रविष्टो जीव आत्मा पर एव  
असंसारी । सृष्ट्वानुप्राविशदिति  
समानकर्तृत्वोपपत्तेश्च । मर्ग-

‘प्राण ही अन्न है और शरीर  
अन्नाद है’ यहाँसे लेकर आकाशपर्यन्त  
कार्यवर्गोक्त ही अन्न और अन्नादत्व  
प्रतिपादन किया गया है ।

पूर्व०—कहा गया है—सो इससे  
क्या हुआ ?

सिद्धान्ती—इसमें यह सिद्ध  
होता है कि भोज्य और भोक्ताके  
कारण होनेवाला संसार कार्यवर्गसे  
ही सम्बन्धित है, वह आत्मामें नहीं  
है, आत्मामें तो भ्रान्तिवश उमका  
उपचार किया जाना है ।

पूर्व०—परन्तु आत्मा भी तो  
परमात्माका कार्य है । इसलिये उसे  
संसारकी प्राप्ति होना उचित ही है ।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि प्रवेश-  
श्रुति असंसारीका ही प्रवेश प्रति-  
पादन करती है । “उत्ते रचकर बर  
पीछेवे उसीमें प्रविष्ट हो गया” इस  
श्रुतिद्वारा आकाशादिके कारणरूप  
असंसारी परमात्माका ही कार्यमें  
अनुप्रवेश सुना गया है । अतः  
कार्यमें अनुप्रविष्ट जीवात्मा असंसारी  
परमात्मा ही है । रचकर पीछेले  
प्रविष्ट हो गया” इस वाक्यमें एक  
ही कर्ता होना सिद्ध होता है । यदि



प्रवेशक्रिययोश्चैकश्चेत्कर्ता ततः  
कत्याप्रत्वयो युक्तः ।

प्रविष्टस्य तु भावान्तरापत्ति-  
रिति चेत् ?

न; प्रवेशस्यान्यार्थत्वेन  
अत्याख्यातत्वात् । “अनेन जीवे-  
नात्मना” ( छा० उ० ६ । ३ ।

२ ) इति विशेषश्रुतेर्धर्मान्तरेणा-  
नुप्रवेश इति चेत् ? न; “तच्चमसि”

इति पुनस्तद्भाषोक्तेः । भावा-  
न्तरापन्नस्यैव तदपोद्धार्या संर-

दिति चेत् ? न “तत्सत्यं स  
आत्मा तच्चमसि” ( छा० उ०

६ । ८—१६ ) इति सामानाधि-  
करण्यात् ।

दृष्टं जीवस्य संसारित्वमिति  
चेत् ?

सृष्टि और प्रवेशक्रियाका एक ही  
कर्ता होगा तभी ‘कत्वा’ प्रत्यय होना  
युक्त होगा ।

पूर्व०—प्रवेश कर लेनेपर उसे  
दूसरे भावकी प्राप्ति हां जाती है—  
ऐसा माने तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि प्रवेश-  
का प्रयोजन दूसरा ही है—ऐसा  
कहकर हम इसका पहले ही  
निराकरण कर चुके हैं ।\* यदि  
कहो कि “अनेन जीवेन आत्मना”  
इत्यादि विशेष श्रुति होनेके कारण  
उसका धर्मान्तररूपसे ही प्रवेश  
हं ता है—तो ऐसा कहना ठीक नहीं;  
क्योंकि “बह त् है” इस श्रुतिद्वारा  
पुनः उसकी तद्रूपताका वर्णन किया  
गया है । और यदि कहो कि भावान्तर-  
को प्राप्त हुए ब्रह्मके उस भावका  
निषेध करनेके लिये ही वह केवल  
दृष्टिमात्र कही गयी है तो ऐसी बात  
भी नहीं है; क्योंकि “बह सत्य है,  
बह आत्मा है, बह त् है” इत्यादि  
श्रुतिसे उसका परमात्माके साथ  
सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है ।

पूर्व०—जीवका संसारित्व तो  
स्पष्ट देखा है ।

न उपलब्धुरनुपलभ्यत्वात् ।

संसारधर्मविशिष्ट आत्मोप-  
लभ्यत इति चेत् ।

न, धर्माणां धर्मिणोऽव्यति-  
रेकात्कर्मत्वानुपपत्तेः, उष्णप्र-

काशयोर्दाहप्रकाशयत्वानुपपत्ति-  
वत् । त्रासादिदर्शनाद्दुःखित्वा-

धनुमीयत इति चेत् ? न; त्रासा-  
देर्दुःखस्य चोपलभ्यमानत्वान्नो-

पलब्धधर्मत्वम् ।

कापिलकाणादादितर्कशास्त्र-  
विरोध इति चेत् ?

न, तेषां मूलाभावे वेद-  
विरोधे च भ्रान्तत्वोपपत्तेः ।

श्रुत्युपपत्तिभ्यां च सिद्धमात्म-  
नोऽसंसारित्वमेकत्वाच्च ।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि जो  
( जीव ) सबका द्रष्टा है वह देखा  
नहीं जा सकता ।

पूर्व०—सासारिक धर्मोंसे युक्त  
आत्मा तो उपलब्ध होता ही है ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है;  
क्योंकि धर्म अपने धर्मोंसे अभिन्न  
होते हैं अतः वे उसके कर्म नहीं

हो सकते, जिस प्रकार कि [ सूर्यके  
धर्म ] उष्ण और प्रकाशका दाहत्व

और प्रकाशत्व सम्भव नहीं है ।  
यदि कहो कि भय आदि देखनेसे

आत्माके दुःखित्व आदिका अनुमान  
होता ही है—तो ऐसा कहना भी

ठीक नहीं, क्योंकि भय आदि दुःख  
उपलब्ध होनेवाले होनेके कारण

उपलब्ध करनेवाले [ आत्मा ] के  
धर्म नहीं हो सकते ।

पूर्व०—परन्तु ऐसा माननेसे तो  
कपिल और कणाद आदिके तर्क-

शास्त्रसे विरोध आता है ।  
सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक  
नहीं, क्योंकि उनका कोई आधार  
न होनेसे और वेदसे विरोध होनेसे  
भ्रान्तिमय होना उचित ही है । श्रुति  
और युक्तिसे आत्माका असंसारित्व  
सिद्ध होता है तथा एक होनेके  
कारण भी ऐसा ही जान पड़ता है ।

कथमेकत्वमित्युच्यते-स यश्चार्थं  
पुरुषे यश्चासावादित्ये स  
एक इत्येवमादि पूर्ववत्  
सर्वम् ॥ ४ ॥

उसका एकत्वं कैसे है ? सो सबका  
सब पूर्ववत् 'वह जो कि इस  
पुरुषमें है और जो यह आदित्यमें  
है एक है' इस वाक्यद्वारा  
ब्रतलाया गया है ॥ ४ ॥

आदित्य और देहोपाधिक चेतनकी एकता जाननेवाले

उपासकको मिलनेवाला फल

स य एवंवित् । अस्माल्लोकात्प्रेत्य । एतमन्नमय-  
मात्मानमुपसंक्रम्य । एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य ।  
एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं विज्ञानमयमात्मान-  
मुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य । इमाँ-  
ल्लोकान्कामाञ्ची कामरूप्यनुसंचरन् । एतत्साम गायत्रास्ते ।  
हा ३ बु हा ३ बु हा ३ बु ॥ ५ ॥

वह जो इस प्रकार जाननेवाला है इस लोक ( दृष्ट और अदृष्ट  
विषय-समूह ) से निवृत्त होकर इस अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण कर,  
इस प्राणमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, इस मनोमय आत्माके प्रति  
संक्रमण कर, इस विज्ञानमय आत्माके प्रति संक्रमण कर तथा इस  
आनन्दमय आत्माके प्रति संक्रमण कर इन लोकोंमें कामाञ्ची ( इच्छा-  
नुसार भोग भोगता हुआ ) और कामरूपी होकर ( इच्छानुसार रूप  
धारण कर ) विचरता हुआ यह सामगान करता रहता है—हा ३ बु  
हा ३ बु हा ३ बु ॥ ५ ॥

अन्नमयादिक्रमेणानन्दमयमा-  
त्मानमुपसंक्रम्यैतत्साम गाय-  
न्नास्ते ।

सत्य ज्ञानमित्यस्या ऋचोऽर्थो

मोऽश्नुते व्याख्यातो विस्त-

मवान्कामानिति रेण तद्विषरणभूत-

मीमाम्यने यानन्दवह्नया ।

“सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह

ब्रह्मणा विपश्चिता” ( तै० उ०

२।१।१) इति तस्य फलवचन-

स्यार्थविस्तारो नोक्तः । के ते

किंविषया वा सर्वे कामाः कथं

वा ब्रह्मणा सह समश्नुत इत्येत-

द्वक्तव्यमितीदमिदानीमारभ्यते-

त्र पितापुत्राख्यायिकायां

पूर्वविद्याशेषभूतायां तपो ब्रह्म-

विद्यासाधनमुक्तम् । प्राणादेरा-

काशान्तस्य च कार्यस्यान्नान्ना-

दत्वेन विनियोगश्चोक्तः, ब्रह्म-

विषयोपासनानि च । ये च सर्वे

अन्नमय आदिके क्रमसे आनन्द-  
मय आत्माके प्रति सक्रमण कर वह  
यह सामगान करता रहता है ।

‘सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म’ इस

ऋचाके अर्थकी, इसकी विवरणभूता

ब्रह्मानन्दवह्नीके द्वारा विस्तारपूर्वक

व्याख्या कर दी गयी थी । किन्तु

उसके फलका निरूपण करनेवाले

“वह सर्वज्ञ ब्रह्मस्वरूपसे एक साथ

सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता है”

इस वचनके अर्थका विस्तारपूर्वक

वर्णन नहीं किया गया था । वे

भोग क्या हैं ? उनका किन

विषयोंसे सम्बन्ध है ? और किस

प्रकार वह उन्हें ब्रह्मरूपसे एक

साथ ही प्राप्त कर लेता है ?—यह

सब बतलाना है, अत अब इसीका

विचार आरम्भ किया जाता है—

तहाँ पूर्वोक्त विद्याकी शेषभूत

पितापुत्रसम्बन्धिनी आख्यायिकामें

तप ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिका साधन

बतलाया गया है, तथा आकाशपर्यन्त

प्राणादि कार्यवर्गका अन्न और

अन्नादरूपसे विनियोग एव ब्रह्म-

सम्बन्धिनी उपासनार्थका प्रतिपादन

किया गया है । इसी प्रकार

आकाशादि कार्यभेदसे सम्बन्धित

कामाः प्रतिनियतानेकसाधन-

साध्या आकाशादिकार्यभेद-

विषया एते दर्शिताः । एकत्वे

पुनः कामकामित्वानुपपत्तिः ।

भेदजातस्य सर्वस्यात्मभूतत्वात् ।

तत्र कथं युगपद्ब्रह्मस्वरूपेण

सर्वान्कामानेवंवित्समश्नुत इत्यु-

च्यते—सर्वात्मत्वोपपत्तेः ।

कथं सर्वात्मत्वोपपत्तिरित्याह—

पुरुषादित्यस्यात्मैकत्वविज्ञानेना-

योह्योत्कर्षापकर्षविन्नमयाद्यात्मनो-

ऽविद्याकल्पितान्क्रमेण संक्रम्या-

नन्दमयान्तान्सत्यं ज्ञानमनन्तं

ब्रह्मादित्यादिधर्मकं स्वभाविक-

एवं प्रत्येकके लिये नियत अनेक साधनोंसे सिद्ध होनेवाले जो सम्पूर्ण भोग हैं वे भी दिखला दिये गये हैं । परन्तु यदि आत्माका एकत्व स्वीकार किया जाय तब तो काम और कामित्वका होना ही असम्भव होगा; क्योंकि सम्पूर्ण भेदजात आत्मस्वरूप ही है । ऐसी अवस्थामें इस प्रकार जाननेवाला उपासक ब्रह्मरूपसे किस प्रकार एक ही साथ सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता है ? सो बतलाया जाता है—उसका सर्वात्मभाव सम्भव होनेके कारण ऐसा हो सकता है ।\*

उसका सर्वात्मत्व किस प्रकार सम्भव है ? सो बतलाते हैं—पुरुष और आदित्यमें स्थित आत्माके एकत्वज्ञानसे उनके उत्कर्ष और अपकर्षका निराकरण कर आत्माके अज्ञानसे कल्पना किये हुए अन्नमयसे लेकर आनन्दमयपर्यन्त सम्पूर्ण कोशोंके प्रति संक्रमण कर जो सबका फलस्वरूप है उस अदृश्यादि धर्मवाले स्वभाविक आनन्दस्वरूप

\* तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्मकी अभेदोपासना करते-करते उससे तादात्म्य अनुभव करने लगता है वह सबका अन्तरात्मा ही हो जाता है; इसलिये सबके अन्तरात्मस्वरूपसे वह सम्पूर्ण भोगोंको भोगता है ।

मानन्दमजममृतममयमद्वैतं फ३-

भूतमापन्न इमाँल्लोकान्भूरादीन-

नुसंचरन्निति ध्यग्रहितेन संबन्धः।

कथमनुमचरन् ? कामात्री

कामतोऽन्नमस्येति कामात्री ।

तथा कामतो रूपाण्यस्येति

कामरूपी । अनुसंचरन्सर्वात्मने-

माँल्लोकानात्मत्वेनानुमचरन्—

किम् ? एतत्साम गायत्रास्ते ।

समत्वाद्ब्रह्मैव साम सर्वा-

व्यविद साम- नन्यरूपं गायत्र्य-

गानामिषाय न्दयत्रात्मैकत्वं प्र-

ख्यापयँल्लोकानुग्रहार्थं तद्विज्ञान-

फलं चातीव कृतार्थत्वं गायत्रा-

स्ते तिष्ठति । कथम् ? हा ३ वु !

हा ३ वु ! हा ३ वु ! अहो इत्येतस्मिन्न-

र्थेऽत्यन्तविषयख्यापनार्थम् ॥५॥

अजन्मा, अमृत, अमय, अद्वैत एव सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्मको प्राप्त हो इन भू आदि लोकोंमें सञ्चार करता हुआ—इस प्रकार इन व्यग्रधानयुक्त पदोंसे इस वाक्यका सम्बन्ध है—किस प्रकार सञ्चार करता हुआ ? कामात्री—जिसको इच्छासे ही अन्न प्राप्त हो जाय उसे कामात्री कहते हैं तथा जिसे इच्छासे ही [ इष्ट ] रूपोंकी प्राप्ति हो जाय ऐसा कामरूपी होकर सञ्चार करता हुआ अर्थात् सर्वात्मभावसे इन लोकोंको अपने आत्मरूपमें अनुभव करता हुआ—क्या करता है ? इस सामका गान करता रहता है ।

समरूप होनेके कारण ब्रह्म ही साम है । उस सबसे अभिन्नरूप सामका गान—उच्चारण करता हुआ अर्थात् लोकपर अनुग्रह करनेके लिये आत्माकी एकताको प्रकट करता हुआ आर उसकी उपासनाके फल अत्यन्त कृतार्थत्वा गान करता हुआ स्थित रहता है । किम प्रकार गान करता है—हा ३ वु ! हा ३ वु ! हा ३ वु ! ये तीन शब्द 'अहो' इस अर्थमें अत्यन्त विस्मय प्रकट करनेके लिये हैं ॥ ५ ॥

ब्रह्मवेत्ताद्वारा गाया जानेवाला साम

कः पुनरसौ विस्मयः ? | किन्तु वह विस्मय क्या है ! सो  
इत्युच्यते— | बतलाया जाता है—

अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादो ऽहमन्नादो ऽहमन्नादः । अहंश्लोककृदहंश्लोककृदहंश्लोककृत् । अहमस्मि प्रथमजा ऋता ऽस्य । पूर्वं देवेभ्योऽमृतस्य ना ऽभायि । यो मा ददाति स इदेव मा ऽवाः । अहमन्नमन्नमदन्तमा ऽग्नि । अहं विश्वं भुवनमभ्यभवा ऽम् । सुवर्न ज्योतीः य एवं वेद । इत्युपनिषत् ॥ ६ ॥

मैं अन्न ( भोग्य ) हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ; मैं ही अन्नाद ( भोक्ता ) हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ; मैं ही श्लोककृत् ( अन्न और अन्नादके संवातका कर्ता ) हूँ, मैं ही श्लोककृत् हूँ, मैं ही श्लोककृत् हूँ । मैं ही इस सत्यासत्यरूप जगत्के पहले उत्पन्न हुआ [ हिरण्यगर्भ ] हूँ । मैं ही देवताओंसे पूर्ववर्ती त्रिराट् एवं अमृतत्वका केन्द्रस्वरूप हूँ । जो [ अन्नस्वरूप ] मुझे [ अन्नार्थियोंको ] देता है वह इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किन्तु [ जो मुझे अन्नस्वरूपको दान न करता हुआ स्वयं भोगता है उस ] अन्न भक्षण करनेवालेको मैं अन्नरूपसे भक्षण करता हूँ । मैं इस सम्पूर्ण भुवनका पराभव करता हूँ, हमारी ज्योति सूर्यके समान नित्य प्रकाशस्वरूप है । ऐसी यह उपनिषद् [ ब्रह्म-विद्या ] है । जो इसे इस प्रकार जानता है [ उने पूर्वीक फल प्राप्त होता है ] ॥ ६ ॥

अद्वैत आत्मा निरञ्जनोऽपि निर्मल अद्वैत आत्मा छीनेपर भी  
सन्नहमे गान्धमन्नादश्च । किं चाह- मैं ही अन्न और अन्नद हूँ तथा मैं  
मेव श्लोककृत् । श्लोको नामा- ही श्लोककृत् हूँ । 'श्लोक' अन्न और  
न्नादयोः संघातस्तस्य कर्ता अन्नादके संवातको कहने हैं उसका

चेतनावान् । अन्नस्यैव वा पारार्थस्यान्नादार्थस्य सतोऽनेकात्मकस्य पारार्थ्येन हेतुना संघातकृत् । त्रिरुक्तिर्विस्मयत्प्रख्यापनार्था ।

अहमस्मि भवामि । प्रथमजाः प्रथमजः प्रथमोत्पन्न ऋतस्य सत्यस्य मूर्तामूर्तस्यास्य जगतः । देवेभ्यश्च पूर्वम् । अमृतस्य नाभिरमृतत्वस्य नाभिर्मध्य मत्संस्थममृतत्वं प्राणिनामित्यर्थः ।

यः कश्चिन्मा मामन्नमन्नार्थिभ्यो ददाति प्रयच्छत्यन्नात्मना ब्रवीति स इदित्थमेवमविनष्टं यथाभूतमावा अब्रवीत्यर्थः । यः पुनरन्यो मामदत्त्वार्थिभ्यः काले प्राप्तेऽन्नमत्ति तमन्नमदन्तं भक्षयन्त पुरुषमहमन्नमेव संप्रत्यग्नि भक्षयामि ।

अत्राहैवं तर्हि विभेमि सर्वा-

त्मत्वप्राप्तेर्मोक्षादस्तु संसार एव

चेतनावान् कर्ता हूँ । अथवा पारार्थ्यानी अन्नादके लिये होनेवाले अन्नका जो पारार्थ्यरूप हेतुके कारण ही अनेकात्मक है, मैं संघात करनेवाला हूँ । मूलमें जो तीन बार कहा गया है वह विस्मयच प्रकट करनेके लिये है ।

मैं इस ऋत—सत्य यानी मूर्तामूर्तरूप जगत्का 'प्रथमजा'—प्रथम उत्पन्न होनेवाला ( हिरण्यगर्भ ) हूँ । मैं देवताओंसे पहले होनेवाला और अमृतका नाभि यानी अमरत्वका मध्य ( केन्द्रस्थान ) हूँ, अर्थात् प्राणियोंका अमृतत्व मेरेमें स्थित है ।

जो कोई अन्नरूप मुझे अन्नार्थियोंको दान करता है अर्थात् अन्नात्मभावमे मेरा वर्णन करता है वह इस प्रकार अविनष्ट आर यथार्थ अन्नस्वरूप मेरी रक्षा करता है । किन्तु जो समय उपस्थित होनेपर अन्नार्थियोंको मेरा दान न कर खय ही अन्न भक्षण करता है उस अन्न भक्षण करनेवाले पुरुषको मैं अन्न ही खा जाता हूँ ।

इसपर कोई वादी कहता है—यदि ऐसी बात है तब तो मैं सर्वात्मत्वप्राप्तिरूप मोक्षसे डरता हूँ, इससे तो मुझे संसारहीकी प्राप्ति



यतो मुक्तोऽप्यहमन्नभूत आद्यः  
स्यामन्नस्य ।

एवं मा भैषीः संव्यवहार-  
विषयत्वात्सर्वकामाशनस्य अती-  
त्यायं संव्यवहारविषयमन्ना-  
दादिलक्षणमविद्याकृतं विद्यया  
ब्रह्मत्वमापन्नो विद्वांस्तस्य नैव  
द्वितीयं वस्त्वन्तरमस्ति यतो  
विभेत्त्वतो न भेत्तव्यं मोक्षात् ।

एवं तर्हि किमिदमाह-अह-  
मन्नमहमन्नाद इति ? उच्यते-यो  
ऽयमन्नादादिलक्षणः संव्यव-  
हारः कार्यभूतः स संव्यवहार-  
मात्रमेव न परमार्थवस्तु । स  
एवं भूतोऽपि ब्रह्मनिमित्तो ब्रह्म-  
व्यतिरेकेणासन्निति कृत्वा ब्रह्म-  
विद्याकार्यस्य ब्रह्मभावस्य स्तुत्य-  
र्थमुच्यते । अहमन्नमहमन्नमह-  
मन्नम् । अहमन्नादोऽहमन्नादो-  
ऽहमन्नाद इत्यादि । अतो भया-

हो [ यही अच्छा है ]; क्योंकि  
मुक्त होनेपर मैं भी अन्नभूत होकर  
अनका भक्ष्य होऊँगा ।

सिद्धान्ती—ऐसे मत डरो, क्योंकि  
सब प्रकारके भोगोंको भोगना यह  
तो व्यावहारिक ही है । विद्वान् तो  
ब्रह्मविद्याके द्वारा इस अविद्याकृत  
अन्न-अन्नादरूप व्यावहारिक विषय-  
का उल्लङ्घन कर ब्रह्मत्वको प्राप्त हो  
जाता है । उसके लिये कोई दूसरी  
वस्तु ही नहीं रहती, जिससे कि  
उसे भय हो । इसलिये तुझे मोक्षसे  
नहीं डरना चाहिये ।

यदि ऐसी बात है तो 'मैं अन्न  
हूँ, मैं अन्नाद हूँ' ऐसा क्यों कहा  
है—ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता  
है—यह जो अन्न और अन्नादरूप  
कार्यभूत व्यवहार है वह व्यवहार-  
मात्र ही है—परमार्थवस्तु नहीं है ।  
वह ऐसा होनेपर भी ब्रह्मका कार्य  
होनेके कारण ब्रह्मसे पृथक् असत्  
ही है—इस आशयको लेकर ही  
ब्रह्मविद्याके कार्यभूत ब्रह्मभावकी  
स्तुतिके लिये 'मैं अन्न हूँ, मैं अन्न  
हूँ, मैं अन्न हूँ; मैं अन्नाद हूँ, मैं  
अन्नाद हूँ, मैं अन्नाद हूँ' इत्यादि कहा  
जाता है । इस प्रकार अविद्याका  
नाश ही जानेके कारण ब्रह्मभूत

दिदोषगन्धोऽप्यग्निधानिमित्तो-

ऽग्निद्योच्छेदाद्ब्रह्मभूतस्य नास्तीति ।

अहं त्रिसं समस्तं भुवनं भूतैः  
संभजनीयं ब्रह्मादिभिर्भवन्तीति  
चास्मिन्भूतानीति भुवनमभ्यमगा-  
मभिमगामि परेणेश्वरेण स्वरू-  
पेण । सुवर्नं ज्योतीः सुवरा-  
दित्यो नकार उपमार्थे । आदित्य  
इव सकृद्विमातमसदीर्यं ज्योती-  
ज्योतिः प्रकाश इत्यर्थः ।

इति बल्लीद्वयनिहितोपनिष-  
त्परमात्मज्ञान तापेतां यथोक्ता-  
मुपनिषदं शान्तो दान्त उपरत-  
स्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा भृगु-  
वत्तपो महदास्याय य एवं  
वेद तस्येदं फलं यथोक्तमोक्ष  
इति ॥ ६ ॥

विद्वान्को अविद्याके कारण होनेवाले  
भय आदि दोषका गन्ध भी नहीं  
होता ।

मैं अपने श्रेष्ठ ईश्वररूपसे विष-  
यानी सम्पूर्ण भुवनका पराम-  
( उपसहार ) करता हूँ । जो  
ब्रह्मादि भूतों ( प्राणियों ) के द्वारा  
संभजनीय ( भांगे जाने योग्य ) है  
अथवा जिसमें भूत ( प्राणी ) होते हैं  
उसका नाम भुवन है । 'सुवर्नं  
ज्योती'—'सुव' : आदित्यका नाम  
है और 'न' उपमाके लिये है, अर्थात्  
हमारी ज्योति—हमारा प्रकाश  
आदित्यके समान प्रकाशमान है ।

इस प्रकार इन दो बल्लियोंमें कही  
हुई उपनिषत् परमात्माका ज्ञान है ।  
इस उपर्युक्त उपनिषत्को जो भृगु-  
के समान शान्त, दान्त, उपरत,  
तितिक्षु और समाहित होकर महान्  
तपस्या करके इस प्रकार जानता हूँ  
उसे यह उपर्युक्त मोक्षरूप फल  
प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

इति भृगुयजुष्यां दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजसुचार्यगोविन्दमगवरभृगुपादशिष्यश्रीमच्छङ्कर-  
भगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद्ब्राह्म्ये, भृगुवल्ली समाप्ता ॥

समाप्तं कृष्णयजुर्वेदीया तैत्तिरीयोपनिषत् ॥

ॐ

## शान्तिपाठ

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वय्यमा ।  
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुक्ष्मः ।  
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ।  
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम् । ऋतमवादिषम् ।  
सत्यमवादिषम् । तन्मामावीत् । तद्वक्त्वारमावीत् ।  
आवीन्माम् । आवीद्वक्त्वारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

॥ हरिः ॐ तस्सत् ॥

धीहरि

## मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

मन्त्रप्रतीकानि	वह्नी	अनु०	म०	पृ०
अथाध्यात्मम्	१	३	४	२७
अन्तेवास्युत्तररूपम्	१	३	३	२७
अन्न न निन्द्यात्	३	७	१	२२६
अन्न न परिचञ्चीत	३	८	१	२२८
अन्न बहु कुर्वीत	३	९	१	२२९
अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्	३	२	१	२१८
अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते	२	२	१	१२४
असद्वा इदमग्र आसीत्	२	७	१	१७३
असन्नेव स भवति	२	६	१	१५०
अहं वृक्षस्य रेखिवा	१	१०	१	६५
अहमन्नमहमजम्	३	१०	६	२४५
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्	३	६	१	२२३
ऋत च स्वाध्यायप्रवचने च	१	९	१	६१
ओमिति ब्रह्म	१	८	१	५७
ॐ श नो मित्र	१	१	१	२१
कुर्वाणाचीरमात्मन	१	४	२	३३
तज्जम इत्युपासीत	३	१०	४	२३०
देवपितृकार्याग्याम्	१	११	२	७०
न कञ्चन वसतौ	३	१०	१	२३०
नो इतराणि	१	११	३	७०
पृथिव्यन्तरिक्षम्	१	७	१	५४
प्राण देवा अनु प्राणन्ति	२	३	१	१३०
प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्	३	३	१	२२०
ब्रह्मविदाप्नोति परम्	२	१	१	९७
भीपासाद्वात पवते	२	८	१	१८२
भूर्भुवः सुनरिति	१	५	१	४१

भृगुर्वै वारुणिः	३	१	१	२१४
मनो ब्रह्मेति व्यजानात्	३	४	१	२२१
मह इति ब्रह्म	१	५	३	४२
मह इत्यादित्यः	१	५	२	४१
य एवं वेद	३	१०	२	२३०
यतो वाचो निवर्तन्ते	२	९	१	२०८
यतो धाचो निवर्तन्ते	२	४	१	१३८
यज्ञ इति पशुषु	३	१०	३	२३०
यज्ञो जनेऽसानि स्वाहा	१	४	३	३८
यच्छन्दसामृषभो विश्वरूपः	१	४	१	३३
ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः	१	११	४	७०
वायुः संधानम्	१	३	२	२७
विशानं ब्रह्मेति व्यजानात्	३	५	१	२२२
विशानं यज्ञं तनुते	२	५	१	१४१
वेदमनूच्याचार्यो	१	११	१	७०
शं नो मित्रः	१	१२	१	९३
शीक्षां व्याख्यास्यामः	१	२	१	२५
धोत्रियस्य चाक्रामहतस्य	२	८	३	१८२
” ”	२	८	४	१८३
स एको मनुष्यगन्धर्वाणाम्	२	८	२	१८२
स य एवंवित्	३	१०	५	२४१
स य एषोऽन्तर्हृदये	१	६	१	४८
स यश्चायं पुरुषे	२	८	५	१९१
सह नौ यज्ञः	१	३	१	२७
सुवरित्यादित्ये	१	६	२	४८

